



हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या.....२११.११०६.....
पुस्तक संख्या.....धर्म/सि.....
क्रम संख्या.....२६३१.....

1971-72
एकड़
शुक्रवार

HINDUSTANI ACADEMY

UNITED PROVINCES

LIBRARY

Name of Book... 148... 411... 211...

Author... 211... 111... 211...

Acquisition No. 860 / 249... Date...

Subject... Serial No. 1007...

सिद्ध-साहित्य

संस्कृत-साहित्य-समीक्षा-संस्थान
संस्कृत-विभाग-समाप्त-संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग-समाप्त-संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग-समाप्त-संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग-समाप्त-संस्कृत-विभाग
संस्कृत-विभाग-समाप्त-संस्कृत-विभाग

सिद्ध-साहित्य

वज्रयानी , सिद्ध - साहित्य का
विस्तृत अध्ययन तथा नाथ
और सन्त-परम्परा पर उसके
परवर्ती प्रभाव का
समुचित मूल्यांकन

प्रथम संस्करण

१९५५

प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा
डी० फिल० उपाधि के लिये स्वीकृत प्रबन्ध
का परिवर्द्धित रूप

किताब महल, प्रयाग
द्वारा प्रकाशित
हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग
में मुद्रित

प्रस्तावना

सिद्ध-साहित्य के अध्ययन का इतिहास इस शती के प्रथम दशक से प्रारम्भ होता है जब बंगाल के प्रख्यात विद्वान म० हरप्रसाद शास्त्री को १९०७ ई० में नेपाल यात्रा में कुछ अपभ्रंश दोहे तथा चर्यापद मिले, जिनमें बौद्ध तन्त्रों के अनुसार तान्त्रिक तथा योग-साधना की पद्धतियों का प्रतीकात्मक शैली में वर्णन किया गया था। इन दोहों तथा पदों के रचयिता चौरासी सिद्धों की परम्परा में गिने जाते थे। लगभग १० वर्ष बाद बंगीय-साहित्य-परिषद् से शास्त्री महोदय ने इन्हें संकलित कर ग्रन्थरूप में प्रकाशित किया और उसी समय उसने भारत तथा विदेश के कई विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया।

विद्वानों ने पहले इन दोहों और पदों का अध्ययन भाषा की दृष्टि से किया, क्योंकि शास्त्री महोदय ने इन्हें पुरानी बँगाला का साहित्य माना था। किन्तु बाद में यह भी देखा गया कि बंगाल के कई लोकप्रचलित शैव, वैष्णव और सूफी साहित्य के सम्प्रदायों में इनकी प्रभाव परम्परा शेष है, और उस दृष्टि से मण्डीन्द्रमोहन बसु तथा डा० शशिभूषण दास गुप्त आदि ने इनकी विषय-वस्तु का अध्ययन कर बंगाल के लोक-प्रचलित सम्प्रदायों पर इनके प्रभाव का आकलन किया।

जहाँ तक हिन्दी का प्रश्न है, लगभग दो दशक तक हिन्दी क्षेत्र में इस साहित्य पर ध्यान ही नहीं दिया गया। हिन्दी क्षेत्र में इस साहित्य की ओर ध्यान आकर्षित करने का श्रेय श्री राहुल सांकृत्यायन को है, यद्यपि उन्होंने इस स्थापना के साथ इस साहित्य का परिचय हिन्दी को दिया, कि इनकी भाषा पुरानी मगही है। डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने भी इस मत का समर्थन किया। फलस्वरूप इसके भाषा-पक्ष को अधिक महत्व मिला, यद्यपि उस पर भी हिन्दी में आगे कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया जा सका।

इसके दूसरे पक्ष, जो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं, उपेक्षित ही रहे। वे पक्ष थे, इसके सिद्धान्त-पक्ष और काव्य-पक्ष, जिनका प्रभाव हिन्दी के नाथ तथा सन्त-साहित्य पर पड़ा। डा० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रथम बार 'हिन्दी

साहित्य की भूमिका' तथा 'कबीर' में इसकी ओर थोड़े संकेत किये जिससे इसके अध्ययन की एक सर्वथा नयी किन्तु अत्यन्त उपयोगी दिशा मिली ।

परवर्ती प्रभाव के प्रसंग में सिद्ध-साहित्य का अध्ययन करते समय मेरे सम्मुख कई समस्याएँ थीं । अभी तक सिद्धों के साहित्य का कोई ऐसा अध्ययन नहीं किया गया है जिसमें उनके दार्शनिक सिद्धान्तों और साधना पद्धतियों का सांगोपांग विवेचन किया गया हो । डाक्टर दासगुप्त ने उनके सिद्धान्तों का एक संक्षिप्त परिचय अवश्य दिया था, किन्तु वज्रयानी तान्त्रिक पद्धतियों में सहज-पद्धति का क्या स्थान था, तत्त्व-दर्शन, साधना, उपलब्धि के विषय में सिद्धों के दोहों तथा पदों में कौन से तत्व पूर्वागत बौद्ध परम्परा से लिये गये हैं, कौन से समकालीन तान्त्रिक सम्प्रदायों तथा सिद्धों के साहित्य में समान रूप से उपलब्ध हैं, सिद्धों की साम्प्रदायिक स्थिति क्या थी और उसका क्या रूप उनके दोहों और पदों से उपलब्ध होता है, इन सभी समस्याओं का समाधान ढूँढना शेष था । उपलब्ध सामग्री अत्यन्त अल्प होने पर भी, तथा धर्म-साधनाओं की दृष्टि से वह युग अत्यन्त उलझनों से भरा हुआ होने पर भी प्रस्तुत ग्रन्थ में यथासम्भव बिखरे हुये सूत्र जोड़ कर दोहों तथा पदों में उपलब्ध उनके दार्शनिक सिद्धान्तों की एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ।

इसके लिये उन महायानी बौद्ध सम्प्रदायों का परिचय देना आवश्यक था जो आगे चलकर तान्त्रिक साधनाओं से समन्वित होकर वज्रयान के रूप में विकसित हुए । इसीलिये सिद्धों के सिद्धांत-पत्र का विवेचन करने के पूर्व पृष्ठ-भूमि के रूप में बौद्ध तन्त्रों के विकास पर एक छोटा अध्याय दे दिया गया है । उसमें सिद्धों की समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक साधनाओं का भी संक्षिप्त परिचय है । चर्यापदों तथा दोहों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का विवेचन करते समय हिन्दू योग-साधना पद्धतियों से उसकी तुलना की गई है और यथास्थान साम्य तथा अन्तर दिखाया गया है । परवर्ती प्रभाव की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक था, क्योंकि कई स्थलों पर दोहों तथा चर्यापदों की साधना-पद्धति हिन्दू परम्परा से प्रभावित प्रतीत होती है, किन्तु अन्य स्थलों पर वह बौद्ध-परम्परा, विशेषतया 'योगाचार' परंपरा का पूर्ण अनुसरण करती है ।

अपने इन सिद्धान्तों का प्रचार और अपनी रहस्यानुभूतियों की अभिव्यक्ति इन सिद्धों ने जिस कान्य-शैली में की है, वह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि

उसी काव्यशैली के प्रतीक, उपमान, रूपक, और छन्द तक कई परवर्ती सम्प्रदायों के साहित्य में अपनाए जाते रहे हैं। इनका काव्य निस्संदेह लौकिक काव्य नहीं था, अतः धार्मिक काव्य के सम्बन्ध में जो भी कसौटियाँ या धारणाएँ उस समय प्रचलित थीं, उनकी ओर संकेत कर दिया गया है। शैली-पक्ष का विवेचन करते समय प्रतीकों तथा उपमानों के उद्भव और विकास पर भी प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है। इन अध्यायों में बिल्कुल नई और अपरिचित दिशाओं में चलना पड़ा है।

नाथों और सन्तों के हिन्दी साहित्य पर इन सिद्धों का अधिकांश प्रभाव प्रत्यक्ष न होकर परम्परा रूप में आया है, अतः सिद्धों के बाद उन शैव तथा वैष्णव सम्प्रदायों के विकास का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है जिनमें ये वज्रयानी प्रभाव चले आ रहे थे। उन सम्प्रदायों में ये प्रभाव किस रूप में शेष थे और हिन्दी क्षेत्र के सन्त उनके सम्पर्क में कब और कैसे आये और कहाँ तक प्रभावित हुए, यह अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है किन्तु ग्रन्थ की सीमाएँ देखते हुए उसके विस्तार में न जाकर उसके संक्षिप्त परिचय से सन्तोष करना पड़ा है।

प्रस्तुत ग्रन्थ को ३ खंडों में विभाजित किया जा सकता है, १. परिचय तथा पृष्ठभूमि, जिसके अन्तर्गत प्रथम दो अध्याय आते हैं, २. समीक्षा, जिसके अन्तर्गत तीसरा तथा चौथा अध्याय रखा जा सकता है, ३. परवर्ती प्रभाव, जिसमें पाँचवाँ अध्याय आता है। प्रथम खंड में सामाजिक पृष्ठभूमि का कुछ विस्तार से विवेचन किया गया है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि सिद्धों से लेकर सन्तों तक लोकभाषा की काव्य-परम्परा को एक विशेष सामाजिक वर्ग का प्रश्न मिलता रहा है जिसके इतिहास के साथ इस साहित्य के विकास का घनिष्ठ संबंध है। चूँकि इस परम्परा के प्रारंभिक सूत्र सिद्धों के समय से ही मिलते हैं अतः समकालीन समाज-पद्धति और उसमें इन जातियों का स्थान समझ लेना अत्यन्त आवश्यक था। वैसे अपभ्रंश काल में भारत के सामाजिक इतिहास में जितनी उथल पुथल हुई है और उसकी जितनी बिखरी हुई और कभी कभी विरोधपूर्ण झलक उपलब्ध होती है उससे किसी सुनिश्चित परिणाम पर पहुँच सकना कठिन है, किन्तु पूर्वी भारत के इतिहास में कई तथ्य ऐसे मिलते हैं जिनको आधार बनाकर सिद्ध-साहित्य के सामाजिक मूल्यार्कन की दिशा में कम से कम प्राथमिक प्रयास तो किया ही जा सकता है।

जितने क्षीण सूत्र इस दिशा में उपलब्ध थे, जितने सीमित साधन मेरे पास थे और जितना बड़ा यह कार्य था, उसे देखते हुए यदि मेरे निर्देशक गुरुवर डा० धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा, प्रोत्साहन, सहायता और निर्देशन मुझे बराबर न मिलते रहते तो इस कार्य का पूरा हो पाना असम्भव था। उनके अतिरिक्त भी पं० विद्युशेखर शास्त्री, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पं० परशुराम चतुर्वेदी, पं० गोपीनाथ कविराज तथा डा० प्रबोधचन्द्र बागची का मैं विशेष आभारी हूँ, जिनके सम्मुख मैंने अपनी कठिनाइयाँ रखीं और जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर उनके समाधानों की ओर संकेत किया। बंगीय-साहित्य-परिषद् के अधिकारियों तथा “शनिवारेर चीठी” के संपादक श्री सजनीकान्तदास ने मेरी बहुत सहायता की है। मेरे कलकत्ता प्रवास में भाई शिवनारायण शर्मा और श्री बजरंगलाल लोहिया ने पुरानी पुस्तकें खोजने में जो सहायता की है, तथा पुस्तक की पाण्डु-लिपि प्रस्तुत करने तथा उसके मुद्रण में सर्वश्री रामस्वरूप चतुर्वेदी, रूप-नारायण शास्त्री, भोलानाथ तिवारी तथा बंधुवर नर्मदेश्वर चतुर्वेदी ने जितनी चिन्ता और श्रम किया है, वह अविस्मरणीय है।

यह विषय अत्यन्त जटिल है और अभी इस दिशा में काम करने की बहुत गुंजायश है। जो विद्वान सिद्ध-साहित्य के अध्ययन को आगे बढ़ायेंगे, उनके लिये यदि यह ग्रन्थ एक समुचित भूमिका प्रस्तुत कर सका और अधिकाधिक विद्वानों को इस दिशा में कार्य करने को प्रेरित कर सका तो मैं अपना श्रम सार्थक समझूंगा।

हिन्दी विभाग
विश्वविद्यालय
प्रयाग।

धर्मवीर भारती

श्रद्धेय डॉ० धीरेन्द्र वर्मा को
सादर, साभार

योजना



खण्ड १

परिचय तथा पृष्ठभूमि

प्रथम अध्याय : विषय-प्रवेश

क-आधार-सामग्री

ख-दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम तथा जीवन-वृत्त

ग-साधना-केन्द्र तथा राज्याश्रय

घ-सामाजिक पृष्ठभूमि

द्वितीय अध्याय : दार्शनिक तथा साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि

महायान का विकास तथा उसकी वज्रयान में परिणति

क-महायान का विकास

ख-समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म साधनाएं

ग-बौद्ध धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास

खण्ड २

समीक्षा

तृतीय अध्याय : सिद्ध-साहित्य का सिद्धान्त-पक्ष

क-तत्त्व-चिन्तन

ख-साधना-पद्धति (१)

ग-साधना-पद्धति (२)

घ-उपलब्धि

चतुर्थ अध्याय : सिद्ध-साहित्य का काव्य-पक्ष

क-भाव

ख-शैली

ग-भाषा और छन्द

खण्ड ३

परवर्ती प्रभाव

पंचम अध्याय : परवर्ती प्रभाव-परम्परा

क-सिद्धों की साम्प्रदायिक परिस्थिति त

ख-परवर्ती साम्प्रदायिक विकास

ग-वज्रयानी पारिभाषिक शब्दों की परम्परा

घ-परवर्ती सम्प्रदायों की साधना पद्धति में

वज्रयानी शब्दावली और प्रवृत्तियाँ

ङ-भाव, भाषा और छन्द

विस्तृत-सूची

प्रथम अध्याय : विषय प्रवेश

क. आधार-सामग्री—पृ० १६ । दोहाकोष पृ० १६ । चर्यापद पृ० २४ ।
ख. दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का कालक्रम और जीवन-वृत्त—पृ० २८ । साम्प्र-
दायिक सूचियाँ पृ० २६ । विभिन्न मतों का परीक्षण पृ० ३७ । आदिसिद्ध कौन
था, पृ० ४५ । जीवन-वृत्त पृ० ४८ । ग. साधना-केन्द्र तथा राज्याश्रय—पृ०
६१ । सिद्ध-पीठ पृ० ६१ । राज्याश्रय पृ० ६६ । घ. सामाजिक पृष्ठभूमि—पृ०
७५ । बौद्ध धर्म और लोकमत पृ० ७८ । भारतीय समाज-गठन की निजी विशेष-
ता पृ० ८४ । तत्कालीन सामाजिक अवस्था पृ० ८६ । लोकमत की अभिव्यक्ति
के रूप पृ० ९४ ।

द्वितीय अध्याय : वज्रयान की परम्परा

क. महायान का विकास पृ० ९६ । विकास-क्रम पृ० १०२ । महायान
का दर्शन-पक्ष पृ० १०६ । शून्यवाद पृ० १०६ । विज्ञानवाद पृ० १०८ । महायान
का धर्म-पक्ष, पारमितानय-मन्त्रनय पृ० १११ । ख. समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक
धर्म साधनाएँ पृ० ११३ । तन्त्र का उद्गम पृ० ११६ । पांचरात्र पृ० १२० ।
१३

पाशुपत-मत पृ० १२२ । काश्मीरी शैवमत पृ० १२३ । वीरशैव मत, कालमुख,
 कापालिक पृ० १२४-१२५ । रतेश्वर सम्प्रदाय पृ० १२७ । शाक्त सम्प्रदाय
 पृ० १२८ । जैन-सम्प्रदाय पृ० १३० । तन्त्रों की सामान्य प्रवृत्तियाँ पृ० १३२ ।
 ग. बौद्ध धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास—पृ०
 १३४ । योगाचार और तन्त्र पृ० १३७ । माध्यमिक सम्प्रदाय और तन्त्र
 पृ० १३८ । वज्र की कल्पना और वज्रयान का नामकरण पृ० १४१ । वज्रयान
 की रूरेखा पृ० १४३ । सहजयान पृ० १४८ । कालचक्रयान पृ० १५४ ।

तृतीय अध्याय : सिद्धान्त-पक्ष

क. तत्त्व-चिन्तन पृ० १५६ । पंच महाभूत पृ० १६१ । चित्त, मन,
 विज्ञान पृ० १६५ । निर्वाण पृ० १७० । शून्य पृ० १७३ । त्रिविध शून्य पृ०
 १७४ । सहज और उसका विस्तार पृ० १७८ । प्रज्ञोपाय : मैथुन कल्पना का
 विकास पृ० १८२ । युगनद्ध पृ० १८६ । ख. साधना-पद्धति (१) पृ० १८६ ।
 बोधिचित्त-समुत्पाद पृ० १९० । चित्त-विशोधन पृ० १९१ । अमनसिकार पृ०
 १९३ । राग, महाराग पृ० १९४ । गुरु पृ० १९५ । बाह्य अनुष्ठान पृ० १९८ ।
 देह का महत्व पृ० २०४ । ग. साधना-पद्धति (२) चित्तगत-महाभूत पृ० २०६ ।
 पूर्व-परम्परा पृ० २०७ । हठयोग पृ० २१० । मुद्रा-मैथुन पृ० २१६ । समाधि
 पृ० २२५ । घ. उपलब्धि पृ० २२६ । सिद्धियाँ पृ० २२६ । अनुत्तर सिद्धि
 पृ० २३० । महासुख पृ० २३१ ।

चतुर्थ अध्याय : काव्य-पक्ष

क. भाव-पक्ष-पृ० २३७ । अन्त्र और काव्यशास्त्र पृ० २३८ । महाराग पृ० २४२ । सहजरस पृ० २४५ । नायक-नायकादि पृ० २४६ । उद्दीपन विभाव पृ० २५२ । नीतिपक्ष पृ० २५६ । बौद्ध और जैन दोहे पृ० २६३ । ख. शैली-पक्ष पृ० २६८ । संधा भाषा पृ० २६८ । कुछ प्रतीक पृ० २०१ । प्रतीकों का उद्गम पृ० २७७ । प्रतीकों का विकास पृ० २८२ । ग. भाषा और छन्द—पृ० २८६ । विभिन्न भाषाशैलियाँ पृ० २८७ । दोहों की भाषा पृ० २९० । चर्यापदों की भाषा पृ० २९१ । दोहाकोष के छन्द पृ० २९३ । चर्यापदों के छन्द पृ० २९७ । पदों के राग पृ० २९८ ।

पंचम अध्याय : परवर्ती प्रभाव

क. सिद्धों की साम्प्रदायिक स्थिति पृ० ३०३ । बौद्धेतर सम्प्रदायों का खण्डन पृ० ३०४ । तिब्बती धर्म-साधना और सिद्ध पृ० ३०७ । क्या इनमें कई सम्प्रदाय थे ? पृ० ३०६ । वज्रयान और शैवमत पृ० ३१२ । चर्यापदों में कापालिक साधना, पृ० ३१४ । प्रारंभिक तथा परवर्ती काल पृ० ३१७ । अद्वय-वज्र की महत्वपूर्ण स्थिति पृ० ३१८ । ख. परवर्ती सम्प्रदायों का विकास पृ० ३२२ । नाथ-सम्प्रदाय, पृ० ३२२ । संत परम्परा पृ० ३२६ । अन्य सम्प्रदाय पृ० ३२८ । धर्म सम्प्रदाय पृ० ३२६ । इन सम्प्रदायों का लोकभाषा-साहित्य पृ० ३३३ । ग. वज्रयानी शब्दों की परम्परा पृ० ३३६ । शून्य, पृ० ३३६ । अबौद्ध १५

परन्तरात्रों में शून्य पृ० ३३६ । नाथ-साहित्य में शून्य पृ० ३३७ । संत-साहित्य में शून्य, पृ० ३४० । शून्यमण्डल पृ० ३४५ । शून्यों के भेद, संख्या तथा रंग पृ० ३५१ । शून्य का तिरस्कार पृ० ३५५ । सहजशून्य पृ० ३५६ । वज्र-पृ० ३५६ । खसम पृ० ३६२ । सहज पृ० ३६८ । घ. साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ तथा शब्दावली—पृ० ३८६ । गुण पृ० ३८६ । देहस्थ सिद्धपीठ पृ० ३८८ । देह का महत्व पृ० ३८९ । काया में प्रज्ञा-उपाय पृ० ३९३ । मानवदेह में हिंदू देवता पृ० ३९४ । चक्र तथा नाड़ियाँ पृ० ३९५ । पंचतत्व-धारणा पृ० ३९६ । चण्डाग्नि पृ० ४०१ । वज्रजप या सहजजप पृ० ४०३ । सुरति पृ० ४०६ । उलटी साधना पृ० ४१३ । गंगा-यमुना-संगम पृ० ४१४ । चन्द्र-सूर्य संगम पृ० ४१६ । मुद्रा के अर्थ पृ० ४२० । उपलब्धि, निर्वाण पृ० ४३१ । आनन्द या सुख पृ० ४३४ । रस-सिद्धि पृ० ४३६ । अष्ट महासिद्धि पृ० ४४० । छ. भाव, शैली, भाषा, और छन्द पृ० ४४१ । भाव पक्ष ४४२ । संघाभाषा या पूर्वी बोली पृ० ४४७ । उलटनांती पृ० ४६६ । भाषा पृ० ४६७ । छंद पृ० ४७० । पद-पृ० ४७२ ।

उपसंहार पृ० ४७५

टिप्पणियाँ पृ० ४७६

सहायक ग्रन्थ-सूची पृ० ५२७

नामानुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

विषय प्रवेश



क आधार-सामग्री

‘सिद्ध-साहित्य’ से हमारा तात्पर्य वज्रयानी परम्परा के उन सिद्धाचार्यों के साहित्य से है जो अपभ्रंश दोहों तथा चर्यापदों के रूप में उपलब्ध है और जिसमें बौद्ध तान्त्रिक सिद्धान्तों को मान्यता दी गई है। यद्यपि उन्हीं के सम-कालीन शैव नाथयोगियों को भी सिद्ध कहा जाता था किन्तु कतिपय कारणों से हिन्दी तथा अन्य कई प्रांतीय भाषाओं में शैव योगियों के लिये ‘नाथ’ तथा बौद्ध तांत्रिकों के लिए ‘सिद्ध’ शब्द प्रचलित हो गया। उसी प्रसंग में ‘सिद्ध-साहित्य’ बौद्ध सिद्धाचार्यों के साहित्य का वाचक हो गया है। प्रस्तुत प्रसंग में भी ‘सिद्ध-साहित्य’ से वही तात्पर्य अभीष्ट है।

सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दो रूपों में उपलब्ध हैं, दोहाकोष तथा चर्यापद। दोहाकोष दोहों से युक्त चतुष्पदियों की कड़वक शैली में मिलते हैं। कुछ दोहे टीकाओं में उद्धृत हैं और कुछ दोहागीतियाँ बौद्ध तन्त्रों तथा साधनाओं में मिली हैं। चर्यापद बौद्ध तान्त्रिक चर्या के समय गाये जाने वाले पद हैं जो विभिन्न सिद्धाचार्यों द्वारा लिखे गये हैं किन्तु एक साथ संग्रहीत कर दिये गये हैं।

दोहाकोष

विभिन्न सिद्धों के कई दोहाकोष उपलब्ध हैं जिनमें से कुछ पूर्ण हैं, कुछ खंडित। उनका विवरण इस प्रकार है :

अ—काण्हुपा का दोहाकोष

१. इसकी एक पांडुलिपि सर्वप्रथम म० हरप्रसाद शास्त्री को नैपाल में मिली थी जिसका प्रतिलिपि काल १०२७ नैपाली सम्वत् (१९०७ ई०) था। इसके

साथ 'मेखला' नाम की एक संस्कृत टीका भी मिलती है, और अनुमान किया जाता है कि यह काण्हा की मेखला शिष्या द्वारा प्रणीत है। शास्त्री महोदय का कहना है कि इसकी पांडुलिपि जापान के श्री एकइ कावागुची के पास सुरक्षित है किन्तु श्री सिल्विया लेवी द्वारा बहूत प्रयत्न करने पर भी उसका पता नहीं लग सका। श्री शास्त्री महोदय द्वारा 'वौद्ध गान ओ दोहा' में प्रकाशित पाठ को तंजूर में सुरक्षित रूपान्तर के आधार पर संशोधित करने का प्रयास डा० शाहिदुल्ला ने "ल शां मिस्तीक्स" में किया है।

२. काण्हा के दोहाकोष का एक पाठान्तर 'श्री गुह्येन्द्र तिलक तन्त्र' के प्रबोधन पटल में भी मिलता है जिसकी पांडुलिपि विबलियाथीक नेशनल, पेरिस में (संस्कृत संख्या ४७) सुरक्षित है। इसके साथ एक दूसरी संस्कृत टीका उपलब्ध है। डा० प्रबोधचन्द्र बागची ने कलकत्ता-संस्कृत-सीरीज से प्रकाशित "दोहाकोष" में 'गुह्येन्द्र तिलक तन्त्र' के पाठान्तरों का उल्लेख किया है और उसके आधार पर डा० शाहिदुल्ला और शास्त्री महोदय द्वारा प्रकाशित पाठों में कई नये संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, किन्तु उनके 'दोहाकोष' में मेखला टीका ही प्रकाशित हुई है। डा० दासगुप्त ने 'इन्द्रोडकशन टु तान्त्रिक बुद्धिज्म' में 'श्री गुह्येन्द्र तिलक तन्त्र' में उपलब्ध टीका की विशेषताओं का उल्लेख किया है।

काण्हा के इस दोहाकोष में ३२ छन्द मिलते हैं जिनमें से २७ दोहे हैं और केवल ५ समचतुष्पदियाँ।

आ—तिलोपा का दोहाकोष

नेपाल के राजगुरु हेमराज शर्मा के व्यक्तिगत संग्रह में डा० बागची को एक पांडुलिपि मिली है जिसमें सरहपा के एक दोहाकोष के साथ तिलोपा का एक दोहाकोष उपलब्ध हुआ है। इस पांडुलिपि के प्रतिलिपि-काल आदि के विषय में अन्य कोई भी संकेत नहीं है, किन्तु डा० बागची इसे १३वीं शती का बताते हैं। इसके साथ 'साराथ-पंजिका' नामक एक संस्कृत टीका भी मिलती है। बागची ने "दोहाकोष" में इसके मूल अपभ्रंश अंश के तंजूर (नार्थंग संस्करण, खंड ४६) में उपलब्ध तिब्बती रूपान्तर की सहायता से संशोधित पाठ देने का प्रयास किया है और संस्कृत टीका भी प्रकाशित की है। ज० डि० ले० (कलकत्ता) में

आधार-सामग्री

प्रकाशित 'दोहाकोष' में डा० बागची ने तिब्बती रूपान्तर भी प्रकाशित किया है और टीका के आधार पर दोहों का मर्मार्थ भी दिया है।

इ—सरहपा का दोहाकोष (१)

१. सरहपा का ११२ छन्दों का एक दोहाकोष शास्त्री महोदय ने 'बौद्ध गान ओ दोहा' में प्रकाशित किया था जिसके साथ अद्वयवज्र की 'सहजाम्नाय पंजिका' नामक संस्कृत टीका भी है। पुष्पिका से ज्ञात होता है कि यह स्थिरमति नाम के पंडित के लिये उदयभद्र नामक लेखक ने लिपिबद्ध की है। किन्तु अन्य कोई संकेत नहीं मिलता। डा० शाहिदुल्ला ने शास्त्री द्वारा प्रकाशित दोहाकोष के पाठ में तिब्बती रूपान्तर के आधार कई महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं।

२. दूसरी पांडुलिपि तिलोपा के दोहाकोष की पांडुलिपि के साथ राजगुरु हेमचन्द्र शर्मा के संग्रह में सुरक्षित है जिसका प्रतिलिपि-काल डा० बागची १३ वीं शती मानते हैं। अद्वयवज्र की संस्कृत टीका भी इसके साथ है किन्तु ११२ वें दोहे के उपरान्त जितना संस्कृत अंश शास्त्री महोदय द्वारा प्रकाशित टीका में है, वह इस पांडुलिपि में नहीं मिलता।

३. सरहपा के दोहाकोष की एक तीसरी पांडुलिपि दरबार लाइब्रेरी, नेपाल में डा० प्रबोधचन्द्र बागची को मिली है जिसका प्रतिलिपि-काल वे २२१ नेपाली सम्वत् (११०१ ई०) बताते हैं। इस पांडुलिपि में शास्त्री महोदय द्वारा प्रकाशित दोहाकोष के एक बड़े अंश के अतिरिक्त सरहपा के दो नये दोहाकोषों के अंश मिलते हैं। इनमें से एक की पुष्पिका से ज्ञात होता है कि परमोपासक रामवर्मा के लिये स्थविर पथमगुप्त ने उसकी प्रतिलिपि की है जो नेपाली सम्वत् २२१ की श्रावण शुक्ल पूर्णमासी को समाप्त हुई है। यह पांडुलिपि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है और बागची ने अपने संस्करण में इसी को आधार बनाया है।

ई—सरहपा का खंडित दोहाकोष (प्रथम)

दरबार लाइब्रेरी की पांडुलिपि में ही लगभग २० दोहों का एक लघु दोहाकोष भी मिला है जिसके प्रथम तथा अन्तिम दोनों ही दोहे खंडित हैं अतः यह दोहाकोष पूर्ण है या किसी बड़े दोहाकोष का अंश है यह नहीं ज्ञात होता। डा० बागची का कथन है कि तिब्बती अनुवादों में सुरक्षित सरहपा की किसी भी

कृति में ये दोहे नहीं मिलते किन्तु ३ तथा १० वें दोहे में (संख्या-क्रम डा० बागची ने दिया है) सरहपा ने अपना नाम दिया है 'सरह भण्ड अत्तत्थ विसार' या 'भण्ड सरह एवि विसमी रन्वा', जिससे इनके सरह कृत होने में सन्देह नहीं होता क्योंकि यह पांडुलिपि सबसे प्राचीन (११०१ ई०) है। तिब्बती रूपा-न्तर के अभाव में भी डा० बागची ने कलकत्ता संस्कृत सीरीज से प्रकाशित दोहा-कोष में इसकी संस्कृत छाया तथा कलकत्ता युनिवर्सिटी से, प्रकाशित दोहाकोष में अंग्रेजी में व्याख्या देने का प्रयास किया है किन्तु अधिक सफलता नहीं मिल पाई है।

उ—सरहपा का खंडित दोहाकोष (द्वितीय)

इसी के उपरान्त १२ दोहे उसी पांडुलिपि में उपलब्ध हैं जिनकी पुष्पिका इस प्रकार है 'समन्तो जहालद्धो दोहाकोसो एसो संगहिओ परत्थकामेण पंडिओ सिरि दिवाओर चन्देणेति। संवत् २२१ श्रावणशुक्लपूर्णा मास्याम्। श्री नोग्बलके परमोपासक श्रीरामवर्मणः पुस्तकोऽयं। यथाहृष्टम् तथा शाक्यभिक्षु स्थविर पथमगुप्तेन लिखितव्यम्।' श्री दे का अनुमान है कि ये दिवाकरचन्द्र वे ही हैं जिन्हें तिब्बती अनुश्रुतियों में अद्रयवज्र (सरहपा के टीकाकार) का शिष्य बताया गया है जो विक्रमशिला से दीपङ्कर द्वारा निर्वासित किये गये थे और जिन्होंने तिब्बती में ५ बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया है।^१ इस दोहाकोष का प्रथम दोहा अपूर्ण है किन्तु अन्तिम दोहे में सरहपा ने दोहों की संख्या ३० बताई है :

सरहपा पात्र किञ्च दोह तिउसो संघहिओ एत्थ ।^२

यदि यह लिपिकार की कोई भूल नहीं है तो यह मानना होगा कि ये १२ दोहे केवल उस दोहाकोष के अंश मात्र हैं जिसके १८ दोहे अप्राप्य हैं।

ऊ—सरहपा के स्फुट दोहे

१. वैडेल द्वारा सम्पादित सुभाषित संग्रह में सरहपा के ४ दोहे तथा ४ समचतुष्पदियां और दो मुक्तक (दो दो पदों के) मिलते हैं।^३ इनमें से कुछ का पाठ संशोधन करने का प्रयास डा० बागची ने किया है।^४

२. क्रियासमुच्चय में सरहपा के खंडित दोहाकोष (द्वितीय) का एक दोहा (संख्या ६) कुछ परिवर्तित रूप में उद्धृत किया गया है और चर्यापदों की मुनि-दत्त प्रणीत टीका में भी इस दोहे का एक अंश उद्धृत किया गया है।

आधार-सामग्री

३. सरहपा के दो पूरे दोहे मुनिदत्त की टीका में और उद्धृत किये गये हैं (पद २० तथा पद ४४ की टीका)।^{१६} इसके अतिरिक्त ६ स्थलों पर सरहपा के दोहों के पहले कुछ शब्दों को उद्धृत कर उनका उल्लेख किया गया है किन्तु वे प्राप्य नहीं हैं।^{१७}

ए—अन्य

१. डा० विनयतोष भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित वज्रयानी देवताओं की साधनाओं में कई अपभ्रंश मुक्तक मिलते हैं जिनके लेखकों का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार के ४ छन्द प्राप्य हैं। शुक्ल कुरुकुल्ला साधन (संख्या १८०), शबर-पाद कृत शुक्ल कुरुकुल्ला साधन (संख्या १८५), महामाया साधन (सं० २३६, २४०) तथा कुरुकुल्ला साधन (१८३) में संस्कृत मूल में इन अपभ्रंश पद्यांशों को उद्धृत किया गया है। इनमें से अन्तिम छन्द हेवज्रतन्त्र में भी उद्धृत है, जिसे बागची ने हेवज्रतन्त्र की अपनी पांडुलिपि के आधार पर संशोधित कर 'दोहाकोष' में प्रकाशित किया है।

२. हेवज्रतन्त्र में से, प्रो० टुची की, अपनी तथा नेपाल दरबार लाइब्रेरी पांडुलिपियों के आधार पर संशोधित कर दो अन्य दोहे बागची ने दोहाकोष में प्रकाशित किये हैं।^{१८}

३. बहिःशास्त्र नामक किसी अप्राप्य ग्रंथ से मुनिदत्त ने १०वें चर्यापद की टीका में एक दोहा उद्धृत किया है। शास्त्री द्वारा प्रकाशित पाठ में कुछ संशोधन डा० बागची ने प्रस्तावित किये हैं जो तर्कसम्मत प्रतीत होते हैं।^{१९} इसी प्रकार मुनिदत्त की टीका में काणहपा का एक दोहा ^{१०} (दवीं चर्या की टीका) तथा मीननाथ की कुछ पंक्तियाँ भी उद्धृत की गई हैं। मीननाथ की पंक्तियों के उद्धरण में यह कहा गया है कि ये पंक्तियाँ परदर्शन नामक कृति से उद्धृत हैं (२१वें पद की टीका)^{११}।

४. डा० मेरियो कारेली द्वारा सम्पादित आचार्य नडपाद (सिद्ध नारोपा) की सेकोद्देश टीका में १० नये अपभ्रंश छन्द उद्धृत किये गये हैं। सरहपा का एक छन्द दोहाकोष में से उद्धृत है। उसके अतिरिक्त एक काणहपा का छन्द, एक सुसुकुपा का छन्द, ४ शान्तिपा के छन्द और ४ अन्य अपभ्रंश छन्द उद्धृत हैं जिनके लेखकों का नाम नहीं दिया है।^{१२} डा० सुकुमार सेन ने उनके पाठ में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये हैं।^{१३}

ऐ—दोहागीति

१. डा० विनयतोष भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित साधनमाला के बुद्ध कपाल साधन (सं० २५४) में चार योगिनियों द्वारा सम्पन्न की जाने वाली गुह्य-साधना में ४ दोहों की एक अपभ्रंश दोहागीति मिलती है जिसके गाने का विधान है। डा० बागची तथा डा० सुकुमार सेन ने “दोहाकोष” तथा “ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स” में साधन-माला में प्रकाशित पाठ में संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

२. इसी प्रकार हेवज्रतन्त्र की जो पांडुलिपि डा० बागची के पास है, उसमें से उन्होंने दो अन्य दोहागीतियाँ “दोहाकोष” में प्रकाशित की हैं, जिनमें से प्रथम चार दोहों की गीति है और द्वितीय में ४ दोहों के उपरांत एक अतिरिक्त पंक्ति है और क्रियासमुच्चय में भी उद्धृत की गई है।^{१४}

३. डा० बागची के पास क्रियासमुच्चय की जो पांडुलिपि है उसमें से उन्होंने ५ दोहों की एक महासमयगीतिका प्रकाशित की है। इसका तीसरा दोहा कुस्कुल्ला साधन (सं० १८३) में उद्धृत है और ५वें दोहे की प्रथम पंक्ति मुनि-दत्त की टीका (४६वें पद) में उद्धृत की गई है। यह महासमयगीतिका ५ ध्यानी बुद्धों की भार्याओं के आह्वान में गाई जाती थी।

डा० सुकुमार सेन इन दोहागीतियों को वज्रगीति कहते हैं और उनका अनुमान है कि ये अत्यन्त प्राचीन हैं क्योंकि तान्त्रिक साधनाओं में बहुत प्राचीन काल से ये गाई जाती रही हैं। ये अपौरुषेय मानी जाती थीं।^{१५}

चर्यापद

(अ) सन् १९०७ में म० हरप्रसाद शास्त्री को नैपाल में सिद्धों के ५० पदों का एक संग्रह मिला जिसकी प्रतिलिपि कराकर उन्होंने लगभग १० वर्ष बाद बङ्गीय साहित्य परिषद् से ‘बौद्ध गान ओ दोहा’ प्रकाशित कराया जिसमें चर्यापदों के अतिरिक्त सहजाम्नाय पञ्जिका तथा काणहपा का दोहाकोष (मेखला टीका सहित) भी संग्रहीत थे। शास्त्री महोदय का कहना है कि वह पांडुलिपि १२वीं शती की थी किन्तु राखालदास बनर्जी ने ‘श्रीकृष्ण सङ्कीर्तन’ नामक प्राचीन बँगला के एक ग्रन्थ का सम्पादन करते समय भूमिका में शास्त्री महोदय द्वारा प्रकाशित चर्यापदों की भाषा का परीक्षण कर यह मत स्थिर किया कि इन पदों का प्रस्तुत रूप १४वीं शती से पूर्व का नहीं हो सकता। अतः शास्त्री महोदय ने जिस पांडुलिपि को

आधार-सामग्री

अपने संस्करण का आधार बनाया था वह अधिक से अधिक १४वीं शती की होगी। अत्र वह पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है।

किन्तु चर्यापदों के पाठ निर्धारण के सम्बन्ध में विद्वानों ने यथेष्ट कार्य किया है। उन्होंने चर्यापदों का तिब्बती रूपान्तर ढूँढा और उसके आधार पर शास्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत पाठ में यथेष्ट संशोधन किये हैं। इस दिशा में डा० बागची का कार्य महत्वपूर्ण है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जर्नल आफ डिपार्ट-मेंट आफ लेटर्स (खंड ३०) में उन्होंने चर्यापदों के तिब्बती रूपांतर दिये हैं।³ उन तिब्बती रूपांतरों की संस्कृत छाया दी है, उनके आधार पर शास्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत पाठ का संशोधन किया है और प्रत्येक पर अत्यन्त उपयोगी टिप्पणियाँ दी हैं जो अर्थनिर्णय तथा पाठनिर्णय में विशेष सहायक हैं। बागची के उपरांत श्री मणीन्द्र मोहन बसु ने चर्यापदों का एक संस्करण प्रकाशित किया है जिसमें पाठान्तर देने के अतिरिक्त पदों की बंगला छाया, मर्मार्थ तथा टिप्पणियाँ दी हैं, पदों की भाषा का विवेचन किया और टीकाएँ भी दीं। इस दिशा में नवीनतम प्रयास डा० सुकुमार सेन का है जिन्होंने इंडियन लिग्विस्टिक्स (खंड १०) में 'ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स' नाम से चर्यागीति (पद) वज्रगीति तथा कुछ प्रहेलिकाओं का संग्रह किया है। उन्होंने पदों का क्रम शास्त्री के अनुसार न रखकर प्रत्येक पदकर्ता के पदों को एक साथ संग्रहीत कर नया क्रम निर्धारित किया है। उन्होंने अंग्रेजी में इन पदों का छायावाद भी दिया है किन्तु उसमें अनुमान का आधिक्य है। प्रस्तुत प्रबन्ध में आगे डा० सेन के अनुवादों पर यथास्थान टिप्पणियाँ दी गई हैं।

शास्त्री महोदय के संस्करण में इस पद-संग्रह का नाम "चर्याचर्यवि-निश्चय" था। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने इस नाम से अपनी असहमति प्रकट करते हुए इसका सही नाम 'आश्चर्यचर्याचय' अनुमानित किया था। इसका आधार सम्भवतः मुनिदत्त की टीका के प्रथम श्लोक की तृतीय पंक्ति थी "श्री लूयीचरणादिसिद्धरचतेप्याश्चर्यचर्याचये।" डा० बागची ने जिस तिब्बती रूपान्तर का आधार ग्रहण किया है उसमें "आश्चर्य-चर्या," नाम न होकर केवल इन चर्याओं का विशेषण मात्र प्रतीत होता है। तिब्बती रूपान्तर में इस पद संग्रह का नाम 'चर्यागीति कोष' है। डा० बागची ने भी इसका यही नाम स्वीकार किया है,^{१०} और सम्भवतः इसी कारण डा० सुकुमार सेन ने अपने संस्करणों में इन्हें पद न कह कर चर्यागीति कहा है।

तिब्बती अनुवाद से यह भी ज्ञात होता है कि मुनिदत्त ने ही इन चर्या-पदों का प्रस्तुत रूप में संकलन किया था और उनपर संस्कृत टीका लिखी थी। कीर्तिचन्द्र ने नेपाल के यम्बु नगर में इनका तिब्बती अनुवाद किया था। मुनिदत्त की टीका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अर्थनिर्णय की दृष्टि से तो उसका महत्व है ही, किन्तु मुनिदत्त ने इन पदों के अर्थ स्पष्ट करने के लिये स्थान-स्थान पर सरहपा तथा अन्य आचार्यों के अपभ्रंश तथा संस्कृत छन्द उद्धृत किये हैं जिनके विषय में हम ऊपर संकेत कर चुके हैं।

मुनिदत्त ने ५० चर्यापदों का संग्रह किया था किन्तु शास्त्री महोदय का कहना है कि पांडुलिपि में से ५ ताड़पत्र खो गये थे, अतः २३वें चर्यापद की केवल ६ पंक्तियाँ मिलती हैं और २४वें तथा २५वें चर्यापद अनुपलब्ध हैं। बागची ने उसका तिब्बती रूपान्तर तथा संस्कृत छाया दी है। अकारादि क्रम से पदकर्ता सिद्ध तथा उनके पदों की संख्या इस प्रकार है। कोष्ठक में मुनिदत्त के संग्रह की क्रम-संख्याएं दी गई हैं :

आर्यदेव	१	(३१)
कंकरपा	१	(४४)
कम्बलाम्बरपा	१	(८)
कारणहपा	१३	(७, ९, १०, ११, १२, १३, १८, १९, २४, ३६, ४०, ४२, ४५)
कुक्कुरीपा	३	(२, २०, ४८)
गुहपा	१	(४)
चाटलपा	१	(५)
जयनन्दीपा	१	(४६)
डोम्बीपा	१	(१४)
ढेंढणपा	१	(३३)
तन्त्रीपा	१	(२५)
ताड़कपा	१	(३७)
दारिकपा	१	(३४)
धामपा	१	(४७)

आधार-सामग्री

विरुपा	१	(३)
वीणापा	१	(१७)
भद्रपा	१	(३५)
सुसुकुपा	८	(६, २१, २३, २७, ३०, ४१, ४३, ४६)
महीधरपा	१	(१६)
लुईपा	२	(१, २६)
शबरपा	२	(२८, ५०)
शान्तिमा	२	(१५, २६)
सरहपा	<u>४</u>	(२२, ३२, ३८, ३६)
	५०	

उपर्युक्त सूची में २४वां तथा २५वां पद (काणहपा तथा तन्त्रीपा द्वारा रचित) केवल तिब्बती रूपान्तर में उपलब्ध है।

(आ) इन ५० चर्यापदों के अतिरिक्त एक चर्यापद राहुल जी ने नेपाली बौद्धों में प्रचलित चंचो (चर्यागीति) नामक पुस्तक से पुरातत्व-निबन्धावली में उद्धृत किया है।^{१८} उसका पाठ अत्यन्त भ्रष्ट है। वह जालन्धरपा का पद बताया जाता है। किन्तु इसका क्या प्रमाण है यह राहुल जी ने नहीं बताया है। अन्तिम पंक्ति में 'जालन्धरी' नाम का प्रयोग अवश्य है किन्तु उसके साथ प्रभु विशेषण जुड़ा हुआ है जिससे यह सन्देह होता है कि जालन्धर के किसी शिष्य का यह पद है। काणहपा के एक चर्यापद (संख्या ३६) में इसी प्रकार जालन्धरीपा का नाम आदर से लिया गया है क्योंकि वे काणहपा के गुरु हैं। इस पद का पाठ अत्यन्त भ्रष्ट है और प्रस्तुत रूप में उसका अर्थ-निर्णय कर पाना भी असम्भव है।

चर्यापद के २३ पदकर्ताओं की सूची में हम अगर तिलोपा, जालन्धरपद, और मीनपा के नाम जोड़ दें तो दोहाकारों और पदकर्ता के रूप में कुल २६ नाम होंगे। इन २६ दोहाकारों तथा पदकर्ताओं में से अधिकांश चौरासी सिद्धों की परम्परा में गिने जाते हैं। ८४ सिद्धों की परम्परा, उसमें इन २६ पदकर्ताओं तथा दोहाकारों का स्थान, इनके कालक्रम और जीवनवृत्त पर अब हम विचार करेंगे।

ख

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का
काल-क्रम और जीवन-वृत्त

इन दोहों तथा पदों के लेखक वज्रान्वय सिद्ध उस ८४ सिद्ध परम्परा के अन्तर्गत आते हैं जो भारतीय अनुश्रुतियों में बहुत ही प्रख्यात रही है। तान्त्रिक काल में अधिकांश सम्प्रदाय ८४ सिद्ध पुरुषों के अस्तित्व में विश्वास करते थे, जिन्हें अष्ट महासिद्धियाँ उपलब्ध थीं और जो अति-प्राकृतिक चमत्कारों का प्रदर्शन कर सकते थे, ये ८४ महासिद्ध अजर और अमर माने जाते थे, देवों, यक्षिणियों तथा डाकिनियों आदि के स्वामी माने जाते थे और अतिमानव अर्द्ध-देवताओं में उनकी गणना होती थी। मध्यकाल में समस्त जनता इन ८४ महासिद्धों की कल्पना से प्रभावित थी और जायसी तक उनका उल्लेख अमर-पुरुषों के रूप में करते हुए करते हैं :

नवौ नाथ चलि आवहिं औ चौरासी सिद्ध

आज महारन-भारथ चले गगन, गरुड़ औ गिद्ध...^१

ये सिद्ध केवल कल्पना मात्र ही नहीं थे, इनका ऐतिहासिक अस्तित्व भी था जिस पर हम बाद में विचार करेंगे किन्तु जहाँ तक ८४ संख्या का प्रश्न है, यह संख्या वास्तविक न होकर काल्पनिक संख्या मालूम होती है। ८४ संख्या का तन्त्रों में ८४ संख्या का एक विशेष महत्व है और उसके तान्त्रिक महत्व गूढ़ तान्त्रिक अभिप्राय हैं। तन्त्रों में, योग में, आसन भी ८४ माने गये हैं और वहाँ भी इस संख्या का सांकेतिक महत्व है।^२ टुची इस संख्या को बारह राशि तथा सात ग्रहों का गुणानफल मानते हैं।^३ यह ८४ संख्या लगभग प्रत्येक तान्त्रिक सम्प्रदाय में स्वीकृत थी

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

और यह विश्वास किया जाता था कि सम्प्रदाय में ८४ सिद्धों का होना अनिवार्य है। उस तान्त्रिक काल में प्रत्येक प्रान्त में, प्रत्येक सम्प्रदाय में जाने कितने तान्त्रिक योगी होते थे जिनमें से कुछ विलक्षण सिद्धियों को उपलब्ध कर लेने वालों को सिद्ध कहा जाने लगता था। किन्तु साम्प्रदायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण प्रत्येक सम्प्रदाय कुछ सिद्धों को मान्यता देता था और कुछ का विरोध करता था। इस स्थिति में प्रत्येक सम्प्रदाय की, सिद्धों की सूची अलग-अलग थी।^४ बौद्धों की सूची नाथ-योगियों की सूची से अलग थी, और स्वतः बौद्ध तथा नाथों में भी अलग-अलग सूचियों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। न केवल नेपाल, तिब्बत, कामरूप तथा उड़ीसा आदि में ही इन ८४ सिद्धों की परम्परा बनी रही थी वरन् दक्षिण भारत में भी ८४ सिद्धों की परम्परा का पर्याप्त प्रचलन था।^५

किन्तु इन सम्प्रदायों की सूची सर्वथा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि प्रत्येक सम्प्रदाय ८४ की संख्या पूरी करने के लिये चारों तरफ जाल फैकता था और विभिन्न शताब्दियों तथा प्रान्तों के सिद्ध पुरुषों के नाम अपनी सूची में सम्मिलित कर ८४ का शगुन पूरा करता था।^६ इसीलिये प्रत्येक साम्प्रदायिक सम्प्रदाय की सूची में दूसरे सम्प्रदाय के भी कितने ही सूचियाँ सिद्ध सम्मिलित रहते थे और उनका औचित्य सिद्ध करने के लिये कुछ साम्प्रदायिक दन्तकथाएँ गढ़ ली जाती थीं जिनमें यह सिद्ध किया जाता था कि वास्तव में ये सिद्ध इसी सम्प्रदाय के हैं और अन्य सम्प्रदायों को उन्होंने त्याग दिया था या उसे गौण साधना-पद्धति के रूप में अपना रक्खा था या इन सिद्धों के दो अलौकिक रूप थे जिनमें से एक रूप बौद्ध रूप था और दूसरा शैव। इस प्रकार की कितनी ही अविश्वसनीय, अनैतिहासिक दन्तकथाएँ तिब्बती तथा भारतीय सम्प्रदाय ग्रन्थों में प्राप्त होती हैं जिनकी ओर हमने जीवन-वृत्त पर विचार करते समय संकेत किया है। वास्तव में जैसा हम आगे देखेंगे, बौद्ध तथा शैव दोनों ही तान्त्रिक पद्धतियाँ इतनी निकट आ गई थीं कि बहुत ही स्वच्छन्दता से दोनों में देवताओं, अनुष्ठानों, अभिचारों तथा किम्बदन्तियों का आदान-प्रदान हो रहा था और इस आदान-प्रदान का स्वरूप इतना उलझा हुआ है कि आज यह कह सकना कठिन है कि किस सम्प्रदाय ने किससे प्रभाव ग्रहण किया।^७ इसलिये इन सूचियों को ज्यों का त्यों स्वीकृत नहीं किया जा सकता। किन्तु अभी तक जो सूचियाँ प्राप्त हुई हैं, प्रामाणिक सामग्री के अभाव में उनका

परीक्षण तथा विश्लेषण भी अत्यन्त दुस्साध्य है। इन ८४ सिद्धों के नाम तथा क्रम पर प्रकाश डालने वाली चतुर्विध सामग्री प्राप्त हुई है।

क—महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा निर्दिष्ट वर्ण-रत्नाकर की सूची।^८

“वर्णरत्नाकर” एक तालपत्र का हस्तलिखित ग्रन्थ है जो बंगलाक्षरों में लिखा हुआ है। उसका लिपिकाल लक्ष्मण सम्बत् ३८८ दिया हुआ है। एशियाटिक सोसायटी के संग्रहालय में यह ग्रन्थ सुरक्षित है। इसके लेखक कविशेखराचार्य ज्योतिषीश्वर हैं जो मिथिला के महाराज हरिसिंह देव १३००-१३२१ के दरबार में थे। इस ग्रन्थ के विभिन्न कल्लोलों में नगर-वर्णना, नायिका-वर्णना, आदि का विस्तृत विवरण है उसी में ८४ सिद्ध-वर्णना भी दी गई है यद्यपि नाम केवल ७६ सिद्धों का ही दिया गया है। १. मीननाथ, २. गोरक्षनाथ, ३. चौरंगीनाथ, ४. चामरीनाथ, ५. तंतिपा, ६. हालिपा, ७. केदारिपा, ८. धोंगपा, ९. दारिपा, १०. विरुपा, ११. कपाली, १२. कमारी, १३. कान्ह, १४. कनखल, १५. मेखल, १६. उन्मन, १७. काण्डलि, १८. घोषी, १९. जालन्धर, २०. टोंगी, २१. मवह, २२. नागार्जुन, २३. दौली, २४. भिपाल, २५. अचिन्ति, २६. चम्पक, २७. डेण्टस, २८. भुम्बरी, २९. वाकलि, ३०. तुजी, ३१. चर्पटी, ३२. भादे, ३३. चांदन, ३४. कामरी, ३५. करवत, ३६. धर्मपापतंग, ३७. भद्र, ३८. पातलिभद्र, ३९. पालिहिह, ४०. भानु, ४१. मोन, ४२. निर्दय, ४३. सवर, ४४. सान्ति, ४५. भर्तृहरि, ४६. भीषण, ४७. भरी, ४८. गगनपा, ४९. गमार, ५०. मेनुरा, ५१. कुमारी, ५२. जीवन, ५३. अघोसाधव, ५४. गिरिवर, ५५. सियारी, ५६. नागवालि, ५७. विभवत्, ५८. सारंग, ५९. विविकिधज, ६०. मगरधज, ६१. अचित्त, ६२. विचित्त, ६३. नेचक, ६४. चाटल, ६५. नाचन, ६६. भीलो, ६७. पाहिल, ६८. पासल, ६९. कमल कंगारि, ७०. चिपिल, ७१. गोविन्द, ७२. भीम, ७३. भैरव, ७४. भद्र, ७५. भमरी, ७६. भुरुकुटी।

यह सूची नाथ-सम्प्रदाय द्वारा मान्य सूची थी ऐसा उल्लेख शास्त्री महोदय ने किया है यद्यपि इसका आधार सम्भवतः यही है कि इस सूची में मीननाथ को आदि-सिद्ध माना गया है और मीननाथ की मत्स्येन्द्रनाथ से अभिन्नता दिखाकर इस सूची को नाथ परम्परा की सूची कहा गया है।

ख. त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन द्वारा निर्दिष्ट वज्रयानी सिद्धों की सूची।^९

दोहरकारों तथा पदकर्तृओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त
इलाहाबाद

इस सूची का मुख्य आधार तिब्बत के सस्क्य विहार के पाँच प्रधान गुरुओं १०६१-१२७६ की ग्रन्थावली है जो तेर्गी मठ में छपी है। इसमें ८४ सिद्धों की संख्या पूरी है और उनकी जाति तथा देश का भी उल्लेख किया गया है।

१. लुङ्पा, कायस्थ, मगध, २. लीलापा, ३. विरुपा मगध (देवपाल का देश); ४. डोम्बिपा, क्षत्रिय, मगध, ५. शबरपा, क्षत्रिय, विक्रमशिला, ६-सरहपा, ब्राह्मण, नालन्दा, ७. कंकालीपा, शूद्र, मगध, ८. मीनपा, मछुआ, कामरूप, ९. गोरक्षपा, १०. चौरंगिपा, राजकुमार, मगध, ११. वीणापा, राजकुमार, गौड़ (बिहार) १२. शान्तिपा, ब्राह्मण, मगध, १३. तन्तिपा (तंतवा) सोंधो नगर, १४. चमारिपा (चर्मकार) विष्णु नगर (पूर्वदेश), १५. खड्गपा, शूद्र, मगध १६. नागार्जुन, ब्राह्मण, कांची, १७. कण्हपा (चर्चपा) कायस्थ, सोमपुरी, १८. कर्णरिपा या आर्यदेव, नालन्दा, १९. थगनपा, शूद्र, पूर्व भारत, २०. नारोपा, ब्राह्मण, मगध, २१. शलिपा या शीलपा, शूद्र, विघसुर, २२. तिलोपा या तिल्लोपा, ब्राह्मण, भिगुनगर, २३. छत्रपा, शूद्र, संधोनगर, २४. भद्रपा, ब्राह्मण, मणिधर, २५. दोखंधि या द्विखंडिपा, गंधपुर, २६. अजोगिपा, गृहपति, सालिपुत्र, २७. कालपा, राजपुर, २८. धोम्बिपा, धोबी, सालिपुत्र, २९. कंकणपा, राजकुमार, विष्णुनगर, ३०. कमर या कंबल पा, उड़ीसा, ३१. डेंगिपा, ब्राह्मण, उड़ीसा, सालिपुत्र, ३२. भदेपा, श्रावस्ती, ३३. तंधे या तंतेपा, शूद्र, कौशाम्बी, ३४. कुकुरिपा, ब्राह्मण, कपिलवस्तु, ३५. कुचि या कुमूलिपा, शूद्र, करि, ३६. धर्मपा, ब्राह्मण, विक्रमशिला, ३७. महीपा या महिलापा शूद्र, मगध, ३८. आंचिंतिपा, लकड़हारा, धनिरुप, ३९. भलह (भवपा) क्षत्रिय, धंजुर देश, ४०. नलिनपा, सालिपुर, ४१. सुसुकुपा, राजकुमार, नालन्दा, ४२. इन्द्रभूति, राजा, लंकापुर, ४३. मेकोपा वणिक, भंगलदेश, ४४. कुठालि (कुठालि पा) रामेश्वर, ४५. कर्मार या कम्परि पा लोहार, सालिपुत्र, ४६. जालन्धरपा, ब्राह्मण, नगर भो....., ४७. राहुलपा, शूद्र, कामरूप, ४८. घर्वरि या घर्भरि पा, बोधि-नगर, ४९. धोकरिपा, शूद्र, सालिपुत्र, ५०. मेदनीपा, लाखपुय, ५१. पंकजपा, ब्राह्मण, ५२. वज्र या घंटापा, क्षत्रिय, वारेन्द्र, ५३. जोगीपा या अजोगिपा, डोम, उडन्तपुरी, ५४. चेलुकपा, शूद्र, भंगलपुर, ५५. गुंडरिपा या गोरुर पा, चिड़ीमार, डिमुनगर, ५६. लुचिकपा, ब्राह्मण, भंगलदेश, ५७. निर्गुणपा, शूद्र, पूर्व देश, ५८. जयानन्त, ब्राह्मण, भंगलपुर, ५९. चर्पटी या पचरीपा, कहार, चम्पा, ६०.

चम्पकना, राजकुमार, ६१. भिखनपा, शूद्र सालिपुत्र, ६२. भलिपा, कृष्णवृत्तवर्णिक, सतपुरी, ६३. कुमरिपा जोमनश्रीदेश, ६४. चवरि (या जवरि = अजपालि) पा, ६५. मणिभद्रा या योगिनी, गृहदासी, मगध, ६६. मेखलापा या योगिनी गृहपतिकन्या, अगचेनगर, ६७. कनखलापा या योगिनी देवीकोट, ६८. कलकलपा शूद्र. भिरलिरनगर, ६९. कंताली या कंथाली पा दर्जी, मणिधर (मैहर), ७०. धनुलि या धहुरि पा शूद्र, धेकरदेश, ७१. उधलि या उधरिपा वैश्य, देवीकोट, ७२. कपाल या कमलपा शूद्र, राजपुरी, ७३. किलपा राजकुमार, प्रहर (सहर), ७४. सागरपा राजा, कांची, ७५. सर्वभद्रपा शूद्र, महर (सहर) ७६. नागबोधिपा ब्राह्मण, पश्चिम भारत, ७७. दारिकना राजा, उड़ीसा सालिपुत्र, ७८. पुतुलिपा शूद्र, भंगलदेश, ७९. पनह या उपानह पा चमार, सन्धोनगर, ८०. कोकालिपा राजकुमार, चंपारन, ८१. अनंगपा, शूद्र, गौड़, ८२. लक्ष्मीकरा या योगिनी राजकुमारी, संभलनगर, ८३. समुदपा, सर्वडिदेश, ८४. भलि या व्यालिपा, ब्राह्मण, अणनदेश ।

ग. तंजूर पर आधारित गुएनवालड की सूची जिसमें केवल ३८ सिद्धों के नाम हैं किन्तु उन सबों के साथ उनकी क्रम संख्या का स्पष्ट उल्लेख है और वह क्रम संख्या संस्कृत विहार की सूची से पूरी तरह मेल खाती है ।^{१०} इससे यह भी ज्ञात होता है कि संस्कृत विहार की सूची वज्रयानी सिद्धों की सर्वमान्य सूची थी । निम्नलिखित क्रम-संख्याओं वाले सिद्धों का उल्लेख इस सूची में है :

१, ३, ४, ५, ६, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १६, १७, १८, १९, २०, २२, २४, ३०, ३१, ३२, ३४, ३६, ४२, ४४, ४६, ५२, ५४, ६४, ६६, ६७, ७७, ८२, ८४, ५७, ७४, नामों में कहीं कहीं थोड़ा उच्चारण भेद अवश्य है (१० वें सिद्ध को इस सूची में षडरांगपा कहा गया है । जो संस्कृत सूची में चौरंगीपा है । यह भी उच्चारण भेद ही प्रतीत होता है)

घ. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा संग्रहीत^{११} महार्णव-तन्त्र, हठयोग-प्रदीपिका, गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह, योगिसम्प्रदाया विष्कृतिः सुधाकर-चन्द्रिका, ज्ञानेश्वर-चरित्र तथा प्राण-संगली नामक ग्रन्थों से संचयित सिद्धों की सूची जिनकी संख्या वर्णरत्नाकर के नामों को मिलाकर १३७ + ११ = १४८ होती है । इनमें से बहुत से पुराने सिद्ध हैं जिनमें से कुछ वज्रयानी भी हो सकते हैं ।

सम्प्रदाय की दृष्टि से इनमें से कोई भी सूची अधिकारिक नहीं मानी जा सकती

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

है। वर्णरत्नाकर तथा द्विवेदी जी द्वारा संग्रहीत सूची नाथ-सम्प्रदाय की सूची है किन्तु उसमें वज्रयानी सिद्ध भी सम्मिलित हो गये हैं, सस्क्य ब्क्म बुम की सूची वज्रयानी है किन्तु उसका संकलन १३ वीं शती में हुआ है अतः उसमें बहुतेक से नाथ-सिद्ध भी मिला कर ८४ संख्या पूरी की गई है। फिर भी जहाँ तक प्रामाणिकता का प्रश्न है सस्क्य सूची ही तुलना में अधिक प्रामाणिक मानी जा सकती है। इसके कई कारण हैं।

१. वर्णरत्नाकर का सम्भावित रचना-काल (१३००-१३२१ ई०) इस सूची के रचना-काल से लगभग २५ वर्ष बाद का है। जिन ग्रन्थों से द्विवेदी जी ने नाम संकलित किये हैं वे और भी परवर्ती हैं और तब तक नाथ-परम्परा ने बौद्ध परम्परा को पूर्णतया उन्मूलित कर दिया था।

२. तंजूर की क्रम-संख्याओं से सस्क्य सूची की क्रमसंख्या का पूर्णतया मिल जाना इस बात का द्योतक है कि यह सूची अधिकांश बौद्ध तान्त्रिक सम्प्रदायों द्वारा मान्य सूची थी।

३. यही एक सूची ८४ की संख्या को पूर्ण करती है। अन्य सूचियाँ अपूर्ण हैं।

द्विवेदी जी ने वर्णरत्नाकर तथा सस्क्य सूची की तुलना करने के उपरान्त निम्नलिखित नामों को दोनों सूचियों में सम्मिलित पाया है।^{१२}

शबरीपा (सस्क्य सूची ५, वर्णरत्नाकर सूची ४४), मीनपा (८, १)
गोरक्षपा (६, २) चौरंगीपा (१०, ३) शान्तिपा (१२, ४४), तन्तिपा (१३, ५),
चंवरिपा (६४, ४), नागार्जुन (१६, २२), काण्हपा (१७, १३),
थगनपा (१६, ४८), शीलपा या शियालीपा श्रृगालीपा (२१, ५५),
भद्रपा (२४, ३७), धोम्मिपा (२८, १८), कमरिपा (३०, ३४), ढेंगीपा
(३१, ८), भदेपा (३२, ३२), धर्मपा (३६, ३६), अचिन्तिपा (३८, २५),
कुडालिपा (४४, ७), कमरिपा (४५, १२), जालन्धरपा (४६, १६), मेदिनीपा
या हालीपा (५०, ६), चर्पटीपा (५६, ३१), चम्पकपा (२६, ६०), भीखनपा
(६१, ४६), भेलिपा (६२, ६६), कुमारिपा (६३, ५१) मणिभद्रा (६५, ७४),
मेखलापा (६६, १५), कनखलापा (६७, १४), कपालपा (७२, ६६), नागबोधिपा
(७६, ५६), दारिकपा (७७, ६)।

मिश्रण के कारण इन नामों के मिश्रण पर विचार करने से इसके निम्न-लिखित कारण अनुमानित किये जा सकते हैं :

क. १० वीं शती के उत्तरार्द्ध से ही कई सिद्ध ऐसे थे जो शैव तथा बौद्ध दोनों ही पद्धतियों के आचार्य थे और यद्यपि वे किसी एक बौद्ध या शैव-सम्प्रदाय को ही प्रमुख मान्यता देते थे किन्तु दूसरे सम्प्रदायों को भी प्रश्रय देते थे और दूसरे सम्प्रदाय वाले भी उन्हें मान्यता प्रदान करते थे। ऐसे तीन सिद्ध प्रमुख हैं, मत्स्येन्द्र, जालन्धर तथा काण्ह। मत्स्येन्द्र मूलतया शैव सम्प्रदाय के अनुयायी थे यद्यपि उनका योगिनी-कौल मार्ग बौद्ध तन्त्रों से अत्यधिक प्रभावित था। इसी कारण नैपाल में उन्हें पाशुपत शिव तथा तिब्बत में अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता था।^{१३} मत्स्येन्द्र पर हम विस्तृत विचार बाद में करेंगे। जालन्धर के लिये तारानाथ ने भी कहा है कि पूर्व में हाड़ीपा का बौद्ध रूप धारण कर प्रचार करते थे,^{१४} और पश्चिम में जालन्धरपा सम्भवतः शैव रूप ही धारण करते थे। काराहपा के लिये भी तारानाथ का कथन है^{१५} कि अन्तर से बौद्ध होते हुए भी बाहर से वे अबौद्ध पद्धतियों को ग्रहण करते थे और अबौद्ध सम्प्रदायों में भी उनका बड़ा आदर था। ऐसे समन्वयवादी सिद्ध दोनों ही सम्प्रदायों की सूचियों में सम्मिलित कर लिये गये होंगे।

ख. जैसा कि हम बाद में देखेंगे, उस समय की साम्प्रदायिक स्थिति इस प्रकार की थी कि कुछ प्रदेशों में वैष्णवों के विरोध में शैव तथा बौद्ध सम्प्रदायों का संयुक्त शिविर स्थापित हो चुका था और दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे के देवताओं, पद्धतियों तथा आचार्यों की परम्परा को आत्मसात कर रहे थे।

ग. नाथ सम्प्रदाय स्वतः बौद्ध प्रभावों के प्रति शैव विद्रोह है किन्तु इस विद्रोह के पूर्ण इनमें से कुछ सिद्ध वज्रयानी रहे होंगे। कुछ तिब्बती अनुश्रुतियाँ तो स्वतः गोरखनाथ को पहले वज्रयानी बताती हैं। वे शैव वाद में हुए थे।^{१६}

घ. कभी कभी ऐसा होता था कि कोई विशेष पद्धति आचार्य द्वारा प्रवर्तित की गई। वह आचार्य स्वतः बौद्ध था। बाद में किसी दूसरे आचार्य ने वही पद्धति अपनाई किन्तु सम्प्रदाय शैव अपनाया। ऐसी परिस्थिति में उसे उसी बौद्ध सिद्ध का अवतार मानते हुए नाथ परम्परा में सम्मिलित कर लिया गया। उसे नाम उसके गुरु बौद्ध सिद्ध का ही दिया गया और इस प्रकार भी कुछ वज्रयानी नाम नाथ-सूची में आ गये। उदाहरण के लिये विरुपा मूलतः नालन्दा का बौद्ध सिद्ध था, किन्तु उसके कई अवतार बताये गये हैं और परवर्ती

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

विरुपा या विरुपान्त को कई नाथ-पन्थी ग्रन्थों में मान्यता प्रदान की गई। सम्भवतः प्रथम विरुपा की पद्धति अपना कर भी परवर्ती विरुपा ने शैव सम्प्रदाय ग्रहण कर लिया था।^{१७}

ड. कुछ सिद्ध ऐसे व्यक्तित्व के थे जिनका जनता पर बहुत प्रभाव था, दूसरे सम्प्रदायों ने जनता पर प्रभाव डालने के लिये, या आदरवश उन्हें अपनी परम्परा में स्वीकृति कर लिया होगा। गोरख, शरवपा आदि ऐसे ही सिद्ध माने जा सकते हैं।

च. कुछ सिद्ध सम्भवतः ऐसी विशेष जाति के थे जो वज्रयान के बाद नाथ संप्रदाय में सामूहिक रूप से दीक्षित हो गई। उस जाति के वज्रयानी सिद्ध की गणना भी उस जाति के साथ साथ नाथ सम्प्रदाय में होने लगी होगी। उदाहरण के लिये वयनजीवी जातियों में से कुछ पहले बौद्ध थीं और बाद में सामूहिक रूप से नाथ योगी हो गई थीं। वज्रयानी सिद्ध तन्त्रिपा वयनजीवी जाति के थे। उनकी कुछ तन्त्रुवायों में बहुत मान्यता रही होगी। जब वे तन्त्रुवाय शैव हो गये होंगे तब अपनी जाति के सिद्ध को उन्होंने परित्यक्त नहीं किया होगा। कलतः तन्त्रिपा की गणना दोनों सम्प्रदायों की सूची में होती है। इसी प्रकार चमरिपा तथा धोम्मि (धोबीपा) के विषय में भी अनुमान किया जा सकता है।

जब तक पदकर्ताओं और दोहाकारों का सम्बन्ध है उनमें से कई ऐसे हैं जो इन दोनों सूचियों में परिगणित नहीं है। इसका एक कारण यह है कि बौद्धों में भी कई आम्नाय थे और इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि सभी आम्नायों में सिद्धों की एक ही सूची मान्य थी। बहुत सम्भव है कि चर्याचार्य-विनिश्चय तथा सस्क्य सूची में आम्नाय भेद हो अतः चर्यापद-विनिश्चय में कई ऐसे सिद्धों के पद संग्रहीत हों जिन्हें सस्क्य सूची में स्थान न दिया गया हो। सिद्धों के जीवन वृत्त पर विचार करते हुए उन पदकर्ताओं पर भी विचार कर लिया गया है जो सस्क्य सूची में नहीं सम्मिलित किये गये हैं। साम्प्रदायिक स्थिति के अन्तर्गत उन प्रमुख पदकर्ताओं और दोहाकारों की स्थिति पर भी विचार कर लिया गया है जिनका नाम दोनों सम्प्रदायों में मान्य है।

काल क्रम

जहाँ तक समय का सम्बन्ध है, यह सिद्ध परम्परा अधिक से अधिक दो या तीन शतियों की परिधि में ही आ जाती है क्योंकि इनमें से बहुत से सिद्ध समकालीन थे। इनके समय का निर्णय करने के लिये अन्तर्साक्ष्य का सर्वथा

अभाव है। बहिसाक्ष्य के रूप में जो सामग्री मिलती है वह भी सर्वथा भ्रामक है।

बहिसाक्ष्य के रूप में प्रमुख आधार वे साम्प्रदायिक अनुश्रुतियाँ हैं जो तिब्बती बौद्ध ग्रंथों या भारतीय शैव (नाथ) ग्रंथों में मिलती हैं। किन्तु उनके लेखकों का दृष्टिकोण अत्यन्त भ्रमात्मक, एकांगी और कल्पनारंजित है। संदिग्ध सामग्री उनमें निम्न दोष पाये जाते हैं। क. अति-प्राकृतिक चमत्कार और सिद्धि की कथाओं ने उसमें असम्भाव्य कल्पनाओं की भरमार कर दी है। ख. साम्प्रदायिक संकीर्णता और प्रतिद्वन्द्विता इतनी अधिक है कि जान बूझकर तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। शैव ग्रंथों में बौद्ध आचार्यों को शैवों का शिष्य माना गया है, शैवाचार्यों को प्राचीन और बौद्धों को परवर्ती सिद्ध करने का प्रयास किया गया है और बौद्ध ग्रंथों में यही व्यवहार शैव आचार्यों के साथ हुआ है।^{१६} ग. कभी कभी एक ही आम्नाय के कई आचार्यों को एक ही आदि-सिद्ध का अवतार सिद्ध करने का प्रयास कर कई युगों तथा कई देशों में एक ही आचार्य का अस्तित्व माना गया है जैसे तारानाथ ने विरुपा का अस्तित्व कई युगों में और कई देशों में माना है।^{१७} घ. कई स्थानों पर एक ही सिद्ध पुरुष को विभिन्न सम्प्रदाय अपना मान लेते थे और उसका सारा इतिहास अपने रंग में रंग डालते थे। मत्स्येन्द्र के विषय में भी यही हुआ है। नेपाल में वे शिव के अवतार माने जाते थे और तिब्बत में अवलोकितेश्वर के इसी प्रकार जालन्धरीपा और हाङ्गीपा को एक ही मान कर यह कह दिया गया था कि वे दो रूप धारण करके रहते थे, पश्चिम में जालन्धरीपा और पूर्व में हाङ्गीपा का^{१८}। ड: तारानाथ जिनकी साक्षी बहुत से विद्वानों ने ग्रहण की है १६वीं १७वीं शती में हुए थे और कभी स्वयम् भारत आये भी नहीं थे। उनकी तिथियाँ, वंशावली, सम्प्रदाय निर्णय बिल्कुल प्रामाणिक नहीं हैं। च. तारानाथ द्वारा उल्लिखित गुरु शिष्य परम्परा भी सर्वथा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि तत्कालीन सम्प्रदायों की दो तीन प्रवृत्तियाँ बड़ी ही विचित्र थीं। निगुरा रहना तो उस समय अशुभ माना जाता था अतः कभी कभी सिद्ध अपने गुरु ऐसे आचार्यों को परिकल्पित कर लेते थे जो उनसे कई शती पहले हुए हैं।^{१९} उन्हीं का आम्नाय ग्रहण करते थे और कहते थे कि मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप में दीक्षा ली है। कभी-कभी ऐसी भी कथाएँ मिलती हैं कि शिष्य पहले उत्पन्न हुआ और जब कोई भी ऐसा न दीखा जिसे वह गुरु बना सके तो उसने अपनी चमत्कार शक्ति से एक गुरु भी पैदा कर

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

दिया ।^{२०} चूंकि सिद्ध अजर अमर माने गये हैं अतः कभी-कभी बहुत पहले कई शताब्दियों पहले उत्पन्न होने वाले सिद्ध भी अपने परवर्ती सिद्धों से गोष्ठी या शास्त्रार्थ करते हुए दिखाये गये हैं । यह परम्परा सन्तों तक चलती रही और नानक तथा चौरंगी और कबीर तथा गोरख की गोष्ठी का वर्णन पाया जाता है । इन समस्त दोषों को दृष्टि में रखते हुए इन साम्प्रदायिक अनुश्रुतियों को किसी भी ऐतिहासिक निर्णय का आधार बनाना उचित नहीं कहा जा सकता । उन पर विश्वास कर डा० शाहिदुल्ला ने मत्स्येन्द्र का समय सातवीं शती मान लिया है जो किसी भी कसौटी से ठीक नहीं बैठता । इस पर हम आगे विचार करेंगे ।^{२०} अन्य साद्यों के रूप में दो पाण्डुलिपियों का उल्लेख किया जा सकता है ।

क. काएहपा द्वारा लिखित हेवज्र-पंजिका-योगरत्नमाला जिसका लिपिकाल काराहपा के समय की निम्नतम सीमा निर्धारित करता है ।

ख. कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी लाइब्रेरी में संग्रहित साधनाओं की एक पाण्डुलिपि जिसका समय ११६५ ई० है और जिसमें कंकणपाद अथवा कोंकणपाद की भी एक साधना संग्रहित है ।

इसके पहले कि हम इन थोड़े से प्रमाणों के आधार पर सिद्ध परम्परा काल तथा क्रम पर विचार करें, संक्षेप में उन विद्वानों के मत की विवेचना करना आवश्यक है जिन्होंने सिद्धों के काल निर्णय का विभिन्न मतों प्रयास किया है ।

का परीक्षण सबसे पहले डाक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने तारानाथ की कृतियों में प्राप्त दो गुरु शिष्य परम्पराओं को आधार बना कर इन सिद्धों का समय अनुमान करने का प्रयास किया । उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि सामग्री के अभाव में वे केवल अनुमान ही कर सकते हैं और वह अनुमान भी सही ही होगा ऐसा उनका कोई आप्रह नहीं ।^{२१}

उन्होंने अपने अनुमान का आधार दो गुरु परम्पराओं को बनाया है । पहली जो कार्दियर की तंजूर की सूची में मिलती है और दूसरी जिसे काज़ी ने चक्र-संवर तन्त्र की भूमिका में उद्धृत किया है । पहली परम्परा इस प्रकार है, पद्मवज्र>अनंग वज्र>इन्द्रभूति>भगवती लक्ष्मीकरा>लीलावज्र>दारिकपा>सहज-योगिनी>चिन्ता>डोम्री हरक । दूसरी परम्परा इस प्रकार है, सरह>नागार्जुन>

शवरीपा > लुईपा > वज्रघराटा > कच्छप > जालन्धरी > कृष्णाचार्य (काहपा) >
गुह्यपा > विजयपा > तैलोपा > नारोपा ।

इन दोनों गुरु परम्पराओं के बीच में दो सम्बन्ध-सूत्र मिलते हैं । पहला तो जालन्धरीपा जो दूसरी परम्परा में हुए हैं पद्मवज्र के बाद हुए होंगे क्योंकि पद्मवज्र ने द्वेवज्रतन्त्र का अवतरण किया था और जालन्धरी ने उसका प्रथम प्रचार किया था। दूसरा सूत्र इन्द्रभूति और सरह का है । सरह ने एक टीका लिखी थी जिसका अनुकरण कमलशिला ने किया जो इन्द्रभूति के एक पीढ़ी बाद हुआ था । अतः सरह कमलशिला से कम से कम एक पीढ़ी पहले हुए होंगे अर्थात् इन्द्रभूति के समकालीन होंगे । २३

इनकी तिथि का अनुमान करने में डा० भट्टाचार्य ने शान्तिरक्षित को आधार बनाया है । शान्तिरक्षित तिब्बत गये थे और इसके ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि ७४८ ई० में उन्होंने तिब्बत में एक मठ स्थापित किया था । उन्हीं के साथ गुरु पद्मसम्भव भी गये थे । गुरु पद्मसम्भव इन्द्रभूति के पुत्र बताये गये हैं । अतः इन्द्रभूति का समय ६८७ से ७१७ ई० तक माना जा सकता है । अब यदि एक गुरु और शिष्य की पीढ़ी में १२ वर्ष का अन्तर मान लिया जाय तो इन्द्रभूति के गुरु अनंगवज्र का समय ७१७ ई० से १२ वर्ष कम अर्थात् ७०५ ई० होगा । पद्मवज्र का समय ७०५ ई० से १२ वर्ष कम अर्थात् ६९३ ई० होगा । प्रथम गुरु परम्परा का तिथिक्रम इस प्रकार होगा । पद्मवज्र ६९३ ई०, अनंग वज्र ७०५ ई०, इन्द्रभूति ७१७ ई०, लक्ष्मीकरा ७२९ ई०, लीलावज्र ७४१ ई०, दारिकपा ७५३ ई०, सहजयोगिनीचिन्ता ७६५ ई०, डोम्बी हेरुक ७७७ ई० ।

यदि जालन्धरीपा पद्मवज्र से एक पीढ़ी अर्थात् १२ वर्ष बाद माने जायें तो वे अनंगवज्र के समकालीन होंगे ७०५ ई० । इस गणित से दूसरी गुरु परम्परा का समय इस प्रकार होगा । सरहपा ६३३ ई०, नागार्जुन ६४५ ई०, शवरीपा ६५७ ई०, लुईपा ६६९ ई०, वज्रघराटा ६८१ ई०, कच्छपा ६९३ ई०, जालन्धरीपा ७०५ ई०, कृष्णाचार्य ७१७ ई०, गुह्यपा ७२९ ई०, विजयपा ७४१ ई०,

किन्तु इस गणना में कठिनाई यह पड़ती है कि तिलोपा और नारोपा विजयपा के तात्कालिक उत्तराधिकारी माने गये हैं, अर्थात् उनका समय इस गणित के अनुसार ७५३ ई० तथा ७६५ ई० होना चाहिये । किन्तु उनके विषय में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वे महीपाल के समय में हुए थे जिनका समय १०

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

वीं शती का अन्तिम और ११ वीं शती का प्रथम चरण माना गया है। अतः डा० भट्टाचार्य ने कल्पना कर ली है कि विजयपा और तिलोपा के बीच में कई पीढ़ियाँ रही होंगी जिनका कोई उल्लेख नहीं है।^{२४}

तिलोपा के ही कुछ पूर्व ललितगुप्त और अद्भ्यवज्र अथवा अवधूतीपा हुए थे अतः उनका भी समय तिलोपा के दो दशक पूर्व अर्थात् ६५४ ई० हो सकता है।

इस तिथि निर्णय का मुख्य आधार गुरु-परम्पराएँ हैं और वे कितनी अप्रमाणिक हैं इसकी ओर हम संकेत कर चुके हैं। टुची ने नैपाल में प्राप्त एक खण्डित ताड़पत्र पाण्डुलिपि का हवाला देते हुए लिखा आपत्तियाँ हैं कि ये गुरु परम्पराएँ विभिन्न आम्नायों के आधार पर कल्पित कर ली गई थीं।^{२५} सिद्धों तथा वज्राचार्यों को वज्र-काया में स्थित अमर पुरुष माना जाता था और यदि कई शती बाद भी कोई उनका आम्नाय अपनाता था तो वह उसका प्रत्यक्ष शिष्य मान लिया जाता था और कभी कभी उसी गुरु का अवतार मान कर उसको वही नाम भी दे दिया जाता था। उदाहरण के लिये अद्भ्यवज्र को उस कृति में नागार्जुन का शिष्य अतः उन्हीं का अवतार मान लिया गया है।^{२६} उनको लोग नागार्जुन ही कहने लगे थे इसका भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार वे ही मैत्रीगुप्त, अवधूतीपा, अद्भ्यवज्र और नागार्जुन भी कहलाते थे। उनका वास्तविक नाम दामोदर था और वे कपिलवस्तु के निवासी थे। इस कृति के अनुसार गुरु परम्परा इस प्रकार थी। सरहपा > नागार्जुन > शबरपा > अद्भ्यवज्र (मैत्रीगुप्त)। यदि इन मैत्रीगुप्त या अद्भ्यवज्र को महीपाल का समकालीन मान लिया जाय तो शबरपा, नागार्जुन तथा सरह तीनों का अस्तित्व १० वीं शती में माना जायगा।^{२७} पुनश्च सरहपा के विषय में कई कठिनाइयाँ आ पड़ती हैं। चक्रसंवर तंत्र में सरह को आदि-गुरु बताया गया है। किन्तु कुछ परम्पराओं में लुईपा को आदि सिद्ध कहा गया है। टुची ने भी यह संकेत किया है कि शान्तिरक्षित की एक रचना में लुईपा का उल्लेख है।^{२८} यद्यपि यह लुईपा केवल उपाधि है या नाम इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। संभव है लुईपा सरह से पहले हुए हों, क्योंकि कुछ आम्नाय ऐसा भी मानते हैं। पुनश्च, सरह के भी विषय में कई तरह के उल्लेख मिलते हैं। उनका नाम राहुलभद्र है। एक राहुल कामरूप के निवासी हैं और शूद्र हैं। दूसरे राहुलभद्र हैं, तीसरे उड़ीसा के एक ब्राह्मण हैं। इनमें से राहुल-भद्र सरहपा कौन हैं, यह नहीं कहा जा सकता।^{२९}

भट्टाचार्य के तिथि निर्णय को स्वीकृत करने में उपरोक्त बाधाएँ तो हैं ही, एक मूल आपत्ति और है। उन्होंने मूल तिथि शान्तिरक्षित के तिब्बत-गमन की तिथि मानी है और उसी पर सारा अनुमान आधारित किया है। किन्तु इस बात के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि स्वतः तिब्बती अनुश्रुतियों ने शान्तिरक्षित नाम के दो आचार्यों की कथाओं को घुलामिल दिया है।³⁰ महायानी परिद्धत तार्किक शान्तिरक्षित और वज्रयानी तन्त्राचार्य शान्तिरक्षित (पद्मसम्भव के सम-कालीन) दोनों ही अलग अलग व्यक्ति थे। 'तत्वरत्नावली' अवश्य महायानी शान्ति-रक्षित की कृति थी किन्तु 'तत्वसिद्धि' के लेखक शान्तिरक्षित सम्भवतः बाद में हुए हैं।³¹ अतः यदि तिब्बत जाने वाले शान्तिरक्षित पद्मसम्भव के समकालीन अतः इन्द्रभूति के समकालीन नहीं हैं तो ऊपर का समस्त अनुमान निराधार सिद्ध होता है।

राहुल जी ने सिद्धों का जो वंशवृक्ष दिया है उसका आधार उन्होंने तिब्बत के सत्य मठ के पाँच प्रधान गुरुओं की ग्रन्थावली स स्क्य बर्क बुम का आधार लिया है। इन गुरुओं का समय (१०६१-१२७६ ई०) माना गया है अतः यह तारानाथ से अधिक प्रमाणिक होगी इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता।³² किन्तु फिर भी जो कारण पहले गिनाये गये हैं उनके आधार पर इसे भी सर्वथा विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

राहुल जी ने उसी ग्रन्थ के आधार पर यह बताया है कि हरिभद्र के शिष्य बुद्धज्ञान सरहपा के सहपाठी थे। ये हरिभद्र शान्तिरक्षित के शिष्य थे। शान्तिरक्षित को राहुल जी ने पूर्वोक्त महायानी शान्तिरक्षित माना है जिनका देहान्त तिब्बत में ८४० ई० में हुआ था। दूसरे स्थल पर उसी ग्रन्थ में हरिभद्र तथा बुद्धज्ञान को महाराज धर्मपाल का समकालीन बताया गया है। धर्मपाल का समय राहुल जी ने ७६६-८०६ ई० माना है। यद्यपि इसका कोई भी प्रमाण नहीं दिया है।³³ हरिभद्र वज्रयानी शान्तिरक्षित के शिष्य तो नहीं थे, इस सम्भावना पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया है।

पुनश्च राहुल जी मैत्रीगुप्त या मैत्रीपा को अवधूतीपा या अद्रयवज्र ही मानते हैं। और यह भी स्वीकार करते हैं कि उनका समय ११वीं शताब्दी था।³⁴ टुची ने सरहपा की तीसरी पीढ़ी में मैत्रीपा का उल्लेख किया है (नेपाल में प्राप्त ताडपत्र-पाखण्डलिपि के आधार पर) तारानाथ भी इसकी साक्षी देता है। वह मैत्रीगुप्त को शबरपा का शिष्य मानता है।³⁵ यदि मैत्रीगुप्त ११वीं शती

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

में थे तो सरहपा और उनके बीच में दो सौ वर्षों का अन्तर नहीं हो सकता है। सरहपा का समय भी अधिक से अधिक १०वीं शती का प्रारम्भ या ९वीं शती का अन्त मानना पड़ेगा। उन्होंने अन्य सिद्धों की जो तिथियाँ दी हैं उनका भी कोई आधार नहीं बताया है।^{३६}

वास्तविक परिस्थिति यह है कि जब तक कि अन्य प्रामाणिक सामग्री प्रकाश में न आये तब तक विभिन्न सिद्धों के कालक्रम का निर्णय कर सकना असम्भव है। इस दिशा में डा० विनयतोष भट्टाचार्य तथा श्री राहुल सांकृत्यायन दोनों ही का आग्रह तर्कसंगत नहीं मालूम होता। अधिक से अधिक हम उन दो तीन शताब्दियों का निर्णय कर सकते हैं जिनमें वज्रयानी सिद्धों की परम्परा चलती रहती है।

इस दृष्टि से डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का मत अधिक वैज्ञानिक मालूम होता है। उन्होंने हेवज़-पंजिका-योग-रत्नमाला की एक पाण्डुलिपि का उल्लेख किया है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि यह राजा गोविन्दपाल के शासन के ३६ वें वर्ष में लिपिबद्ध की गई।^{३७} गोविन्दपाल पालवंश का शासक है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता है। वह मगध के गया जिले का शासक था। उसके शासन काल के विषय में कई मत हैं। श्री बनर्जी का मत है कि उसका राज्य ३६ वर्ष तक चला और उसके राज्य का ३६ वां वर्ष १२०० ई० होता है। अन्य विद्वानों ने यह समय लक्ष्मण सेन का माना है किन्तु 'हेवज़-पंजिका-योग-रत्नमाला' में भी श्री बनर्जी के मत का ही समर्थन होता है।^{३८}

यदि इस प्रतिलिपि के १०० वर्ष पहले भी हम काणहपा और उनके शिष्यों का समय मानें तो ११०० ई० में उनकी और उनकी शिष्य-परम्परा की निम्नतम सीमा निर्धारित होती है। यद्यपि सुनीति बाबू १२०० ई० से ही अन्तिम सीमा निर्धारित करना चाहते हैं। १२ वीं शती में ही गोरख और काणहपा को मानने का विशेष आग्रह वे इसलिये करना चाहते हैं कि महाराष्ट्री गुरु परम्परा में ज्ञानदेव गोरखनाथ की शिष्य परम्परा में चौथे हैं, ज्ञानदेव का समय १२६० है। इस प्रकार मराठी परम्परा के अनुसार ज्ञानदेव और गोरख में अधिक से अधिक १०० वर्ष का अन्तर होना चाहिये। इसी तर्क का आश्रय लेकर वे गोरख को भी १२वीं शती के अन्त में और उनके समकालीन काणहपा को भी लगभग १२०० ई० का मानते हैं।^{३९}

किन्तु तिब्बती परम्परा की ही भाँति महाराष्ट्री परम्परा को भी अत्यन्त

विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। ज्ञानदेव के गुरु निवृत्तिनाथ और निवृत्ति-नाथ के गुरु गहिनी तक तो ऐतिहासिक परम्परा है किन्तु गहिनी के गुरु गोरख नहीं हो सकते। यहां गोरख को गुरु मानने का अर्थ यह है कि गोरख की पद्धति गहिनी द्वारा स्वीकृत की गई। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी भी महाराष्ट्री शिष्य-परम्परा द्वारा गोरख के कालक्रम-निर्णय के प्रयास को अवैज्ञानिक बताते हैं और इस शिष्य-परम्परा को ऐतिहासिक नहीं वरन् सांकेतिक मानते हैं।^{४०}

जालन्धरी भी १२०० से काफी पूर्व थे इसका एक प्रमाण और मिलता है। इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिला है कि नारोपा दीपंकर श्रीज्ञान के गुरु थे। दीपंकर श्रीज्ञान सन् १०४२ ई० में तिब्बत गये।^{४१} अतः नारोपा का समय भी वही मानना चाहिये। नारोपा के पुत्र तिलोपा थे जिन्हें महीपाल का सम-कालीन बताया गया है। महीपाल का शासनकाल १०३० ई० तक था अतः तिलोपा का समय हम ११वीं शती का प्रथम चरण मान सकते हैं। तिलोपा की गुरु परम्परा में विजयपा, गुह्यपा, काण्हपा तथा जालन्धरीपा आते हैं अतः जालन्धरी तथा काण्हपा को हम १०वीं शती के उत्तरार्द्ध में मान सकते हैं। गोरखनाथ भी काण्हपा के समकालीन थे अतः यही समय उनका भी होगा।

गोरखनाथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ थे, और वे भी १०वीं शती के पूर्वार्द्ध या अधिक से अधिक ६वीं शती के अन्तिम चरण में हो सकते हैं। डा० बागची ने कौलज्ञान-निर्णय की एक प्राचीनतम प्रति पाई है जिसका समय उन्होंने ११वीं शती का मध्य निश्चित किया है।^{४२} उसके लेखक मत्स्येन्द्रनाथ हैं और इस दृष्टि से वे लगभग १०० वर्ष पहले अर्थात् १०वीं शती के मध्य में हुए होंगे। अभिनवगुप्त ने अपने तन्त्रालोक में उनको जिस श्रद्धा से स्मरण किया उससे भी वे अभिनवगुप्त से कुछ पहले के ही सिद्ध होते हैं।^{४३} अभिनवगुप्त का समय ११वीं शती माना गया है। इस दृष्टि से विचार करने पर भी उनका समय १०वीं शती सिद्ध होता है। तीसरा प्रमाण उन्होंने चर्पटी के काल-निर्णय के आधार पर दिया है। चर्पटी गोरक्ष के शिष्य थे। चर्पटी का समय टुची ने अत्यन्त सवल प्रमाणां से १०वीं शती सिद्ध किया है।^{४४} अतः गोरक्ष और मत्स्येन्द्र भी उसी समय के होंगे।

अब हम सरह, नागाजुर्न (वज्रयानी नागाजुर्न, शून्यवादी आचार्य नहीं) शबर और लुई की परम्परा पर विचार करें। नागाजुर्न का समय प्रो० टुची ने १०वीं शती माना है। अलवरुनी ने भी अपने यात्रा वृत्तान्तों में नागाजुर्न सिद्ध

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन वृत्त

को अपने से एक शती पूर्व माना है। इस गणना से भी नागार्जुन को १०वीं शती में माना जा सकता है। ४५ नागार्जुन के शिष्य शबर और लुई थे या लुई के शिष्य नागार्जुन और शबर थे इसमें कई सम्प्रदायों के अनुसार कई तिब्बती गुरु परम्पराएँ मिलती हैं। तारानाथ ने सरह के शिष्य नागार्जुन और नागार्जुन के शिष्य शबर, शबर का शिष्य लुई को बताया है। ४६ किन्तु दूसरी तिब्बती परम्परा ऐसी भी मिलती है जिसमें लुई के शिष्य नागार्जुन और नागार्जुन के शिष्य का नाम शबरपा बताया गया है। ४७ अतः हम दोनों परम्पराओं को अस्वीकृत कर अधिक से अधिक इन सबों को समकालीन या उसी शताब्दी का मान सकते हैं और इनका समय ६वीं शताब्दी तक मान सकते हैं।

इस प्रकार मोटे तौर पर हम सरहपा, शबरपा, लुईपा, का समय ६वीं शती का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण मान सकते हैं। मत्स्येन्द्र का समय ६वीं शती का अन्तिम चरण या १०वीं शती का प्रथम चरण निर्णय और गोरख, जालन्धरपा, काराहपा, तिलोपा और नारोपा का समय १०वीं के मध्य से ११वीं शती के अन्त तक माना जा सकता है। इस परिस्थिति में ११वीं शती में मत्स्येन्द्र का तन्त्रालोक में उल्लेख तथा कौलज्ञान-निर्णय की प्रतिलिपि सर्वथा संगत है और हेवज्रपजिका योग रत्नमाला की भी प्रतिलिपि १२०० ई० में हो सकती है। इतना ही नहीं यदि मत्स्येन्द्रनाथ तथा लुईपा को एक ही मान लिया जाय जैसा कि कुछ अनुश्रुतियों में मिलता है तो भी दोनों के समय में विशेष अन्तर नहीं पड़ता। किन्तु लुईपा ही मत्स्येन्द्र थे इसका अभी तक कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है।

किन्तु यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख हो जाना चाहिये कि यह सिद्धों के काल-क्रम की निम्नतम सीमा है। वे इससे भी पहले के हो सकते हैं किन्तु जब तक कि अन्य कोई सबल और वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता तब तक उन्हें और पहले की शतियों में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। डा० शाहिदुल्ला द्वारा निर्णीत मत्स्येन्द्रनाथ का ७वीं शती का समय तो सर्वथा भ्रमात्मक है।

इस कालक्रम का निर्णय कर लेने में एक कठिनाई अवश्य आती है। प्रो० टुची ने यह बताया है कि शान्तिरक्षित की “अभिसमय-मंजरी” में लुईपा का उल्लेख है। ४८ यदि शान्तिरक्षित वही महायानी तार्किक आचार्य है जो तिब्बत गये थे और यह कृति उन्हीं की है तब लुईपा का समय और पहले मानना

पड़ेगा। किन्तु इस दृष्टि से प्रो० टुच्ची ने इसकी परीक्षा नहीं की कि यह कृति कितनी परवर्ती वज्रयानी शान्तिरक्षित की तो नहीं है। क्योंकि उसमें लुईपा का नाम बड़े आदर से लिया गया है जैसे वह लुईपा को आचार्य मानते हों। यह परिस्थिति आचार्य शान्तिरक्षित के साथ तो नहीं हो सकती थी क्योंकि वे स्वतन्त्र माध्यमिक सन्प्रदाय के अनुयायी थे।

दूसरी कठिनाई मैत्रीगुप्त या मैत्रीपा अद्वयवज्र के सम्बन्ध में आती है। अद्वयवज्र लगभग दीपंकर के समकालीन थे किन्तु टुच्ची द्वारा प्राप्त नेपाली पाराडुलिपि में उन्हें शबरपा का शिष्य बताया गया है। शबरपा का समय हमने ६०वाँ शती में माना है जबकि दीपंकर ११वीं शती के मध्य में तिब्बत गये थे। तारानाथ के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि अद्वयवज्र ने लुईपा का आम्नाय ग्रहण किया था और उनसे व्यक्तिगत रूप में दीक्षा लेने की बात बाद में गढ़ ली गई है। तारानाथ के अनुसार मैत्रीगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा तो नारोपा के साथ ही ले ली थी और रत्नाकर शान्ति ने उन्हें शिक्षा दी थी किन्तु उन्हें तन्त्रों पर विश्वास नहीं होता था। उन्होंने आकाशवाणी सुनी और उसके अनुसार वे श्रीपर्वत में सिद्ध शबरी के दर्शन करने गये, जहाँ शबरी ने उन्हें बहुत से चमत्कार दिखाए।

यह कथा विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती और इसका केवल इतना अर्थ लिया जा सकता है कि बाद में उन्होंने शबरी की साधना-पद्धति अपनाई और उनके आम्नाय को स्वीकृत किया।^{४९} इसी प्रकार एक तिब्बती कथा यह भी है कि लुईपा ने दीपंकर श्रीज्ञान को स्वतः 'अभिसमय विभंग' का उपदेश दिया^{५०} किन्तु इसमें ऐतिहासिक तथ्य नहीं वरन् तिब्बती अनुश्रुतियों की कल्पना प्रवणता ही प्रमुखतः प्रतिभासित होती है।

किन्तु इस परम्परा को नवीं शताब्दी तक भी ले जाना कठिन प्रतीत होता है। सरहपा के जीवनवृत्त में यह उल्लेख आता है कि उन्होंने रत्नपाल नामक राजा को वज्रयान में दीक्षित किया था। कामरूप के इतिहास में एक रत्नपाल राजा का उल्लेख आता है जिसने १००० ई० से १०३० ई० तक राज्य किया। यदि यह वही रत्नपाल है तो सरह का समय फिर ६ वीं से १० वीं के अन्त और ११ वीं के प्रारम्भ में अनुमानित करना होगा। किन्तु ये तिब्बती अनुश्रुतियाँ कितनी भ्रमात्मक हैं, इस पर हम विचार कर चुके हैं।

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

काल-परिधियाँ इस प्रकार अन्य प्रामाणिक सामग्री के अभाव में अभी हम जो काल-परिधियाँ अनुमानित कर सकते हैं, वे इस प्रकार हैं :
लगभग ८०० ई० से ८७५ ई० सरहपा, शबरपा, लुईपा तथा उनके समकालीन सिद्ध ।
लगभग ८७५ ई० से ९२५ ई० मत्स्येन्द्र तथा उनके समकालीन मीनपा आदि ।
लगभग ९२५ ई० से १००० ई० गोरख, जालंधरी, काराहपा तथा समकालीन ।
लगभग १००० ई० से ११०० ई० तिलोपा, नारोपा, मैत्रीपा तथा समकालीन ।
किन्तु ये काल परिधियाँ ठीक ही हैं ऐसा कह सकना कठिन है । केवल इनकी निम्नतम सीमाएँ ही कुछ विश्वसनीय हैं ।

इसी प्रसंग में हमें इस प्रश्न पर विचार कर लेना चाहिये कि इन वज्र-यानी सिद्धों में आदि-सिद्ध कौन है । कई परम्पराएँ लुईपा को आदि-सिद्ध मानती हैं और कुछ परम्पराओं में सरहपा को आदि सिद्ध कहा आदि-सिद्ध गया है । राहुल जी ने सरह को आदि सिद्ध बताया और कौन था उसके लिये ऐतिहासिक क्रम में उनकी सर्वप्रथम स्थिति को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है।^{५१} किन्तु यहाँ पर वे एक भ्रम में पड़ गये हैं । सिद्ध परम्परा में कभी भी आदि-सिद्ध ऐतिहासिक कालक्रम से नहीं निश्चित किया जाता था । प्रत्येक सम्प्रदाय अपने आम्नाय के प्रवर्तक को आदि-सिद्ध या आदि-नाथ मानता था और यह सिद्ध करने का प्रयास करता था कि यह सिद्ध दूसरे रूप में, दूसरी काया में उन सभी सिद्धों का गुरु रह चुका है जो इसके ऐतिहासिक दृष्टि से इसके पहले हुए हैं । मीनपा को स्पष्टतः मत्स्येन्द्र का पिता और गुरु माना गया है किन्तु फिर भी प्रमुख नाथ मत्स्येन्द्र ही हैं, मीननाथ नहीं।^{५२} बाद में गोरख के अनुयायियों ने गोरख को आदि-शिव माना और अन्य सब नाथों को उनका अवतार माना । इससे यह सिद्ध होता है कि आदि-सिद्ध ऐतिहासिक कालक्रम नहीं बरन साम्प्रदायिक महत्व से निर्णीत होता था ।

सरहपा के विषय में ऐसे प्रचुर उल्लेख मिलते हैं जो यह बताते हैं कि

सरहपा ने सर्वप्रथम बौद्ध तन्त्रों को एक सुगठित रूप दिया और सम्प्रदाय का सम्यक् प्रवर्तन किया। सरहपा के पहले भी बौद्धों में तांत्रिक प्रवृत्तियाँ विद्यमान थीं किन्तु उनको व्यापक रूप से प्रतिष्ठा नहीं मिली थी। “श्री सरहपा जब अवतरित हुए तब वे सब प्रकाश में आ गईं।”^{५३} तारानाथ ने जो ‘गुरु-परम्परा’ दी है उसमें भी स्पष्ट बताया गया है कि महामुद्रा साधना का पहली बार सरहपा ने ही अभ्यास किया, उसको सिद्धि की और तब अपनी ‘दोहा-वज्रगीतियों’ में इस पद्धति का प्रचार करना प्रारम्भ किया। एक तीसरा अनुमान और लगाया जा सकता है। अर्द्धवज्र ने सरहपा के दोहाकोष की टीका में उनका एक नाम सरोजवज्र भी बताया है। और उनके आम्नाय को सहजाम्नाय कहा है।^{५४} उधर ओडियान की गुरु परम्परा पद्मवज्र से प्रारम्भ होती है। यह पद्मवज्र कौन थे, कहां से आये थे इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। किन्तु इनकी सिद्धि-प्राप्ति की कथा बहुत कुछ सरहपा की सिद्धि-प्राप्ति की कथा से मिलती जुलती है। सहज-सुन्दरी या मुख-ललिता नामक एक नर्तकी राजकन्या ने पद्मवज्र को ज्ञान दिया। भगवान् वज्रपाणि ने उस कन्या को योगिनी बनने का उपदेश दिया था।

सरहपा के दोहों में हमें योगिनी का बार बार उल्लेख मिलता है। वे बार बार योगिनी चार^{५५} योगिनी मार्ग^{५६} तथा योगिनी सहज संवर^{५७} का उल्लेख करते हैं। बहुत सम्भव है कि यह योगिनी मार्ग ओडियान में प्राप्त अनुभव के आधार पर हो। सरहपा का नाम सरोजवज्र भी पद्मवज्र का शब्दशः अनुवाद है। इसके अतिरिक्त ओडियान से सरहपा के सम्बन्ध के और भी प्रमाण मिलते हैं। साधनमाला में त्रैलोक्यवशंकर लोकेश्वर की दो साधनाएँ सरहपा के नाम की मिलती हैं। दोनों ही ओडियान क्रम या ओडियान पद्धति की बताई गई हैं और दोनों ही में वज्रयोगिनी का उल्लेख है।^{५८} दूसरी साधना में तो स्पष्ट उल्लेख है कि यह ओडियान से सरहपा द्वारा अवतरित की गई है। ओडियान के इसी योगिनीमार्ग से उनके सम्बन्ध का एक और अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। शवरपा को अभिनव सरहपा कहा जाता था।^{५९} साधनमाला से ज्ञात होता है कि शवरपा ने वज्रयोगिनी आराधना का प्रवर्तन किया था और अनुमान किया जा सकता है कि इसका प्रथम प्रवर्तन सरहपा ने किया होगा और शवरपा को इसका प्रचार करने के कारण अभिनव सरहपा कहा गया होगा।^{६०} यह साधना ओडियान से सम्बद्ध अवश्य थी क्योंकि वज्रयोगिनी की एक दूसरी साधना में तन्त्र-पीठों में ओडियान की गणना सर्वप्रथम की गई

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन वृत्त

है।^{६१} इन समस्त प्रमाणों से पद्मवज्र सरहपा का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है और ज्ञात यह होता है अनङ्गवज्र तथा इन्द्रभृति वाली शिष्य परम्परा सरहपा की पश्चिमी भारत की शिष्य परम्परा थी और नागार्जुन तथा शवरपा वाली परम्परा पूर्वी और दक्षिणी भारत की। डा० हरप्रसाद शास्त्री ने तो इनका नाम बौद्ध गान ओ दोहा में पद्म तथा पद्मवज्र भी बताया है यद्यपि इसका कोई आधार नहीं दिया है।

किन्तु इस अनुमान में मुख्य बाधा यह पड़ती है कि एक दूसरे स्थान पर पद्मवज्र को मरुप्रदेश में उत्पन्न ब्राह्मण बताया गया है।^{६२} जब कि सरहपा का जन्म उड़ीसा या किसी अन्य पूर्वी प्रान्त में बताया गया है। तिब्बती वृत्तान्तों में बहुत से अन्तर्विरोध भरे हुए हैं अतः किसी भी निर्णय पर पहुँच सकना कठिन है। किन्तु इतना मानने में कोई बाधा नहीं है कि बौद्ध तन्त्रों के प्रवर्तन में सरहपा का बहुत बड़ा महत्व है और चाहे वे कालक्रम में सर्वप्रथम न हों जैसा राहुल जी का आग्रह है किन्तु उन्हें महत्व की दृष्टि से आदि-सिद्ध माना जाता रहा है।

लुईपा की आदिसिद्ध के रूप में प्रतिष्ठा संभवतः बाद में कामरूप के शैव संप्रदायों को प्रतिद्वन्द्विता में हुई है। लुईपा ओडियान के राजा के दरबार में कायस्थ लेखक थे।^{६३} उनके विषय में भी कई कथाएँ मिलती हैं। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म उज्जयिनी में भी बताया है किन्तु यह मत उड्डियान के भ्रम में उज्जयिनी को प्रश्रय देता हुआ प्रतीत होता है।^{६४} पूर्वी भारत कामरूप में बाद में मत्स्येन्द्रनाथ का माहात्म्य जब बहुत बढ़ा और उन्होंने शैव तान्त्रिक साधनाओं का प्रचार किया तब पहले तो तिब्बती आचार्यों ने उन्हें श्रवलोकि-तेश्वर का अवतार मान कर बौद्ध सम्प्रदाय की स्थिति को सम्हाला और बाद में उनकी लुईपा से एकात्मकता स्थापित कर शैव आदि सिद्ध मत्स्येन्द्र की तुलना में लुईपा को आदि सिद्ध मान लिया गया। लुईपा संभवतः मत्स्येन्द्र से कुछ पहले हुये थे क्योंकि मत्स्येन्द्र के पिता मीननाथ बताये गये हैं और मीननाथ बौद्ध थे क्योंकि उनका एक ग्रंथ बोधिचित्त पर मिलता है :—बाह्यान्तर-बोधिचित्त-बन्धोप-देश।^{६५} मीननाथ प्रत्येक बौद्ध परम्परा में लुईपा के बाद आते हैं। तारानाथ ने मीननाथ को सिद्ध कुक्कुटी का शिष्य बताया है और स्पष्ट लिखा है कि सिद्ध कुक्कुटी ने लुईपा का आम्नाय अपनाया था किन्तु वे लुईपा के समकालीन नहीं थे। लुईपा उनसे पूर्व हुए थे और कुक्कुटी उन्हीं का आम्नाय अपनाने के कारण

अपने को उनका शिष्य कहते थे।^{६६} अतः स्पष्ट है कि सिद्ध मीनपा या मीन-नाथ लुईपा के बाद हुए थे अतः मत्स्येन्द्र और लुईपा को एक मानने का कोई भी सबल आधार नहीं मिलता है। केवल नाम-साम्य के आधार पर दोनों को एक सिद्ध करना (लुईपा के अर्थ तिब्बती में मत्स्येन्द्र होते हैं^{६७}) यह आप्रह उचित नहीं है। क्योंकि ये सभी नाम चर्या पर आधारित होते थे और कभी कभी चर्या के आधार पर गुरु का नाम शिष्य भी ग्रहण कर लेता था (शबरपा को नव-सरह कहते थे) अतः यही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि जब मत्स्येन्द्रनाथ नाथ-सिद्धों में प्रथम माने गये तब बौद्धों ने उनकी तुलना में लुई को आदि-सिद्ध मान लिया होगा क्योंकि लुईपा की पद्धति भी मत्स्य से सम्बंधित थी।^{६८} जिस समय स स्वय विहार को ८४ सिद्धों की सूची बनी उस समय लुईपा का आम्नाय अधिक सबल था (१३वीं शती में)^{६९} अतः उसे आदि सिद्ध माना गया किन्तु तारानाथ ने पुराने बौद्ध ग्रंथों का आश्रय लिया था अतः उसमें सरहपा को आदि-सिद्ध माना है।^{७०}

इस प्रकार आदि-सिद्ध की मान्यता पर विचार कर लेने के उपरान्त हम उस सामग्री पर विचार करेंगे जो विभिन्न विद्वानों ने उन सिद्धों के जीवन वृत्त के रूप में प्रस्तुत की हैं, जिनके पद या दोहे पूर्ण या जीवन-वृत्त आंशिक उद्धरणों के रूप में प्राप्य हैं और जिन्हें हमने इस अध्ययन की आधार सामग्री के रूप में स्वीकार किया है। यह सामग्री भोटिया ग्रंथों में प्राप्य है जिनमें दो ग्रन्थ प्रमुख हैं। एक तारानाथ का ग्रन्थ जिसका भोटिया से जर्मन अनुवाद, ग्रुएनवाल्ड ने और ग्रुएनवाल्ड का अंग्रेजी रूपान्तर डा० वी० एन० दत्त ने “मिस्टिक टेल्स आफ लामा तारानाथ” के नाम से किया है। दूसरा ग्रन्थ “चतुराशीतिसिद्ध-प्रवृत्ति” है जिसका उल्लेख कार्दियर के तन्जूर कैटलाग में भी है (८६-१)। इस सामग्री के आधार पर सबसे पहले महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री^{७१} तथा उसके उपरान्त डा० विनयतोष भट्टाचार्य^{७२} श्री एस० के० दे,^{७३} श्री राहुल सांत्कृत्यायन^{७४} तथा श्री परशुराम चतुर्वेदी ने^{७५} इन पदकर्ताओं और दोहाकारों का जीवन वृत्तान्त प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त कौल तथा नाथ सम्प्रदाय पर विचार करते हुए डा० प्रबोधचन्द्र बागची^{७६} तथा डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने^{७७} भी लुईपा, जालन्धरीपा तथा काणहपा आदि के जीवन तथा साधना पर प्रकाश डाला है। उक्त दोनों ग्रंथों के अतिरिक्त जिन गुरु



कण्हपा



कर्णरिपा



कुकरिपा



कंकरापा



मुररिपा



जयानन्त



जलन्धरपा



डोम्बिपा



तन्त्रिपा



तिलोपा



दारिकपा



भद्रपा



भूसुकुपा



मीनपा



लईपा



विरूपा



वीरपा



सरहपा



शबरपा



शान्तिपा

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

परम्पराओं, तिब्बती अनुश्रुतियों, साम्प्रदायिक अनुश्रुतियों तथा अप्रकाशित पाराडु-लिपियों का उपयोग इन विद्वानों ने किया है उनका यथास्थान उल्लेख भी कर दिया है।

दोहा तथा पदकर्ताओं में हम महत्व की दृष्टि से सर्वप्रथम सरहपा | पर विचार करेंगे। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इतने पर्याय नाम बताये हैं : सरोरुहवज्र, सरोजवज्र, पद्म, पद्मवज्र तथा राहुल-सरहपा भद्र।^{१८} इनमें से सरोरुह तथा सरोजवज्र नाम का प्रयोग तो अद्वयवज्र ने सरह के दोहों की टीका में किया है।

सम्भवतः उसी के आधार पर पद्म तथा पद्मवज्र भी सरह के नाम मान लिये गये हैं। सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व उनका नाम राहुलभद्र था और चूँकि सिद्धि में इन्होंने एक बार शर बनाने वाली युवती को महासुद्रा बनाया था अतः इनका चर्या-नाम शरह या सरह हो गया। तारानाथ ने यह संकेत किया है कि राहुलभद्र नाम के कारण इन्हें स्थविर राहुल (स्थविर राहुल स स्वय की सूची में ४७ वें हैं और कामरूप के शूद्र बताये गये हैं, जबकि सरह ब्राह्मण थे) मान लेने का भ्रम हो सकता है।^{१९} शिष्य होने के नाते कभी-कभी शवरपा को भी लघु या नव-सरह कहा जाता था। कार्दियर ने इनकी एक उपाधि महाशवर भी बताई है जो सम्भवतः नव सरह शवरपा की रही होगी।^{२०} लघु सरोरुहवज्र ओडियान की गुरु परम्परा में तीसरे हैं और कहा नहीं जा सकता कि अद्वयवज्र ने उन्हें सरह क्यों कहा है। यदि हम पद्मवज्र और सरह को एक मान लें तो यह असंगति दूर हो जाती है क्योंकि पद्मवज्र को सरोरुहवज्र भी कहते थे और उन्हीं के कारण उनकी शिष्य परम्परा में आने वाले तीसरे आचार्य को लघु या नव सरोरुह कहते थे। किन्तु किसी अधिक ठोस प्रमाण न मिलने तक ऐसा मान सकना कठिन है। सुम्म म्वन पो के अनुसार सरह का जन्म पूर्व भारत में राज्ञी नामक नगरी में ब्राह्मण पिता और डाकिनी के योग से हुआ।^{२१} दूसरी तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार इनका जन्म उड़ीसा में हुआ।^{२२} तारानाथ के अनुसार ये शैशव से ही वेद वेदांगों के ज्ञाता थे, मध्य-देश में जाकर इन्होंने त्रिपिटकों का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और नालन्दा में आकर आचार्य रूप में रहने लगे। उस समय प्राच्य में चन्दनपाल राज्य कर रहा था। उड़ीसा के एक आचार्य से इन्होंने मंत्रयान की दीक्षा

ली और महाराष्ट्र जाकर एक शर बनाने वाले की कन्या के साथ महामुद्रा योग सम्पन्न कर सिद्धि लाभ की।

राजा अपनी असंख्य प्रजाओं के सहित इन्हें देखने आया तो ये बोले कि "मैं ब्राह्मण हूँ पर निम्न वर्ण की कन्या के साथ रहता हूँ, जाति या अजाति, पुण्य या पाप मेरे लिये सब समान हैं।" लोगों ने इन पर सन्देह किया, इनकी निन्दा की किन्तु जब इन्होंने अपने दोहे गायें तो राजा अपनी ५ लाख प्रजाओं के साथ वज्रयान में दीक्षित हो गया।^{८३} इस राजा का नाम रत्नपाल बताया गया है यद्यपि दूसरे स्थल पर तारानाथ इन्हें धर्मपाल का समकालीन बताता है। तारानाथ के वर्णन कितने अविश्वसनीय हैं और पालवंश के विषय में उसका ज्ञान कितना अधूरा है इस पर हम आगे विचार करेंगे।

तंजूर में इनके २१ ग्रन्थ बताये गये हैं जिनमें से १६ ग्रंथ अपभ्रंश से भोटिया में अनुवादित कहे जाते हैं।^{८४} इसके अतिरिक्त संस्कृत में इनके नाम से दो त्रैलोक्यवशंकर की साधनाएँ भी मिलती हैं।^{८५}

शबरपा को तारानाथ ने नव-सरह का नाम भी दिया है वे सरह की शिष्य परम्परा में तीसरे थे। मुम्म म्खन पो के अनुसार वे (भांगल या) बङ्गाल देश के शबर थे।^{८६} किन्तु तारानाथ उन्हें पूर्वी भारत की किसी शबरपा नर्तक जाति का बताते हैं।^{८७} नागार्जुन से दीक्षा लेकर वे श्रीपर्वत में साधना करने चले गये थे। उनकी दो महामुद्राएँ थीं लोकी और गुनी, और वे दोनों के साथ रहते थे। दोनों बहनें थीं और उनका चर्यानाम डाकिनी पद्मावती तथा ज्ञानावती था। तारानाथ के वर्णन से यह भी संकेत मिलता है कि दोनों ही इनकी बहनें थीं और उन्हीं से महामुद्रा साधना कर वाहरूप से शबरपा पापमय जीवन विताते थे।

एक अन्य स्थान पर यह भी उल्लेख मिलता है कि इन्होंने अद्रयवज्र को शिद्धा दी थी जिसके कारण राहुल जी शबरपा नाम के दो सिद्ध मानते हैं।^{८८} किन्तु हम पहले यह सिद्ध कर चुके हैं कि अद्रयवज्र ने शबरपा को केवल काल्पनिक ऐन्द्रजालिक रूप में देखा था, वे उनके समकालीन नहीं थे। शबरपा के १६ ग्रन्थ तंजूर में प्राप्य हैं जिनमें से ६ अपभ्रंश से अनुदित हैं।^{८९} शबरपा की एक साधना भी मिलती है, तथा वज्रयोगिनी साधना के दो प्रवर्तक भी बताये गये हैं।^{९०}

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

लुईपा के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। तंजूर में इन्हें भांगाली कहा गया है जिसके आधार पर म० हरप्रसाद शास्त्री^{९१} तथा डा० विनयतोष भट्टाचार्य^{९२} इन्हें राठु देश निवासी बड़ाली कहते हैं किन्तु लुईपा राहुल जी ने भड़ाला से 'भागलपुर का प्रदेश' का अर्थ लिया है। वे इन्हें मगधवासी कहते हैं तथा राजाधर्मपाल के दरबार में कायस्थ बताते हैं।^{९३} तारानाथ इन्हें धर्मपाल के बजाय इनका ओडियान के राजा इन्द्रभूति के दरबार में कायस्थ होना और नाम समन्तशुभ बताता है।^{९४} सुम्प खन पो के अनुसार ये मछुवे थे^{९५} जबकि सस्क्य व्क बुम् में इन्हें जाति से भी कायस्थ बताया गया है।^{९६} तारानाथ भी इन्हें केवल चर्या में मछुली से सम्बन्धित मानता है। उसके अनुसार शवरीपा से दीक्षा लेकर इन्होंने श्मशान साधना की और वज्रवाराही उपलब्ध की, उसके बाद ये बड़ाल गवे और गंगातट पर मछुलियों का ढेर देख कर मछुलियों का भोजन कर महा-मुद्रा सिद्धि प्राप्त की।^{९७} तारानाथ इन्हें योगिनी-सहचर्या का प्रवर्तक मानता है।^{९८} ये उड़ीसा के राजा दारिकपा के गुरु थे और उनके चर्यापद में लुईपा का नाम भी मिलता है जिसकी ओर संकेत करते हुये म० हरप्रसाद शास्त्री ने दारिक को लुईपा का शिष्य माना है।^{९९}

दारिकपा के विषय में तारानाथ ने यह स्पष्ट लिखा है कि लुईपा की दूसरी शिष्य परम्परा में दारिक तथा अन्तर आते हैं। दारिकपा को तारानाथ ने उड़ीसा का राजा बताया है जो अपने मन्त्री टेंकीपा के साथ दारिकपा लुईपा के शिष्य हो गये थे।^{१००} सस्क्य व्क बुम् से यह भी ज्ञात होता है कि लुईपा ने उड़ीसा आकर इन्हें दीक्षा दी और कुछ दिनों कांचीपुर में एक गणिका की सेवा कर सिद्धि लाभ करने का आदेश दिया। तब इनका नाम दारिकपा हुआ। इनके मन्त्री श्रावण थे किन्तु एक शुण्डनी (कलाली) की टेंकी पर काम करते थे अतः उनका चर्यानाम टेंकीपा हो गया।^{१०१} लुईपा ने इन्हें व्यक्ति गत रूप में दीक्षा दी थी इसमें सन्देह है क्योंकि इनके ग्रन्थों की सूची में कालचक्र पर भी एक ग्रन्थ है जिससे इनका समय बहुत परवर्ती होना चाहिये। इसलिये यही अधिक उचित जान पड़ता है कि इन्होंने लुईपा का आम्नाय ग्रहण किया था अतः वे लुईपा को अपना गुरु मानते थे। इसका समर्थन इस प्रकार भी होता है कि तारानाथ लुईपा की इस

दूसरी शिष्य परम्परा का प्रथम शिष्य तिलोपा को बताते हैं। तिलोपा तथा नारोपा एक परम्परा के थे। नारोपा के समय में कालचक्र-पद्धति स्वीकृत हुई थी जैसा हम वज्रयान के विकास पर विचार करते समय देखेंगे। दारिकपा के १० ग्रन्थों का उल्लेख तंत्र में है १०२ जिनमें से सम्भवतः ३ अष्टांश में थे। १०३

दारिकपा की शिष्या सहजयोगिनी चिन्ता थी जिनके शिष्य डोम्बीपा या डोम्बी हेरुक बताये गये हैं। तारानाथ ने इनकी सिद्धि की एक रोचक कथा दी है। १०४ ये मगध के राजा थे। विरुपा से उपदेश पाकर डोम्बीपा ये महामुद्रा की साधना करने लगे। प्रजा तथा मन्त्रियों ने इन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया। बहुत दिनों बाद इनके राज्य में अकाल पड़ा तब ये अपनी सिंहिनी-रूपिणी शक्ति के साथ, जिसका वाहन याक था, अपने राज्य में वापस आये। प्रजा ने इन्हें पहचाना और इनका शिष्यत्व स्वीकार किया। ये वीणापा के समकालीन थे और दूसरे स्थान पर तारानाथ ने यह भी उल्लेख किया है कि इन्होंने तथा वीणापा ने सहजयोगिनी चिन्ता को दीक्षा दी थी। १०५ इस सम्बन्ध में भी एक कथा है जिसका उल्लेख हम आगे करेंगे। तारानाथ ने नारोपा के भी एक शिष्य को नव आचार्य डोम्बी बताया है। वे चरवाहे थे। १०६ इनके एक अनूदित ग्रंथ “सहज सिद्धि” से यह ज्ञात होता है कि इन्होंने कौलपद्धति का विशेष प्रचार किया था। १०७ इनके जिन ग्रंथों का भोटिया अनुवाद मिलता है उनके अतिरिक्त ग्रन्थ “सहज सिद्धि” भी मिला है जो ओरियण्टल इंस्टीट्यूट में सुरक्षित है। १०८ राहुल जी ने इनका १० वाँ चर्यापद (डोम्बी) बताया है जो वास्तव में काएहपा का है। १०९

आचार्य कम्बलाम्बरपा डोम्बीपा की समकालीन गुरु (अथवा शिष्य ?) सहजयोगिनी चिन्ता के शिष्य वज्रघण्टा के शिष्य थे। तारानाथ इनकी जन्म-भूमि के विषय में दो मतों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि कम्बलाम्बरपा कुछ लोग इन्हें उद्यान और कुछ उड़ीसा का निवासी बताते हैं। ये चक्रसम्बर तन्त्र के अनुयायी थे और इनका कुछ सम्बन्ध तीर्थिक वैष्णवों से भी था। मन्त्रावती नामक एक सिद्धयोगिनी से इनका वैर हो गया और उसने इन पर मारण मन्त्र का प्रयोग किया। इन्होंने एक कम्बल का रूप धारण कर लिया। उसने उस कम्बल का तार-ताग अलग

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

कर दिया और उसकी सखी योगिनियों ने एक एक तार खा लिया। किन्तु ये फिर भी प्रगट हो गये। कहा जाता है कि ये राजपुत्र थे और इन्द्रभूति को भी इन्होंने दीक्षा दी थी। ये इन्द्रभूति कौन से इन्द्रभूति थे इसका उल्लेख तारानाथ ने नहीं किया है। ये जालन्धरपा के गुरु भी बताये गये हैं।^{११०} इनके ११ ग्रन्थों के अनुवाद मिलते हैं जिनमें से ३ ग्रन्थ अपभ्रंश में थे।^{१११}

ऊपर जिन सिद्धों का उल्लेख हो चुका है उनके अतिरिक्त पदकर्ताओं के नाम 'चर्याचर्य विनिश्चय' के क्रम के अनुसरण में इस प्रकार हैं, कुक्कुरीपा, विरुपा, गुराडुरीपा, चाटिल्लपा, भुसुकपा, काणहपा, (कृष्णाचार्य, कृष्णवज्र, कृष्णपाद आदि) शान्तिपा, महीधरपा, वीणापा, आर्यदेव, भादेपा, ताड़कपा, कंकणपा, जयनन्दीपा, धामपा।

कुक्कुरीपा राहुल के अनुसार कपिलवस्तु के ब्राह्मण थे।^{११२} तारानाथ ने इनको मीनपा का गुरु तथा चर्पटी का शिष्य बताया है।^{११३} तारानाथ ने यह भी कहा है कि कुक्कुरी या कुक्कुराचार्य नामक एक दूसरा कुक्कुरीपा आचार्य था जिसने बहुत से कुत्ते पाल रखे थे। सिद्ध कुक्कुरीपा का नाम कुक्कुरीपा इसलिये पड़ा था कि इन्होंने लुम्बिनी वन में एक ऐसी स्त्री से महामुद्रा सिद्धि प्राप्त की थी जो पूर्वजन्म में एक कुक्कुरी थी।^{११४} तंजूर में इनके १६ ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है जिनमें से संभवतः ३ अपभ्रंश में थे।^{११५} यदि वास्तव्ये चर्पटी के शिष्य थे तो इनका समय लगभग १० वीं शताब्दी निश्चित हो चुका है।^{११६} अतः इनका तथा मीनपा और उनके शिष्य हाड़ी (जालन्धर) तथा काणहपा का भी यही समय होना चाहिये।

मीनपा को तारानाथ ने मत्स्येन्द्र का पिता तथा गुरु बताया है और उन्हें कामरूप का मछुवा बताया है। कहा जाता है कि वे एक बार जाल में फँस कर स्वयम् मछली के पेट में चले गये और उसमें कई मीनपा वर्ष रहे। मछली के पेट में ही वे ब्रह्मपुत्र में बहते बहते उमागिरि के निकट पहुँचे जहाँ उमा तथा शिव में तंत्र सम्बन्धी वार्ता हो रही थी। उन्होंने उसे सुनकर तन्त्र के सारे गंभीर रहस्य जान लिये और सिद्धि प्राप्त की। उनके तीन शिष्य हुए, हाली, माली तथा तम्बूली।^{११७} ऐसा ज्ञात होता है कि मीननाथ के समय से ही बौद्ध तथा शैव

तन्त्र साधनाओं में अत्यधिक मिश्रण प्रारम्भ हुआ। इनका मुकाब सम्भवतः शैवों ही की ओर अधिक था। २१ वें चर्यापद की टीका में मुनिदत्त ने इनकी ४ अपभ्रंश पंक्तियाँ उद्धृत की हैं। उन्हें पर-दर्शन से उद्धृत बताया है।^{११८} वैसे इनका एक ग्रन्थ तन्जूर में “बाह्यान्तर-बोधित्त बन्धोपदेश” नाम का प्राप्त होता है। मीनपा सम्बन्धी शैव दन्तकथाओं का उल्लेख वागची ने कौल-ज्ञान निर्णय के प्राक्कथन में किया है।

जालन्धरपा के सम्बन्ध में भी कई कथाएँ मिलती हैं। स स्क्य ब्क बुम् के अनुसार ये नगर भोग नामक देश के ब्राह्मण थे।^{११९} किन्तु तारानाथ ने इन्हें पश्चिम में स्थित सिन्धु देश के ठाठ नगरका निवासी बताया है और शूद्र बताया है। इनका निवास तारानाथ ने ज्वाला-मुली के पास जालन्धर देश बताया है। इनको ओडियान

में साधना करनी पड़ी थी जहाँ कच्छपा ने इन्हें बौद्ध तन्त्रों में दीक्षा दी थी। कुछ दिनों ये नेपाल में भी रहे। पूर्वी बंगाल में इन्होंने हाड़ीपा का रूप ग्रहण किया था और राजा गोविन्दचन्द्र तथा मयनामती की प्रख्यात के कथा के अनुसार ये राजा गोपीचन्द्र द्वारा भूमि खोद कर गाड़ दिये गये थे जहाँ से इनके शिष्य काण्हपा ने इन्हें मुक्त कराया था।^{१२०} राहुल जी द्वारा उद्धृत इनके पद में बौद्ध तन्त्र पद्धति ही का वर्णन है किन्तु शैव पद्धतियाँ भी इन्होंने अवश्य अपनाई होंगी क्योंकि नाथ परम्परा में इन्हें आदिनाथ माना गया है। इनकी शैव तथा तिब्बती कथाओं पर द्विवेदी जी ने विस्तार से विचार किया है।^{१२१} इनके ७ ग्रन्थ तन्जूर में उपलब्ध हैं जिनमें से दो अपभ्रंश में थे।^{१२२} इन्होंने सरोरु-हपाद के हेवन्न-साधन पर एक टीका भी लिखी थी जिसका नाम ‘शुद्धिवन्न-प्रदीप’ है। इनके शिष्यों में कृष्णाचार्य, बुद्धज्ञानपा, तन्तिपा, भर्तृहरि,, गोपीचन्द्र आदि थे जिनमें से कृष्णाचार्य अथवा काण्हपा को प्रमुखतम बताया गया है।^{१२३}

‘चर्याचर्य-विनिश्चय’ में भी काण्हपा के पद सबसे अधिक संख्या में मिलते हैं जिसमें शत होता है कि ये बहुत महान आचार्य हुए हैं। राहुल जी भी इन्हें विद्या और कवित्व में सबसे बड़ा मानते हैं। इनके ८ शिष्य काण्हपा महासिद्ध हुए।^{१२४} स स्क्य ब्क बुम् में इन्हें कर्णाटकवासी ब्राह्मण कहा गया है।^{१२५} तारानाथ कई परम्पराओं का उल्लेख करता है। एक में ये कर्ण देश के निवासी बताये गये हैं, दूसरी में ये

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

उड़ीसावासी कहे गये हैं। कई प्रमाणों के द्वारा तारानाथ ने यह सिद्ध किया है कि उड़ीसा ही इनका जन्म-स्थान था।^{१२६} ये भी शैव सम्प्रदायों के बहुत निकट थे क्योंकि तारानाथ ने इन्हें अन्दर से बौद्ध बताया है किन्तु बाहरी जीवन में शैवों के बहुत निकट थे। इनकी साम्प्रदायिक स्थिति पर बाद में हमने विस्तार में विचार किया है।

इनके कई नाम मिलते हैं, कृष्णाचार्य, काणहपा, कृष्णवज्र आदि। बाद में एक कृष्णपाद भी हुए हैं और सम्भव है इनके तथा उनके पदों में कुछ मिश्रण हो गया हो। तंजूर में इनके ७४ ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें छः अपभ्रंश में थे।^{१२७} इनके एक पद में जालन्धरिपा का नाम भी गुरु रूप में मिलता है।^{१२८} द्विवेदी जी ने इन्हें जुलाहा बताया है किन्तु वास्तव में इनके शिष्य तन्तिपा जुलाहे थे, ये नहीं।^{१२९} स स्वयं व्कं बुम् में काणहपा नाम का कारण यह भी बताया गया है कि इनके कान लम्बे थे।^{१३०} सम्भव है तारानाथ द्वारा उल्लिखित 'कर्ण' देश संबंधी परम्परा का भी इससे कुछ सम्बन्ध हो। 'योगि सम्प्रदायाविष्कृतिः' में इनका जन्म ब्रह्मा के वीर्य का हाथी के कान में स्थित हो जाने के कारण बताया गया है और इनका नाम कारिणापा बताया है।^{१३१} तारानाथ ने एक दूसरे सिद्ध कर्णरीपा का भी उल्लेख किया है जो मेवाड़ के राजा थे।^{१३२} तारानाथ अन्तरपा के एक शिष्य का उल्लेख करते हैं जो नव-कृष्णाचार्य रूप में प्रख्यात था।^{१३३} इनका एक नाम चौपापा या चर्यापा भी मिला है।^{१३४}

इनके शिष्य तन्तिपा थे जिनका पद म० हरप्रसाद शास्त्री वाली पाण्डु-लिपि में से खो गया है किन्तु डा० बागची ने उसका तिब्बती रूपान्तर खोजा है।^{१३५} इस पद से परिचित न होने के कारण राहुल जी ने तन्तिपा टेण्डणपा को ही तन्तिपा मान लिया है जो उचित नहीं।^{१३६} सस्वय-व्कम्-बुम् के अनुसार ये उज्जैन के तन्तुवाय थे। तंजूर में इनके एक ही ग्रन्थ का उल्लेख है "चतुर्वींग भावना"।^{१३७}

काराहपा के शिष्यों में महीपा, भद्रपा तथा धम्मपा भी बताये गये हैं। और तीनों के चर्यापद प्राप्य हैं। इनमें से प्रथम दो माहिल तथा भदली के नाम से भी प्रसिद्ध थे।^{१३८} कुछ लोग भद्रपाद, भदली तथा भद्रपा (?) भद्र को अलग भी मानते हैं।^{१३९} भद्रपाद को गुह्यपा भी

कहते थे। १४० स स्क्व्य ब्कं बुम् में भद्रपा श्रावस्ती का निवासी देवलेखक कुल का बताया गया है। १४१ किन्तु भद्रपा मणिधर देश के ब्राह्मण थे, और उपयुक्त सूची में २४वें थे। ३५वां चर्यापद भद्रपा का है।

१६ वें चर्यापद के लेखक महीधरपा को यदि महीपा या माहिलपा ही माना जाय तो वे सस्क्व्य ब्कम् बुम् के अनुसार मगध के शूद्र सिद्ध थे। तंजूर में इनके बहुत से ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें से “वायुतत्व दोहा महीधरपा गीतिका” सम्भवतः अपभ्रंश में था। १४२ इनके ग्रन्थ नाम महिच्छा, महीन्दा तथा महिच्छा भी मिलते हैं जो लिपिभेद के कारण प्रतीत होते हैं। १४३

४७ वीं चर्या के लेखक धामपा या धर्मपा हैं। म० हरप्रसाद शास्त्री सम्भवतः राम गुर्जरी को गुराडुरी समझ कर इनका दूसरा नाम गुराडुरीपा बताते हैं। १४४ किन्तु यह भ्रम है, जैसा डा० बागची ने तिब्बती धामपा अनुवाद की टिप्पणी में स्पष्ट किया है। १४५ धर्मपा को राहुल ने विक्रमशिला का ब्राह्मण बताया है। १४६ डा० सुकुमार सेन ने इनको चाटिलपा का शिष्य बताया है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया है। १४७ धामपा के ग्रन्थ तंजूर में मिलते हैं जिनमें से सम्भवतः एक ‘सुगत-दृष्टि-गीतिका’ अपभ्रंश में है। १४८

चाटिलपा का नाम तंजूर में नहीं मिलता और न यह नाम वज्रयानी सिद्धों की ही सूची में है। किन्तु नाथ सिद्धों की सूची में इनका नाम ६४ वाँ मिलता है।

गुराडुरीपा को सस्क्व्य ब्कम् बुम् में डिसुनगर का बहेलिया बताया गया है और लीलापा का शिष्य बताया गया है। १४९ लीलापा यदि तारानाथ द्वारा निर्दिष्ट लीलावज्र थे तो मंजु-श्रीज्ञान इनके गुरुभाई थे। १५०

देण्डणपा का नाम तिब्बती उच्चारण में शास्त्री महोदय ने धेतन बताया है किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है। १५१ बागची के उद्धरणों में धेतन नहीं वरन् देण्डणपा मिलता है। १५२ राहुल ने इन्हें देण्डण पा तन्तिपा माना है जिसका खण्डन हम कर चुके हैं। वर्ण रत्नाकर की सूची में देण्डस २७ वाँ नाम मिलता है जो इसी का रूपान्तर मालूम होता है।

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

ताड़कपा का नाम रोनों ही सूचियों में नहीं मिलता अतः राहुल जी का अनुमान है कि यह ताड़कपा वास्तव में नाड़कपा का भिगड़ा हुआ रूप है, ^{१५३} और ताड़कपा के स्थान पर उन्होंने नाड़पा या नारोपा का ताड़कपा विवरण दिया है। किन्तु बागची द्वारा उद्धृत इस चर्यापद के तिब्बती अनुवाद में भी इनका नाम ताड़कपा ही मिलता है नाड़पा नहीं। ^{१५४} यदि वास्तव में यह पद नारोपा का ही होता तो तिब्बती रूपान्तरकार ताड़कपा न लिखते, विशेषतः इसलिये कि तिब्बती परम्परा में नारोपा बहुत प्रख्यात थे, दीपंकर श्रीज्ञान के गुरु थे। कई बार इनके लिये तिब्बत से आमन्त्रण आया था और प्रख्यात मस्व नामक तिब्बती दुभाषिया इनका शिष्य था। इन्हीं कारणों से इन्हें नारोपा मानना उचित नहीं। ताड़कपा के विषय में और कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

जयनन्दीपा का नाम तंजूर में नहीं मिलता है किन्तु यदि ये वज्रयानी सिद्धों की सूची में परिगणित पूर्व सिद्ध जयानन्त थे तो जयनन्दीपा मगधवासी ब्राह्मण रहे होंगे। ^{१५५}

कंकणपा का उल्लेख तंजूर में कोकदत्त के रूप में है और इनका दूसरा नाम कंकणपा या कोंकणपा भी बताया गया है। ^{१५६} नाम से ये कोंकण देशवासी प्रतीत होते हैं किन्तु सस्य विहार की सूची में इन्हें कंकणपा विष्णुनगर (मगध) का राजपुत्र बताया गया है। ^{१५७} शास्त्री महोदय ने इन्हें कम्बलपा का शिष्य बताया है किन्तु डा० भट्टाचार्य ने संकेत किया है कि कम्बलपा के शिष्य सम्भवतः दूसरे कंकणपा थे। ^{१५८}

शास्त्री महोदय के अनुसार आर्यदेव का चर्यानाम कर्णरीपा था और उन्हीं को वैरागीनाथ भी कहते थे। ^{१५९} सास्य सूची के अनुसार इन्हें नालन्दावासी बताया गया है ^{१६०} तथा तारानाथ ने इन्हें नागार्जुन का कर्णरीपा शिष्य बताया है। ^{१६१} किन्तु तारानाथ आर्यदेव तथा कर्णरीपा का अलग अलग उल्लेख करता है और कर्णरीपा को मेवाड़ का राजा बताता है, जो पिंगला नामक अति सुन्दरी रानी का पति था और बाद में वैरागीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ^{१६२} 'योगि सम्प्रदायाविष्कृतिः' में सिद्ध करणारि के भ्रमण वृत्तान्त का विस्तृत उल्लेख है और यह भी उल्लेख

है कि दक्षिण में इन्हें सिद्ध कनेरी के नाम से याद किया जाता है।^{१६३} तंजूर में उल्लिखित इनकी कृति 'कानेरी गीतिका' से तो ये दक्षिण में प्रख्यात सिद्ध कनेरी ही ज्ञात होते हैं, आर्यदेव नाम के कई वज्रयानी साधक हो गये हैं जिनमें से एक की कृति "चित्त विशुद्धि प्रकरण" भी उपलब्ध है। उसके सम्पादक ने उसके रचयिता के सम्बन्ध में विचार करते समय कई आर्यदेवों का उल्लेख किया है।^{१६४} किसी सबल प्रमाण के अभाव में इनकी ठीक ठीक पहचान नहीं हो सकती।

वीणापा डोम्बी हेरुक के समकालीन थे जैसा तारानाथ की कथाओं से ज्ञात होता है। वे आचार्य अश्वपाद के शिष्य बताये गये हैं।^{१६५} शास्त्री महोदय उन्हें विरुपा का शिष्य बताते हैं।^{१६६} राहुल जी ने वीणापा उन्हें ब्राह्मण सिद्ध भद्रपा का शिष्य बताया है।^{१६७} ये गौड़ देश के क्षत्रिय थे और वीणा बजाकर अपने पदों को गाया करते थे। उनके चर्यापद में भी वीणा का ही रूपक है और हेरुक पद्धति को मान्यता दी गई है।

विरुपा नाम के कई सिद्ध थे जैसा तारानाथ ने उल्लेख किया है। तारानाथ के ग्रन्थ के एक पूरे अध्याय में विरुपा के विभिन्न अवतारों तथा चमत्कारों का वर्णन मिलता है। उसके विस्तार में जाना अनावश्यक है।
विरुपा इनके तीन नाम विरुपा, कालविरूप और धर्मपाल भी थे और ये नालन्दा, ओडियान तथा चीन में भी प्रगट हुए थे।^{१६८} साधनमाला में इनके नाम से एक साधना मिली है जिसमें विरुपाद् नाम मिलता है।^{१६९} स स्क्य विहार की सूची में ये त्रिपुर (त्रिपुरा) के निवासी बताये गये हैं।^{१७०} तंजूर में इनके १३ ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें से सम्भवतः ८ अपभ्रंश में थे। किन्तु ये सब ग्रन्थ किसी एक विरुपा के हैं या विभिन्न व्यक्तियों के, यह नहीं कहा जा सकता।^{१७१} तारा-रहस्य नामक ग्रन्थ में नाथपन्थी मानव गुरुओं में भी इनकी गणना है।^{१७२}

भुसुकुपा तथा शान्तिपा को कुछ विद्वानों ने एक ही माना है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि इनका दूसरा नाम शान्तिदेव था। किन्तु शान्तिपा वास्तव में रत्नाकर शान्ति थे, बोधिचर्यावतार आदि के लेखक **भुसुकुपा** शान्तिदेव नहीं। भुसुकुपा बोधिचर्यावतार के ही लेखक थे

दोहाकारों तथा पदकर्ताओं का काल-क्रम और जीवन-वृत्त

या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। म० हरप्रसाद शास्त्री तो उन्हें ही शास्त्री 'शिक्षा-समुच्चय' तथा 'बोधिचर्यावतार' का लेखक मानते हैं। १७३ महोदय ने एक १४ वीं शती की हस्तलिखित पाण्डुलिपि के आधार पर उनका जीवन-वृत्त दिया है जिसके विस्तार में जाना अनावश्यक है। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने उनके जीवन-वृत्त का समुचित परीक्षण किया है और वे भी इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि भुसुकुपा शान्तिदेव ही थे। १७४ राहुल भी इसी मत का प्रतिपादन करते हैं। १७५ 'शिक्षा समुच्चय' के सम्पादक वेंडेल भी इसका विरोध नहीं करते। १७६ जाति से भुसुकुपा क्षत्रिय थे इतना तो सख्य सूची तथा तारानाथ दोनों ही मानते हैं किंतु जन्मभूमि के विषय में दोनों में मतभेद है। राहुल ने इन्हें मगध का निवासी बताया है। १७७ और तारानाथ ने सौराष्ट्र १७८ या महाराष्ट्र १७९ का। म० हरप्रसाद शास्त्री १८० इनके पदों की साक्षी पर बंगाली मानते हैं किन्तु डा० बागची के अनुसार इनके पदों में बंगालियों पर एक स्थान पर व्यंग्य है। १८१ जाति से वे राजपूत थे इतना तो स्वतः उनके चर्यापद में मिलता है जहाँ उन्होंने अपने को "भुसुकु राउत" कहा है। १८२ देश के विषय में यह कहा जा सकता है कि सम्भवतः उनका जन्म दक्षिण में ही हुआ था किन्तु उनका समय पूर्वी देशों में बीता और वे अराकान तक गये जिसे तारानाथ भी स्वीकार करता है। १८३ किन्तु यह उल्लेखनीय है कि तारानाथ ने बराबर इनके लिये महासिद्ध शान्तिगुप्त नाम का प्रयोग किया है, शान्तिदेव नहीं। श्री दे ने इसी आधार पर इन्हें भुसुकुपा से अलग माना है किन्तु तारानाथ के वर्णन से ये शान्तिगुप्त बहुत प्राचीन नहीं मालूम पड़ते जैसा श्री दे का अनुमान है। १८४

शान्तिपा प्रख्यात रत्नाकर शान्ति थे जो विक्रम के पश्चिमी द्वार के अधिष्ठाता थे। तारानाथ के अनुसार ये नारोपा के शिष्य थे और दीपंकर श्रीज्ञान तथा अद्रय वज्र (अवधूतीपा, मैत्रीगुप्त) के गुरु थे। ये मगध के शान्तिपा ब्राह्मण थे। तारानाथ के अनुसार कुछ लोग इन्हें क्षत्रिय भी बताते हैं। ये उडन्तपुरी, सोमपुरी, मालवा, सिंहल आदि का पर्यटन कर वेद, वेदांग त्रिपिटक आदि के प्रख्यात विद्वान् हो गये थे। सिंहल से लौट कर जब वे वज्रासन बोधगया आये तब राजा महीपाल या उसके सम्बन्धी चाणक्य ने उन्हें विक्रमशिला के पूर्वी द्वार का आचार्य नियुक्त किया। अपने

समय के वे महान परिडित थे और कलिकाल-सर्वज्ञ कहे जाते थे । १८५

तिल्लोपा रत्नाकर शान्ति के गुरु नारोपा के गुरु थे । एक दूसरी परम्परा के अनुसार ये पद्मवज्र के शिष्य भी बताए गये हैं जो सम्भवतः पद्मवज्र के आम्नाय के अनुसरण का ही संकेत करता है । १८६ कई स्थानों तिलोपा पर इन्हें लुईपा का वंशधर, इन्द्रभूति का शिष्य तथा विजयपा का शिष्य माना गया है और यह भी अनुमान किया गया है कि विजयपा इन्द्रभूति का ही दूसरा नाम है । १८७ स स्क्य के अनुसार इनको राजवंशी बताया गया है और इनका मूल नाम प्रज्ञाभद्र था, किन्तु सिद्ध-चर्या में ये तिल कूटा करते थे । १८८ तारानाथ का कहना है कि ये ब्राह्मण थे और पूर्वी भारत में पैदा हुए थे । बौद्धमत में आकर ये भिक्षु हो गये किन्तु अपने क्षेत्र को एक तेलिन, योगिनी से समागम कर इन्होंने सिद्धि लाभ की । उन्हें संघ से निकाल दिया गया । अन्त में इन्हें सहज विद्या की अनुभूति हुई । १८९ कुछ विद्वानों ने यह भी बताया है कि इनका यवनों से घोर विरोध था किन्तु उसका कोई प्रमाण नहीं दिया है । १९०

जिन सिद्धों की कुछ भी अपभ्रंश रचनाएँ वज्रयानी दोहों या चर्यापदों के रूप में उपलब्ध हैं उनके जीवन-वृत्त के विषय में उल्लेखनीय तथ्य इतने ही हैं । इसके अतिरिक्त शैव सम्प्रदाय के ग्रन्थों तथा विभिन्न अनुश्रुति-परम्पराओं में इनके जीवन की जो विभिन्न गाथाएँ मिलती हैं उनमें ऐतिहासिक दृष्टि से उल्लेखनीय तथ्य लगभग नहीं के बराबर हैं ।

ग
साधना-केन्द्र तथा
राज्याश्रय

इन सिद्धों की साधना के कुछ विशिष्ट केन्द्र देश के विभिन्न भागों में थे जिनका अतुल महात्म्य तान्त्रिक परम्परा में माना गया है। ऐसे केन्द्रों को सिद्धपीठ कहा गया है। इन पीठों के अतिरिक्त उपपीठ, क्षेत्र तथा सिद्धपीठ सन्दोह भी बताये गये हैं जो साधना के गौण केन्द्र थे। इन सिद्धपीठों की संख्या तथा नामों में कुछ मत भेद है। बागची ने दो परम्पराओं का उल्लेख किया है। एक के अनुसार जालन्धर, ओडियान, अर्बुद तथा पूर्णगिरि और दूसरी के अनुसार जालन्धर, ओडियान, कामरूप तथा पूर्णगिरि ये ४ प्रमुख सिद्धपीठ माने गये हैं।^१ साधनमाला में ओडियान, पूर्णगिरि, कामाख्या और श्रीहट्ट इन चार पीठों का उल्लेख मिलता है।^२ तान्त्रिक साधना पद्धति में इन पीठों की स्थिति शरीर के अन्दर भी परिकल्पित की गई थी और उसी प्रसंग में चर्यापदों में इमें ओडियान तथा कामरूप का उल्लेख मिलता है।^३ इससे ज्ञात होता है कि इनके साधना केन्द्रों में ओडियान तथा कामरूप का विशेष महात्म्य था और जालन्धर, पूर्णगिरि, अर्बुद तथा श्रीहट्ट का गौण महत्व था क्योंकि पहले दोनों पीठों को महासुख-चक्र माना गया है।^४

विद्वानों के मतानुसार श्रीहट्ट, आसाम का वर्तमान सिलहट्ट है तथा अर्बुद आबू पर्वत का पुराना नाम है। पूर्णगिरि के विषय में दो अनुमान हैं। कुछ लोग उसे महाराष्ट्र का पूना मानते हैं और एक मत यह है कि यह आसाम प्रान्त में स्थित पुण्यतीर्थ का ही पुराना नाम है।^५ पूना भी तान्त्रिक परम्परा से

सम्बद्ध रहा है इसके कई प्रमाण मिलते हैं। सरहपा ने महामुद्रा की साधना महाराष्ट्र में ही सम्पन्न की थी अतः महाराष्ट्र में पहले ही से तान्त्रिक परम्परा के अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है।^९ नाथ सम्प्रदाय की परम्परा भी पूने से सम्बद्ध थी और गोरख के शिष्य सक्करनाथ ने अपना केन्द्र पूने में स्थापित किया था^{१०} अतः पूना तथा महाराष्ट्र तान्त्रिक और योग साधनाओं के केन्द्र रहे हैं।

जालन्धर निस्सन्देह पंजाब में स्थित था क्योंकि तिब्बती अनुश्रुतियों में उसका जैसा उल्लेख है वह स्पष्ट आधुनिक जालन्धर के निकट ही उसकी स्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करता है। वह महान सिद्ध जालन्धरपा की साधना का केन्द्र-स्थल था। जालन्धर सिन्धु प्रदेश के निवासी थे। उन्होंने ओडियान में जाकर महाराजा इन्द्रभूति की साधना पद्धति अपना कर हेरुक की साधना की थी और फिर आकर जालन्धर में बस गये थे। उसका वर्णन करते हुए तारानाथ कहता है कि जालन्धर देश में पर्वतों तथा झरनों से ज्वाला निकलती है। आज भी कांगड़ा में ज्वालामुखी है और वहाँ इसी नाम की तान्त्रिक देवी भी हैं। ओडियान भी वैसा हम आगे देखेंगे स्वात घाटी में स्थित एक तन्त्र-प्रधान प्रान्त था। जालन्धर प्रदेश में ही बसने के कारण उनका नाम जालन्धरपा पड़ गया था।^६ नाथ सम्प्रदाय के बारह पंथों में से तीन पंथों के केन्द्र अत्रोहर, गुरुदासपुर तथा मेलम में अब भी पाये जाते हैं। मेलम प्रान्त में गोरख-टीला योगियों का केन्द्र है। अतः वह क्षेत्र भी तान्त्रिकों तथा योगियों का केन्द्र रहा है।^९

कामाख्या या कामरूप बहुत प्राचीन काल से तन्त्र साधनाओं का केन्द्र रहा है। परिणामस्वरूप समस्त भारत की जनश्रुतियों में कामरूप कामाच्छा का जादू भयंकर माना गया है। कामरूप आसाम में गौहाटी के निकट ही स्थित है। युवान च्वांग के यात्रा विवरण से पता चलता है कि कामरूप में बौद्ध तन्त्रों का प्रभाव कुछ बाद में पड़ा है। ७वीं शती में वहाँ के लोग व्यापक रूप से बौद्ध धर्म से अपरिचित थे। वे देवों की पूजा करते थे। कुछ बौद्ध थे किन्तु वे राजभय से गुह्यसाधनाएँ ही करते थे। शालस्तभी वंश के राजा (७००-१००० ई०) बौद्ध धर्म को बहुत पसन्द नहीं करते थे। उनके उपास्य भगवान कामेश्वर तथा महा-गौरी थे।^{१०} उनके भी पहले मौर्य राजाओं के बौद्ध होने के कारण बहुत से ब्राह्मण मध्यदेश से आसाम में आकर बस गये थे और इसी कारण आसाम की भाषा पर भी मध्यदेश का प्रभाव अधिक था। युवान च्वांग ने भी इसकी साक्षी

साधना-केन्द्र तथा राज्याश्रय

दी है।^{११} कामाख्या तथा कामरूप में निस्सन्देह शैव प्रभाव अधिक था और जैसा हम आगे चलकर देखेंगे कि कामरूप वह प्रमुख केन्द्र था जहाँ शैव तथा बौद्ध साधनायें बहुत निकट आईं और बौद्ध तन्त्रों ने प्रचुर मात्रा में शैव प्रभाव ग्रहण किया।

शैव केन्द्र होते हुए भी बहुत से बौद्ध साधकों ने प्रच्छन्न वेश में वहाँ जाकर तन्त्रों के रहस्यों की शिक्षा ली। तारानाथ ने कुसलीभद्र नामक बौद्ध तन्त्राचार्य की कथा लिखी है जो मेवाड़ के रहने वाले थे। तीर्थियों से निराश होकर वे गया में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए तथा ब्राह्मण का वेश बनाकर कामरूप गये। वहाँ उन्होंने सभी गुह्य विद्याएँ सीख लीं और वहाँ के किसी कर्ण नामक राजा ने तीर्थियों और बौद्धभिक्षुकों का विवाद कराया तो उन्होंने कामरूप को गुह्य विद्या के साथ साथ बौद्ध धरणियों का प्रयोग कर अत्रैद्धों को परास्त कर दिया। उसके बाद कामरूप देश में बौद्धों का प्रभाव बढ़ने लगा।^{१२} बाद में मीननाथ (?) मत्स्येन्द्रनाथ (?) अथवा लुईपा (?) भी कामरूप में साधना करते रहे, मही-धरपा तथा दारिकपा भी कामरूप के ही बताये गये हैं। गौहाटी के पास ६ वीं शती तक की बौद्ध मृगमूर्तियाँ तथा प्रस्तर मूर्तियाँ पाई गई हैं।^{१३}

अन्तिम तथा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धपीठ ओडियान था जिसकी भौगोलिक स्थिति के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद है। ओडियान का उल्लेख चौथे चर्यापद में तो है ही, सरहपा का भी सम्बंध ओडियान से था, इसका संकेत त्रैलोक्यवशंकर लोकेश्वर की साधना में मिलता है जहाँ इस साधना का प्रवर्तक सरहपा को बताया गया है और इसकी गणना ओडियान क्रम में की गई है।^{१४} वज्रयान तथा तान्त्रिक साधनाओं का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध ओडियान से रहा है।^{१५} ओडियान के राजा इन्द्रभूतिपाद तथा उनकी बहन लक्ष्मीकरा वज्रयान के प्रख्यात आचार्यों में से थे।^{१६} आगे इनके सिद्धान्तों तथा कृतियों का उल्लेख किया गया है। तिब्बती अनुश्रुतियों में लुईपा को उद्दान (ओडियान) के राजा का कायस्थ बताया गया है।^{१७} मरुप्रदेश के आचार्य महापद्मवज्र ने भी ओडियान में जाकर महासिद्धि लाभ की थी।^{१८} इनके अतिरिक्त अश्वपाद, वज्रघण्टा कम्बलाम्बरपाद, बुद्ध-श्रीज्ञान, बुद्ध-श्री शान्ति ललितवज्र तथा शान्तिगुप्त आदि बौद्ध तन्त्राचार्यों ने या तो ओडियान में जाकर साधना की थी या वहाँ से बहुत-तु गुह्य तन्त्र और अनुष्ठान लाये थे और पूर्वी देशों में उनका प्रचार किया था।^{१९} इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ओडियान सिद्धों की साधनाओं का प्रमुख केन्द्र रहा।

साधना-केन्द्र तथा राज्याश्रय

भाग माने गये हैं, एक शम्भल तथा दूसरा लंकापुरी। शम्भल का राजा इन्द्र-भूति था और लंकापुरी का जलेन्द्र। जलेन्द्र के पुत्र से लक्ष्मीकंरा का विवाह हुआ था।^{२८} बौद्ध तन्त्रों में शम्भल प्रदेश को सीता नदी के तट पर माना गया है^{२९} और तन्त्रों का प्रथम उपदेश भी वहीं माना गया है।

इन पीठों के अतिरिक्त कहीं कहीं श्रीपर्वत को वज्रयानी साधनाओं का केन्द्र बताया गया है। यह श्रीपर्वत दक्षिण में था और तारानाथ के अनुसार नागार्जुन ने वहाँ साधनाएँ की थीं।^{३०} 'मालती माधव' में भी श्रीशैल को बौद्ध कापालिक साधनाओं का केन्द्र माना गया है। तिब्बत तथा चीन से तो इन सिद्धों का विशेष सम्बन्ध था ही जिस पर बाद में विचार करेंगे।^{३१}

इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यद्यपि इन सिद्धों का मुख्य केन्द्र पूर्वी भारत में था किन्तु इनके साधना-स्थल समस्त भारत में फैले हुए थे। एक बात विशेष उल्लेखनीय है। मध्य देश में इनके किसी प्रमुख साधना-केन्द्र का उल्लेख नहीं मिलता है। अधिकांश तन्त्रपीठ उन प्रान्तों में हैं जो बहिरङ्ग प्रदेश माने जाते हैं और पूर्वागत आर्य जातियों के निवास-स्थल हैं। महाराष्ट्र, उत्तर-पश्चिमी-भारत, बङ्गाल, आसाम, उड़ोसा आदि सभी प्रदेश बहिरङ्ग प्रदेश-हैं। यह तथ्य हमें ध्यान में रखना चाहिये क्योंकि तन्त्रों के विकास तथा ब्राह्मणों और बहिरङ्ग आर्यों, अनार्य अनुष्ठानों और अथर्ववेद का बड़ा निकट सम्पर्क है जैसा हम आगे चल कर देखेंगे।

इन पीठों के बाद हम नालन्दा तथा विक्रमशिला पर भी थोड़ा विचार कर लें क्योंकि ये दोनों विद्यापीठ बौद्ध शिक्षा और तन्त्रों के विकास से बहुत सम्बन्धित रहे हैं। सरहपा, नागार्जुन, मैत्रीगुप्त, विरूपा आदि कितने ही सिद्धाचार्य नालन्दा के आचार्य रहे हैं।^{३२} नालन्दा के विषय में बहुत खोज हो चुकी है और हमें उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह गौतम तथा महावीर के पहले से विद्या का प्रख्यात केन्द्र था। धर्मपाल, देवपाल आदि पालवंशी राजाओं ने इसको सदैव सहायता दी थी। बख्तियार खिलजी ने इसका विनाश किया और बहुत से बौद्ध भिक्षु तिब्बत भाग गये। इसके खण्डहर बिहार प्रान्त में बिहार शरीफ के निकट पाये गये हैं।^{३३}

नालन्दा विश्वविद्यालय में संभवतः प्रारम्भिक काल में रूढ़िवादी पारमितालय का विशेष प्रभाव था और तान्त्रिक पद्धतियों को स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। सरहपा तथा विरूपा के नालन्दा छोड़ने का भी यही कारण बताया जाता है

किन्तु बाद में नारोपा के समय में नालन्दा में न केवल गुह्य पद्धतियों और सहज पद्धति का प्रचार हो गया था, वरन कालचक्र-पद्धति भी नालन्दा में स्वीकृत हो गई थी।^{3४}

विक्रमशील या विक्रमशिला विहार पाल राजाओं ने ही स्थापित किया था और तन्त्रों की शिक्षा और प्रचार विक्रमशील में अधिक हुआ है। विक्रमशील की स्थापना धर्मपाल ने की थी।^{3५} मगध में पर्वत शिखर पर यह विहार था जिसमें एक केन्द्रीय तथा १०० मन्दिर चतुर्दिक् थे और उसमें ११४ आचार्य विभिन्न पद्धतियों की शिक्षा देते थे।^{3६} नेपाली दन्तकथाओं में विक्रमशील को काशी के निकट बताया गया है।^{3७} किन्तु अनुमान यह किया गया है कि विक्रमशील भागलपुर के निकट पाथरघाटा नामक स्थान में था किन्तु अभी इसका निर्याय नहीं हो पाया है।^{3८} कालान्तर में विक्रमशील विहार नालन्दा से भी श्रेष्ठतर हो गया था। दीपङ्कर श्रीज्ञान विक्रमशील विहार के ही छात्र थे। बौद्ध तन्त्रों के तिब्बती अनुवाद का बहुत सा कार्य यहीं सम्पन्न हुआ था।^{3९} विक्रमशील के अतिरिक्त सोमपुरी, उदन्तपुरी या ओडन्तपुरी के जीर्णोद्धार, जगदल आदि विहारों की स्थापना का भी उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि बाद में बौद्ध तन्त्रों का प्रमुख केन्द्र पूर्वी भारत हो गया था। किमूरा ने भी तन्त्रयान का उद्भव अयोध्या में माना है क्योंकि असङ्ग अयोध्या के थे। कुमारगुप्त की माता ने योगाचार को प्रश्रय दिया था और उधर से यह तान्त्रिक बौद्ध धर्म पूर्वी भारत की ओर फैलने लगा। गुप्त वंश के शक्रादित्य तथा बुद्धगुप्त के समय ही नालन्दा बौद्ध धर्म का केन्द्र हो गया था और पालवंशी राजा महीपाल के समय तक रहा। उसके बाद विक्रमशील की ख्याति बढ़ी और १० वीं से १२ वीं शती तक विक्रमशील बौद्ध तन्त्रों का केन्द्र रहा।^{४०} इस बीच में राज्याश्रय तथा राजधर्म ने सिद्धों की परम्परा तथा बौद्ध तन्त्रों के उद्भव प्रचार तथा हास को विशेषतया प्रभावित किया है अतः पूर्वी भारत की राजनीतिक परिस्थिति पर दृष्टि डालते हुये बौद्ध धर्मावलम्बी पालवंश का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है जिसने सिद्धों को राज्याश्रय प्रदान किया था।

सिद्धों की समकालीन राजनीतिक परिस्थिति को भली भाँति समझने के लिए हर्ष और शशांक की प्रतिद्वंद्विता का थोड़ा सा इतिहास जान लेना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए नहीं कि वह एक पूर्वीय तथा एक मध्यदेशीय सम्राट की प्रतिद्वंद्विता थी वरन् इसलिये कि उस प्रतिद्वंद्विता के मूल में शैव और बौद्ध

साधना-केन्द्र तथा राज्याश्रय

प्रतिद्वंद्विता भी थी। महाराजा हर्ष के समकक्ष प्रतिद्वंद्वियों में गौड़ देश के राजा शशांक का नाम सर्वप्रथम आता है और लगभग सभी इतिहासकार इस विषय में सहमत हैं कि शशांक का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास में अद्भुत है।

शशांक के प्रारम्भिक जीवन के विषय में अधिक नहीं ज्ञात होता। पहले वह सम्भवतः महासामन्त था किन्तु ६०६ ई० के कुछ पूर्व वह सम्राट पद पर आसीन हो चुका था और बंगाल, उड़ीसा तथा मगध उसकी आधीनता में थे।^{४१} कुछ प्रमाण ऐसे भी मिले हैं कि उसका साम्राज्य पश्चिम में काशी तक फैला हुआ था।^{४२} शशांक की मुख्य चिन्ता यह थी कि वह कन्नौज के मौखरी शासकों से अपने राज्य की रक्षा करे। मौखरी शासक ग्रहवर्मन ने हर्ष की बहन राज्यश्री से विवाह कर थानेश्वर से भी निकट का सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। उस समय थानेश्वर में हर्ष के पिता की मृत्यु के उपरान्त उनके बड़े भाई राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठे थे।^{४३}

शशांक ने मालवा के शासक देवगुप्त से सन्धि की और जब प्रभाकरवर्द्धन अस्वस्थ थे उसी समय देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर ग्रहवर्मन की हत्या कर डाली और राज्यश्री को कैद कर लिया। यह समाचार थानेश्वर तक पहुँचा जब प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के उपरान्त राज्यवर्द्धन ने शासन सूत्र ग्रहण किया था। राज्यवर्द्धन, हर्ष को शासन प्रबन्ध सौंप कर स्वतः देवगुप्त से प्रतिशोध लेने चला किन्तु शशांक ने उसे धोखा देकर मार डाला।^{४४}

यहीं से शशांक और हर्ष की कटुतम शत्रुता का सूत्रपात होता है। हर्ष एक विशाल सेना लेकर शशांक को पराजित करने चला। राह में उसे कामरूप के शैव राजा भास्करवर्मन का दूत मिला। भास्करवर्मन से हर्ष से सन्धि हुई और सम्भवतः दोनों ने मिल कर शशांक को पराजित किया। किन्तु यह विजय चिर-स्थायी नहीं रही क्योंकि स्वतः हैनसांग की सत्ता के अनुसार अपनी मृत्यु के समय शशांक मगध तथा गौड़ का शासक था। उसकी मृत्यु ६३७ या ६३८ ई० के लगभग हुई।^{४५}

शशांक बौद्धों का कट्टर शत्रु था। उसने कुशीनगर में बौद्धों का एक बिहार नष्ट कर दिया था। बुद्ध के पदचिन्हों वाला एक पत्थर गंगा में फेंकवा दिया था, बोधिवृक्ष की शाखाएं काट डाली थीं और बुद्ध-प्रतिमा को नष्ट कर शिव-प्रतिमा की स्थापना करनी चाही थी।^{४६} इस प्रकार शशांक ने बौद्धों पर बहुत अत्याचार किये थे।

साधना-केन्द्र तथा राज्याश्रय

पर यह घटना अंकित कराई गई। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि मत्स्य-न्याय को समाप्त करने के लिये श्रीगोपाल 'प्रकृतियों' द्वारा शासक चुना गया। प्रकृतियों का अर्थ कुछ विद्वान राज्यकर्मचारी भी लेते हैं किन्तु अब यह सिद्ध किया जा चुका है कि इसका अर्थ यहाँ जनता ही है।^{५३} गोपाल वप्पट नामक किसी शूरवीर योद्धा का पुत्र था।

गोपाल की जाति के विषय में काफी मतभेद है। तारानाथ ने उसे क्षत्रिय बताया है। कुछ प्राचीन उल्लेख उसे सूर्यकुल अथवा समुद्र वंश से उद्भूत बताते हैं, किन्तु यह बाद की कथाएँ जान हड़ती हैं।^{५४} मंजुश्री-मूल-कल्प में गोपाल की जाति का स्पष्ट उल्लेख है और उसे 'दास जीविनः' बताया गया है।^{५५} किन्तु यह पालवंश का ही गोपाल है इसमें सन्देह है क्योंकि उसी ग्रन्थ में गोपाल के राज्य में बौद्ध धर्म का विनाश बताया गया है। अबुल फ़ज्जल ने गोपाल को कायस्थ बताया है।

इसमें चाहे गोपाल की वास्तविक जाति का पता न लगे किन्तु वे किसी उच्च कुल या जाति के भी नहीं थे इसका आभास अवश्य मिलता है। सम्भवतः इसीलिये उन्होंने अपने शासन काल में लोकप्रचलित तन्त्रों को प्रश्रय दिया, बौद्ध धर्म को आश्रय दिया, नये लोक हित के नियम बनाए और लोक कला को भी प्रश्रय दिया जिस पर हम सामाजिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत विचार करेंगे।

गोपाल के अभिषेक की तिथि लगभग ७५० ई० अनुमानित की गई है। ७७० ई० में गोपाल का पुत्र धर्मपाल गद्दी पर बैठा।^{५६} धर्मपाल का शासन काल धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तारानाथ का कहना है ^{५७} कि धर्मपाल ने अपनी तथा अपनी पत्नी के वज्रन के बराबर सोना बौद्धों को दान किया, उनके लिये एक नये बौद्ध विहार विक्रमशील की स्थापना की। पुराने विहार सोमपुरी का पुनरुद्धार किया। अन्य कितने ही बौद्ध हित के कार्यों का उल्लेख मिलता है।^{५८}

धर्मपाल के समय में भारत में दो राज्यशक्तियाँ और बलवती हो उठी थीं, एक तो दक्षिण के राष्ट्रकूट तथा उत्तर में गुर्जर के प्रतिहार। राष्ट्रकूटों ने ७५३ ई० के लगभग चालुक्यों से शक्ति अंपट्ट कर ली थी और राष्ट्रकूट वंशी श्रुव (७८०-७९४ ई०) ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया।^{५९} गुर्जर के प्रतिहार और पूर्वी भारत के पाल भी आपस में युद्ध कर रहे थे। प्रतिहार वत्स-राज (७८३-८४६) राजस्थान और मालवा जीत कर पूर्वी भारत की ओर बढ़ा

आ रहा था और पाल राजा भी कन्नौज की ओर बढ़ रहा था। दोआब में कहीं दोनों का युद्ध हुआ और धर्मपाल पराजित हुआ। किन्तु उसी के बाद राष्ट्रकूट वंशी ध्रुव ने प्रतिहारों को हराया और कन्नौज में एक दरबार किया। किन्तु बाद में वह दक्षिण लौट गया। वत्सराज उस समय मरुस्थल में भटक रहा था अतः ध्रुव के बाद धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे जीता और चक्रायुध को वहाँ का सामन्त नियुक्त किया।^{६०} खलीमपुर ताम्रलेख से ज्ञात होता है कि उस दरबार में भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, यवन, अवनति, गान्धार और कीर के भी सामन्त प्रतिनिधि उपस्थित थे।^{६१}

किन्तु प्रतिहारों ने हार नहीं मानी थी। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने फिर कन्नौज पर आक्रमण किया^{६२} और संभवतः मुँगेर के निकट धर्मपाल को बुरी तरह पराजित किया। किन्तु फिर इतिहास ने अपने को दोहराया और दक्षिण से राष्ट्रकूट गोविन्द तृतीय ने उत्तर भारत आकर नागभट्ट को पराजित किया।^{६३} चक्रायुध तथा धर्मपाल दोनों ने उसको आत्मसमर्पण किया और उसके उपरान्त गोविन्द तृतीय लौट गया।^{६४} किन्तु इससे धर्मपाल का पूर्व भारतीय साम्राज्य यथापूर्व समृद्ध रहा और उसमें 'परमेश्वर-परमभट्टारक-महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की।^{६५}

धर्मपाल के उपरान्त देवपाल ८१० ई० में गद्दी पर बैठा। उसने अपने समय में कामरूप तथा उत्कल के राजाओं को अपने अधीन कर लिया और कभी कभी प्रतिहारों से भी मोर्चा लेता रहा। जावा सुमात्रा के शासक ने उसके दरबार में अपना दूत भेजा था। देवपाल का शासनकाल (८१०-८५० ई०) पाल-साम्राज्य का स्वर्ण-काल था।^{६६}

इसके बाद पालों की प्रतिष्ठा का हास आरम्भ हुआ।^{६७} प्रतिहारों की शक्ति बढ़ी और भोज ने मगध का पश्चिमी अंश तक जीत लिया।^{६८} इसमें भोज को गहलौत सामन्तों और कल्चुरि नरेश ने भी सहायता दी थी। भोज के उत्तराधिकारी महेंद्रपाल ने समस्त मगध को प्रतिहार साम्राज्य में मिला लिया। बाद में राज्यपाल ने राष्ट्रकूट कन्या मान्यदेवी से विवाह कर अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया किन्तु उसी समय प्रतिहारों से भी अधिक प्रबल चन्देल वंश का उदय हुआ जिसके प्रख्यात शासक यशोवर्मन ने हिमालय से मालवा और काश्मीर से बंगाल तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। कालिंजर के किले को जीत कर उसने अपनी स्थिति दृढ़तम बना ली। उसके पुत्र धंग

साधना-केन्द्र तथा राज्याश्रय

(६५४-१००० ई०) ने तो राढ़ तथा अंग की रानियों को कैद कर लिया था, ऐसा उल्लेख भी मिलता है ।^{६९}

पाल वंश के हास काल में एक अन्य राजवंश का उल्लेख मिलता है जिसके राजाओं के नाम के आगे चन्द्र जुड़ा रहता है । तारानाथ तो चन्द्र वंशी राजाओं को पालों के पूर्व का बताते हैं किन्तु इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता ।^{७०} किन्तु बर्मी आराकान प्रदेश में ७ वीं शती के कुछ सिक्के मिले हैं जो किन्हीं चन्द्र नाम वाले राजाओं के हैं । बंगाल के चन्द्र राजाओं की वंशानुक्रमणी इस प्रकार मिली है । पूर्णचन्द्र, सुवर्णचन्द्र, त्रैलोक्यचन्द्र, श्रीचन्द्र ।^{७१} रामपाल के शिलालेख से ज्ञात होता है कि सुवर्णचन्द्र ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और उसके बाद अपने को 'परम-सौगत' लिखने लगे थे ।^{७२} किन्तु ये शासक केवल स्थानीय शासक थे और तारानाथ के चन्द्र राजाओं से इनकी एकता नहीं सिद्ध की जा सकती । तारानाथ ने उन्हें पालों का पूर्वाधिकारी बताया है और तन्त्रग्रन्थों में वे शम्भल के राजा कहे गये हैं ।^{७३}

पूर्वी बंगाल के चन्द्र वंश का सम्बन्ध राजा गोपीचन्द्र और मयनामती की प्रख्यात कन्या से जोड़ा जाता है । राजा गोपीचन्द्र को तारानाथ ने चटगाँव का राजा बताया है ।^{७४} भर्तृहरि मालवा के राजा बताये गये हैं और कुछ विद्वान उन्हें यशोवर्मन का निकट सम्बन्धी मानते हैं ।^{७५} इनमें से गोपीचन्द्र काणहपा के शिष्य थे और भर्तृहरि गोरख के । यद्यपि बौद्ध परम्परा तथा शैव परम्पराओं में इस विषय में तीव्र मतभेद हैं जिनके विस्तार में जाना हमें अभीष्ट नहीं । तारानाथ ने यह भी लिखा है कि भरथरी (भर्तृहरी) की बहन से विमलचन्द्र ने विवाह किया था और गोविन्दचन्द्र भरथरी का भान्जा था । गोविन्दचन्द्र तथा उसके पुत्र ललितचन्द्र ने सिद्धि प्राप्त की थी । ललितचन्द्र को तारानाथ ने चन्द्रवंश का अन्तिम राजा बताया है और उसी के बाद बंगाल में अराजकता तथा गोपाल के चुनाव की ओर संकेत किया है ।^{७६} चन्द्रवंशी राजाओं तथा मालवा से उनके सम्बन्धों को सिद्ध करने के लिये ऐतिहासिक सामग्री का सर्वथा अभाव है और तारानाथ पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता । किन्तु पूर्वी बंगाल में गोविन्दचन्द्र नामक राजा के अस्तित्व के तो यथेष्ट ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं । जिस समय राजेन्द्र चोल ने पूर्वी भारत पर आक्रमण किया (१०२३ ई०) तब पूर्वी भारत में महीपाल के अतिरिक्त गोविन्दचन्द्र भी राज्य करता था । तामिल कथाओं में गोविन्दचन्द्र को घनघोर वर्षा वाले बंगाल देश का नृपति

बताया गया है जिसने हाथी पर सवार होकर राजेन्द्र चोल से युद्ध किया और पराजित हुआ।^{७७} कुछ शिलालेखों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कल्चुरि राजा कर्ण ने चन्द्र राजा को पराजित कर उनके स्थान पर वज्रवर्मन को प्रतिष्ठित किया और इस सन्धि को चिरस्थायी बनाने के लिये जाटवर्मन से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। उसके उपरान्त पूर्वी बंगाल में वर्मन वंश ने राजसूत्र ग्रहण किया। वर्मन बौद्ध विरोधी थे। यह घटना १०४८ ई० के पहले ही हो चुकी होगी क्योंकि उपर्युक्त शिलालेख की तिथि १०४८ ई० है।^{७८} इस प्रकार तारानाथ द्वारा वर्णित चन्द्र राजाओं की परंपरा के जो ऐतिहासिक प्रमाण तो मिलते हैं किन्तु यह संदिग्ध है कि चन्द्र राजा पाल वंश के पूर्व हुए थे।

इन राजवंशों में पालवंश ही सिद्धों का आश्रयदाता रहा है। धर्मपाल ने बौद्धों के लिये जो किया उसका उल्लेख हम कर चुके हैं। धर्मपाल का समय सिद्धों के लिये भी उत्कृष्ट रहा है। तारानाथ ने लिखा है कि 'भारत में पहले सहस्रों ऐसे ग्रन्थ थे जिनमें गुह्य विद्याएँ और तन्त्र छिपे थे किन्तु जब श्री सहपा आविर्भूत हुए तभी वे गुह्य विद्याएँ प्रकाश में आईं।' धर्मपाल की मृत्यु तक कई सिद्ध आविर्भूत हुए.....अभयंकर की मृत्यु तक यह परम्परा चलती रही।^{७९} अभयंकर को रामपाल का समकालीन माना गया। (१०७७ ई०)

महीपाल के बाद से नालन्दा और विक्रमशील के बौद्ध तन्त्राचार्यों का प्रभाव राज्यसत्ता पर बहुत बढ़ रहा था। जब दीपंकर श्रीज्ञान स्वर्णदीप और ताम्रद्वीप जावा आदि घूम कर लौटे तो महीपाल ने उन्हें विक्रमशील का अध्यक्ष बनाया। अतिश दीपंकर श्रीज्ञान तिब्बत गये और उनका इतना व्यापक प्रभाव उस समय पूर्वी एशिया में था कि कोचीन, तिब्बत, नेपाल और पूर्वी भारत के राज्य अपने राजनीतिक विग्रहों में भी उनकी मध्यस्थता स्वीकार करते थे। दीपंकर ने नयपाल और कर्ण के विग्रह में मध्यस्थता की थी।^{८०} नवपाल भी विक्रमशील के अध्यक्ष स्थविर रत्नाकर की मंत्रणा से ही सारे काम करता था। दीपंकर को तिब्बत के राजा ने इसीलिए बुला भेजा था कि गुह्य तंत्र विद्या के अतिचारों ने बुद्ध धर्म को विकृत कर डाला है और अतिश उसे आकर सुधारें। नेपाल का महाराजा भी उनका सम्मान करता था। जब तिब्बत का सम्राट शत्रुओं द्वारा बन्दी बना लिया गया तो उसने दीपंकर के पास संदेश भेजा था।^{८१}

इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्वी भारत के दोनों प्रमुख राजवंश चन्द्र और पाल सिद्धों को प्रश्रय देते थे क्योंकि दोनों राजवंश बौद्ध थे, किन्तु कालान्तर

साधना-केन्द्र तथा राज्याश्रय

में दोनों वंशों के विस्थापन के उपरान्त जो नये राजवंश स्थापित हुए वे अबौद्ध थे, इतना ही नहीं, वे दोनों बंगाल से बाहर के थे और उन पर पाश्चात्य तथा दार्ष्टिक्यात्य प्रभाव होने के नाते हिन्दुत्व की भावना प्रबल थी। वर्मन वंश परम वैष्णव था।^{८३} पालवंश का उत्तराधिकार सेन वंश को मिला जो कि कर्णाटक से आये थे और ब्रह्म क्षत्री होने के नाते कट्टर हिन्दू थे। उनका प्रारंभिक इतिहास अन्धकार में है किन्तु अनुमान किया गया है कि वे लोग पाल राजाओं की सेना में पदाधिकारी थे। पहला प्रख्यात सेन राजा विजयसेन हुआ (१०६५ अथवा ११२५ ई०) सेन राजाओं की परम्परा १३ वीं शती तक चलती रही किन्तु उसी बीच में मुहम्मद बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने पूर्वी भारत में बौद्ध प्रभाव की रीढ़ तोड़ दी। तबकात-ए-नासिरी में इस आक्रमण का बड़ा अतिरंजित वर्णन मिलता है किन्तु उसका वह अंश सर्वथा विश्वसनीय है जिसमें बख्तियार खिलजी ने मगध पर आक्रमण कर नालन्दा को धूल में मिला दिया। उसके पुस्तकालयों को जला दिया गया और हजारों बौद्ध भिक्षु तिब्बत भाग गये। उसके बाद बख्तियार खिलजी भारखण्ड होते हुए लक्ष्मणसेन की राजधानी नदिया (नवद्वीप) की ओर चला गया।^{८४} खिलजी द्वारा नालन्दा तथा अन्य बौद्ध विहारों के ध्वंस का समय तिब्बती तथा भारतीय प्रमाणों से १२०२ई० सिद्ध होता है।^{८५}

इन नये तुर्क आक्रमणकारियों से बौद्धों और विशेषतया हमारे सिद्धों का बड़ा विरोध था इसके काफी प्रमाण मिलते हैं। यद्यपि यह बात बौद्ध परम्परा के थोड़ा विपरीत अवश्य है। पश्चिमी भारत में कई बार ऐसी घटनाएँ हुईं कि हिन्दू शासकों के विरुद्ध बौद्ध प्रजा ने बाहरी तुर्क आक्रमणकारियों को आमंत्रण भेज कर सम्प्रदाय के पीछे देश के प्रति विश्वासघात किया। सिन्ध के बौद्धों ने हिन्दू शासकों के विरुद्ध विदेशी यवन आक्रमणकारियों की खुली सहायता की थी।^{८६} किन्तु तारानाथ ने स्पष्ट लिखा है कि बाद के सिद्धों ने समय समय पर तुर्कों का विरोध किया और उनकी पराजय में सहायता पहुँचाई। विरूपा के चमत्कारों में दो बार भ्लेच्छों के विरोध का उल्लेख है। सम्राट रामपाल के समय में विरूपा ने अपना चरणामृत उनके वन-वादल नामक हाथी को पिला दिया और उसी के कारण वे भ्लेच्छों पर विजयी हुए। विरूपा ने एक ताजिक युवराज की स्वप्न में भी ताड़ना की।^{८७} इसी प्रकार शान्तिगुप्त ने पश्चिमी भारत में जाकर तुरुष्क, मुहम्मदी और ताजिकों को सिद्धियों द्वारा परास्त किया।

उसके उपरान्त वह और भी पश्चिम की ओर गये जहाँ एक पठान ने तमाम ब्राह्मण मन्दिरों और बौद्ध विहारों को जला दिया था। केवल एक खसर्पण लोकेश्वर का बौद्ध मन्दिर अपनी शक्ति के कारण बच गया। जब ये सिद्ध उस देश में गये तो पठान राजा ने इन्हें कारागार में डाल दिया। मत्र जल्लाद इन्हें सूली पर चढ़ाने आया तो इन्होंने मंत्रों से अभिषिक्त सरसों उन पर छोड़ दी जिससे वे पागल हो गये। फिर इन्होंने यमान्तक चक्र प्रवर्तन किया जिसके ६ महीने के अन्दर पठान और गंगोल पराभूत हो गये और बहुत से तुर्क युद्ध में मारे गये।^{८८}

तारानाथ की इन कथाओं से पीछे इतिहास कम है, लोकवार्ता अधिक, किन्तु इनसे इतना तो स्पष्ट ही है कि पूर्वी भारत के बौद्ध सिद्ध देशद्रोही नहीं थे। इसी का दंड उन्हें बख्तियार खिलजी के हाथों भुगतना पड़ा। उनकी सिद्धियाँ और चमत्कार यवनों के विरुद्ध व्यर्थ सिद्ध हुए और अन्त में बौद्ध धर्म और साहित्य को तिब्बत और नेपाल मठों में आश्रय लेना पड़ा।

इस प्रकार पूर्वी भारत की राजनीतिक परिस्थिति का सिद्धों की परम्परा और विकास-क्रम से बहुत निकट का संबंध रहा है। सिद्धों का साहित्य चूँकि लौकिक न होकर धार्मिक था अतः उसमें समकालीन इतिहास का उल्लेख बिल्कुल नहीं है किन्तु एक तांत्रिक अनुष्ठान बढ़ी हीरोचक शैली में एक तत्कालीन ऐतिहासिक घटना को प्रतिबिम्बित करता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बाहरी स्थानों और नगरों को तांत्रिक साधना में देहस्थ मान लिया जाता था। ऐसे ही एक देहस्थ दुर्ग का नाम सिद्धों ने कालिंजर बताया है।^{८९} यद्यपि इस प्रसंग में सिद्धों के इस अनुष्ठान का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता किन्तु चौथे चर्यापद की टीका में कालिंजर समय (समय के अर्थ यहाँ पद्धति हैं) को विरजानन्द से संबद्ध माना गया है।^{९०}

कालिंजर के विषय में हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि जनश्रुतियों में सैनिक दृष्टि से अमेद्य दुर्ग माना जाता था और उसी को जीतने के उपरान्त यशोवर्मन ने काश्मीर से बंगाल तक अपनी प्रभुता स्थापित की थी और उसके पुत्र धंग ने बंगाल को उत्पीड़ित किया था। कालिंजर की प्रसिद्धि कई शताब्दियों से फैली हुई थी। सिद्धों ने कालिंजर संबंधी लोक कल्पना का उपयोग अपनी तांत्रिक संकेत शैली में किया होगा ऐसा अनुमान किया जा सकता है। किस प्रकार सिद्धों ने अपने प्रतीकों को तत्कालीन जीवन से चुना था इस पर विस्तृत व चार उनके साहित्य के शैली पद के अध्ययन के अंतर्गत किया गया है।

घ सामाजिक पृष्ठभूमि

इनकी समकालीन राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण कर लेने के उपरान्त अब वज्रयानी बौद्ध साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण कर लेना अत्यन्त आवश्यक है।

अभी तक तान्त्रिक धर्म साधनाओं और उससे सम्बद्ध साहित्य का विवेचन करने वाले विद्वानों ने समुचित सामाजिक पृष्ठभूमि में उसका विवेचन करने का प्रयास नहीं किया है। या तो उनकी दृष्टि सर्वथा पुनरुत्थानवादी रही है और वे तन्त्रों के सारे वामाचारों को शुद्ध अध्यात्मिक व्याख्याएं देते रहे हैं; या उनकी दृष्टि शुद्धतावादी रही है और वे इन गुह्याचारों को दबी हुई प्रवृत्तियों का उच्छृंखल और कुत्सित विद्रोह मात्र मानते रहे हैं और उनका विचार है कि वज्राचार्यों ने इन वामाचारों को केवल इसलिये अपनाया कि वे निम्नवर्ग की जनता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। तन्त्र साहित्य के अध्येताओं में से अधिकांश का यही मत रहा है। प्रज्ञापारमिताओं के सम्पादक श्री राजेन्द्र लाल मित्र¹ तथा बौद्ध तन्त्रों पर सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करने वाले डा० विनयतोष भट्टाचार्य² दोनों ही इन बौद्ध तन्त्राचार्यों की साधनाओं को विकृत, रोगग्रस्त, अस्वस्थ और पतनोन्मुखी बताते हैं। अरविन्द आदि कुछ विद्वानों ने इन तन्त्रों में निहित सिद्धान्तों की उदात्तता और गहन आध्यात्मिकता को स्वीकृत करते हुए भी यह कहा है कि “कालान्तर में इनमें बहुत से ऐसे तत्व आकर जुड़ गये...जिनके कारण अनियन्त्रित वामाचार, असंयत सामाजिक व्यवहार, दुराचार का मानों एक पन्थ ही चल गया”³

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अपनी उग्र शुद्धतावादी (प्योरिटन) दृष्टि के लिये

प्रख्यात थे। उन्होंने इन्हीं आचार्यों, विशेषतया भट्टाचार्य महोदय के मत का आश्रय लेते हुए, अपने इतिहास में इन सिद्धों के साहित्य को बौद्ध धर्म की विकृत और अस्वस्थ अवस्था का साहित्य बताया^४ और इन सिद्धों पर यह दोषारोपण किया कि उन्होंने इस बौद्ध वामाचार को अपनी चरम सीमा पर पहुँचा दिया और न केवल स्वतः वे इस पाप पंक्त में गिरे वरन जनता को भी उसमें गिराना चाहा अतः देशी भाषा में रचना की ताकि जनता पर भी उनका संस्कार पड़ सके।^५

इस प्रकार के मत की तर्क-शृंखला इस प्रकार है कि ये धर्म साधनाएं तथा इनके आचार्य पहले ही विकृत हो जाते हैं और तब वे अपनी विकृतियों को जनसाधारण में फैलाने का प्रयास करते हैं या अपने को लोकप्रिय बनाने के लिये जनसाधारण की विकृत प्रवृत्तियों को उभार कर धर्म के नाम पर उन्हें स्वेच्छाचार की अनुमति दे देते हैं। इस तर्क शृंखला को अपनाने वाले अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि शंकर ने उच्च वर्ग और शिक्षित जनता में से बौद्ध धर्म का उच्छेद कर दिया और तब बौद्ध धर्म ने निम्न वर्ग का आश्रय लेकर जादू टोने से उसे प्रभावित करना चाहा। किन्तु जैसा हम राजनीतिक परिस्थिति के अन्तर्गत विचार कर चुके हैं, पूर्वी भारत में ये सिद्ध राजद्वारों में सम्मानित थे, राजाओं के आचार्य थे और राजनीति निर्धारण में उनका विशेष योग भी रहा करता था। कामरूप, उड़ीसा, ओडियान, मालवा आदि के राजवंश सिद्ध साधना में प्रवृत्त हो चुके और इन्द्रभूति, लक्ष्मीशंकर, दारिकपा तथा अन्य कितने ही वज्रयानी सिद्ध स्वतः राजवंश से आये थे।

वास्तव में इसके सम्यक् निरूपण के लिये हमें यह मान कर चलना होगा कि धर्म-साधनाओं का विकास और उनका रूप-गठन तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था से बहुत अभिक प्रभावित होता है और धर्म साधनाओं के परीक्षण और विश्लेषण के लिये तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण अनिवार्य है। १९वीं शती के जिन चिन्तकों ने इतिहास के सामाजिक मूल्यांकन की नई कसौटी प्रस्तुत की है उनमें से एंजेलस का मत अधिक वैज्ञानिक है। उसका कथन है कि मध्ययुग में समाज-शास्त्र, दर्शन, न्याय सभी कुछ धर्म-साधना के अंग बन चुके थे। अतः प्रत्येक सामाजिक और राजनीतिक जन-आन्दोलन उस समय धर्म-साधना का रूप लेकर आता था और संसार के ऐसे धर्मों में, जो जन-

सामाजिक पृष्ठभूमि

आन्दोलन की अभिव्यक्ति बन कर आये हैं^६ एंजेलस ने सर्वाधिक प्रमुखता बौद्ध धर्म को दी है।^७

इस प्रकार के प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय के विकास की प्रगति द्वन्द्वात्मक होती है। एक तों उसमें परम्परा का सूत्र होता है और उसके अनुसार वह चिन्ताधारा अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के विचारों को ग्रहण करती है और अपने को उन्हीं की रूपरेखाओं के अन्तर्गत रखती है। दूसरे वह अपने युग की आवश्यकताओं से प्रभावित होती है, लोकपक्ष के प्रभावों को आत्मसात करती है। जो चिन्ताधारा जीवित और जागरूक होती है वह लोकपक्ष के प्रभावों को गहनता से आत्मसात करती है और परम्परागत दर्शन को नयी कल्पनाओं, नयी तर्क-श्रृंखलाओं से लोकमत के अनुरूप बनाने का प्रयास करती है।

सिद्धों के साहित्य का अध्ययन करते हुये सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य के मूल्यांकन में लोकपक्ष के महत्व की ओर संकेत किया है। वे उन आचार्यों से अपना विरोध प्रकट करते हैं जो लोकचिन्ता को शास्त्रीय दृष्टिकोण से माप कर यह कहते हैं कि यदि असुक सम्प्रदाय लोकप्रियता की ओर बढ़ा तो उसका अधःपतन हो गया। वे लोकचिन्ता को मापदंड बनाकर उसी पर सम्प्रदायों के विकास और संस्कृति तथा साहित्य की प्रगति का मूल्यांकन करना चाहते हैं—‘इस प्रकार महायान सम्प्रदाय या यों कहिये कि भारतीय बौद्ध संप्रदाय सन् ईस्वी के आरम्भ से ही लोकमत की प्रधानता स्वीकार करता गया। यहाँ तक कि अन्त में जाकर लोकमत में घुलमिल कर लुप्त हो गया। सन् ईस्वी के हजार वर्ष बाद तक यह अवस्था सभी सम्प्रदायों, शास्त्रों और मतों की हुई। मुसलमानी संसर्ग से उसका कोई सम्पर्क नहीं है। हजार वर्ष पहले से वे ज्ञानियों और पंडितों के ऊँचे आसन से उतर कर अपनी असली प्रतिष्ठा-भूमि लोकमत की ओर आने लगे थे। उसी की स्वाभाविक परिणति इस रूप में हुई। उसी स्वाभाविक परिणति का मूर्त प्रतीक हिन्दी साहित्य है। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिकचिन्ताओं के मानदंड से लोकचिन्ता को नहीं मापना चाहता बल्कि लोक-चिन्ता की अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ।’^८

वास्तव में लोकमत की सापेक्षता में सामान्यतया सम्पूर्ण बौद्ध धर्म और

विशेषतया सिद्धों की चिन्तना का विश्लेषण करने का डा० द्विवेदी का आग्रह सर्वथा वैज्ञानिक है। लगभग सभी इतिहासकार इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। भारतीय इतिहास की प्रगति में लोकोमत भी एक द्वन्द्व-आत्मकता रही है और उच्चवर्गीय पांडित्यपूर्ण विचार-परम्परा के विरुद्ध समय-समय पर व्यापक लोक-जीवन विद्रोह करता रहा है और नये धार्मिक विचारों के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करता रहा है। सम-कालीन अंग्रेज इतिहासकारों के इण्डालोजिस्ट ग्रुप के प्रमुख सदस्य जान इर्विन का मत है कि भारतीय इतिहास में ऐसे समय आते रहे हैं जब आर्य लोग अपनी आत्मसात् कर लेने की प्रवृत्ति को खो देते रहे हैं और परिणाम यह होता था कि ब्राह्मणों की सत्ता निर्ममता से जनसाधारण पर लाद दी जाती थी। जनता पहिले से अधिक दमन की शिकार होती थी। ऐसी परिस्थितियों में सङ्कट आना अनिवार्य था। दलित जनशक्तियाँ परम्परागत रूढ़ियों के स्तर के नीचे ही नीचे वेग से सङ्गठित होने लगती थीं और एक खुले विद्रोह की भूमिका प्रस्तुत करने लगती थीं। बौद्ध धर्म का भी प्रारम्भिक इतिहास यही था। ब्राह्मण कर्मकांड के विरुद्ध उसने जनव्यापी विद्रोह का रूप ग्रहण किया और विगत सामूहिक जीवन की प्रत्यागत स्मृति का आश्रय ग्रहण कर सारे भारत में फैल गया।^{१९}

इसी दृष्टि से सिद्धों के साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन आवश्यक है और यह देखना है कि उस समय लोकोमत प्रबल था अथवा दुर्बल और उसने राहुल जी का सिद्ध साहित्य में अपने को प्रगतियुक्त विद्रोह के रूप में अभिव्यक्ति किया है या दुर्बल हासोन्मुखता के रूप में। हिन्दी में सिद्ध साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने का श्रेय श्री राहुल सांकृत्यायन को दिया जाना चाहिये। “हिन्दी काव्यधारा” की भूमिका (१९४५ ई०) में राहुल जी ने विस्तार से सिद्धों तथा उनके समसामयिक कवियों की रचनाओं पर सामाजिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का विश्लेषण किया। उस समय तक श्री राहुल सांकृत्यायन मार्क्सवादी विचार-पद्धति को पूर्णतया स्वीकार कर चुके थे अतः उनका विश्लेषण बहुत कुछ वर्ग-सङ्घर्ष के सिद्धांतों पर आधारित था। ऐतिहासिक द्वन्द्व-आत्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रत्येक युग का समाज शोषक और शोषित वर्गों में विभाजित रहता है^{२०} और उस युग का प्रधान साहित्य और दर्शन, वर्गों की

सामाजिक पृष्ठभूमि

सापेक्ष स्थिति का प्रतिफलन मात्र करता है।^{११} अतः उसी सिद्धांत के अनुसार राहुल जी ने भारतीय इतिहास के उस काल (६०० से १२०० ई०) को सामंतवादी युग स्वीकार किया और समाज को दो वर्गों में विभाजित मान कर उन्हीं वर्गों के पारस्परिक द्वंद्व के आधार पर सिद्धों तथा अन्य समकालीन कवियों की चिंतनधारा का विश्लेषण किया। चूँकि राहुल जी का यह प्रयास सिद्ध-साहित्य के अध्ययन की समाजशास्त्रीय दिशा में प्रथम और महत्वपूर्ण प्रयास है अतः राहुल जी के मत की विस्तृत रूपरेखा देते हुये फिर उनकी स्थापनाओं का ऐतिहासिक प्रमाणों की कसौटी पर विश्लेषण कर लेना अत्यंत आवश्यक है।

राहुल जी ने इस युग के सामन्ती गठन को इतना महत्व दिया है कि उसका नामकरण ही उन्होंने सिद्ध-सामन्त-समाज किया है। सिद्ध-सामन्त-काल की रचनाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि के महत्व की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं। 'सिद्ध-सामन्त-युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है। वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। कवियों ने जो खास-खास शैली भाव को लेकर कविताएँ कीं, वह देश की तत्कालीन परिस्थितियों के कारण ही।'^{१२} फिर वे देश की आर्थिक सम्पन्नता का विवरण देते हैं 'उस समय भारत बहुत सम्पन्न था। अकेला रोम अपने यहाँ से हर साल ढाई लाख तोला सोना (साढ़े पाँच लाख सेस्तर्स, पौने दो करोड़ रुपये) कपड़ों और दूसरी चीजों को खरीदने के लिये भारत भेजा करता था.....भारत उन पाँच शताब्दियों में शिल्प, व्यवसाय और वाणिज्य में दुनिया का सबसे समृद्ध देश था।'^{१३} भारत की इस समृद्धि का विवरण देते हुए फिर वे समाज के वर्ग विभाजन की ओर संकेत करते हैं और शोषक वर्ग की तीन शाखाओं को इस अतुल सम्पत्ति के अपव्यय का उत्तरदायी ठहराते हैं। 'कौन भोगने वाला था आइये इसे देखें...इस सम्पत्ति के सबसे अधिक भाग को सामन्त राजा अपनी मौज और आराम के लिये कितना खर्च करते थे इसकी वहाँ कोई सीमा नहीं थी...प्रजा की मेहनत की कमाई से उपार्जित ये महार्घ वस्तुएं चार पाँच दिन में ही खतम हो जाने वाली थीं। इनके अतिरिक्त भी सामन्तों के भारी खर्च थे। नये नये महल, क्रीड़ा उद्यान, सिंहासन, राजपलंग, मोरछल, चमर और लाखों की हीरा मोती, महार्घ रत्नों के आभूषण, राजमहलों की सजावट, चित्रकला, क्रीड़ाभूषण, सोने के पींजड़ों में बन्द शुक-सारिका, लोहे के पींजड़ों में बन्द केसरी...फिर सामन्त या राजा अकेले ही उस सम्पत्ति को स्वाहा नहीं करते थे। उस समय के राजाओं के आदर्श थे कृष्ण और दशरथ तथा

उनकी सोलह हजार रानियाँ । इन हजारों रानियों और उसी के अनुसार उनके पुत्रों, पुत्रियों, बहुओं, दामादों का खर्च भी देश की उसी सम्पत्ति के मत्थे था... पुरोहित और महंथ लोगों का भी खर्च राजसी ठाठ के साथ होता था । उनके पास भी महल, दास और कमकर थे उसी के अनुकूल उसका भी खर्च था... इसके बाद देश का सम्पत्ति के भारी हिस्से के मालिक थे वह श्रेष्ठी, सार्थवाह कारवों के अर्ध्यन् जिनकी कोठियों के जाल देश के भीतर ही नहीं, विदेशों तक में बिछे हुए थे और जिनके जहाज़ उस समय की सभ्य दुनिया में सभी जगह पहुँचते थे... वस्तुतः तत्कालीन भारत की अपार सम्पत्ति के मुख्य भोगने वाले थे यही सामन्त, पुरोहित और सेठ तथा उनके दरबारी खुशामदी ।^{१४} इस प्रकार राहुल जी के मतानुसार देश में आने वाली अतुल सम्पत्ति का अधिकांश भाग इन्हीं दश प्रतिशत सामन्तों, सेठों पुरोहितों तथा दरबारियों के अधिकार में रहता था और शेष नव्वे प्रतिशत जनता निर्धन और शोषित थी ।^{१५} वैसे राहुल जी यह स्वीकार करते हैं कि कृषि उस समय उन्नतावस्था में थी, 'आर्थिक हीनता के साथ कुछ सुभीते जरूर थे, लोगों के पास अधिक खेत, खेत बनाने के लिये अधिक जंगल, जंगलों में जरूरत के लिये अधिक शिकार थे । साथ ही यह भी अच्छा था कि अमीरों की शौकीनी की प्रायः सभी चीजें देश के भीतर तैयार होती थीं ।' लेकिन फिर भी 'इतना होने पर भी अकाल, बाढ़, युद्ध और महामारी में जनता को साधारण कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से बचाया नहीं जा सकता था ।' इन सत्तर सैकड़ा किसानों और कारीगरों को सिर्फ 'जीने और ब्याने भर का अधिकार था ।' इतना ही नहीं उस समय भारत में दास प्रथा वर्तमान थी और यदि 'दस सैकड़ा मौज वाले लोगों के लिये व्यक्ति के पीछे दो-दो दास दासी रखे जाते थे तो भारत की जनसंख्या का बीस सैकड़ा या हर पाँच आदमी में एक आदमी दास था । दास आदमी नहीं थे यद्यपि उनकी शकल सूरत आदमी की तरह होती थी । वह ढोरो की तरह अपने मालिक की जंगम सम्पत्ति थे जिन्हें मालिक जब चाहे बैच और खरीद सकते थे ।' इन परिस्थितियों के कारण जनता में आत्मसम्मान की भावना बिल्कुल नहीं रह गई थी । 'ऊपरी वर्ग के सामने बिलकुल शून्य' परम भद्राक परमेश्वर महाराजाधिराज के सामने सम्मान प्रदर्शन करने के लिये जब दूसरे राजाओं और सामन्तों को अपने सुकुट उनके चरणों पर रखने पड़ते थे तो साधारण जनता को किस प्रकार जुहार करनी पड़ती होगी इसे आप खुद समझ सकते हैं । और दूसरी वेबसियाँ ? सत्तर सैकड़ा

सामाजिक पृष्ठभूमि

जनता को शरीर से मजबूत अपने तरुण पुत्रों को सामन्तों के युद्ध के लिये भेंट करना पड़ता था...सत्तर सैकड़ जनता को अपनी सुन्दर लड़कियों को वैध या अवैध रूप से रनिवास में भेजने के लिए भी तैयार रहना पड़ता था। कितनी ही जगह तो नवविवाहिता की प्रथम रात भी सामन्त के लिये रिजर्व थी...उस वक्त साधारण जनता के आत्मसम्मान की बात करना ही फिजूल है।'^{१६}

इस प्रकार आर्थिक अवस्था का विश्लेषण करने के उपरान्त राहुल जी तत्कालीन राजनीतिक अवस्था पर दृष्टिपात करते हैं। उनकी मार्क्सवादी धारणा राज्यसत्ता के विषय में इस प्रकार है कि 'राजनीति कहते ही हैं आर्थिक ढांचे, आर्थिक स्वार्थों की रक्षा के लिये तैयार किये गये फौलादी शिकंजे को।' उनकी दृष्टि में राजा 'सर्वशक्तिमान परमेश्वर बन गया। उसकी निरंकुशता को रोकने का कोई उपाय बहुसंख्या जनता के पास नहीं था।' ग्रामों में स्थानीय जनतन्त्र अवश्य थे पर वे एक दूसरे से 'सर्वथा असम्बद्ध' शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। साथ ही पुरोहितों ने राजा को पृथ्वी पर विष्णु का अंशावतार घोषित कर दिया था और भोग विलास तथा दरिद्रता को पिछले कर्मों का फलाफल बता दिया था।'^{१७}

इसका तत्कालीन धार्मिक चिन्तन और साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। विशेषतया बौद्ध चिन्तन और सिद्ध साहित्य पर इन परिस्थितियों का प्रभाव दिखाते हुए राहुल जी कहते हैं 'बौद्ध अब भारत की किसी सामाजिक समस्या का कोई हल अपने पास नहीं रखते थे। अब उन्हें अपनी पुरानी कमाई सिद्ध साहित्य को बैठ कर खाना था...बौद्ध कभी कभी दिडनाग तथा पर प्रभाव धर्मकीर्ति के प्रौढ़ दर्शन को सामने रखकर लोगों की आँखों में चकाचौंध पैदा करना चाहते थे, कभी योग, समाधि, तन्त्र मन्त्र, डाकिनी साकिनी के चमत्कार से लोगों को अपनी ओर खींचना चाहते थे और कभी सिद्धों के विचित्र जीवन और लोकभाषा की कविताओं को भी इस काम के लिये इस्तेमाल करते, मगर यह सब हवा में तीर चलाना था...बौद्धों के मस्तिष्क और हथियार कुंठित हो चुके थे।'^{१८}

इन समस्त परिस्थितियों के बीच भी सिद्धों ने पहले अपनी कविताओं में विद्रोह का स्वर गुंजित किया। यह राहुल जी भी स्वीकार करते हैं। पर उनके मतानुसार सिद्धों की चिन्तना को भी सामन्तवादी प्रभाव स्वीकार करना पड़ा और

उनके नाम पर 'मन्त्र तन्त्र और पाखण्ड चल पड़े।' गुरु की महिमा को भी इतना अनावश्यक महत्व दिया कि पीछे वही 'अन्धेर गरदी' का एक भारी साधन बन गया। उनकी सीधी सादी भाषा को लोगों ने खींच खांच कर 'सन्ध्या-भाषा बना डाला।'^{१९}

यदि राहुल जी की इस तर्कशु'खला को हम बहुत सूक्ष्म रूप में रखें तो वह इस प्रकार होगी।

१. देश की जनता दो वर्गों में विभाजित थी, १० प्रतिशत सामन्त, सेठ और पुरोहित आर्थिक दृष्टि से सन्पन्न थे, ७० प्रतिशत किसान और कारीगर तथा २० प्रतिशत दासों का जीवन पशुओं से भी गया बीता था।

२. राजनीतिक सत्ता निरंकुश थी और ग्रामों की जनता का उस पर कोई नियन्त्रण नहीं था।

३. सभी धार्मिक आचार्य राज्य-सत्ता के समर्थक थे और जन जीवन से उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी।

४. जनता इतनी पददलित थी कि उसमें आत्मसम्मान और विद्रोह की सभी भावनाएं भर चुकी थीं।

५. इन परिस्थितियों में केवल सरहपा तथा अन्य कुछ सिद्धों ने रूढ़ियों तथा परम्पराओं के विरुद्ध विद्रोह किया किन्तु बाद में सामन्तवाद के आगे वे लोग भी पराजित हो गये।

किन्तु वैज्ञानिक रीति से इस मत का परीक्षण करने पर हम राहुल जी के कथन में सबसे बड़ा अभाव ऐतिहासिक प्रमाणों का पाते हैं। उन्होंने अपने

**राहुल जी के
मत का
विवेचन**

मत की पुष्टि के लिये बहुत कम ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं और यदि किये भी हैं तो वे केवल एकांगी हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि स्वतः उनकी भूमिका में बहुत सी पारस्परिक विरोधी बातें पाई जाती हैं। वे स्वीकार करते हैं कि दशा बहुत उन्नत थी, फिर भी वे किसानों को निर्धन बताते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि अमीरों के भोगविलास की अधिकांश सामग्री देश के कारीगर बनाते थे फिर भी वे कहते हैं कि कारीगरों की दशा पशुवत थी। एक स्थान पर वे ग्राम प्रजातन्त्रों का जिक्र करते हैं और स्पष्ट बताते हैं कि उनमें 'कोउ नृप होय हमें का हानी' की मनोवृत्ति विकसित कर गई थी और दूसरी ओर वे बताते हैं

सामाजिक पृष्ठभूमि

कि उनमें से प्रत्येक को अपना तरुण पुत्र सेना में भर्ती करना पड़ता था। जहाँ तक सिद्धों का संबंध है, वे एक ओर तो यह कहते हैं कि सिद्धों की कविता में अधिकतर रहस्यवाद ही मिलता है जिसकी सामन्त समाज को श्रृंगार और वीर रस की अपेक्षा कम आवश्यकता पड़ती और लगभग सभी कवि जनता की यातना पर इसलिये चुप रहते थे क्योंकि उन्हें सदा क्रूर राजदण्ड, छिपकर हत्या, भयानक यातना, सीधे शूली, देश और समाज से निष्कासन और अपमान का भय^{२०} लगा रहता था दूसरी ओर वे यह कहते हैं कि राजा सिद्धों की पूजा अर्चा में सबसे आगे रहना चाहते थे। शान्तिपा या रत्नाकर शान्ति को गौड़ नरेश उसी तरह आँखों पर रखने के लिये तैयार थे जैसे मालव दरबार या सिंहलेश्वर।^{२१} इसी तरह उन्होंने यह भी नहीं स्पष्ट किया कि सरहपा तथा अन्य सिद्धों का यह विद्रोह केवल उनका वैयक्तिक विद्रोह था वे किसी ऐसे लोकमत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो इर्षिन के पूर्व कथनानुसार परम्परागत रूढ़ियों के स्तर के नीचे ही नीचे ऐसे संकट काल में वेग से संगठित होने लगता है। स्वतः मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस बात पर स्पष्ट जोर देता है कि प्रत्येक चिन्तन-धारा सामाजिक शक्तियों का प्रतिफलन होती है, अतः सरहपा का सहजयान सरहपा की मौलिक उपज नहीं हो सकती वह किसी न किसी रूप में सरहपा के युग के लोकमत की अभिव्यक्ति होनी चाहिये। इस विषय में प्रख्यता मार्क्सिय इतिहास शास्त्री प्लेखनाव स्पष्ट कहता है 'यह देखा गया है कि महान प्रतिभाएँ वहीं प्रगट होती हैं जहाँ उनके विकास की अनुकूल सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं...प्रत्येक महान प्रतिभा जो वास्तव में समाज में एक प्रभावशाली शक्ति बन जाती है तत्कालीन सामाजिक सम्बन्धों की उपज होती है...वे स्वतः उन प्रवृत्तियों की निर्माण होती हैं।'^{२२} यदि ऐसा कोई लोकमत था तो उसका राहुल जी कोई उल्लेख नहीं करते हैं। इसका शायद प्रमुख कारण यह है कि जनता की जैसी दलित अवस्था का अतिरंजित चित्रण उन्होंने किया है, जिसमें जनता को केवल जीने और ब्याने का अधिकार था और जिसमें सामन्तों का विरोध करने वालों को 'राजदण्ड, शूली और भयंकर शारीरिक यातना' देने का विधान था, जिसमें जनता के आत्म-सम्मान की बात करना ही फिजूल था, ऐसी व्यवस्था में लोकमत का क्या प्रभाव ही हो सकता था। किन्तु फिर ये सिद्ध इतने निर्भीक क्यों थे, क्यों गौड़ नरेश, सिंह सम्राट या मालव नरेश सभी इनमें डरते थे, क्यों इन्होंने परम्परागत धर्म के विरुद्ध आवाज बुलन्द

की, इन्हें किसका बल प्राप्त था, और क्यों इनकी वाणी में निराशावाद नहीं था इसका कोई भी समाधान श्री राहुल सांकृत्यायन नहीं दे पाये हैं और न वे अपने मत में मार्क्सवादी तर्क-शृंखला का ही उचित निर्वाह कर पाये हैं।

ध्यान से निरीक्षण करने पर इस उलझन का मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि श्री राहुल सांकृत्यायन ने तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थिति का सम्यक् विवेचन किये बिना ही मध्यकालीन यूरोपीय सामन्ती, समाज भारतीय समाज के वर्ग-संघर्ष और उसकी धार्मिक और सामाजिक प्रतिक्रिया गठन की निजी को ज्यों का त्यों तान्त्रिक काल के भारतीय समाज और विशेषता उसके अन्तर्गत रचित सिद्ध-साहित्य पर घटाने का प्रयास किया है। इस यांत्रिक, अज्ञानिक और संकीर्ण-चिन्तन प्रणाली के कारण वे न तो मार्क्सवादी विचार-पद्धति के साथ ही न्याय कर पाये हैं और न सिद्ध-साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि के ही साथ जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था और सामन्ती शोषण उन्होंने मध्यकालीन भारत में परिकल्पित किया है वह वास्तव में इस रूप में भारत में कभी था ही नहीं। इसे न केवल भारतीय इतिहासज्ञों और विशिष्ट विदेशी विद्वानों ने ही स्वीकार किया है, वरन् गम्भीर मार्क्सवादी चिन्तकों ने भी स्थान-स्थान पर इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत के इतिहास में वर्ग-संघर्ष का रूप बहुत कुछ भारतीय समाज की कृषि-प्रधान आर्थिक व्यवस्था, ग्राम-जनतन्त्र और भूमि पर जनता के अधिकार के कारण संशोधित रहा है। स्वतः मार्क्स ने केवल भारत वरन् अधिकांश एशिया में ग्रामों की आर्थिक स्वाधीनता और भूमि पर जनता के अधिकार की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा था :—

‘वास्तव में समस्त पूर्वी देशों को समझने की कुंजी है भूमि पर स्वत्वाधिकार का अभाव। इसी में उसका राजनीतिक और धार्मिक इतिहास निहित है। लेकिन यह हुआ कैसे कि एशियायी लोग सामन्त काल में भी भूमि को राजसत्ता के अधिकार में जाने से बचा ले गये ? उसी पत्र में वह आगे पूर्वीय समाज व्यवस्था की इस विशिष्टता के दो कारण बताता है। पहला तो यह कि भारत में जनहित के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहता था और दूसरे ग्राम जनतन्त्र अपने में सर्वथा स्वतन्त्र सत्ता होते थे जिन पर राज-शक्ति का कुछ वश नहीं चल पाता था।²³ इसी मत का समर्थन प्रख्यात

सामाजिक पृष्ठभूमि

सोवियट भारतवेत्ता डी० ए० मुलेकिन करता है और वह भी इस बात को स्वीकार करता है^{२४} कि भारत में दास-प्रथा का विकास और सामन्ती शोषण इस कारण आगे नहीं बढ़ा कि ग्राम पंचायतों के अन्दर दास और दासों पर अधिकार रखने वाले सामन्तों को पारस्परिक सहयोग और नियन्त्रण में रहना पड़ता था। इसी कारण यहाँ कभी सामन्ती मत्ता उतनी निरंकुश नहीं हो पाई।

भारतीय आर्थिक व्यवस्था की इसी विशेषता की उपेक्षा कर जाने के कारण यूरोपीय सामन्ती व्यवस्था को ही भारतीय परिभाषाओं में अनुवादित कर देने की शोष्रता के कारण राहुल जी उस लोकमत और उसकी शक्ति की ओर समुचित संकेत नहीं कर पाये जिसकी ओर आचार्य द्विवेदी ने संकेत किया है। उनके तर्कों के अन्तर्विरोध का भी मूल कारण यही है।^{२५} वास्तविकता यह है कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था के कारण यहाँ की जनशक्ति कभी भी उतनी पद-दलित नहीं रही जितना राहुल जी ने चित्रित किया है, चिन्ता-स्वातन्त्र्य उतना दण्डनीय नहीं था जितना उन्होंने बताया है और विशेषतया पूर्वा भारत में उस काल में लोकमत अपने प्रभाव को क्रियात्मक रूप से प्रत्येक सांस्कृतिक दिशा में प्रतिष्ठित कर रहा था। इसके बारे में जान इर्विन स्पष्ट रूप में लिखता है :—

“भारतीय लोकपरम्परा का ऐतिहासिक महत्व अत्यन्त स्पष्ट रूप से बंगाल में परिलक्षित होता है जहाँ उसको जड़ें अब भी मजबूती से लोक-जीवन में हैं। यहाँ यह परम्परा ८ वीं से १० वीं शताब्दी के काल से प्रारम्भ होती है जब पाल वंश के अन्तर्गत पहली बार समस्त प्रान्त का एकीकरण हुआ था और इस परम्परा का पूर्ण विकास १४ वीं और १८ वीं शती के मध्य में हुआ। यह विकास वैष्णव और शाक्त जैसे लोकप्रिय सम्प्रदायों के विकास का समकालीन था। ये सम्प्रदाय ब्राह्मण धर्म की अनुदारता के विरुद्ध व्यापक जन-विद्रोह के रूप में जनता द्वारा उत्साह से अपनाये गये। ये साम्प्रदायिक आन्दोलन रहस्यवादी प्रकृति के थे और जाति तथा अन्य संकीर्ण परम्पराओं के विरुद्ध व्यक्ति को पूर्णता प्राप्ति की वैयक्तिक निजी स्वतन्त्रता देकर ब्राह्मण कर्मकाण्डियों को खुली चुनौती दे रहे थे। इस प्रकार जन-संस्कृति मुख्य वाहन बन गई जिसके द्वारा ये धार्मिक विद्रोह जनता में फैल गये और कुछ दिनों में इन्हीं साम्प्रदायिक आन्दोलनों की भाँति जन-जीवन भी उच्चवर्गीय जीवन-पद्धति के विरोध का माध्यम बन गया। उसका परिधान सदैव एक सशक्त मानवतावाद रहा जिसमें जीवन को यथावत

स्वीकार करना और उसका उपभोग करना उचित माना गया। यह धारणा पुराने कष्टरपन्थी तप और वैराग्य की सर्वथा विरोधिनी थी।” २६

जान इर्विन बौद्ध तान्त्रिक सम्प्रदायों और सिद्ध-सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं करता है किन्तु वह इस लोकमत के उद्भव और शक्तिशाली होने का उद्गम काल वही निर्णीत करता है जो सिद्ध साहित्य का प्रारम्भिक काल है अर्थात् पाल-वंश। हम पहले ही देख चुके हैं कि सिद्ध-साहित्य का सृजन प्रमुखतः पाल-वंश के संरक्षण में हुआ है और उसका विकास भी मगध, बंगाल, कामरूप तथा उड़ीसा में हुआ है और इन्हीं क्षेत्रों में लोकमत की प्रबलता बताई गई है। इस प्रकार सिद्ध-साहित्य बहुत अंशों तक लोकमत का वाहक रहा हो इसकी सम्भावना बढ़ जाती है।

हमें यह देखना चाहिये कि मध्यकालीन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति में वे कौन से तत्व थे जिनके कारण उस समय लोकशक्ति इतनी प्रबल हो गई थी।

मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था का विश्लेषण करने में एक विशेष कठिनाई इसलिये उपस्थित होती है कि मध्यकाल में और विशेषतया हर्ष के बाद आने वाले, प्रस्तुत प्रबन्ध के विवेचन काल में किसी तत्कालीन सामाजिक अवस्था एक केन्द्रीय सत्ता के न होने के कारण सभी प्रान्तों और प्रदेशों में विभिन्न रूप में सामाजिक तथा आर्थिक विकास हो रहा था। इसीलिये इस निरूपण में यह अधिक वैज्ञानिक होगा कि मध्यकालीन भारतीय समाज की सामान्य अवस्था का चित्रण करते हुए हम विशेष ध्यान पूर्वी भारत की तत्कालीन अवस्था पर दें क्योंकि वहीं सिद्ध-साहित्य का विकास हुआ था।

जहाँ तक आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न था लगभग समस्त भारत की आर्थिक व्यवस्था में ग्रामों का ही प्रमुखतम महत्व था। पूर्वी भारत में भी दूर दूर तक फैली हुई शस्य श्यामला भूमि में ग्राम बसे हुए थे। ये ग्राम देश के सारे प्रबन्ध, राजनीति, व्यवसाय और संस्कृति की इकाइयाँ थे। जहाँ तक इन ग्रामों के भौगोलिक गठन का प्रश्न है, भारतीय ग्राम कुछ पाश्चात्य देशों की भाँति खलिहानों में अलग-अलग नहीं बसे होते थे। कुछ पाश्चात्य देशों की भाँति खलिहानों में अलग-अलग नहीं बसे होते थे। कुछ पाश्चात्य देशों में कृषि की अपेक्षा

सामाजिक पृष्ठभूमि

चरागाहों पर पशु तथा कृषक दोनों ही अधिक निर्भर होते हैं। अतः वे सब अपने अपने खलिहानों और चरागाहों में अलग-अलग घर बना कर रहते हैं। पूर्वी भारत और लगभग समस्त भारत में ग्राम-भूमि ३ भागों में बँटी रहती थी : गोचर भूमि, क्षेत्र भूमि तथा वस्तु। गोचर भूमि चरागाहों को कहते थे, क्षेत्र भूमि में खेत रहते थे और वस्तु ग्राम का वह भूमिभाग होता था जिसमें सभी रहा करते थे। इनके बीच-बीच गर्त, पोखर और सूखे गड्ढे वाले प्राकृतिक नाले और कृत्रिम नहरें तथा गोपथ हुआ करते थे।^{२७} ग्रामों के इस गठन का सद्यः प्रभाव यह हुआ था कि लोग एक साथ रहते थे अतः उनकी सामाजिक समवेदना अधिक विकसित थी, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी हुआ करते थे, उनके उत्सव, पर्व, संस्कार और धार्मिक अनुष्ठान भी केवल वैयक्तिक या कौटुम्बिक मात्र न होकर समस्त ग्राम की जनता से सम्बद्ध होते थे। इसी कारण जनशक्ति कभी भी बिखर नहीं पाई थी।

जनता के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार कृषि थी। कृषि का महत्व कितना अधिक था यह इससे भी प्रतीत होता है कि उस समय की राजसत्ता कृषि के विकास में सदैव तत्पर रहती थी। नहरों, तालाबों और कुओं द्वारा सिंचाई कराने का प्रबन्ध सरकार द्वारा होता था। बहुत से तालाब और बाँध मौर्यकाल में ही बनवाये गये थे और तत्कालीन सरकारें उनकी मरम्मत करवाया करती थीं।^{२८} नहरें आदि निकालने का शिल्प हमारे यहाँ पहले ही बहुत उन्नत हो चुका था। कल्हण की 'राजतरंगिणी' में इस प्रकार के एक कुशल शिल्पी सूर्य का उल्लेख मिलता है। काश्मीर के राजा अवन्तिवर्मन ने संकट काल में सूर्य को बुलवा भेजा। सूर्य ने वितस्ता के पानी को नहरों में काट कर बाढ़ द्वारा आये हुए संकट का निराकरण कर दिया। यही नहीं उसने प्रत्येक ग्राम की भूमि का परीक्षण कर उसकी आवश्यकता के अनुमान से जल वहाँ पहुँचाया। कल्हण के शब्दों में नदियों को इस तरह नचाया जैसे 'सपेरा साँपों को नचाता है।'^{२९}

इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि को सदैव राजकीय संरक्षण प्राप्त रहता था। केन्द्रीय सरकार का यह प्रमुख कर्तव्य होता था कि वह कृषि की उन्नति करती चले। इसके अतिरिक्त तत्कालीन वाङ्मय में भी हमें कृषि कला तथा उससे सम्बद्ध प्रसंगों पर इतनी कृतियाँ मिलती हैं कि उनसे ज्ञात होता है कि कृषि में कृषक रुचि लेते थे, वे केवल दास नहीं थे और उसे कला मानते थे। 'पादप विवक्ष', 'वृक्ष दोहद', 'वृक्षायुर्वेद', 'शस्यानन्द', 'कृषि-पद्धति', और 'कृषि संग्रह'

आदि ग्रन्थों के अतिरिक्त पशुपालन तथा पशुओं की नस्ल और जाति के संबंध में भी काफ़ी साहित्य मिलता है। ३० यहाँ तक कि लोक-जीवन के पर्व और विशेष समारोह भी ऋषि से ही सम्बद्ध थे और अधिकांश देवता जो उन पर्वों के अधिष्ठाता थे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऋषि से ही सम्बद्ध थे। ये पर्व ऐसे थे जो हिन्दू, बौद्ध तथा सभी धर्मावलम्बियों द्वारा समान रूप से मनाये जाते थे। इस प्रकार के पर्वों में शक्रोत्थान का विशेष महत्व है जिसमें इन्द्र की पूजा होती थी। इसी प्रकार का उत्सव शबरोत्सव था जो निस्सन्देह आदिवासी शबरोँ का उत्सव रहा होगा। उसमें जनसाधारण पत्तों के वेश परिधान ग्रहण कर उन्मत्त होकर आनन्द मनाते थे। कुछ उत्सव फसलों और ऋतुओं से भी सम्बद्ध होते थे जैसे चैत्र का काम-महोत्सव या होली और कुछ उत्सव फसल के बाद बिक्री से आने वाली वार्षिक आय के स्वागत में होते थे जैसे कार्तिक की द्यूत प्रतिपदा जिसमें आने वाली लक्ष्मी का उपयोग द्यूत क्रीड़ा में होता था।^{३१}

जन्तु को भूमि पर जैसे अधिकार यहाँ प्राप्त थे वैसे सामंती युग में यूरोपीय देशों में नहीं थे। अन्ततोगत्वा राजसत्ता ही भूमि की स्वामिनी मानी जाती थी किन्तु भूमि के विषय में जो परम्पराएँ प्रचलित थीं उनसे राजसत्ता कभी भी निरंकुश नहीं हो सकती थी। ताम्रलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि कुछ केवल वेदखल और कुछ केवल कर्मी ऋषक भी होते थे। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि अक्सर कुछ वर्ष तक कर न देने पर भूमि किसान से छीन ली जाती थी और फिर नीलाम कर दी जाती थी। किन्तु ऐसे अवसरों पर भूमि का हस्तान्तरण, बेदखली, पुनर्विक्रय आदि राज्य के अधिकारी नहीं वरन स्थानीय ग्राम-सभाएँ करती थीं जो स्वतः प्रजातान्त्रिक सभाएँ होती थीं।^{३२} वैसे राज्य, भूमि आदि दान कर सकता था किन्तु वह कभी भी ऋषकों से छीन कर भूमि दान नहीं करता था। एक ताम्रपत्र जो लगभग ७वीं शती का है ऐसी दान भूमि का मनोरंजक उल्लेख करते हुए बताता है कि जो भूमि अग्रदा (ब्रसने के अयोग्य), अग्रहता (ऋषि के अयोग्य) तथा खिल (बंजर) है, ऐसी भूमि बौद्ध संघ को दान की गई।^{३३}

सिद्धान्त रूप से भूमि का स्वामी कोई भी क्यों न माना जाय, किन्तु आर्थिक स्थिति को वास्तविक रूप से लगान व्यवस्था प्रभावित करती है। भूमिकर प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार अधिकृत भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात से न लिया जाकर उपज के अनुपात से लिया जाता था। वैसे इन करों के अलावा चाट तथा भट कर ऋषकों को देने पड़ते थे जिनमें से प्रथम तो राजागमन के

सामाजिक पृष्ठभूमि

समय लगता था और द्वितीय ग्राम के निकट से किसी सेना के गुजरने पर । किन्तु इनके अतिरिक्त सेनाओं अथवा राज्याधिकारी को ग्रामीण जनता के साधारण जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था । दान की हुई भूमि तो 'अभट-चाट-प्रवेश्य' मानी जाती थी । वैसे ये भट कभी-कभी ग्राम निवासियों को सताने का भी प्रयास करते थे तो ग्राम निवासी इनको निरंकुशता का बराबर सामना करते थे ।^{३४}

विशेषतया हमारे विवेच्य काल में पूर्वी भारत में पाल-वंश ने भूमि व्यवस्था में कई सुधार किये थे । इन्होंने घोषित किया था कि भूमि 'सादशापचाराः परिहत सर्वपीडाः अकिंचित प्रग्रहाः भूमिच्छिन्द्र न्यायेन आचन्द्रार्कक्षित समकालम्' हैं । अर्थात् 'जब तक सूर्य और चन्द्र हैं तब तक यह भूमि दश प्रकार के अतिचारों से मुक्त है, पीड़ाओं से मुक्त है, अदेय करों से मुक्त है ।' इस नये निविधर्म के बाद जनता की आर्थिक अवस्था और भी सुधर गई । इसके अतिरिक्त उन्होंने अक्षयनिविधर्म अथवा, अप्रदाधर्म की भी घोषणा की जिसके अनुसार जिसको भूमि दी जाय वह जब तक चाहे उसका उपभोग कर सकता है किन्तु उसका विक्रय नहीं कर सकता या उसे रेहन भी नहीं रख सकता । यह नहीं कहा जा सकता कि यह धर्म (भूमिव्यवस्था) केवल राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि पर ही लागू होता था या समस्त भूमि पर, किन्तु इतना स्पष्ट है कि पाल-वंशी राजाओं ने कृषक की भूमि को और भी सुरक्षित बना दिया । कृषक में अपनी भूमि, उसके उत्पादन तथा उसके उपभोग के प्रति एक स्वस्थ ममता तथा अभिमान जाग गया ।^{३५}

इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि की समुन्नत अवस्था तथा कर-व्यवस्था दोनों ही इस प्रकार की थी कि जनशक्ति को बहुत बल प्राप्त हो गया था, तीसरी वस्तु जिसने जनशक्ति को बहुत बलशाली बना रक्खा ग्राम-संगठन था वह थी भारत की ग्राम सभाएँ । ये ग्राम सभाएँ ही वास्तव में वास्तविक शासक हुआ करती थीं और ये केन्द्रीय सत्ता से सर्वथा स्वतन्त्र संस्थाएँ होती थीं । किन्तु इनका चुनाव प्रजातान्त्रिक रूप से होता था, यहाँ तक कि घड़ों में ठीकरियाँ डाल कर गुप्त मतदान की प्रथा भी उस समय प्रचलित थी ।^{३७}

जातियों की सापेक्ष स्थिति की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्थूल तौर पर

अपभ्रंश काल में हमारे समाजगठन में बहुत सी नई जातियों का समावेश हुआ है, बहुत सी जातियों के सामाजिक स्तर बदले हैं, बहुत सी निम्न-वर्ग तथा पुरानी जातियों का सम्मिश्रण हुआ है और कुल मिला कर निम्न-जातियाँ अन्य कालों की अपेक्षा इस काल में कुछ दिनों के लिये बहुत सी ऐसी जातियों का आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व रहा है जो ब्राह्मणों द्वारा तिरस्कृत और हेय समझी जाती रही हैं।

इसका प्रमुख आर्थिक कारण यह प्रतीत होता है कि ज्यों ज्यों नगरों का विकास होता गया और विदेशों से व्यवसाय की वृद्धि होती गई त्यों त्यों वैश्य कृषि तथा शिल्प छोड़ते गये, त्यों त्यों शूद्र उन्हें अपनाते गये यहाँ तक कि ह्वेन-सांग उन्हें कृपक ही कहता है। ये निम्न जातियाँ समाज के आर्थिक उत्पादन में विशेष योग देते हुए उन ब्राह्मणों को हेय दृष्टि से देखती होंगी जो स्वतः कोई भी उत्पादन श्रम न करते हुए केवल दानवृत्ति पर जीवित रहते थे।

ब्राह्मण उस समय चिन्तक न रहकर राज्याश्रित कर्मकाण्डी पुरोहित मात्र रह गया था। वह दान की भूमि का उपयोग करता था। वह लोभी और कायर हो गया था। स्वयम् वाण ने हर्षचरित में कहा है निरभिमानी राजा और लोभरहित ब्राह्मण मिलना कठिन है ^{3८} और युद्ध के समय ब्राह्मण की वीरता का तो वाण ने अद्भुत चित्रण किया है। जिस समय हर्ष शत्रु पर अक्रमण करने के लिये अपनी सेना सहित प्रस्थान कर रहा था उस समय वृद्धों की चोटियों पर खड़े होकर कांपते और चीखते हुए योद्धा वीर ब्राह्मण को कंचुकी डरडे द्वारा उतारने का प्रयास कर रहा था। ^{3९}

किन्तु यह विद्रोह केवल तत्कालीन आर्थिक कारणों से ही नहीं था। इस के पीछे एक पुरानी विरोध-परम्परा चली आ रही थी, ऐसा लगता है। पूर्वीय प्रदेश के मगध, विदेह आदि प्रान्त के निवासी बाद में वैदिक संस्कृति के प्रभाव में आये थे और उन्होंने कभी भी पूर्णतया अपने को समर्पित नहीं किया था। विशेषतया उनकी अब्राह्मण जातियाँ बहुत पहले से ब्राह्मण विरोधी रही हैं और ब्राह्मणों की सत्ता उस रूप में नहीं स्वीकार कर पाई। बौद्ध-साहित्य में स्थान-स्थान पर इस भावना की प्रतिच्छाया दीख पड़ती है। उदाहरण के लिये जन्म से वर्ण का निषेध किया गया है। मथुरा सुत्त, मज्झिम निकाय में मथुरा अवन्ति-पुत्र समण काञ्चाअन से पूछता है 'ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ कहते हैं। अपने को गौर अन्य को श्याम वर्ण कहते हैं। तुम्हारा क्या मत है?' तो समण जातिगत

सामाजिक पृष्ठभूमि

श्रेष्ठता का निषेध करते हैं। ४० दीर्घ निकाय से तो यहाँ तक ज्ञात होता है कि कोशलराज जब ब्राह्मण प्रजा से मिलते थे तो उनका मुँह तक नहीं देखते थे। नीच में पर्दा डलवा दिया जाता था। ४१

कहीं कहीं इन जातियों का ब्राह्मण विरोध दूसरे रूप में प्रगट होता था। वे स्वतः अपने को ब्राह्मण कहने लगती थीं। आचार्य क्षितिमोहन सेन का मत है कि उस समय इतनी रूढ़ जाति व्यवस्था नहीं थी। बहुत सी जातियों का पद उठता गिरता रहता था। बहुत सी नीची जातियाँ ब्राह्मण बन गई थीं। इन जातियों में बहुत से कृषक भी थे। ४२ डोम और चमार भी अक्सर अपने पूर्वजों के ब्राह्मण होने का दावा करते थे। यद्यपि यह कथाएँ पंजाब में मिलती हैं किन्तु तृत्व की दृष्टि से बंगाल के ब्राह्मणों की निकटता पंजाब के ब्राह्मणों से बहुत अधिक है। ४३ बहुत से ब्राह्मण ऐसे भी थे जो अपने को ब्राह्मण कहते थे किन्तु अन्य ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मण नहीं स्वीकार करते। ऐसे ब्राह्मणों को अक्सर अनार्यों का ब्राह्मण कहा गया है। ऐसे ही ब्राह्मण बाद में भी तान्त्रिक तथा तथाकथित वेद-वाह्य साधनाओं और अनुष्ठानों को संरक्षण प्रदान करते रहे। ४४

तन्त्रों में अक्सर ऐसे ब्राह्मणों के विषय में मनोरंजक बातें मिलती हैं। पहले वे लोग वामाचार में कम भाग लेते थे, इस सीमा तक वे निम्न वर्ग से अपने को अलग रखना चाहते थे। इसी कारण से तन्त्रों को दो पद्धतियाँ स्वीकार की गई थीं, दक्षिण-वाम जिनमें से दक्षिण सात्विकी पद्धति थी और ब्राह्मणों द्वारा ग्रहणीय थी। बाद में यह भेद भी हटा दिया गया और यह सिद्धान्त निकाला गया कि भैरवी चक्र में प्रवृत्त होते समय कोई वर्ण नहीं रह जाता, निवृत्त होने के बाद पुनः वर्ण की सार्थकता हो जाती है।

किन्तु तन्त्रों में अधिकांश ब्राह्मण ऐसे थे जो रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा तिरस्कृत थे क्योंकि तन्त्रों में ऐसे ब्राह्मणों को भुक्ति और मुक्ति दोनों की आशा दिलाई गई है जो शापनिर्दग्ध और ब्रह्म-कर्म-विवर्जित थे। ब्रह्म-कर्म से उन्होंने ब्राह्मणों को विवर्जित किया गया था जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण से आधार-भ्रष्ट थे अथवा आर्थिक पेशे और सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्ग के साथ थे।

तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न वर्णों में जीविकाओं का विपर्यय प्रचलित हो गया था। इसके बहुत उल्लेख मिलते हैं कि ब्राह्मण तैलकार, व्याध आदि का पेशा अपना लेते थे। यह रीति बहुत दिनों से प्रचलित थी और ऐसे ब्राह्मणों को शुद्ध कर्मकाण्डी ब्राह्मण अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे और उन्हें

अपना समकक्ष नहीं मानते थे। मनुस्मृति में कहा गया है कि श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मणों को न बुलावे जो कितव, मांसविक्रयी, पशुपाल और तैलिक हों।^{४५} इसी प्रकार कुसीद-जीवी, पशुपालक, सोमविक्रयी, तैलकार धनुषवाण बनाने वाला, पक्षी पालने वाला, नहर आदि का निर्माण करने वाला तथा सोमविक्रेता, इन व्यवसायों वाले ब्राह्मणों को भी श्राद्ध भोजन में निषिद्ध ठहराया गया है।^{४६} इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भाग शुद्ध कर्मकाण्ड और पौरोहित्य छोड़ कर कृषि और अन्य व्यवसायों को अपना चुका था और अनुदार उच्च वर्गीय ब्राह्मण उन्हें दृष्टि से देखता रहा होगा। पूर्वीय प्रान्तों में यह व्यवसाय-विपर्यय और शीघ्रता से हुआ होगा क्योंकि पूर्वीय क्षेत्रों के लोगों ने पहले ही पश्चिमी अनुदार और कर्मकाण्डी ब्राह्मणों के नियम नहीं स्वीकार किये थे और इसी कारण उन्हें वरावर ब्राह्मणों की संज्ञा मिलती रही। बहुत से विद्रोही, उदार-मना ब्राह्मण इन नयी और सशक्त जातियों से अधिक निकटता अनुभव करते थे, उनका जीवन, उनकी चिंतना सभी उन्हें अनुदार ब्राह्मण कर्मकाण्ड से अधिक मानवीय स्वस्थ और सहज लगती थी और स्पष्ट है कि सरहपा आदि उसी प्रकार के लोक-जीवन के साथ चलने वाले विद्रोही ब्राह्मण थे। उनके अतिरिक्त भी बहुत से सिद्ध या तो इन्हीं जातियों में उत्पन्न हुए थे या उन्होंने उन्हीं का रहन-सहन और व्यवसाय भी अपना लिये थे। इस विषय में डा० बागची का एक मत है जिस पर विचार कर लेना आवश्यक है। उनका यह कहना है कि इन अधिकांश सिद्धों का नाम चर्या का नाम था और ये चर्याएँ केवल योगचर्याओं का संकेत करती थीं अतः यह आवश्यक नहीं कि ये सिद्ध उन निम्न जातियों के हों जिनका संकेत उनके नामों से मिलता है।^{४७} किन्तु जैसा कि हम पहले विचार कर चुके हैं कि स स्वयं सूची में अधिकांश सिद्ध जन्मना शूद्र, या क्षत्रिय बताये गये हैं और कुछ सिद्धों ने निम्न वर्ग की स्त्रियों से विवाह कर उनकी आजीविका अपना ली थी। सरहपा अपनी महामुद्रा साधना विवाह के उपरान्त तिल कूटने लगे थे। इस प्रकार रोटी (या रोजी) और बेटी दोनों ही दृष्टि से ये सिद्ध इन श्रमजीवी जातियों के साथ थे और आचार्य सैन ने रोटी और बेटी इन्हीं दो तत्वों को भारतीय जातिभेद का आधार माना है।^{४८}

ये जातियाँ न केवल आर्थिक दृष्टि से अधिक पुष्ट थीं, वरन् राजनीतिक सत्ता भी उस समय इन्हीं के हाथ में आ रही थीं। पाल-वंश अब्राह्मण वंश था और 'मंजुश्री मूलकल्प' के अनुसार 'दासजीवी' था, इस पर हम विचार कर चुके:

सामाजिक पृष्ठभूमि

हैं। कामरूप में भी १०वीं शती में ब्रह्मपाल नामक शासक जनता द्वारा चुना गया जो भगदत्त का वंशोद्भव था और भगदत्त की परम्परा निस्सन्देह अर्वाचिक और अर्वाचिक वताई गई है। ४९ इन राजवंशों ने भारतीय सहिष्णुता की परम्परा निवाहते हुए ब्राह्मणों का भी आदर किया और प्रख्यात सम्राट धर्मपाल का मन्त्री ब्राह्मण ही था किन्तु इन्होंने जन-संस्कृति जन-कला और जन-भाषा को भी प्रश्रय दिया। धर्मपाल के समय में जिस सोमपुरी बिहार के उद्धार का उल्लेख पीछे किया जा चुका है वह बङ्गाल के पहाड़पुर के निकट था। पहाड़पुर के पुराने मन्दिरों तथा बिहारों में जो कला उपलब्ध है वह निस्सन्देह लोक-कला है। उसके विषय में प्रख्यात कलाविद् नीहाररंजन राय का मत है कि 'पहाड़पुर में प्रायः ८वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का मूल स्वभाव लोकपरक है और उसकी प्रमुख प्रेरणा सीधी सादी ग्राम निवासी जनता की मनोवृत्ति और कल्पना से उद्भूत हुई है।' ५० वास्तव में राजसत्ता जनशक्ति से प्रभावित होने के कारण लोक-श्रयी हो गई थी लोकपीडक नहीं, और लोकमत इससे प्रोत्साहन पाकर धर्मसाधना और धार्मिक साहित्य पर गहरा प्रभाव डाल रहा था। समाज-पद्धति और उनके नियमों की ओर भी वे जागरूक थीं। इन निम्न वर्ग की जातियों में जो अपनी विचित्र गाथाएँ और किम्बदन्तियाँ प्रचलित थीं उनमें कभी कुछ बड़े ही विचित्र तत्व ऐसे मिल जाते हैं जो इस ओर संकेत करते हैं कि ये जातियाँ मनु द्वारा निर्धारित नियमों से असन्तुष्ट हैं और एक ऐसी जीवन पद्धति के प्रति उनका विशेष आग्रह है जो प्रवृत्ति-मूलक हो। परवर्ती सहजिया कथाओं में से एक कथा के अनुसार ब्रह्मा के दो पुत्र थे मनु और प्रख्यात योगी जड़भरत। मनु ने मनुस्मृति लिख कर वर्णाश्रम और वाह्याचारों का विधान किया। भरत रेवातट पर एक गुफा में ध्यान करने गये। वहाँ उन्होंने एक चरवाहे को अपनी प्रेमिका के साथ सहज प्रणय-केलि में तल्लीन देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे नारायण के पास गये तो नारायण भी उन्हें अपनी शक्ति के साथ मिले। तब वे लौट कर आये और उन्होंने इस रागात्मक सहज जीवन पद्धति का प्रचार किया। ५१ इस कथा में मनु द्वारा निर्धारित जीवन-पद्धति के प्रति असन्तोष को सुंदर ढंग से रक्खा गया है।

आगे के अध्यायों में सिद्ध-साहित्य के सिद्धान्त-पद्धत तथा काव्य-पद्धत का विवेचन करते समय हमने उन तत्वों की ओर विशेष संकेत कर दिया है जो लोक-धर्म के प्रभाव से आये हैं। महायान का सारा आन्दोलन लोक-परक था, तन्त्रों

की पद्धतियों में कैसे निम्न वर्ग तथा विद्रोही ब्राह्मणों ने अवैदिक देवताओं और अनार्थ पद्धतियों को वैदिक देवताओं और ब्राह्मण कर्मकाण्ड की समकक्षता में प्रतिष्ठित कर दिया, वज्रयान में कैसे शून्य की नकारात्मक भावना की अपेक्षा विज्ञानवाद की तथता को प्रथम स्थान मिला, मन के मारण की साधना में कैसे अभावात्मक शून्य की अपेक्षा भावात्मक महाराग को प्रश्रय मिला, कैसे साधना-पद्धति में आर्थिक जीविकाएँ भी आध्यात्मिक चर्या के रूप में स्वीकृत हुईं, उपलब्धि में नकारात्मक निर्वाण की अपेक्षा देह को समस्त तीर्थों का आलय माना जाने लगा और किस प्रकार उनकी यह साधना केवल भोगवादी साधना न होकर राग द्वारा राग की अनासक्ति की साधना थी, इसका विस्तृत विवेचन आगे के अध्यायों में है।

कुछ तत्व अवश्य ऐसे हैं जो लोक-परक व्याख्या को सीमाबद्ध कर देते हैं—उनकी ओर प्रारम्भ में ही संकेत कर देना आवश्यक है। उनमें से प्रथम है सिद्धों की साधना पद्धति में व्यक्ति का महत्व। लोकपक्ष का प्रभाव होते हुए भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया था इसका कारण भी तत्कालीन समाज पद्धति से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध है।

ब्रिटिश इण्डोलोजिस्ट ग्रुप जो भारतीय सामाजिक इतिहास का अध्ययन कर रहा है उसको प्रमुख सदस्य जान इर्विन का कथन है कि सामन्ती समाज में लोक-संस्कृति को प्रमुखता तभी मिलती है जब कि देश की लोकमत की आर्थिक व्यवस्था सुगठित और स्वाधीन हो, कृषि और शिल्प अभिव्यक्ति के रूप का निकटतम सम्बन्ध हो और समाज छोटे-छोटे स्वाधीन गणों में विभाजित हो। ऐसी परिस्थितियों में उच्चवर्गीय सत्ताओं और लोक-प्रचलित सांस्कृतिक शैलियों में स्पष्ट विभाजन रेखा दीख पड़ती है, किन्तु उसके लिये आवश्यक है कि जनता को इतनी स्वाधीनता हो कि वह उच्चवर्गीय अनुदार मान्यताओं का विरोध कर सके।^{५२} ऐसी परिस्थितियों में लोक-संस्कृति उच्चवर्गीय निराशावादी जीवन विमुख दृष्टिकोण को त्याग कर, जीवन के स्वस्थ उपभोग का सन्देश देती है, मानवतावादी दृष्टिकोण अपना कर, तप, कष्ट-साध्य साधनाएँ और वैराग्य का निषेध कर प्रवृत्ति मार्ग ग्रहण करती है।^{५३} किन्तु इन सभी मध्यकालीन लोकपरक साधनाओं में वैयक्तिक साधना पर जोर दिया गया है, व्यक्ति प्रमुख है इसका भी सम्भवतः यही

सामाजिक पृष्ठभूमि

कारण है कि उत्पादन के उस रूप में अधिकांश शिल्पी स्वतः शिल्प की पूरी प्रणाली स्वयं सम्पन्न करते थे। स्वयम् विक्रेता भी थे। इसी कारण धर्म-साधना में भी व्यक्ति को ही महत्व मिला हुआ था क्योंकि उस जीवन-प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति अपने में कमोवेश एक पूर्ण इकाई बन गया था।^{५४} यद्यपि वह वैयक्तिकता अस्वस्थ समाज-विरोधी वैयक्तिकता नहीं थी क्योंकि सामाजिक उत्पादन में वह व्यक्ति एक महत्वपूर्ण इकाई था। अतः मध्यकाल में धर्म व्यक्ति को केन्द्र बनाकर चलता था और लोकपन्न को अभिव्यक्ति देने वाला धर्म जाति व्यवस्था, नैतिक मर्यादा, सामाजिक अनुशासन सभी को व्यक्ति के आगे गौण मानने लगता है। व्यक्ति की यही अन्यतम महत्ता सिद्ध पुरुषों, नाथों, यतियों या सन्तों की अलौकिक चमत्कार शक्तियुक्त कल्पना के रूप में लोकमानस में प्रतिष्ठित हुई है जहाँ व्यक्तिगत साधक को वज्रसत्व या आदिनाथ, या स्वतः हरि के समकक्ष माना गया है। किन्तु इसका परिणाम यह भी होता रहा है कि मूल सामाजिक लक्ष्य को भूल कर व्यक्ति की महत्ता, उच्छ्वलता, असामाजिकता, अनैतिकता और अनुशासनहीनता की ओर ले जाती रही है, और राग द्वारा राग का परिशमन अन्त में वासनाओं की अदम्य और बीभत्स क्रीड़ाओं में परिणत होता रहा है।

दूसरा तत्व जो इनकी गति को सीमाबद्ध करता रहा है वह है सम्प्रदाय। सभी लोकतत्व अपने को धर्म के माध्यम से व्यक्त करते रहे हैं और इसके लिये वे किसी न किसी पूर्वागत धर्म परम्परा में आश्रय लेते रहे हैं और जितना प्रबल विद्रोह हुआ है, परम्परा में अपनी जड़ें गहरी जमाने के लिये कभी कभी वह उतना ही 'साम्प्रदायिक' भी हो गया है। सिद्धों ने सभी सम्प्रदायों के बाह्य-चार का खण्डन करते हुए भी वज्रयानी अनुष्ठानों को अपनाया। गोरख ने जन्तान्त्रिक गुह्याचारों का विरोध किया तो एक नया सम्प्रदाय संगठित किया। यहाँ तक कि कबीर जैसे स्वतन्त्रचेता महापुरुष के पीछे भी एक सम्प्रदाय चल पड़ा जिसने उनकी लोक-परक चिन्तनाओं को छोड़ कर साम्प्रदायिक संकीर्णताओं को प्रश्रय दिया।

तीसरी और सबसे विचित्र सीमा रही है अत्यधिक लोक-सम्पर्क। तत्कालीन लोकमानस ब्राह्मणों की निवृत्तिमूलक जीवनपद्धति के विरुद्ध तो अवश्य था किन्तु उसमें उस संस्कार, और परिशोधन का अभाव था जो सत् और असत्, शिव और अशिव के बीच की रेखा बन जाती है। उच्चवर्गीय विद्वानों ने

ज्योतिष, भाषा विज्ञान, गणित, ओषधि विज्ञान, शरीर शास्त्र आदि में अभूतपूर्व उन्नति की थी। उसके स्थान पर निम्नवर्ग की जनता में टोना टोटका, भूत प्रेत, अन्धविश्वास, रहस्यमयी परम्पराएँ, बलिप्रथा आदि का बाहुल्य था जो उनके आदिम संस्कारों और बर्बर काल की अवशेष प्रवृत्तियों का द्योतक था। जब लोक पद् ने अपने को तत्कालीन धर्मसाधनाओं में प्रतिष्ठित किया तो यह असंस्कृत अंश भी उभर आया और ज्योतिष विज्ञान की राशियाँ और नक्षत्र, गणित-विज्ञान के रेखाचक्र, यन्त्र आदि, ओषधिविज्ञान की रस और रसायन कल्पनाएँ भी उन रहस्यमयी साधनाओं में तान्त्रिक अनुष्ठानों के रूप में अन्तर्भूक्त हो गई^{५५} और बाद में भी उन विज्ञानों का विकास इन्हीं सीमाओं में होता रहा और उनका शुद्ध भौतिक रूप या वैज्ञानिक रूप गौण हो गया। धर्म-साधनाओं में भी मन की साधना, चित्त की विशुद्धि गौण हो गई और लोक साधारण में अनुष्ठान तथा ये असंस्कृत गुह्य साधनाएँ ही प्रचलित रहीं यद्यपि सरहपा से लेकर कबीर तक अपनी अपनी शैली में मन की साधना को प्रमुख बताते रहे। किन्तु लोकपद् का वह अंश जितना शिव था, कल्याणकारी था यह अंश उतना ही अशिव और यह इतना प्रबल था कि परवर्ती कबीरपन्थ तक में सुअरों की बलि आदि की प्रथा अपनाई गई।^{५६} विशेष जातियों में खान पान, विवाह, स्थानीय देवी देवता, पुरानी गाथाएँ पहले से प्रचलित थीं और जब किसी विशेष धर्म-साधना का प्रवेश उनमें हुआ तो उन्होंने अपनी सुविधानुसार उस धर्म-साधना का रूप वैसा ही बदल लिया।

यही मुख्य दिशाएँ हैं जिनके आधार पर हम वज्रयान के विकास का अध्ययन करते हुए लोकतत्व की भी व्याख्या करते चलेंगे। बौद्ध धर्म इस लोकतत्व को प्रारम्भ से ही प्रश्रय देता रहा है। उसी के अन्तर्गत वज्रयानी सिद्धों ने सहज पद्धति का भी विकास किया।

द्वितीय अध्याय
वज्रयान की परम्परा

क महायान का विकास

ये चौरासी सिद्ध जिस वज्रयान सम्प्रदाय के अनुयायी थे, वह कोई अलग सम्प्रदाय न होकर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ही विकसित रूप था। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि सर्वमान्य वज्रयानी सिद्धान्त ग्रन्थों में कई स्थानों पर महायान का उल्लेख है। त्रिसमय राज की साधना में 'अनया मन्त्री महायान परिहीयते', ऐसा उल्लेख मिलता है।^१ इसी प्रकार भगवती वज्रतारा की साधना में भी महायान का उल्लेख मिलता है जिसमें त्रिरत्नों में से धर्म को समग्र महायान का वाचक बताया गया है और उसी के प्रसंग में वज्रयान का भी उल्लेख है।^२ इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 'बौद्ध तन्त्र साधना महायान की ही शाखा थी और वज्रयान महायान का पूर्वाधिकार स्वीकार करता है।'^३ वज्रयान का, महायान के ही परिष्कृत रूप होने का एक और भी स्पष्ट अन्तरंग प्रमाण 'वज्र-गर्भ-तन्त्र-राजसूत्र' में मिलता है।^४ इस ग्रन्थ में दक्षिण भारत के किसी सम्राट वीर्यदत्त का उल्लेख है 'जो श्रद्धायुक्त तथा गहन विश्वासी प्रकृति का था। उसने प्रसन्नता से अनुत्तर धर्म की शिक्षा ली और वज्र महायान में दीक्षित हो गया।'^५ इस उद्धरण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वज्रयान वास्तव में महायान की ही वह परवर्ती प्रणाली थी जिसमें तन्त्रिक प्रवृत्तियाँ प्रविष्ट हो गई थी। महायान का विकास बौद्ध धर्म के अन्तर्गत ईसा की पहली शताब्दी के लगभग माना जाता है। वैडेल^६ तथा कीथ^७ दोनों ने महायान के प्रथम विकास का यही समय स्वीकार किया है। यदि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि ४८६ ई० पू० में मानी जाय।^८ तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के लग-

भग ४०० वर्ष बाद महायान अंकुरित हुआ। बुद्ध ने अपने समय में ही अन्ध धार्मिक विश्वास को प्रोत्साहन न देकर तर्क-परम्परा और विचारशीलता का समर्थन किया था। तत्व-संग्रह में भगवान बुद्ध ने कहा था—‘परीक्ष्य भिक्षुवो ग्राह्यम् मद्बन्धो न तु गौरवात् ।’^{१९} ‘भिक्षुओं को स्वतः परीक्षा करने के उपरान्त मेरे बन्धनों को ग्रहण करना चाहिये, केवल मेरे गौरव से आतंकित होकर नहीं।’ जिस धर्म में इतना विचार-स्वातंत्र्य हो उसमें विभिन्न सम्प्रदायों तथा साधनाओं और विचार-पद्धतियों का विकसित होना सर्वथा स्वाभाविक है।

महायान की विचार तथा साधना-पद्धति की मूल प्रेरणा यह थी कि बौद्ध धर्म की कठिन और दुस्साध्य जीवन-पद्धति को अधिक लोकपरक और सहज बनाया जाय।^{१०} इस प्रवृत्तिमूलक साधना-पद्धति पर उनका महायान के विकास की मूल प्रेरणा इतना आग्रह होने का प्रमुख कारण यह था कि उनकी चिन्तना का केन्द्र केवल व्यक्ति तथा उसका निर्वाण नहीं था, वे लोकहित तथा समस्त लोक की मुक्ति के लिये उत्तरदायित्व का अनुभव करते थे।

इस सम्बन्ध में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की कथा बड़ी रोचक तथा महत्वपूर्ण है। जब अवलोकितेश्वर ने निर्वाण प्राप्त कर लिया और वह अनन्त शून्य में लीन होने जा रहा था तभी उसने सुमेरु पर्वत के शिखर से कोई दूरागत क्रन्दन का स्वर सुना और वह बहुत उदास हो गया। वह गहन चिन्तना में लीन होगया और तब उसे यह ज्ञान हुआ कि यह क्रन्दन और कुछ नहीं है महाकरुणामय बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के अन्तर्धान होने पर लोक साधारण का परिताप है। अवलोकितेश्वर जो उनके भौतिक दुखों तथा पीड़ाओं में एकमात्र सहारा था, उसको खो देने की आशांका से वे निस्सहायावस्था में गगन-भेदी क्रन्दन कर रहे थे। यह जान कर उसका हृदय विचलित हो गया और उसने निश्चय किया कि वह अपने सुकृत पुण्यों द्वारा अर्जित निर्वाण को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक भूमि पर एक भी व्यक्ति भवजाल में बंधा रहता है।^{११} इसी प्रकार बोधिसत्व लोक-हित के लिये प्रार्थना करते हुए कहता है, ‘मैं प्रत्येक दिशा के सभी सम्बुद्धों से बद्धकरो से प्रार्थना करता हूँ कि जो ममता-बन्धन के कारण दुखजाल में आबद्ध हैं उनके लिये धर्म का दीपक प्रोज्ज्वलित करें। मैं सभी आत्मनिग्रही सम्बुद्धों से आग्रह करता हूँ जो महानिर्वाण प्राप्त करने को

महायान का विकास

सन्नद्ध हैं कि वे असंख्य युगों तक रुके रहें, (ताकि उनके अभाव में) यह संसार तमाच्छादित न हो जाय। मैंने अपनी साधनाओं से जितने भी पुण्य अर्जित किये हैं उनसे सभी प्राणियों के सभी क्लेशों तथा तापों का परिशमन हो.....तीनों भुवनों में व्याप्त अपने सम्पूर्ण सत्व, अपने सम्पूर्ण आनन्द और अपने सम्पूर्ण पुण्यों का मैं निस्संग परित्याग करता हूँ ताकि सभी प्राणियों की कामनाएं पूर्ण हों।”^{१२} इसी कारण से लोक साधारण भी अन्त में स्वतः साधना के कठिन पथ पर विशेष ध्यान न देकर बोधिसत्व की ही महत्करुणा के आकांक्षी हो रहे थे।^{१३} वे लोग जो पूर्ण विकसित नहीं थे उनके लिये भी निर्वाण का तथा क्लेश-शमन का एक सरल मार्ग निर्दिष्ट कर दिया गया था। और उस दृष्टि से बौद्ध धर्म को धीरे-धीरे साधना और अनुशासन की दृष्टि से अधिक लोकपरक बनाया जाने लगा। यहाँ तक कि अन्त में तो यह कहा जाने लगा कि यदि कोई प्रभुतारत्न बुद्ध का नाम मात्र ही स्मरण कर ले तो उसे सम्यक् सम्बोधि प्राप्त हो जाती है या जो सुखावती प्रणिधान मात्र करता है वह उसी को प्राप्त हो जाता है।

ऐसा नहीं है कि महायानी आचार्य वैयक्तिक पूर्णत्व या वैयक्तिक साधना-परक हीनयान का सर्वथा निषेध करते हों किन्तु वे उसे हीन कोटि की साधना मानते हैं क्योंकि उसमें करुणा का अभाव होता है।^{१४} वज्रयानी ग्रन्थों में साधनाओं की दृष्टि से तीन यान स्वीकार किये गये थे। श्रावकयान, प्रत्येकयान तथा महायान^{१५} इनमें से प्रथम दो केवल शून्यता को प्राप्त होते हैं। करुणा केवल महायान की थाती है।

इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि महायान के विकास की मूल प्रेरणा बौद्ध-धर्म को लोक जीवन के निकट पहुँचाने और ऐसे पथ का विकास करने की थी जिसमें केवल सम्बुद्ध व्यक्ति ही नहीं वरन् समस्त लोक का कल्याण हो सके। यह प्रवृत्ति बुद्ध के बाद से ही किस प्रकार धीरे धीरे अंकुरित हुई अन्त में केवल महायान के विशाल, बहु-शाखाओं से समन्वित बटवृद्ध में परिणत हो गयी इसके लिये महायान के क्रमिक विकास पर संक्षेप में विचार कर लेना उचित होगा।

जैसा पहले ही संकेत किया जा चुका है कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों


को इस बात की स्वतन्त्रता दी थी कि उनके वचनों को भी केवल उनके गौरव के आतंक से न ग्रहण करें वरन उनकी सम्यक् परीक्षा करें। महायान का विकास-क्रम उनके कुछ शिष्य उनके विभिन्न उपदेशों की अपनी वैयक्तिक व्याख्याएँ करने लगे। अतः उनकी मृत्यु के उपरान्त ही इस बात की आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि उनके उपदेशों को ठीक रूप से वर्गीकृत और संग्रहीत किया जाय ताकि उनका रूप विकृत न हो। कहा जाता है कि महास्थविर काश्यप ने किसी सुभद्र नामक भिक्षु को बुद्ध भगवान के नाम पर विचित्र से सिद्धांतों का प्रचार करते हुये देखा। अतः उन्होंने इस बात की आवश्यकता समझी कि सभी अर्हतों को बुला कर प्रवर्तक के उपदेशों को संग्रहीत कर लिया जाय। महाराज विम्बसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी संरक्षता ग्रहण की और राजगृह के निकट की पर्वतशृङ्खलाओं में सत्पत्नी की गुफा में ४६६ अर्हतों की प्रथम 'संगीति' बैठी। उस संगीति में भगवान बुद्ध के सभी उपदेशों का गायन हुआ तथा बुद्ध-कथित विनय के १० नियम उपलि द्वारा, अभिघम्म भाग काश्यप द्वारा और सुत्त भाग आनन्द द्वारा उपस्थित किया गया और क्रमशः उन्हीं को विनय-पिटक, अभिघम्म-पिटक तथा सुत्त-पिटक के नाम से संग्रहीत किया गया।^{१६}

इसके बाद बौद्ध धर्म में सहसा बुद्ध द्वारा प्रवर्तित कठोर श्रमण आचारों के विरुद्ध विद्रोह की एक लहर आई। कहा जाता है कि बुद्ध के समय में ही इन कठोर नियमों का उल्लंघन प्रारम्भ हो गया था। बहुत से स्थानों में ऐसे बौद्ध भिक्षु थे जो संघों के नियम का उल्लंघन कर पत्नियों, कन्याओं, तरुणियों और तरुण दासियों को पुष्पोपहार भेजते थे। उनके साथ आसन पर बैठते थे, मद्य पीते थे, नृत्य करते थे, गीत गाते थे और वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते थे। भगवान बुद्ध को जब यह ज्ञात हुआ तो वे बहुत दुःखी हुए।^{१७} ऐसे भिक्षुओं को लोग आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे। किन्तु स्वयम् संघ के अन्दर बहुत से लोग ऐसे थे जो अनुभव करते थे कि संघ के नैतिक अनुशासन सम्बन्धी नियमों को और उदार बनाना चाहिये। विद्रोह का सूत्रपात वैशाली के वज्जि भिक्खुओं द्वारा हुआ और उन्होंने १० नियमों के स्थान पर १० ऐसे सिद्धांतों का प्रचार करना प्रारम्भ किया जिनमें भिक्षुओं द्वारा सोना चाँदी आदि ग्रहण करने की व्यवस्था और कभी कभी रस आदि भी ग्रहण करने की स्वतंत्रता थी। स्थविर यश नामक एक पश्चिम-देशीय वृद्ध भिक्खु उस समय वैशाली में ही

महायान का विकास

था। इन वज्जि भिक्षुओं के विषय में सुन कर वह स्वतः कौशाम्बी गया और वहाँ जाकर उसने इनकी जीवन-पद्धति को स्वतः देखा। वह बहुत संन्यस्त हुआ और उसने तत्काल कुछ दूतों को भेज कर मथुरा और अवन्ति से बौद्ध प्रतिनिधि बुलवा भेजे। उसी के आमन्त्रण पर लगभग ३८६ ई० पू० में वैशाली में द्वितीय संगीति हुई। इसमें लगभग ७०० भिक्षु सम्मिलित हुए और ८ प्रतिनिधियों का मंडल एक एक कर दसों नियमों पर विस्तार से विचार करता रहा, किन्तु लगभग ८ महीने तक विचार होने के उपरान्त वे दसों नियम गृहित नहीं गये, महास्थविरों की जीत हो गई। उन्होंने इनको अधर्मवादी और 'पापभिक्षु' के नाम से पुकारा। किन्तु फिर भी पूर्वीय भिक्षुओं की संख्या बहुत अधिक थी। वे महास्थविरों के निर्णय के आगे झुकने के लिये भी प्रस्तुत नहीं थे अतः उन्होंने स्थविरवादियों के केन्द्र श्रावस्ती से अलग अपना केन्द्र मगध में स्थापित किया और अपने दल का नामकरण 'महासांघिक दल' किया।^{१८}

इस संगति के बाद से बौद्धों में पूर्वी और पश्चिमी दो स्पष्ट दल हो गये और पश्चिमी दल स्थविरवादी या थेरवादी और पूर्वीय दल महासांघिकदल कहलाने लगा। धीरे-धीरे इनके अन्तर्गत भी विभिन्न मार्ग विकसित हो रहे थे। उसी बीच में मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकृत कर लिया था। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में सन् २४२ ई० पू० के लगभग तृतीय संगीति राजपुत्र तिस्र मोगालि की अध्यक्षता में आमन्त्रित की जिसमें प्रायः १००० भिक्षु सम्मिलित हुए। यह सभा लगभग ८, १० महीने तक कार्य करती रही और इसमें दो विशेष कार्य सम्पन्न हुए। विनय, अभिधर्म तथा सुत्त को अन्तिम रूप दिया गया और त्रिपिटक रूप में संगृहीत किया गया।^{१९} इसके अतिरिक्त कथावस्तु नामक ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें बौद्ध-मत के तत्कालीन १८ निकायों का उल्लेख है। इन अष्टारह निकायों का विभाजन बुद्धघोष तथा दीपवंश के अनुसार इस प्रकार था।^{२०}



अशोक के मृत्यु के पश्चात् ही १८२ ई० पू० में पुष्परथ नामक एक सैनिक आम्रात्य ने वृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश ने बौद्ध धर्म का निर्ममता से दमन किया और पुष्यमित्र ने तो अन्धक सम्प्रदाय कितने ही संघाराम जलवा दिये, भिक्खुओं की हत्या करा तथा महायान का दी और फलस्वरूप महासांघिक बौद्ध उत्तर भारत से भाग कर दक्षिण में आन्ध्र देश और पश्चिमोत्तर में मिलिन्द के के आश्रय में चले गये।

आन्ध्रदेश में अशोक के समय में ही महादेव नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। महादेव ने आन्ध्र देश में चैत्यशिला अथवा चैत्यवादी सम्प्रदाय की स्थापना की थी जो महासांघिक दल की ही प्रशाखा था।^{२१} यह शाखा धान्यकटक महाचैत्य के नाम पर प्रख्यात थी। उस नगर के दोनों ओर पहाड़ थे और पूर्व और पश्चिम के पर्वतों पर भिक्षुओं के दो दल रहा करते थे जिनके आघार पर वही चैत्यवादी शाखा पूर्व-शैलीय तथा अपर-शैलीय उपशाखाओं में विभाजित हो गई। धीरे-धीरे उनमें राजगिरिक तथा सिद्धार्थक दो और भी प्रभेद हो गये और ये चार प्रशाखाएं अन्धक निकाय के नाम से प्रख्यात हुईं।^{२२} बुद्धघोष इनके अतिरिक्त हेमवातिक और वाजिरीय शाखाओं का भी उल्लेख करता है।^{२३} इन संप्रदायों में बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का मूल रूप बहुत कुछ

महायान का विकास

बदल चुका था यहाँ तक कि वैपुल्यवादियों ने तीन ऐसे सिद्धान्त प्रचलित किये जो क्रान्तिकारी थे। उनका पहला सिद्धान्त था कि 'संघ न दान ग्रहण करता है, न उसका परिशोधन करता है। न उसे दान देने में महत्व है' उनका दूसरा सिद्धान्त था कि 'न बुद्ध ने अवतार लिया, न वे लोक में ठहरे, न उन्होंने उपदेश दिया।' उनका तीसरा सिद्धान्त था कि 'विशेष परिस्थितियों में मैथुन सर्वथा उचित है।' ^{२४} इसी वैपुल्यवादी तथा उसके आधारभूत निकाय अर्न्धकनिकाय से महायान का जन्म हुआ और इस प्रकार के विभिन्न उदार सम्प्रदायों के बौद्ध अपने को महायानी और दूसरों को हीनयानी कहने लगे।

ठीक-ठीक कब महायान नामकरण हुआ इसका तो कोई निर्णय विद्वान लोग नहीं कर पाये हैं किन्तु अनुमान यह किया जा सकता है कि ईसा की पहली शताब्दी में ही महायान शब्द का व्यवहार होने लगा होगा। महासांघिकों ने स्थावरों द्वारा प्रयुक्त 'अधर्मवादी' और 'पापभिक्षु' के ही प्रतिशोध में उनके मार्ग को हीनयान के नाम से पुकारना प्रारम्भ किया। ^{२५}

कनिष्क के समय में १४० ई० के लगभग ५०० भिक्षुओं की एक चतुर्थ सङ्गीति हुई और कहा यह जाता है कि इसमें बहुत से ऐसे भिक्षु सम्मिलित हुये थे जो अपने को महायान-धर्मी कहते थे। ^{२६}

महायान तथा हीनयान का एक और नामकरण है जो उसके एक महत्वपूर्ण पन्थ पर प्रकाश डालता है। महायान को गुह्ययान तथा हीनयान को व्यक्तयान भी कहते हैं। इसका कारण यह था कि थेरवादियों द्वारा आयोजित तीनों सङ्गीतियों के विरोध में महायानी कहते थे कि कुछ गुप्त सङ्गीतियाँ स्वतः भगवान बुद्ध ने आयोजित की थी जिनमें वे अपने अलौकिक रूप में विराजमान थे। अधिकांश महायान सूत्रों का उपदेश ऐसी ही लोकोत्तर सङ्गीतियों में हुआ जो गुह्य थीं। ^{२७} अतः इन सूत्रों पर आधारित मार्ग का नाम गुह्ययान भी पड़ गया। महायान को ही (एकयान, श्रेष्ठयान, अग्रयान, बुद्धयान, परमार्थयान, भद्रयान, बोद्धिसत्वयान नाम से भी अभिहित किया जाता है)। ^{२८}

बौद्ध धर्म के इस नये लोकपरक स्वरूप के लिये इसके आचार्यों के मन में बड़ा उत्साह था और वे इसको पुराने स्थविरवादी बौद्धधर्म की तुलना में

महायान या बड़ी नौका कहा करते थे। उनका कथन था महायान की विशेष प्रवृत्तियाँ कि भवसागर पार जाने के लिये पुराना बौद्ध-मत हीन प्रकार की नौका है, जर्जर है किन्तु महायान श्रेष्ठ है। महायान को

हीनयान से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिये उन्होंने आशय, उपदेश, प्रयोग, उपस्तम्भ तथा काल की श्रेष्ठता महायान में सिद्ध की थी। वैसे तो महायान में आगे चल कर कई सम्प्रदायों का विकास हुआ और बहुत सी नई साधनाओं ने प्रवेश किया किंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जो पूरे महायान धर्म में सामान्य रूप से पाये जाते हैं।^{२९} वे तत्व निम्नलिखित हैं :—

१. बोधिसत्वों में आस्था और प्रत्येक व्यक्ति में निहित उस सामर्थ्य पर आस्था जिससे वह बोधिसत्व की स्थिति तक पहुँच सकता है। २. लोकोहित की भावना। ३. बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता में विश्वास। ४. विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों का प्रचार जो बुद्ध-तत्व तथा निर्वाण की लगभग वैसी ही व्याख्या देते थे जैसी ब्राह्मण वेदांतों में प्राप्त होती है। ५. महायानियों का साहित्य अधिकतर संस्कृत में है और पाली धर्म-ग्रन्थों के बाद का है। ६. प्रतिमाओं की पूजा और पूजा-विधियों तथा अनुष्ठानों का विस्तार। ७. अमिताभ बुद्ध में केवल आस्था मात्र रखने से ही निर्वाण प्राप्ति का विधान और इसी लक्ष्य से उसका नाम-जप।

उस समय तक पिछले समस्त सम्प्रदाय चार मुख्य दार्शनिक सम्प्रदाय में अन्तर्भुक्त हो गये थे। सौत्रान्तिक, वैभाषिक, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद (योगा-

महायान का दर्शन पक्ष चार)।^{३०} ह्वेनसाँग भी इन्हीं चारों का उल्लेख करता है। इनमें से पहले दो हीनयानी तथा अंतिम दो महायानी सम्प्रदाय थे।^{३१} इन्हीं के आधार पर अक्सर महायान की दो शाखायें भी मानी जाती हैं। शून्यवादी तथा विज्ञानवादी^{३२}। लगभग द्वितीय शताब्दी ईस्वी के अंतिम चरण में नागार्जुन ने अपनी 'माध्यमिक-कारिका' लिख कर शून्यवाद के सिद्धांत को विस्तृत तर्क-संगत दार्शनिक रूप दिया और उनके लगभग एक शताब्दी बाद ही मैत्रेय के 'अभिसमयालङ्कार-कारिका' का प्रणयन माना जाता है।^{३३}

शून्यवाद के सबसे प्रबल प्रतिपादक आचार्य नागार्जुन थे जो दूसरी शताब्दी तथा तीसरी शताब्दी के मध्य में हुए थे।^{३४} उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'माध्यमिक शास्त्र' है। अपनी कारिकाओं में नागार्जुन ने उत्पत्ति, गति, दुख, बन्धन, मोक्ष आदि सभी धारणाओं की तर्कसहित परीक्षा कर यह सिद्ध किया है कि सभी में विरोधी धर्मों की उपस्थिति है अतः सभी शून्य हैं।

महायान का विकास

नागार्जुन ने इस माध्यमिक मत के प्रचार का मुख्य लक्ष्य यह बताया है कि सभी जिनों को सही दृष्टि प्राप्त हो, किन्तु साथ ही वह इससे भी अवगत है कि यही सिद्धान्त सही दृष्टि की उपलब्धि में बाधक भी हो सकता है अतः वह स्पष्ट कह देता है कि जो केवल इसी सिद्धान्त में सीमित हो जाते हैं उनके भ्रम का निवारण होना कठिन है।^{३५} आर्यदेव इसी की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जो रोगी है वह औषधि द्वारा स्वस्थ हो सकता है पर औषधि ही जिसका रोग बन जाय उसकी आशा त्याग देनी चाहिये।^{३६} अपने इसी शून्य सिद्धान्त के द्वारा सभी वस्तुओं के विरोधी स्वभावों का निरूपण करते हुए नागार्जुन ने प्रख्यात अष्ट-निषेधों का सिद्धान्त विकसित किया था: जिसमें उन्होंने प्रत्येक वस्तु को अनिरोध, अनुत्पाद, अनुच्छेद, अशाश्वत, अनेकार्थी, अनार्थी, अनागामी, अनिर्गमी बताया था।^{३७} और प्रथम अध्याय की प्रथम कारिका में ही इन आठ निषेधात्मक स्वभावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि जो इन आठ निषेधों से परिचित हो जाता है वह कभी भी अतिवादों का आश्रय नहीं लेता है और सदा मध्यम-पथ ग्रहण करता है।

इसी माध्यमिक पथ की और साधकों को प्रेरित करने के लिये आचार्य नागार्जुन ने शून्यता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था और उसे सृष्टि का मूल सिद्धान्त बताया था।^{३८} किन्तु इस शून्य का अर्थ हिन्दू दार्शनिक 'सत्ता का अभाव' लेते हैं जो भ्रमपूर्ण है। शून्यता को शून्यवादी आचार्य इस अर्थ में नहीं ग्रहण करते। वे वस्तुओं को नितान्त अतात्विक या सत्ता-शून्य नहीं मानते जैसे कि शशशृंग या आकाश-कुसुम होते हैं।^{३९} किन्तु वे नितान्त तात्विक नहीं हैं क्योंकि वे कारणों पर निर्भर होती हैं और अनित्य होती हैं।^{४०} यही शून्यता है। संसार में कोई वस्तु नहीं जो कारणों पर निर्भर न हो, कोई धर्म नहीं जो हेतुओं पर आधारित न हो। अतः कोई वस्तु या धर्म स्वतंत्र नहीं, सभी परतंत्र हैं, अतः उनका कोई भी स्वभाव नहीं अतः वे स्वभाव-शून्य हैं।^{४१}

इस शून्य सिद्धान्त का प्रतिपादन उसने 'प्रतीत्य समुत्पाद' के सिद्धान्त द्वारा किया। शून्यता वह है जो 'प्रतीत्य समुत्पाद' द्वारा सिद्ध की जा सके।^{४२} 'प्रतीत्य समुत्पाद' के अर्थ हैं वह सिद्धान्त जो प्रत्येक वस्तु को कारणों, हेतुओं द्वारा उत्पन्न मानता है। चूँकि सभी वस्तुएँ हेतु पर आधारित हैं अतः उनका स्वतः कोई धर्म नहीं कोई स्वभाव नहीं। अतः वे स्वभाव-शून्य हैं। इस प्रकार वस्तुओं और धर्मों के स्वभाव तथा निरपेक्षता का खंडन करने के उपरान्त

आचार्य नागार्जुन कार्य-कारण-सम्बन्ध का भी विरोध दिखाते हैं। उनका तर्क है कि यदि कारण से कार्य भिन्न है तो इसके अर्थ यह है कि उस कारण के बिना भी कार्य सम्भव था। जिससे परिणाम यह निकला कि किसी भी कार्य के लिये किसी भी कारण की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। बिना कारण के भी कार्य हो सकते हैं। यदि कारण और कार्य में कोई भिन्नता नहीं तो एक ही वस्तु को दो नाम देना और उनकी पृथक् सत्ता मानना असंगत है।^{४३} इसी प्रकार वस्तुएँ दूसरी वस्तुओं से भी उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि जब वस्तुओं का कोई अपना निरपेक्ष स्वभाव नहीं है। तो दूसरी वस्तु जैसी कोई कल्पना भी असंगत है, इसी प्रकार तथागत से कोई वस्तु नहीं उत्पन्न की जा सकती क्योंकि जिस तथागत के पंचस्कन्ध हैं वह भी शून्यता से अस्त होगा और जो पंचस्कन्धों से रहित हो वह तो शून्य है ही।^{४४}

इस प्रकार नागार्जुन संसार की सभी वस्तुओं को शून्य मानता है। उनकी उत्पत्ति, स्वभाव, धर्म सब कुछ अकथनीय है। अतः वे शून्य हैं^{४५} और केवल एक अनन्त शून्यता की धारा में प्रवाहित होते चले जा रहे हैं।

किन्तु फिर प्रश्न उठता है कि निर्वाण क्या है, क्यों प्राप्त किया जाय। कैसे प्राप्त किया जाय। यदि कोई भी वस्तु समुत्पन्न नहीं होती और उसका विनाश भी नहीं होता। तो वह क्या है जिसके निषेध अथवा विरोध से हमें निर्वाण प्राप्त होता है। और तब निर्वाण की इस कल्पना का निषेध करते हुए नागार्जुन कहते हैं कि 'न निर्वाण संसार से परे कोई वस्तु है, न संसार निर्वाण से।'^{४६} फिर निर्वाण की निषेधात्मक व्याख्या देने के उपरान्त नागार्जुन कहते हैं कि भाव तथा अभाव के परामर्श के क्षय को निर्वाण कहते हैं।^{४७} इसके लिये कहा गया है कि 'आकाशेन कृतो ग्रन्थिराकाशेनैव मोचितः' अर्थात् शून्य (आकाश) द्वारा उलझी हुई गाँठ अन्त में शून्य द्वारा ही खुल जाती है।

आचार्य नागार्जुन की प्रखर तर्कशक्ति के आगे नतमस्तक होते हुए भी उनका दर्शन इतना निषेधात्मक है कि वह अन्ततोगत्वा हमें निष्क्रियता और बौद्धिक उलझन की ओर ले जाता है। स्वतः उनका निषेधा-
विज्ञानवाद त्मक तर्क उनकी बुद्ध के प्रति आस्था से सन्तुलित नहीं हो पाता और अन्ततोगत्वा उसे तथागत को निःस्वभाव मानना पड़ता है। यद्यपि उन्हीं की तर्क परम्परा का आलम्बन ग्रहण कर यह कहा जा

महायान का विकास

सकता है कि जो निःस्वभाव है वह सर्वोपरि कैसे हो सकता है। उनके दर्शन की यह अन्धवृत्त में सीमित निषेधात्मकता का अनुभव जिन चिन्तकों को हुआ उन्होंने योगाचार सम्प्रदाय के नाम से महायान के अन्तर्गत ही एक नई चिन्तना प्रणाली का प्रचार किया जो विज्ञानवाद या भूततथतावाद के नाम से भी प्रख्यात है।

अश्वघोष, वसुवन्धु, असंग तथा मैत्रेय योगाचार के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। कहा जाता है कि नागार्जुन के लगभग १ शताब्दी बाद मैत्रेयनाथ ने 'अभिसमयालंकार-कारिका' लिख कर विज्ञानवाद की चिन्तना प्रणाली का एक विशेष रूप दिया।^{४८} इसके बाद यह परम्परा चलती रही और अन्त में असंग ने ५वीं शती में विज्ञानवाद को एक निश्चित रूप दिया।^{४९} माध्यमिक सब पदार्थों को शून्य घोषित करता है किन्तु विज्ञानवादियों के अनुसार द्रष्टा के अनुभव, चित्त या विज्ञान परम्परा को शून्य नहीं कहा जा सकता। उसका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। यदि मानसिक दशाएँ और क्रियाएँ भी सत्य नहीं हैं, तो माध्यमिक के तर्कों का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। अतः विज्ञानवाद मनोमय जगत का अस्तित्व मानता है। लेकिन वह केवल मनोमय जगत या विज्ञान की सत्ता मानता है। वाह्य विश्व का पूर्ण निषेध करता है। उसका कहना है कि वाह्य विश्व की सत्ता केवल हमारी अनुभूतियों और चेतनाओं में है। वस्तुएँ मन के बाहर दीखती हैं किन्तु हैं वे मन में ही। अतः विश्व केवल विज्ञानों, चेतनाओं और प्रत्ययों की शृङ्खलामात्र है।^{५०}

इस प्रकार यह समस्त संसार केवल विज्ञान-प्रवाह मात्र है जिसका अन्तिम स्तर 'आलयविज्ञान' या 'विज्ञप्तिमात्रता' में है।^{५१} इस आलयविज्ञान के प्रवाह में एक दृष्टिक विज्ञान दूसरे विज्ञान को कार्यकारण शृङ्खला से उत्पन्न करता जाता है। इसी आलय-विज्ञान को चित्त भी कहते हैं।^{५२}

परमार्थ को विज्ञानवादी भी भाव और अभाव से परे मानते हैं। न वह पैदा होता है, न उसका अवनान होता है, न घटता है, न बढ़ता है, न शुद्ध होता है न अशुद्ध।^{५३} इसी को अश्वघोष ने 'भूततथता' भी माना है। यही निर्वाण है और यही विज्ञप्ति-मात्रता है।

जब समस्त अस्तित्व और परम तत्व ही चित्त है, तब इस विज्ञानवाद की साधना भी चित्त के निरोध के अतिरिक्त और क्या हो सकती थी। इसी लिये इस मत के अनुयायियों ने साधना के क्षेत्र में योग अपनाया जिसे चित्त-वृत्ति का निरोध कहा गया है। जैसा हम आगे देखेंगे कि इसी सम्प्रदाय ने सिद्धों

के दर्शन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था और वज्रयान भी इसी पर मूलतः आधारित था। उस समय भी योगाचार सम्प्रदाय का शून्यवाद से अधिक प्रचलन था। उल्लेख मिलता है कि ह्वेनसांग भी योगाचार सम्प्रदाय का था और हर्ष ने भी इसी सम्प्रदाय में दीक्षा ली थी। ५४

महायान के दोनों प्रमुख सम्प्रदायों के दार्शनिक तथा तात्विक विवेचन पर दृष्टिपात कर लेने के पश्चात् अब उनके व्यावहारिक धर्म-पक्ष से थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इस दिशा में सबसे महायान का पहले बुद्ध-काया की कल्पना पर विचार करना चाहिये। धर्मपक्ष महायानी स्तुतियों में बुद्ध-काया के तीन रूप बताये गये हैं ५५ जो परम सत्ता के तीन पक्षों के प्रतीक हैं—१. धर्म काया, २. सम्भोग काया, ३. निर्माण काया।

त्रिकाया का यह सिद्धान्त शून्यवाद तथा विज्ञानवाद दोनों के द्वारा मान्य था। ५६ यह धर्म काया तीनों लोकों में अपने को अभिव्यक्त करते हुए भी सभी आवासों, क्लेशों और संस्कारों से मुक्त अनादि, अनन्त, अजर, अमर अपरिवर्तन-शील होती है। ५७ सम्भोग काया में आनन्द अथवा कर्षणा की प्रधानता होती है, यह काया बोधिसत्व के रूप में होती है। निर्माण काया वह काया है जिसमें वे मानुषी रूप धारण कर संसार के अनुरूप जीवन यापन करते हैं। शाक्य सिंह केवल एक निर्माण काया है उसके अतिरिक्त भी बौद्ध धर्म के कई आचार्यों को अंश रूप में मानुषी बुद्ध परिकल्पित किया गया है जैसे दीपंकर, काश्यप, मैत्रेय आदि। ५८

धर्म और साधना पथ में त्रिकाया सिद्धान्त के उपरान्त दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है बोधिचित्त। ५९ बोधिचित्त, विज्ञान अथवा चित्त की उस अवस्था को कहते हैं जब वह धर्म साधना के लिये उदबुद्ध होता है। बोधिचित्त की बोधि-अवस्था ज्ञान और धर्म साधना में निरत अवस्था है जिसमें दो प्रमुख तत्व होते हैं शून्यताज्ञान और कर्षणा।

इस बोधिचित्त को उत्पन्न करने के लिये ६ पारमिताओं की साधना करनी होती है। ६० यही पारमिताएँ बोधिचित्त को पार ले जाती हैं। ६१ पारमिताएँ इस प्रकार हैं—दान, शील, क्षांति (सहनशीलता), वीर्य (आध्यात्मिक शक्ति) ध्यान तथा प्रज्ञा अथवा परमार्थ ज्ञान। इनमें से प्रज्ञा अन्तिम है और

महायान का विकास

सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी साधना के बाद ही बोधिचित्तोत्पाद होता है और उसमें शून्यता-ज्ञान तथा करुणा-समन्वित हो जाती है। उसके उपरान्त यह बोधिचित्त ऊपर की ओर उद्वुद्ध होता है और दस बोधिसत्व भूमियों को पार करता है। वे भूमियाँ हैं प्रमुदिता, विमला, प्रभाकारी, अर्चिस्मती, सुदुर्जया, अभिसुखी, दूरंगमा, अचला, साधुमती और अन्त में मेघमयी भूमि आती है— धर्ममेघ। तब वह प्रज्ञा या परमार्थ ज्ञान का स्वामी हो जाता है। उसमें अनन्त करुणा का उदय होता है और वह पूर्ण बोधिसत्व होता है।^{६२}

यह समस्त प्रणाली चर्या कहलाती है और चू कि बोधिचित्त के शून्यता-ज्ञान तथा करुणा से समन्वित होने के उपरान्त यह चर्या समन्वित होती है अतः इसे बोधिचर्या कहा गया। इस बोधिचर्या के मूल में करुणा और अशरण्य अनाथों को सुख और निर्वाण की प्राप्ति का लक्ष्य है। इसी बोधिचर्या को सम्पन्न कर साधक कल्पना-बन्धन से मुक्त अनुत्तर बोधि को प्राप्त कर लोक का बन्धु और रक्षक हो जाता है।^{६३}

किन्तु यह चर्या जनसुलभ नहीं है अतः जनसाधारण के लिये प्रज्ञा पारमिताओं में कुछ सरल मार्ग भी बताये गये हैं। यह मार्ग बोधिसत्वों की शरण में जाना था। इस शरणागति के साथ साथ पूजा अर्चा का भी सम्यक विधान मिलता है। यह पूजा न केवल मैत्रेय, वैरोचन अथवा अमिताभ की होनी चाहिए वरन जहाँ जहाँ वे गये हैं, आये हैं, धर्मचक्र, प्रवर्त्तन किया है, वे सभी ग्राम, नगर, राष्ट्र, राजधानी पुष्पसमर्पण के योग्य हैं^{६४} उनके द्वारा उपदिष्ट ये प्रज्ञापारमिताएं भी महिमामयी हैं और पूजनीय हैं।^{६५} शत साहस्रिकी प्रज्ञापारमिता के बीसवें परिवर्त में चैत्यों में बुद्ध के अवशेषों की पूजा का महात्म्य बताया गया है। इस प्रकार की पूजा न केवल निर्वाण वरन भौतिक सिद्धियाँ भी प्रदान करती थीं।^{६६}

कालांतर में साधकों की सुविधा के लिये तथा जनसाधारण को महायान में समाविष्ट करने के लिये पारमिता-शास्त्र को संक्षेप में लिखा जाने लगा। शत-साहस्रिका को दश साहस्रिका, अष्ट साहस्रिका शतश्लोकी, पारमितानयः और अन्त में केवल एक हृदयसूत्र मात्र में उसे संक्षिप्त कर मंत्रनय दिया गया।^{६७} उन मंत्रों के साथ विभिन्न ध्यानी बुद्धों का भी महत्व जुड़ गया और इस प्रकार महायान के साधना-पन्थ के दो रूप हो गये-

पारमितानय तथा मंत्रनय। धीरे धीरे मन्त्रनय में तान्त्रिक साधनाओं का विकास हुआ, त्रिकाया में वज्रकाया भी जोड़ दी गई, शून्यता तथा विज्ञान के साथ महासुख का सिद्धांत विकसित हुआ। बोधिसत्वों की दशभूमि तथा पारमिताओं व साधना के बजाय प्रज्ञोपाय साधना का विकास हुआ। देवश्रद्धालाओं में अगणित देवताओं की वृद्धि हुई और हर देवता की एक शक्ति देवी रूप में परिकल्पित हुई, गुह्य साधनाओं का विकास हुआ और महायान का रूप तान्त्रिक हो गया और उसे वज्रयान के नाम से अभिहित किया जाने लगा। उसमें सिद्धियों, कर्मों का भी विकास हुआ और अन्त में दर्शन की अपेक्षा क्रिया, चर्या, अभ्यास, अनुष्ठान रहस्य साधनाओं का प्रचार हो गया। उन्हीं में निष्णात आचार्यों को वज्रयान सिद्धों के नाम से अभिहित किया गया।^{६८}

इस प्रकार महायान की लोकपरक साधना ने ही मन्त्रनय और वज्रयान तान्त्रिक साधनाओं में परिणति पाई।^{६९} यह भाग्य उस समय की लगभग सभी भारतीय धर्म साधनाओं का हुआ क्योंकि एक अदम्य मंत्रनय से तान्त्रिक लहर उस समय आई थी जिसने हमारी समस्त वज्रयान संस्कृति को अभिभूत कर लिया। बौद्ध, वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन सभी उससे प्रभावित हुए और सभी ने एक दूसरे पर कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ा। वज्रयान का स्वरूप समझाने के लिये उस तांत्रिक धारा के उद्गम का विशेष परिचय पाना आवश्यक है।

ख
समकालीन बौद्धेतर
तान्त्रिक धर्म-साधनाएँ

लगभग ४०० ईस्वी सन् तक महायान के देवतापरक, पूजा-प्रधान, मन्त्र विधान से युक्त परवर्ती रूप का विकास हो चुका था। इसके बाद ६ठीं शताब्दी के लगभग बौद्ध धर्म में सहसा तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश होता है और इतनी शीघ्रता से बौद्ध धर्म का रूप परिवर्तित होता है, दो या तीन सौ वर्षों के ही अन्दर वज्रयानी साधनाएँ इतनी प्रचलित हो जाती हैं, बौद्ध देवताओं की संख्या इतनी अपरिमित, उनके रूप इतने विविध, उनकी शक्ति देवियाँ इतनी अग्रणीत हो जाती हैं, उनके मन्त्र-तन्त्र-अभिचार, सिद्धियों और क्रियाओं का इतना प्रचार हो जाता है कि उसके मूल रूप का कहीं पता भी नहीं लगता।

वास्तव में ६०० से १२०० ई० तक का काल ही ऐसा रहा है कि भारतीय धार्मिक संस्कृति में सहसा तान्त्रिक साधनाओं का प्रादुर्भाव होता है और वे इतनी व्यापक हो जाती हैं कि सभी सम्प्रदाय चाहे वे वैदिक तान्त्रिक-काल हों या अवैदिक, चाहे वे वैष्णव हों या शैव, चाहे वे बौद्ध हों या जैन सभी तान्त्रिक सृष्टि-तत्त्व, तान्त्रिक देवमंडल, तान्त्रिक तान्त्रिक यन्त्रविधान, तान्त्रिक मन्त्र साधना, तान्त्रिक आचार-विधान तथा हठयोगी साधनाओं को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय देने लगते हैं। इसी कारण इस समस्त काल को ही विद्वानों ने तान्त्रिक काल के नाम से अभिहित किया है।^१

वैसे इस काल के सामान्य सांस्कृतिक मूल्यांकन के विषय में मतभेद है । कुछ विद्वान इसे हास और पतन का काल कहते हैं, जब चिन्ता-पारतन्त्र्य अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था, कला में भी सजावट और पच्चीकारी की ओर अधिक दृष्टि थी ।^२ किन्तु कुछ विद्वान इसे 'भारतीय मनीषा की जागरूकता, कर्मण्यता और प्रतिभागत उत्कर्ष' का काल' मानते हैं ।^३ वास्तव में इसका रूप बहुत कुछ इस प्रकार है कि पुराने ग्रन्थों पर टीकाओं की परंपरा ज्यादा बढ़ जाती है और उनमें पुराने सिद्धान्तों के नये और कभी कभी योगपरक या तन्त्र-परक अर्थ भी दिये जाने लगते हैं । कभी कभी लोकधर्म के नये आचार पुराने सम्प्रदायों में प्रवेश कर जाते हैं और छोटे-छोटे सम्प्रदायों में यद्यपि उस एक ही तान्त्रिक प्रभाव की वृद्धि होती है किन्तु उनका पारस्परिक प्रभाव और विग्रह दोनों ही चरमसीमा पर पहुँच जाते हैं । दूसरी ओर भारतीय धर्म प्रचारकों की पहुँच सुदूर जापान तक होती है और भारतीय चिन्तना का विदेशों से जितना आदान-प्रदान इस काल में होता है उतना पहले कभी भी नहीं हुआ था ।

इस काल में छोटे छोटे अगणित सम्प्रदायों का उद्भव हुआ जिनका मुख्य आधारदर्श किसी विशेष देवता की प्रधानता या किसी विशेष आचार-पद्धति की प्रधानता थी । कभी कभी आचार के छोटे से छोटे अगणित नये सिद्धांत पर नया सम्प्रदाय उठ खड़ा होता था । जैनियों में आचार-प्रवण तो इस प्रकार के अगणित सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता सम्प्रदाय था । हथी-तावस जो हाथी का शिकार करते थे, बाल-तावस जो केवल पेड़ से गिरी पत्तियों का भक्षण करते थे; कण्डम्पिय जो बाजीगरी के कौतुक कर जीवन यापन करते थे, उत्तर कूलग जो गंगा के केवल उत्तरी तट पर रहते थे, दाहिण कूलग जो केवल दक्षिणी तट पर रहते थे आदि आदि ।^४ ये छोटे छोटे सम्प्रदाय मुख्यतया अपनी वृत्ति और अपने रहन-सहन की विलक्षणता पर बन जाते थे और धीरे धीरे इनका वाह्याचार इनके धर्म का प्रमुख प्रतीक मान लिया जाता था । इससे प्रतीत होता है कि उस समय की धर्म साधना में तत्व-चिन्तना गौण थी, वाह्याचार की अनुगामिनी थी और उस समय का धार्मिक वातावरण विशेषतया अनुष्ठान और क्रिया-परक था ।

आज उनमें से अधिकांश सम्प्रदाय विलुप्त हो गये हैं । वे अधिकांश निम्न वर्ग के लोक-परक सम्प्रदाय थे अतः उनकी भाषा लोकभाषा ही रही

समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म-साधनाएँ

होगी ५ । इसी कारण उनका उल्लेख संस्कृत ग्रन्थों में भी कम ही मिलता है । किन्तु वे सभी सम्प्रदाय न जाने कितने आचार और कितने स्थानीय देवी देवताओं और उनके पूजन की जाने कितनी विधियाँ छोड़ गये हैं जो अब भी उन बड़े तान्त्रिक सम्प्रदायों और ग्रन्थों में पाई जाती हैं जिनमें वे अन्तर्भुक्त हो गये हैं । उस समय समसामयिक साधना पद्धतियों ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया है ६ और इस दृष्टि से बौद्ध-धर्म के तान्त्रिक रूप वज्रयान और उसके लोक भाषा में लिखे गये साहित्य चर्यापद तथा दोहों के अध्ययन के लिये उस समय की धार्मिक साधनाओं से सूक्ष्म परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है । क्योंकि जैसा हम आगे चल कर देखेंगे कि मूल बौद्ध धर्म और तन्त्रों में कहीं कोई समानता ही नहीं है और यह किसी प्रकार भी संभव नहीं है कि बौद्ध धर्म ने इसे अपनी ही परम्परा में, अपने ही क्षेत्र के अन्दर विकसित किया हो । उसने तत्कालीन प्रचलित साधनाओं को महायान के विकास के उत्तरार्द्ध में अपना कर उन्हें बौद्ध शब्दावली प्रदान कर दी थी । वास्तविकता तो यह है कि बाद का वज्रयानी चिन्तन उन्हीं साधनाओं पर आधारित है । उन साधनाओं को पचाने के लिये, उनका औचित्य सिद्ध करने के लिये वज्रयानी आचार्यों ने त्रिकाया, बोधिचित्त, करुणा, शून्य आदि के तान्त्रिक अर्थ दे दिये हैं ।

जैसा कहा जा चुका है कि अपनी समस्त विविधता के आवरण में भी इस तान्त्रिक काल में प्रचलित छोटे बड़े सम्प्रदायों में एकसूत्रता यह थी कि इन सबों में तत्व-चिन्तन की अपेक्षा साधनापद्धति की प्रधानता तन्त्र की व्याख्या थी । किसी एक देवता या शक्ति को सृष्टि का मूल-तत्व मानना, उपासना की पद्धति की प्रचुर प्रसार और विस्तार से व्याख्या करना, मन्त्रों का महत्व, देवताओं के प्रतीक बीजाक्षरों और वणों का विधान, भूतसिद्धि, कुण्डलिनी-योग, रहस्यमयी साधनाएँ, बाहर से मर्यादा-विरुद्ध दिखने वाले गुह्य वामाचार, दीक्षाएँ और गुरु का महत्व, ये सभी तत्व इनमें एक समान हैं । उनमें इतनी अधिक समानता है कि शैवों ने यदि उसे शैव परिभाषा दी है, बौद्धों ने बौद्ध, तो इससे कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता । मूल स्वर उन सबों का एक है । वे सभी तान्त्रिक मत हैं । तन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि तत्व-मन्त्रों से समन्वित जो विपुल अर्थों का विस्तार करता है और त्राण भी करता है उसे तन्त्र कहते हैं । ७ इस साधनापरक धर्मपद्धति को

तन्त्र क्यों कहते थे, इसके विषय में कहा जाता है कि 'तन्त्र' की व्युत्पत्ति 'तन्' धातु से हुई है 'तन्त्यते विस्तारयते ज्ञानम् अनेन इति तन्त्रम्' के अनुसार किसी भी ज्ञान को जो विस्तार प्रदान करता है, उसका सांगोपांग विवरण देना है उसे तन्त्र कहते हैं। इसी के अनुसार हमें न्यायतन्त्र, चिकित्सातन्त्र आदि शब्द मिलते हैं।^{१८} ज्ञात यह होता है कि धर्म साधनाओं में जिन नई पूजाओं, मन्त्र-पद्धतियों, देवी देवताओं, अनुष्ठानों, यन्त्रों, योगसाधनाओं का प्रवेश हो रहा था उन्हें पूर्ण रूप से एक ज्ञान या एक चिन्तनापद्धति के अन्दर समन्वित कर एक नियम अथवा एक अनुशासन में सुयोजित कर देने वाली प्रणाली का नाम तन्त्र पड़ गया।^{१९}

एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यह तन्त्राचार आया कहाँ से। क्या यह पहले से ही हमारे देश में प्रचलित था ? यदि ऐसा था तो क्यों इसी शती में उसका इतना प्रभाव मिलता है। या इन्हीं दिनों या इसके तन्त्र का कुछ पहले यह किसी विदेशी जाति के साथ आया और उद्गम कुछ ही शतियों में समस्त देश की धर्म-योजना में इतना गहरा पैठ गया कि हमारी समस्त चिन्तना का रूप बदल गया। कई विद्वानों ने तन्त्रों के विदेशी उद्गम का उल्लेख किया है। महामहोपाध्याय डा० हरप्रसाद शास्त्री ने तन्त्रों का भारत में आगमन शकों के मग पुरोहितों के साथ बताया है।^{१०} यद्यपि इसके साथ उन्होंने कोई विशेष प्रमाण नहीं दिये थे किन्तु उनके इसी मत के आधार पर डा० विनयतोष भट्टाचार्य ने इस सम्भावना की कल्पना की कि योगाचार मत का प्रमुख आचार्य और वज्रयान मत में तन्त्रों के प्रथम उपदेश के लिये प्रख्यात असंग गान्धार देश का निवासी था और संभव है वह गय पुरोहितों की तान्त्रिक साधना-पद्धति से परिचित हो।^{११} किन्तु इसके अन्य कई प्रमाण मिलते हैं जो अधिक प्रबल हैं। पहला तो यह है कि प्राचीन वाङ्मय में कभी कभी तन्त्रों की साधनापद्धति को अद्भुत बताया गया है और उसे अवैदिक भी कहा गया है।^{१२} दूसरे स्वतः तन्त्र-ग्रन्थों में भी कभी कभी ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि तन्त्रों का प्रचार करने के लिये देवता बाहर से आये और फिर लौट गये।^{१३}

इसमें कोई संदेह नहीं कि तन्त्रों में समय समय पर विदेशी साधनाओं का भी प्रवेश हुआ है। चीनागम तथा चीनाचार तो स्पष्ट विदेशों से आया

समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म-साधनाएँ

है। कालान्तर में तन्त्रों के दो भेद माने गये। एक परंपरागत आगम, यमल इत्यादि और दूसरे नवीन तन्त्र जिनमें बौद्ध तथा वामाचार, कौलाचार के अन्तर्गत आने वाली तान्त्रिक साधनाएँ हैं।^{१४} इन पर किस प्रकार विदेशी प्रभाव पड़ा और उनमें से एक विशेष विदेशी सम्प्रदाय 'तांत्रो' ने कहाँ तक सहजयानी दर्शन को प्रभावित किया^{१५} इस पर बाद में विचार किया जायगा।

जहाँ तक पुराने तन्त्रों का प्रश्न है उनका नाम 'आगम' भी यह सूचित करता है कि वे सम्भवतः वैदिक परम्परा के नहीं थे।^{१६} हमें मध्यकालीन धार्मिक साहित्य से यह भी ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में इन्हें अश्वैदिक कहा जाता रहा और अन्त में जो मत लोक-प्रचलित हो गया उसे ब्राह्मण परम्परा द्वारा ग्रहण कर लिया गया। जो अपेक्षाकृत नवीन पुराण^{१७} हैं उनमें भी अक्सर ऐसे बहुत से नवोदित सम्प्रदायों का उल्लेख मिलता है जिन्हें रूढ़िवादी चिन्तक वर्ग अश्वै-मानता था। 'कूर्म पुराण' में लाकुल, वाम, पूर्व, पांचरात्र, भैरव कापालिक आदि मतों को अश्वैदिक बताया गया है। अधिक रोचक अंश यह है कि विष्णु तथा रुद्र इन दो देवताओं को इन मतों का मूल प्रवर्तक बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि इन्होंने इन मतों का प्रचार कुछ ऐसे ब्राह्मणों से कराया जो वेद पढ़ने का अधिकार खो चुके थे।^{१८} किन्तु कूर्म पुराण में ही अन्त में ग्यारहवें तथा बारहवें अध्याय में शिव का शक्ति और शक्तिमान इन दो तत्वों में विभाजित होने का वर्णन तथा हिमालय द्वारा तपस्या कर अपने कुल में शक्ति का पुत्री रूप में अवतरित होने के वरदान पाने का वर्णन है और अन्त में देवी स्वतः कहती हैं कि 'ये कुशास्त्राभियोगेन मोहयन्तीह मानवाम्, मया सृष्ट्याणि शास्त्राणि मोहायेषाम् भवान्तरे'। इससे स्पष्ट होता है कि सम्भवतः यह अंश किसी शाक्त चिन्तक द्वारा प्रणीत है जिसने अपने मत को वैदिक सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस प्रकार कितने ही नये मत प्रारम्भ में अश्वैदिक कह कर त्याज्य रहे और बाद में वे हिन्दू धर्म परम्परा में अन्तर्भुक्त होते गये।^{१९}

कूर्मपुराण से कम से कम एक बात बहुत महत्वपूर्ण ज्ञात होती है कि ये तान्त्रिक सम्प्रदाय ऐसे ब्राह्मणों द्वारा प्रवर्तित थे जो रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा नीची निगाह से देखे जाते थे और जिन्होंने अपना द्विजसुलभ वेदपाठन का अधिकार खो दिया था।

दूसरी और भारतीय वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि अथर्ववेद में मारण, मोहन, उच्चाटन, मन्त्र, रक्षा, सिद्ध, गुह्य साधनाओं का

प्रचुर उल्लेख मिलता है। उस समय भी अथर्ववेद को आर्य परम्परा में नहीं गिना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अथर्ववेद की गुह्य साधनाएँ भारत के अनार्य आदिवासियों की थीं जिन्हें पूर्वागत आर्यों ने अपना लिया था। इसी कारण बाद में आनेवाले अन्तरङ्ग आर्य उन्हें 'ब्रात्य' कहा करते थे। इन ब्रात्यों का आचार-विचार बहुत कुछ अनार्य जातियों से प्रभावित रहता था। पहले तो अन्तरङ्ग आर्यों ने अनार्यों की भाँति उन्हें भी बहिष्कृत रक्खा किन्तु बाद में वे अक्सर 'ब्रात्यस्तोम' नामक यज्ञ समारोहों में उन्हें शुद्ध कर अपनी सामाजिक परिधि में वापस ले लेते थे।^{२०} इन ब्रात्यों के साथ साथ बहुत सी भारत के मूलनिवासियों की आदिम प्रवृत्तियाँ, अन्धविश्वास, यन्त्र मन्त्र और जादू टोना आ गया होगा। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर आर्यों ने इन मूलनिवासियों की रूपवती कन्याओं से विवाह सम्बन्ध स्थापित किया था।^{२१} इस प्रकार धीरे धीरे आर्यों की विचार परम्परा में आर्येतर साधनाएँ और देवी देवता भी प्रवेश पाने लगे। प्रारम्भ में अन्तरङ्ग आर्यों ने उनका स्वागत नहीं किया, वे केवल गौण देवता रहे किन्तु धीरे धीरे प्रमुखता पाते गये। शिव इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।^{२२} ब्राह्मणों का विरोध होते हुए भी जनसाधारण में यह सभी जादू टोने की सिद्धियाँ प्रचलित रहीं और रहस्य-साधनाएँ चलती रहीं। निस्संदेह बहिरंग आर्यों में आसाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, काठियावाड़, गान्धार, भोटान्त, बंगाल, मगध आदि देशों में इनका प्राधान्य रहा होगा। ये ब्रात्य जातियाँ रूढ़िवादी ब्राह्मणों के आचार-विचार और जाति-व्यवस्था की भी विरोधी थीं और उनकी कड़ी आलोचना करती थीं। अधिकांश विद्रोही चिन्तक, महावीर, गौतम आदि इन्हीं प्रदेशों के थे। तन्त्रों का सम्बन्ध निस्संदेह इन रूढ़िगत आचार के विरोधी, जाति-व्यवस्था को उतनी कड़ाई से न मानने वाले, आदिम आर्येतर संस्कारों और साधनाओं से युक्त बहिरंग आर्यों से रहा होगा। तन्त्रों के अधिकांश केन्द्र इन्हीं बहिरंग क्षेत्रों में थे।^{२३} अथर्ववेद इनका मूल ग्रन्थ था इसे भी तान्त्रिक विचारक भूले नहीं थे।^{२४}

कालान्तर में ये साधनाएँ लोक साधारण में व्याप्त हो गईं। उच्चवर्गीय ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त एक लोकप्रचलित धर्म भी था जिसमें ऐसे साधकों के प्रति आदर या भय रहा होगा। लोक साधारण में उस समय कुल-देवियों और स्थानीय ग्रामीण देवी देवताओं का भी

लोक-धर्म

समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म-साधनाएँ

पूजन प्रचलित था जिनको प्रसन्न करने के लिये टोना-टोटका भी होता था। ऐसी एक देवी थी जिसका मुख त्रिल्ली के समान होता था और बच्चों से घिरी होती थी।^{२५} तन्त्र परम्परा का सम्बन्ध लोक साधारण में पूजित कुल देवियों से अवश्य था इसके कई महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। 'अक्षर विधान' में ईश्वर अपनी शक्ति से कहता है कि 'तुम प्रयाग के समीप कर्णवीर नामक महाग्राम में मेघदत्त के शुभ गृह में उत्पन्न हुई और तेरह वर्ष तक मेरी पूजा कर तुमने सिद्धि प्राप्त की'।^{२६} इनमें अक्सर निम्न-वर्ग की कुलदेवियाँ भी होती थीं।^{२७} कुब्जिकातन्त्र में कुब्जिका देवी कुम्भकार के यहाँ उत्पन्न हुई थीं और उनकी पूजा का विधान भी कुम्हार के ही यहाँ है और उससे सम्बन्धित समस्त आचार प्रणाली को ही 'कौलिकाम्नाय' नाम दिया गया है।^{२८}

बहुत संभव है कि प्रारम्भ में इन पूजोपचारों के लिये कुलीन ब्राह्मण न प्रस्तुत होते हों अतः बहुत से ब्राह्मण जो निम्नवृत्ति अपना देने के कारण या आचारभ्रष्ट हो जाने के कारण रूढ़िवादियों द्वारा तिरस्कृत कर दिये गये हों या जो स्वयम् उनके प्रति विद्रोही हों और लोकधर्म और लोकाचार को ग्रहण कर चुके हों, वे इन जातियों और इनकी पूजाओं के पुरोहित बन गये हों। ऐसे उल्लेख हमें अक्सर मिलते हैं कि कुछ विशेष जातियों के विशेष पुरोहित रहे हैं,^{२९} या विशेष अभिचारों के लिये लिये विशेष ब्राह्मण ही बुलाये जाते रहे हैं। इसी प्रकार के ब्राह्मणों ने तन्त्रों का तथा तान्त्रिक मतों का प्रचार किया होगा। और तभी कूर्म-पुराण में ऐसे सम्प्रदायों के प्रचारकों को वेदच्युत ब्राह्मण कहा गया है।^{३०}

इस प्रकार तन्त्र वास्तव में उन अग्रणीत लोकाचारों, लोक में पूजित देवियों, तथा लोक प्रचलित रहस्यमय अनुष्ठानों का परिणत रूप है जो आदि निवासियों ने सृष्टि से संग्राम करते समय अपना लिये थे और जो सदैव हमारे देश के निम्न-वर्ग में प्रचलित रहे। तान्त्रिक काल में यह लोकधर्म उभर कर ऊपर आ गया और इसको ग्रहण करने के लिये कितने ही सम्प्रदाय प्रत्येक धर्म में बन गये जिनमें साधना प्रधान थी और उसी साधना के अनुरूप उन्होंने अपने देवी देवताओं का स्वरूप, उनके पारस्परिक सम्बन्ध, उनकी चर्या, क्रिया, अभिचार, मन्त्र आदि परिकल्पित कर लिये। इसीलिये तन्त्रों का आगम नाम सर्वथा उपयुक्त है। वे लोक प्रचलित, आदिम परम्पराओं पर आधारित अनुष्ठान उच्च-वर्गीय चिन्तना में 'आये', वे शुद्ध वैदिक दृष्टि से 'बाहरी' तत्व थे और कालान्तर

में विदेशी साधनाएँ भी उनमें समाहित होती रहीं (इस लोकधर्म के उभर कर ऊपर आने का कारण निश्चित रूप से वह दान्ताजिक पृष्ठभूमि थी जिसका आभास हम पिछले अध्याय में दे चुके हैं) तान्त्रिक आचार्यों ने तो घोषणा यह तक की कि श्रुतियों, स्मृतियों तथा पुराणों का युग बीत गया और अब केवल तन्त्रों का युग है।^{३१} और धीरे-धीरे तन्त्र साहित्य का महत्व इतना बढ़ा कि वह भी वैदिक श्रुतियों के समकक्ष गिना जाने लगा।^{३२}

तन्त्रों में जो कि वैष्णव-शक्ति लक्ष्मी की पूजा का विधान करते हैं वे संहिता, शैव-तन्त्र आगम तथा शक्ति-तन्त्र तन्त्र कहलाते थे।^{३३} इनमें से पांच-

रात्र संहिताओं की परम्परा बहुत प्राचीन है और उनके तान्त्रिक सम्प्रदाय : सम्पादक डा० श्रेडर का कहना है कि कुछ संहिताएँ पांचरात्र ईस्वी शती के पहले भी वर्तमान थीं। शेष संहिताएँ

या तो तान्त्रिक काल तक बन चुकी थीं या बन रही थीं। कहा यह जाता है कि इनके पहले भी वैखानस संहिताएँ दक्षिण भारत के मन्दिरों में व्यवहृत की जाती थीं। किन्तु रामानुज ने वैखानस संहिताओं का विरोध किया और उनके स्थान पर पांचरात्र संहिताओं का प्रचलन किया।^{३४}

इन पांचरात्र संहिताओं की विषयवस्तु चारपाद में विभाजित थी। ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद, चर्यापाद। इनमें से ज्ञान तत्व-दर्शन, योग चित्तवृत्ति-साधना, क्रिया मन्दिरों तथा प्रतिमाओं की स्थापना उसके पूजा अर्पण आदि का विधान और चर्या मंत्र-तंत्र की साधना की व्याख्या करते थे।^{३५} तंत्रों की सामान्य प्रकृति के अनुसार इसमें साधना पर विशेष आग्रह था क्योंकि पद्मतंत्र में ४५ पृष्ठों में ज्ञानपाद, ११ पृष्ठों में योगपाद, २१५ पृष्ठों में क्रियापाद तथा ३७६ पृष्ठों में चर्यापाद के विधानों का वर्णन है। क्रिया तथा चर्या प्रमुख विषयवस्तु है और ज्ञान तथा योग तो केवल पीठिका या सन्दर्भ रूप में दे दिये गये हैं।^{३६}

साधना पक्ष में इन संहिताओं में मंत्र-शक्ति तथा मंत्रों का विशेष वर्णन किया गया है।^{३७} वाणी नारायण से उद्भूत हुई है। यह वाणी प्रारंभ में एक घंटे की गूढ़ ध्वनि बिन्दु या अनुस्वार में परिणत हो जाती है जिसके दो रूप हैं शब्द-ब्रह्म या तत्व का बोध कराने वाला शब्द, और भूति या वह वास्तविक तत्व। बिन्दु दो रूप ग्रहण करता है। स्वर तथा व्यंजन। फिर परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी^{३८} के सिद्धांत के अनुसार ये प्रसुप्त स्वर कुण्डलिनी के साथ ऊर्ध्व-

समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म-साधनाएँ

गामी होकर चक्रों का भेदन करते हुए कण्ठ तक पहुँचते हैं जहाँ सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी कारण विसर्ग की व्याख्या सृजन-शक्ति या सृष्टि के रूप में गई है और उसी का पूरक अनुस्वार संहार का प्रतीक माना गया है। अनुस्वार को सूर्य माना गया है तथा अ, इ, ऋ, उ, लृ, ए, औ को सूर्य किरण समूह माना गया है। विसर्ग को चन्द्रमा माना गया है तथा दीर्घ स्वरों को आ, ई, ऋ, लृ, ऊ, ऐ, औ, को चन्द्रकिरण समूह। इनमें से अनुस्वार समूह दिन से सम्बद्ध है, पिंगला नाड़ी से सम्बद्ध है और विसर्ग समूह रात्रि से सम्बद्ध है, इडा से संबंधित है।^{३२}

पुनश्च वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के त्रिविध रूप बताये गये हैं :—

१. वैष्णव, २. शैव तथा ३. शाक्त।^{३०}

यंत्र भी इन्हीं मंत्रों के ही अविभाज्य अंग थे। इन यंत्रों का स्वरूप रेखागणित के षटकोणादि के रूप में था जो वास्तव में सुदर्शन पुरुष और उसके अंतर्गत १२ व्यूहों के रेखा-रूप थे। जब इनमें से रूप हट जाता था तब वे केवल वाणी रूप में अधिष्ठित होकर मंत्र का रूप ग्रहण कर लेते थे।^{३१}

इन मंत्रों को अस्त्रों तथा चक्रों के अभिचार रूप में भी प्रयुक्त किया जाता था।^{३२} अस्त्र अदृश्य होते थे पर समय पड़ने पर वे भयंकर रूप वाले प्राणियों का शरीर धारण कर लेते थे, उनके विकराल दाँत तथा अग्निजिह्वाएँ होती थीं और कोई दाहक सूर्य के वर्ण का, कोई लोहित वर्ण का, कोई श्वेत वर्ण का होता था और लौह-फल जैसे घातक शस्त्र उनके हाथों में रहते थे।^{३३}

पांचरात्र संहिताएँ न केवल बौद्ध धर्म से परिचित थीं वरन् वे बौद्ध धर्म को अपना दूसरा प्रतिरूप ही मानती थीं। बौद्धों के शून्यवाद की गिनती उस समय के प्रमुख सम्प्रदायों में थी। पद्म तंत्र में^{३४} प्रलय के उपरांत वटपत्र पर शायी विष्णु को शून्य नाम से अभिहित किया गया है^{३५} सुदर्शन चक्र को काल चक्र का प्रतीक माना गया है जो बौद्धों को बुद्ध रूप दृष्टिगोचर होता है।^{३६}

इन वैष्णव संहिताओं के समान शैवागमों की परम्परा भी बहुत प्राचीन है। ये शैवागम शिव के पाँच मुखों द्वारा लोक में प्रकट किये गये थे।^{३७} इन

पाँच मुखों से प्रकट आगमों की संख्या २८ मानी जाती है।^{३८}

शैवागम इनको शैव सिद्धांत के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें तीन पदार्थों की सत्ता मानी जाती है। प्रथम पति अथवा शिव।

द्वितीय पदार्थ पशु है अर्थात् वह शिवरूप जो मलादि से युक्त हो गया है। तृतीय पदार्थ पाश है जिसके चार रूप हैं मल, कर्म, माया, तथा रोधशक्ति। मुक्ति का परम साधन शिव का अनुग्रह माना गया है जिसमें आचार्य रूप से शिव पशु को “दीक्षा” देते हैं। यह “दीक्षा” ही अनुग्रह है।^{५९}

इन आंगमों के आधार पर पद्म-तंत्र (१. १. ५०) में शिव को तीन प्रमुख सम्प्रदायों का प्रवर्तक बताया गया है। पाशुपत, शुद्ध शैव तथा कापाल।^{६०} तांत्रिक शैव मतों में पाशुपत मत सम्भवतः सबसे प्राचीन है और अत्रान्तर उपनिषत्काल में ही इसका विकास होने लगा था। इसके ऐतिहासिक संस्थापक का नाम लकुलीश या नकुलीश था। इनकी मूर्तियाँ अत्र भी गुर्जर, राजस्थान, मालवा तथा गौड़ देश में प्राप्त हैं जिनमें वे एक हाथ लकुटी धारण किये हैं। अतः उनका नाम लकुटीश पड़ा। लकुटीश का समय मथुरा शैव स्तम्भ के शिलालेख के आधार पर डा० भण्डारकर ने द्वितीय शताब्दी का उत्तरार्द्ध माना है। इसी समय कुशानवंशी ह्विष्क की मुद्राओं पर लकुटीधारी शिव की मूर्तियाँ मिलती हैं।

पाशुपत तीन के स्थान पर पांच पदार्थ मानते हैं कारण, काया, योग, विधि तथा दुखान्त। कारण साक्षात् शिव है। कारण द्वारा निर्मित पदार्थ कार्य कहलाता है जो परतन्त्र होता है और तीन प्रकार का होता पाशुपत मत है विद्या, कला, पशु। विद्या पशु का गुण है जो दो प्रकार का है बोधात्मिका तथा आबोधत्मिका। बोधात्मिका के भी दो भेद हैं विवेकजनक, अविवेकात्मिका। अबोध अधर्म की जननी है। कला में चेतन के भी वश में होने वाले द्रव्यों की गणना है और पशु स्वयम् जीव है। पशु दो प्रकार का बताया गया है, शरीरेन्द्रियधारी पशु सांजन और उससे मुक्त पशु निरंजन। तीसरा पदार्थ है योग जो चित्त की क्रिया है उसी से आत्मा व ईश्वर का संयोग होता है “चित्तद्वारेण आत्मेश्वर संयोगो योगः”। चतुर्थ पदार्थ विधि है जो वाह्याचार का द्योतक है। इस पर तन्त्रों का स्पष्ट प्रभाव है।^{६१}

विधि के दो भेद हैं, व्रत तथा द्वार। व्रत पांच प्रकार के होते हैं। भस्मस्नान, भस्मशयन, उपहार, जप तथा प्रदक्षिणा।

दुखान्त मोक्ष को कहते हैं। यह भी दो प्रकार का है। अनात्मक अर्थात्

समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म-साधनाएँ

जिसमें केवल त्रिविध दुखों की निवृत्ति होती है। सात्मक में उसे सिद्धियाँ भी मिलती हैं। ५२

शुद्ध शैवमत के दो रूप हो गये थे। उत्तर में काश्मीर में स्पन्द-शास्त्र, त्रिकदर्शन या प्रत्यभिज्ञादर्शन जो कि अद्वैतवाद से प्रभा-काश्मीरी शैवमत वित था और दक्षिण में वीरशैव जो विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित था। अनुश्रुति यह है कि भगवान शंकर ने इस मत के आदि प्रवर्तक वसुगुप्त (६ वीं शती प्रारम्भ) को स्वप्न दिया कि वे महादेव गिरि में किसी गुहा में उत्कीर्ण शिवसूत्रों का उद्धार करें जिनके आधार पर उन्होंने बाद में 'स्पन्दकारिका' लिखी। उनके दो शिष्य थे, कल्लट तथा सोमानन्द। कल्लट ने त्रिकदर्शन^{५३} और सोमानन्द ने प्रत्यभिज्ञादर्शन लिखा। इन्हीं के शिष्य उत्पल तथा उत्पल के शिष्य अभिनवगुप्त हुए थे। पूर्वी देशों के शाक्त मतों का घनिष्ट सम्बन्ध इस शैवमत से अवश्य था, चाहे हम यह स्वीकार करें या न करें कि शाक्त मत इन्हीं की एक शाखा थी। जहाँ तक सिद्धान्तों का प्रश्न है मुख्य सिद्धान्तों पर कल्लट तथा सोमानन्द में कोई अन्तर नहीं है। इन्होंने आगमों के ही सिद्धान्तों को अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार व्यवस्थित कर दिया है। स्पन्द-शास्त्र के अनुसार केवल शिव सत्य है। वह पूर्ण स्वतन्त्र और सर्वशक्तिमान है। जीव मूल रूप में शिव है केवल अणु, माया तथा कर्म इन तीन मलावरणों के कारण अपने को अलग मानता है। इन मलों का मूलकारण शब्द है। यह शब्द अथवा नाद शिव की शक्ति का स्त्री रूप है। इसको शिव में लीन करने का साधन माया है। परम साक्षात्कार को भैरव कहते हैं।

प्रत्यभिज्ञा में इसी परम साक्षात्कार का एक नया रूप है। लौकिक प्रयोग में 'यह वही व्यक्ति है,' इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। ईश्वर से साक्षात्कार होने पर 'मैं वही ईश्वर हूँ' यह ज्ञान ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा है। ईश्वर को पाँच शक्तियों से सम्पन्न बताया गया है। चित्, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। अद्वैतवाद के समस्त सिद्धान्तों को लेते हुए भी इसमें ईश्वर को इच्छा-सम्पन्न बताया गया है। ५४

दक्षिण में शैवमतों की दूसरी तान्त्रिक साधना विकसित हुई जिसे वीर

शैवमत या लिंगायत सम्प्रदाय या शक्ति विशिष्टाद्वैत के नाम से अभिहित किया जाता है। अनुश्रुति के अनुधार इसका प्रचार रेणुकाचार्य, वीर शैवमत दारुकाचार्य घटाकर्ण, धेनुकर्ण तथा विश्वकर्म द्वारा हुआ था। ये आचार्य इतिहास तथा दिशा और काल की सीमाओं से परे माने जाते हैं। कलि में इनका नाम रेवणसिद्ध, मरुसिद्ध, एकोरामाराध्य तथा विश्वाराध्य होगा।^{५५} कलचुरि नरेश विजुल के मन्त्री बसव ने तथा एकान्त रामय्या ने भी जैनों का उच्छेद कर वीरशैव मत का प्रचार किया था।^{५६}

इसका मूल सिद्धान्त यह है कि जीव तथा ब्रह्म दोनों ही एक निहित शक्ति से समन्वित रहते हैं। इसी विशिष्टता से समन्वित होने के कारण दोनों का पारस्परिक लाभ होता है अतः इसे शक्ति-विशिष्टाद्वैत का नाम दिया गया है। शिव की इच्छा से सन्वित इस शक्ति के निर्माणकारी रूप को विमर्श कहा जाता है^{५७} जो संसार रचती है। समस्त संसार के मूल में शिव है और यह संसार पत्र, शाखादि के रूप में स्थित है।^{५८}

इस मत में साधना के उपरान्त जिस आनन्द की प्राप्ति होती है उसे समरस और उस अवस्था को सामरस्य कहा जाता है। यह समरस लिंग तथा अंग के ऐक्य से प्राप्त होता है। लिंग तथा अंग उसी परशिव के दो रूप हैं जिसे 'स्थल' कहा जाता है क्योंकि उसी में चराचर जगत की स्थिति तथा लय है।^{५९} उसके सक्रिय अंश को लिंग भी इसलिये कहा जाता है उसमें संसार का लय और गमन है।^{६०} साधना के बाद महालिंग घन में लीन हो जाता है और उसके लिये सिद्धान्त-शिखामणि में रेणुकाचार्य कहते :

जले जलमिव न्यस्तम् वन्हौवन्हिरिवापितः

परे ब्रह्मणि लीनात्मा विभागेन न दृश्यते...(परिच्छेद २०, २)

वीरशैव मत तथा काश्मीर शैव सम्प्रदाय दोनों ही से अपेक्षाकृत पुराने कालमुख के विषय में उल्लेख मिलते हैं जिसका प्रभावक्षेत्र दक्षिण ही था। शंकर-दिग्विजय के प्रणेता तथा रामानुजाचार्य ने कालमुखों का जो वर्णन किया है उससे ज्ञात होता है कि वे कपाल में भोजन करते थे, अंग में चित्ता भस्म का लेपन करते थे, भस्म भक्षण करते थे, गदा धारण करते थे। मद्यपात्र रखते थे और उसी में भगवान को आसीन मानते थे, किन्तु भण्डारकर का मत है कि इस वर्णनों में

समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म-साधनाएँ

कालमुख के भ्रम में कापालिक मत के लक्षण मिलते हैं।^{६१} नान्दीमठ का भी मत है कि कालमुख कापालिक मत से अलग था। उसका राजद्वारों और पुर-वासियों में प्रचुर सम्मान था। उसकी साधनाएँ इतनी विकृत और गुह्य नहीं थीं। उसके कई मठ और विद्यापीठ थे। कालान्तर में उनके मठों को वीरशैवों ने उत्तराधिकार रूप में प्राप्त किया और फिर वे मठ वीरशैवों के साम्प्रदायिक केन्द्र बन गये।^{६२}

कापालिक सम्प्रदाय इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं कि उसमें इन गुह्य तान्त्रिक सिद्धान्तों का विकास अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया और अत्यन्त गुह्य रूप से उसकी साधनाएँ बहुत दिनों तक चलती रहीं। कापालिक शबरतन्त्र में जो २४ कापालिकों की सूची मिलती है^{६३} उसमें कई कापालिक ऐसे हैं जो वज्रयानी सिद्ध थे तथा कई कापालिक नाथों की सूची में भी पाये जाते हैं।^{६४}

ये कापालिक माहेश्वर के उपासक थे इसका उल्लेख असंग के मध्यान्त-नुगम शास्त्र में मिलता है।^{६५} कालान्तर में नाथ सम्प्रदाय में इन्हें श्रीनाथ द्वारा भेजे गये वीर दूतों के रूप में परिकल्पित किया गया है। उस समय तक विष्णु चौबीस अवतार ग्रहण कर चुके थे। बारह प्रमुख और बारह गौण। जब उन्होंने कूर्मादि जलचरों और पशुओं की सी क्रीडाएँ कीं और कृष्ण का सा व्यभिचारी रूप ग्रहण किया तो श्रीनाथ ने चौबीस कापालिकों को भेजा और उन्होंने आकर चौबीस अवतारों से तुमुल युद्ध किया और उनके कपाल काट लिये और उन्हें धारण करने लगे। तभी से ये कापालिक कहलाये।^{६६} किन्तु यह अन्तर्कथा गोरक्ष-सिद्धान्त-संग्रह की है जो अपेक्षाकृत अत्यधिक नवीन है और सम्भव है यह कथा वैष्णव द्वेष के कारण गढ़ दी गई हो।

इनकी साधनाएँ सम्भवतः इन सभी सम्प्रदायों में सर्वाधिक गुह्य और विकराल हैं। ये उपरोक्त वर्णित कालमुखों की ६ साधनाओं के अतिरिक्त ६ चिन्ह-श्री धारण करते थे। जिनमें एक यज्ञोपवीत भी होता था और एक कर्ण-कुण्डल। इन छः चिन्हों का धारण करने वाला आवागमन से मुक्ति पा जाता है। इनके यहाँ संभवतः दीक्षा को 'व्रत' कहते थे। ये सोम मद्य पीते थे जिससे इनका चित्त जाग्रत होता था, मांस (कभी कभी शव) भक्षण करते थे। कपाली-शक्ति का आर्लिगन करते थे और श्मशानों में योग साधना करते थे। तान्त्रिक

अनुष्ठान करते थे और भैरव शक्तियाँ जगाते थे, नरबलि देते थे और शिव के भैरव रूप और अघोर मुख के उपासक थे ।^{६७}

भवभूति के मालतीमाधव में बताया गया है कि श्रीशैल कापालिकों का केन्द्र था । उनकी एक योगिनी कपालकुण्डला की माला पहना करती थी । वह राजमहल से मालती को उठा ले जाती है और अपने गुरु अघोरघण्ट की आज्ञा से उसे देवी करालचामुण्डा की मूर्ति के आगे बलि देना चाहती थी । हर्ष-चरित में कापालिक यति भैरवाचार्य का वर्णन मिलता है जिसने राजा पुष्यभूति के साथ श्मशान में जाकर महाकाल-हृदय नामक महामन्त्र का एक करोड़ बार जप किया था । अन्त में काले वस्त्र पहन कर, काली नकाब डाल, काला चूर्ण शरीर में मल कर शव पर बैठ कर कृष्णचतुर्दशी को बेताल-साधना की थी ।^{६८}

इनकी इन घृणित साधनाओं के कारण तथा इनकी रहस्यमयी सिद्धियों के कारण जन साधारण इनसे भय खाता था । इनकी गणना वेदवाह्य मतों में की गई है ।^{६९} ये जाति पाँति का बन्धन नहीं मानते थे । थोड़ी सी विधि सम्पन्न होने से ही साधक ब्राह्मण हो जाता था और कपाल-व्रत लेने पर तो वह सिद्ध हो जाता था ।^{७०}

इनकी साधनाओं के पीछे सोम सिद्धांत की दार्शनिक पीठिका बताई जाती है । कहा यह जाता है कि नर-कपाल में पिये जाने वाले मद्य को ये सोम कहा करते थे और सोम की व्युत्पत्ति स + उमा इस प्रकार बताते थे । इस सोम में शक्तियुक्त शिव का वास है । इसके समर्थन में टुच्ची ने प्रबोध-चन्द्रोदय की तीन टीकाएँ उद्धृत की हैं जो नेपाल के राजगुरु हेमराज शर्मा ने उनके पास भेजी थीं ।^{७१} प्रबोध चन्द्रोदय में सोमसिद्धांत का प्रवेश कापालिक वेश में कराया गया है और कहा गया है कि इस पवित्र अमृत को पीने से पशु-पाश का उच्छेदन होता है और भैरव जाग्रत होते हैं । यह भाव-मेघज रूप है ।^{७२} इस सोम की व्युत्पत्ति सचिकर टीका में इस प्रकार है कि सह + माया के कारण इसे सोम सिद्धांत कहा जाता है, प्रकाश टीका में कहा गया है कि कपाल में जहाँ ब्रह्म-रन्ध्र, उपलक्षित हो जाता है उसे ब्रह्म-कपाल कहते हैं । उसमें तत्वों द्वारा कल्पित चन्द्रमा से भरने वाला सोम या अमृत है । पारणा व्रत की समाप्ति पर उसे पीना चाहिये । चन्द्रिका नाम्नी टीका में यह कहा गया कि जैसे कैलाश पर स्थित उमा सहित शिव आनंद प्राप्त करते हैं उसी प्रकार ईश्वर-वेषधारी रुद्र-रूपधारी साधक कान्ता के सहित

समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म-साधनाएँ

कैलाश पर आनन्द भोग करता है। इसी से उमा सिद्धांत को सोम सिद्धांत कहते हैं।^{१०२}

इस सोम-सिद्धांत का उल्लेख बहुत से परवर्ती ग्रन्थों में मिलता है। डा० बागची द्वारा टुची को प्रदत्त अकुलवीर तन्त्र की हस्तलिखित प्रति में 'सोम सिद्धांत वादिनः' का उल्लेख मिलता है तथा न्यायदर्शन में बाह्य सिद्धांतों की गणना में सोम सिद्धांत भी परिगणित है।^{१०३}

इस सोम सिद्धांत के अतिरिक्त रसेश्वर सम्प्रदाय का भी उल्लेख मिलता है। यह सम्प्रदाय भी शैव था। इस सम्प्रदाय में शरीर साधना पर और अमरत्व की उपलब्धि पर विशेष बल दिया जाता था। वे कहते हैं कि छोड़ो दर्शनों में मृत्यु के उपरांत मुक्ति की उपलब्धि बताई गई है किन्तु जब हमारी मृत्युही हो जाती है, तब मुक्ति की क्या सार्थकता, अतः हमें 'रस' के द्वारा अमर रहने का प्रयास करना चाहिये। यह कहा जा सकता है कि काया तो नाशवान है अतः अमरत्व की साधना कैसे हो। इसके उत्तर में यह कहा गया है कि आत्मा के छः आवरणों वाला यह तन नाशवान है पर पारद और अभ्रक के योग से हर और गौरी द्वारा निर्मित काया अमर होती है। क्योंकि महेश्वर ने स्वयम् कहा है कि 'पारा मेरा वीर्य है और अभ्रक तुम्हारा रज। दोनों के संयोग से हे भगवती, दारिद्र्य और मृत्यु का सदा के लिये विनाश हो जाता है'।^{१०४}

रसेश्वर सिद्धांत में कहा गया है कि जाने कितने देवता महेश, शुक्रादि दैत्य, मुनिगण, बालखिल्यादि, सोमेश्वरादि, सम्राट, गोविन्द भागवत्, गोविन्द नायक, कपाली, व्याली, आदि इस रस साधना द्वारा दिव्यशरीर प्राप्त कर चुके हैं।^{१०५}

इसकी विधि इस प्रकार बताई गई है कि पहले रस (पारे) का परिशोधन करना चाहिये। पारा मूर्च्छित और बद्ध दो प्रकार का होता है। जिसमें आर्द्रता, प्रगाढ़ता और चमक होती है वह पारा मृत होता है। मूर्च्छित पारे के परिशोधन की अट्टारह विधियाँ गोविन्द भागवत तथा सर्वज्ञ रसेश्वर द्वारा बताई गई हैं। इस विधि में पारा और वायु-तत्व प्राण का व्यवहार होता है। दोनों का उचित मिश्रण रोगों का शमन करता है मृत्यु का अवरोध करता है। बद्ध पारा प्राण में विद्ध होने पर उड्डयन या उड़ने की सिद्धि प्रदान करता है।^{१०६}

जाती, यदि स्त्री सम्भोग से मुक्ति मिलती होती तो कौन बचता । वास्तव में यह पथ बाघ के कान पकड़ने या खड़ग की धार पर चलने से भी ज्यादा कठिन है । ९०

इन मतों के अतिरिक्त जैनों में भी शाक्त-दर्शन और तान्त्रिक साधनाओं का विकास हुआ था किन्तु वह साहित्य अभी तक प्रकाश में नहीं आया है । एक जैन तान्त्रिक सम्प्रदाय का उल्लेख कित्संग ने अवश्य किया है । असंग के मध्यान्तानुगम शास्त्र के चीनी अनुवाद में जिस न-य-सि-मो सम्प्रदाय का उल्लेख हुआ है, उसे प्रोफेसर उई ने न्याय शास्त्र बताया है किन्तु कित्संग उससे किसी जैनी तान्त्रिक सम्प्रदाय का अर्थ लेता है जो निर्ग्रन्थ ९१ जैनियों की एक शाखा थी । उसकी दो प्रकार की साधनाएँ थीं; आठ साधनाएँ जो श्रुतज्ञान से आई थीं ज्योतिष, गणित, ओषधि, मन्त्र, श्रक, यजु, साम तथा अथर्व तथा आठ साधनाएँ अनुभवजनित । प्रथम नक्षत्र, देवता, ग्रह की पूजा, द्वितीय ऋषि-सुलभ तपस्या और षट्कर्म जो गुह्य थे और तान्त्रिक थे । ९२

बौद्ध तन्त्र-सम्प्रदाय, मन्त्रयान, तन्त्रयान, वज्रयान (या सहजयान) आदि भी इसी विराट तान्त्रिक वातावरण से ही उद्भूत थे जो सारे भारत पर छाया हुआ था । वह महायान के अंतर्गत था अतः उसने इन सम्प्रदायों की तान्त्रिक साधनाओं की व्याख्या और विश्लेषण महायानीय मूलभूत एकता शब्दावली में किये अन्यथा मूलतः इन सभी तान्त्रिक सिद्धान्तों में एकसूत्रता थी । और उसे ये भी पहचानते और मानते थे तथा एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय को प्रमुख साधनाएँ गौण रूप में और कभी कभी गौण साधनाएँ प्रमुख रूप में अपना भी लेते थे । इनकी साधनाओं, देवी देवताओं, अभिचारों तथा पौराणिक सिद्ध पुरुषों में तथा सिद्धान्तों में मुक्त विनिमय हो रहा था । इसीलिये महायान ने बहुत कुछ अपने पूर्ववर्ती तथा समकालीन तन्त्रों से ग्रहण किया जैसा हम अगले अध्याय में देखेंगे और साथ ही लुप्त होते हुए सहजयान ने भी अपनी आगामी परम्परा पर अक्षुण्ण प्रभाव छोड़ा । कुछ विद्वानों का कथन है कि वज्रयान तथा हिन्दू तान्त्रिक साधनाओं में बहुत सी पद्धतियाँ साथ साथ और समानान्तर ही विकसित हुई हैं । ९३ रसेश्वर सम्प्रदाय का अमर शरीर और वज्रयान की वज्र-काया, कापालिकों का सोम और

समकालीन बौद्धेतर तान्त्रिक धर्म-साधनाएँ

सिद्धों की वारुणी, लिंगांग सामरस्य और सिद्धों का प्रज्ञोपाय युगनद्ध, सिद्धों की सहज-साधना और विष्णु पुराण की सहजासिद्धि १४ लगभग एक ही काल में ८ वीं से १२ वीं शती हिन्दू तथा बौद्ध दोनों ही सम्प्रदायों में मिलती हैं। उसमें समय का अन्तर कम है और इतनी कम सामग्री प्रकाश में आई है कि कौन पहले विकसित हुआ यह निर्णय नहीं दिया जा सकता।

इस मूलभूत एकता को दक्षिणपन्थी ब्राह्मण तथा हीनयानी बौद्धों के बजाय तान्त्रिक बौद्ध और तान्त्रिक हिन्दू अधिक मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते थे। पद्म-तन्त्र में पूर्वोक्त उल्लेखों के अतिरिक्त यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान ने विष्णु रूप में संहिताओं का उपदेश करने के अतिरिक्त ब्रह्म रूप में योग, कपिल रूप में सांख्य, बुद्ध रूप में शून्यवाद तथा ऋषभ रूप में अर्हत् शास्त्र का भी उपदेश किया था। १५ बाद में कौलावली-निर्णय में भी इनकी एकता प्रतिपादित की गई। १६ हनुमन्नाटक की वन्दना में भी शिव, ब्रह्म, अर्हत् तथा बुद्ध को एक माना गया। १७ वास्तव में परवर्ती वैष्णव परम्परा में बुद्ध को अवतार मान लिया गया इसका सूत्र यही तान्त्रिक भावना थी जिसमें साधना प्रमुख थी और देवता गौण तथा साधना की एकता और सारूप्यता के कारण देवताओं की विभिन्नता पर ध्यान नहीं दिया गया।

बौद्धों ने भी हिन्दू देवता अपनाये। गरुडेश, सरस्वती, कभी कभी विष्णु भी उनके तन्त्रों में मिलते हैं। करण्ड-श्रुह में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर यह कहते हैं कि वे शिव, विष्णु, गरुडेश, राजा और माता पिता का भी रूप धारण करेंगे और लोक का त्राण करेंगे। १८ इस प्रकार उसी समय हिन्दू और बौद्ध तान्त्रिकों में एकसूत्रता की जागरूक चेतना थी किन्तु अपने अपने देवताओं और मन्त्रों तथा तत्वदर्शन के प्रति सभी सम्प्रदायों में उत्साह था और वे किसी से पीछे नहीं रहना चाहते थे। इस उत्साह के होते हुए भी वे सदैव दूसरे सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता दिखाते हों ऐसा चित्रण सर्वथा अनैतिहासिक होगा। किन्तु यदि उन सम्प्रदायों की साधना-पद्धति लगभग समान हो तो धार्मिक विद्वेष उतना प्रबल नहीं होता था। उदाहरण के लिये बौद्ध साधनाओं में शिव का काल रूप वेशान्तर में कालचक्र में प्रविष्ट हुआ है। कापालिकों की साधना को काणहपा ने बौद्ध रूप में अपनाया है और नाथ रूप में बुद्ध की भी प्रतिष्ठा की गई। शैव तथा शाक्त मत बौद्ध तान्त्रिकों द्वारा उतने उपेक्षणीय नहीं रहे जितना वैष्णव

मत और कालान्तर में कौल सम्प्रदाय तो बौद्ध तथा शैव तन्त्रों के सम्मिश्रण से ही बना।

किन्तु लगता है बाद में कुछ साम्प्रदायिक विद्वेष अधिक बढ़ गया और विष्णु को तथा ब्रह्म को स्थान स्थान पर बौद्ध तन्त्रों में अपमानित करने का प्रयास किया गया है। 'हरि हरि हरि वाहनोद्भव साधन' में विष्णु को बौद्ध देवता का वाहन बताया गया है। इसी प्रकार वज्रज्वालानलार्क को लक्ष्मी सहित विष्णु को कुचलते हुए चित्रित किया गया है। ज्ञात होता है कि कालान्तर में बौद्धों तथा हिन्दू सम्प्रदायों में साम्प्रदायिक विद्वेष अधिक बढ़ा और अपने देव-ताओं को ऊँचा सिद्ध करने के लिये ऐसी कथाएँ और प्रतिमाएँ कल्पित की गईं। विष्णु पर विशेष आक्रोश का कारण सभवतः वैष्णव धर्म की बढ़ती हुई शक्ति थी। किन्तु यथास्थान ब्रह्म, शिव, कन्दर्प, कुबेर को भी छोड़ा नहीं गया है।^{१९}

देवताओं के विषय में यह मतभेद होते हुए भी साधनापद्धति में आदान प्रदान कभी भी बन्द नहीं हुआ। जैसा हम अगले अध्याय में देखेंगे कि थोड़े नाम-भेद से हिन्दू तन्त्रों के सभी सिद्धान्त वज्रयान में तथा उसकी विकसित शाखाओं में मिलते हैं।

इन सभी तन्त्रिक सम्प्रदायों की सामान्य प्रवृत्तियों को हम इस प्रकार अंकित कर सकते हैं।

१. प्रत्येक सम्प्रदाय के देवता, मन्त्र और तत्व-दर्शन की सामान्य शब्दावली अलग होते हुए भी साधनापद्धति की सामान्यता प्रवृत्तियाँ थी। नई साधना-पद्धतियों का एक दूसरे सम्प्रदाय में उन्मुक्त आदान प्रदान होता था।

२. तत्वदर्शन गौण था, साधना, क्रिया और चर्या प्रमुख थीं। साधना में गुरु का अत्यधिक महत्व था और यह साधना शिव-शक्ति, लिंग-ग्रन्थ, रस-अन्नक, प्रज्ञा और उपाय आदि किन्हीं दो पुरुष तथा स्त्री प्रतीकों के अद्वय की साधना थी।

३. लगभग सभी सम्प्रदायों में इस साधना की मिथुन-परक व्याख्या मिलती है और उसके साथ गुह्य आचारों का भी विधान मिलता है।

४. इस साधना में जाति पांति वर्ण का कोई भेद नहीं था।

५. इस साधना में शक्ति प्रधान होने के कारण स्त्री का विशेष महत्व था।

समकालीन बौद्धैतर तान्त्रिक धर्म-साधनाएँ

६. ब्रह्माण्ड में जो शिव तथा शक्ति थे वे ही शरीर में कुण्डलिनी और सहस्रार, या कमल और कुलिश के रूप में विद्यमान थे अतः योगसाधनाओं का विधान था और देह को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था ।

७. मिथुन-साधना तथा योग के कारण निरूपण शैली प्रतीकात्मक है ।

८. लोक देवताओं और उनके पूजन की असंस्कृत विधियों का सम्मान और उन्हें वैदिक देवताओं से भी बड़ा सिद्ध करने की चेष्टा होती थी ।

९. वेदों का असम्मान या उनकी समकक्षता प्राप्त करने का प्रयास और ब्राह्मणों (रूढ़िवादी) की अपेक्षा होती थी ।

१०. मरणोपरान्त मुक्ति अथवा निर्वाण की अपेक्षा साधना के द्वारा जीवनकाल में ही विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर सिद्ध बनना; रसेश्वर, कापालिक, शाक्त तथा वज्रयानी, सभी पद्धतियों में सिद्ध मान्य हैं ।

किस प्रकार बुद्ध द्वारा प्रवर्तित बौद्ध धर्म-साधना की परिधि का विस्तार हो रहा था और किस प्रकार महायान ने उसको सर्वथा नये स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया था इस पर हम विचार कर चुके हैं । तन्त्रों की इन सामान्य प्रवृत्तियों को बौद्धों ने भी उत्साह पूर्वक ग्रहण किया और उन्हीं से समन्वित शाखा वज्रयान के नाम से अभिहित हुई । विचारणीय यह है कि ये तान्त्रिक प्रवृत्तियाँ बौद्ध धर्म में कब से समाविष्ट होने लगीं ।

ग
बौद्ध धर्म में तान्त्रिक
प्रवृत्तियों का प्रवेश
तथा वज्रयान का विकास

बौद्ध-धर्म में वैयक्तिक निर्वाण के स्थान पर महत्करुणा और लोकहित की जो भावना प्रबल हो रही थी क्या उसका कोई सम्बन्ध बौद्ध-धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों के प्रवेश से है या नहीं ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि धीरे-धीरे बौद्ध धर्म में महायान की पारमिता पद्धति की अपेक्षा मन्त्रनय पद्धति को इसीलिये अधिक महत्त्व दिया जाने लगा कि वह अपेक्षाकृत सरल और लोक-तारण के लक्ष्य के अधिक अनुरूप है।^१ कालान्तर में वे चाहे जितनी विकृत हो गई हों किन्तु उनके मूल में लोक-कल्याण की भावना अवश्य थी इसके बहुत से स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। आर्यदेव जिनका समय लगभग ८ वीं शती (यदि वे सिद्ध आर्यदेव नहीं हैं तो!) माना गया है,^२ स्पष्ट लिखते हैं कि बोधिचित्त का समुत्पाद जगत के उद्धार के आशय से ही किया जाना समुचित है।^३ 'डाकार्णव' नामक अपभ्रंश के तन्त्र ग्रन्थ में भी साधक को सकल त्रिभुवन का उत्तारक बनने का उपदेश दिया गया है।^४ 'सेकोद्देश टीका' में भी यही लक्ष्य मिलता है।^५ कालान्तर में मन्त्रनय को पारमितानय से उत्कृष्ट सिद्ध करने के पक्ष में यह भी तर्क दिया जाने लगा कि यह सर्वोपसेव्य नहीं है और केवल तीक्ष्ण बुद्धि वाले इसे ग्रहण कर पाते हैं^६ किन्तु फिर भी मन्त्रनय लोक-कल्याण और व्यापक प्रभाव के ही हेतु विकसित हुआ था इसका प्रमाण यह भी है कि पारमितानय की अधिकांश कृतियाँ संस्कृत में रही हैं जब कि मन्त्रनय में देशी भाषा को भी समकक्षता

बौद्ध-धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास

दी गई है^७ और यहाँ तक कि मन्त्रनय (वज्रयान) के संस्कृत ग्रन्थों में और टीकाओं में यथास्थान अपभ्रंश के पद प्रमाण रूप में उद्धृत किये गये हैं।^८ लोक-कल्याण के हित प्रवर्तित वज्रयान में लोकभाषा को प्रमुखता मिलना स्वाभाविक है।

किन्तु यह सारी तान्त्रिक साधनाएं और उनके मैथुन-परक रूप केवल लोक-कल्याण मात्र के लिये थे, ऐसा विचार एकांगी होगा। उसके पीछे बौद्ध बुद्ध के समय में संघ का संयम और शुद्धतावाद के प्रति आचारगत विद्रोह भी था और कहीं-कहीं उसकी अतिशयतागत विकृति भी, किन्तु चमत्कार उसके लोकपद्म का भी महत्व कम नहीं है। अब यह प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म में पहली बार इन साधनाओं का प्रवेश कब और किसके द्वारा हुआ। बौद्ध धर्म अपने मूल रूप में तो बुद्धि और तर्क-प्रधान धर्म था। उसमें योग-साधना का विशेष महत्व नहीं था^९ और उसके मर्यादित नियम-नुशासित रूप में वज्रयान की गुह्य मिथुन साधनाओं की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये प्रवृत्तियाँ पुरातन काल से भारतीय जनता में प्रचलित थीं और बुद्ध के समय में भी इनका उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों का मत है कि छठीं शती ई० पू० में दार्शनिक और धार्मिक स्तर पर इतने वादविवाद, तर्क और वितर्क चल रहे थे कि सामान्य जनता में अन्धविश्वास और जादू टोने की अभिवृद्धि अनिवार्य थी।^{१०} प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में भी इस प्रकार की सिद्धियों अथवा इन्द्रियों का उल्लेख मिलता है। विनयपिटक में भड्डीयनगर के मेण्डक नामक एक सद्गृहस्थ का उल्लेख मिलता है जिसका सम्पूर्ण परिवार इस प्रकार के सिद्धिगत चमत्कार कर सकता था और मगध के महाराज सेनीय त्रिभिसार ने अपने प्रतिनिधियों को इन चमत्कारों की वास्तविकता का पता चलाने भेजा था।^{११} इसी प्रकार ब्रह्मजाल सुत्त में भी बहुत सी ऐसी चमत्कारपूर्ण विद्याओं का उल्लेख है जो बुद्ध द्वारा 'तिरच्छान' समझी जाती थीं।^{१२}

इस प्रकार की इन्द्रियों का प्रचलन स्वतः बुद्ध के शिष्यों में भी था। अगुंत्तरनिकाय में सारिपुत्त के पश्चात् सर्वप्रमुख शिष्य मोग्गलायन को इन इन्द्रियों में सिद्ध माना गया है।^{१३} पिरडोल भारद्वाज की कथा बहुत मनोरंजक है। राजगृह के किसी सेट्टी ने एक चन्दन पात्र बाँसों के सहारे अथर में टँगवा कर घोषणा की कि जो ब्राह्मण या श्रमण इन्द्रियों को सिद्ध कर चुका हो वह इसे

उतार ले । पूर्ण कास्सप, मक्खल्लिगोसाल, अजित केश कम्बली, पांडुक काञ्चायन, संजय वेलाड्डिपुत्त और निग्गन्थ नातपुत्त ये सभी बुद्ध के प्रतिद्वन्द्वी असफल होकर लौट आये तब मोग्गल्यायन और पिण्डोल भारद्वाज भी एक बार चमत्कार दिखाने के लिये गये और भारद्वाज ने ऊपर उड़कर वह पात्र उतार लिया और तीन बार राजगृह पर उड़े । समस्त पुरवासी आश्चर्य और आह्लाद से विभोर हो गये।^{१४} स्वतः बुद्ध ने दस्यु अंगुलिमाल के सम्मुख एक ऐसा स्वरूप धारण कर लिया था जो अपराजेय था ।^{१५} इसके आधार पर डा० विनयतोष भट्टाचार्य का यह मत है कि स्वतः बुद्ध भी इस जादू टोने में विश्वास करते थे और अपने मत के कुशल प्रचारक और नियामक के रूप में उन्होंने इन प्रवृत्तियों को प्रमुख स्थान दिया था ताकि उनका मत लोकप्रिय बन सके । यद्यपि स्वतः वे इन इन्द्रियों की सार्थकता में विश्वास करते थे या नहीं इसमें सन्देह है ।^{१६} सर चार्ल्स ईलियट का भी भुकाव इसी मत की ओर है !^{१७}

किन्तु उपरोक्त विद्वानों का यह मत प्रामाणिक नहीं ठहरता । इसका प्रथम कारण यह है कि बुद्ध ने स्थान स्थान पर स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार के चमत्कारों को निन्दनीय ठहराया है । पिण्डोल भारद्वाज के चमत्कार की कथा सुनने के उपरान्त उन्होंने पिण्डोल भारद्वाज की भर्त्सना की और नियम बना दिया कि जो भिक्षु इस प्रकार के चमत्कार प्रदर्शित करे उसे दंड दिया जाय ।^{१८} दीघनिकाय में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि “मैं इन इन्द्रियों और चमत्कारों के प्रदर्शन में अमंगल के चिह्न देखता हूँ, अतः मैं इनसे घृणा करता हूँ और इन पर मुझे ग्लानि होती है” ।^{१९} उन्होंने यह भी कहा कि इन्द्रियों के स्वामी तो बुरे लोग भी हो सकते हैं । कहा जाता है कि देवदत्त भी इन्द्रियों को सिद्ध कर चुका था अतः उन्होंने चार इन्द्रियादों का उपदेश किया जो भौतिक चमत्कार की अपेक्षा चित्त-निग्रह और ज्ञानोपलब्धि में सहायक थे ।^{२०} प्रतीत यह होता है कि बुद्ध की दृष्टि में इन चमत्कारों के प्रति जो अपेक्षा थी वह उनके शिष्यों में नहीं थी क्योंकि उनकी मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ऐसी कथाओं का यथास्थान समावेश कर दिया जिनमें बुद्ध भी इन चमत्कारों का उपदेश देते हैं । इसी प्रकार का एक उपदेश दीघनिकाय का आठानाटीय सूत्र है जिसमें गृध्रकूट पर तथागत की उपस्थिति में उनकी सहमति से वैश्रवण ने आठानाटीय रक्षा पढ़ी और यह कहा कि अमनुष्यों के संकट से यह रक्षा करेगी । राहुल जी के मत से यह सूत्र प्रक्षिप्त है और जब यह पिटक लंका में लिपिबद्ध किया गया

बौद्ध धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास

उस समय इसका समावेश कर दिया गया।^{२२} स्थविरिपिटक तो लिखे जा चुके थे अतः उनमें ऐसे प्रक्षेप अधिक नहीं आ सके किन्तु महायान सूत्रों में बाद में ऐसी प्रवृत्तियाँ अधिकाधिक आती गईं और उनका प्रचार बढ़ता गया और कालांतर में उन्होंने महायान का पूरा रूप ही बदल दिया।^{२२} वज्रयान तथा कालचक्रयान के ग्रंथों में तो स्वतः भगवान तथागत को ही तंत्रों का उपदेश मान लिया गया और उनके दीपंकर रूप की कल्पना की गई जिसमें उन्होंने तंत्रों का उपदेश किया था।^{२३} किन्तु यह सभी बाद में तन्त्राचार्यों द्वारा की गई कल्पनाएँ थीं ताकि वे तंत्रमार्ग को बुद्ध द्वारा सम्मत सिद्ध कर सकें।

बौद्ध अनुश्रुतियों में योगाचार सम्प्रदाय से तान्त्रिक साधनाओं का उद्भव स्वीकार किया गया है। कहा यह जाता है कि योगाचार के प्रथम आचार्य असंग (४००-५०० ई०) को तुषित नामक स्वर्ग में मैत्रेय नामक बुद्ध ने इन तन्त्राचार्यों में प्रथम दीक्षा दी थी।^{२४} वैडेल की धारणा है कि योगाचार सम्प्रदाय में लगभग ७०० ई० सन्

में इन्द्रियों, धारणियों तथा तन्त्राचार्यों का समावेश हुआ।^{२५} वैडेल का मत सम्भवतः विण्टरनीत्ज^{२६} और कर्न^{२७} के मतों पर अवलम्बित है। योगाचार से मन्त्रयान का घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह तो साधन-माला से स्पष्ट है जहाँ एकाधिक बार योगाचार को स्मरण किया गया है।^{२८} टुची का मत है कि ७०० ई० से पहले ही तंत्रों का विकास हो चुका था क्योंकि महामयूरी, विद्यारंजनी तथा सुवर्णप्रभा सूत्र आदि कई तान्त्रिक बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद पाँचवीं शती में ही हो चीनी भाषा में हो चुका था। इतना ही नहीं, वे तो मैत्रेय को भी केवल अलौकिक व्यक्तित्व न मान कर लौकिक मानुषी आचार्य मानते हैं। इस पक्ष में उन्होंने जापानी बौद्ध विद्वान प्रोफेसर उई का मत प्रस्तुत किया है। 'मध्यान्त-विभाग' पर स्थिरमति की टीका में तथा हरिभद्र के 'अभिसमया-लंकारालोक' में भी उन्होंने मैत्रेय के मानुषी रूप की ओर संकेत किया है।^{२९} यद्यपि इतना प्रमाण असंग के ही समय में तन्त्राचार्यों के समावेश को स्वीकार करने के लिये यथेष्ट नहीं है किन्तु स्वतः असंग के 'महायान-सूत्रालंकार' में तंत्रों की मैथुनपरक साधना के कुछ स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। तथागत के विभुत्व के भेदों का निदर्शन करते हुए उसने परावृत्ति शब्द का प्रयोग किया है^{३०} पंचेन्द्रियपरावृत्ति, मानसपरावृत्ति, सार्थाग्रहपरावृत्ति, विकल्पपरावृत्ति और

अन्ततोगत्वा मैथुनपरावृत्ति के कारण उनमें पाँच प्रकार की विभुताएँ समाश्रित हैं। प्रो० लेवी ने 'मैथुनस्यपरावृत्ति' का अर्थ 'मैथुनक्रिया में परावृत्ति' इस प्रकार किया है और स्पष्टतः उसे तान्त्रिक संकेतों से पूर्ण बताया है।³¹ विण्टर-नित्ज का इससे मतभेद है और गुह्यसमाजतन्त्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे 'मैथुन का तिरस्कार' इस अर्थ में लिया है।³² किन्तु बागची ने परावृत्ति को दश धर्मभूमियों में आठवीं अचला से सम्बन्धित करते हुए उसका अर्थ यह लिया है कि बुद्ध इसी प्रकार का आनन्द चित्तवृत्तियों के माध्यम से उपलब्ध करते थे जैसा मैथुन में प्राप्त होता है। डा० बागची का अर्थ अधिक प्रामाणिक ज्ञात होता है³³ और इस प्रकार हम देखते हैं कि असंग द्वारा तान्त्रिक पद्धति अंशतः ग्रहण कर ली गई थी यद्यपि वह इतनी प्रमुख नहीं थी।

कुछ बौद्ध अनुश्रुतियाँ असंग के भी पूर्व नागार्जुन को तन्त्रों का प्रथम प्रवर्तक बताती हैं। उनके अनुसार दक्षिण भारत में लौहस्तूप में भगवान वैरोचन ने वज्रसत्व नामक बोधिसत्व के माध्यम से नागार्जुन माध्यमिकसंप्रदाय को तान्त्रिक दीक्षा दी थी।³⁴ किन्तु किसी समर्थ प्रमाण और तन्त्र के अभाव में इसे स्वीकार करना कठिन है। यह आवश्यक है कि सिद्ध काल में कई वज्रयानी आचार्यों ने, विशेषतः अवधूतीपा अद्रयवज्र ने अपने कई ग्रन्थों में माध्यमिक सम्प्रदाय को योगाचार की तुलना में विशिष्ट बताया है।³⁵ किन्तु अद्रयवज्र की विशेष स्थिति थी जिस पर हम बाद में विचार करेंगे।³⁶

जब तक कि मैत्रेय के अस्तित्व का कोई पुष्ट प्रमाण न मिले तब तक यही स्वीकार करना होगा कि बौद्ध धर्म में तान्त्रिक पृवृत्तियों का सर्वप्रथम प्रयोग मन्त्रों के रूप में हुआ। आठानाटीय सूत्र की प्रक्षिप्त मन्त्र, यन्त्र तथा देवशृंखला का विकास कथा से भी यही ज्ञात होता है। यद्यपि स्थान स्थान पर वज्रयानी ग्रन्थों में हमें इन मन्त्रों के प्रथम उपदेष्टा के रूप में बुद्ध का उल्लेख मिलता है।³⁷ किन्तु जैसा हम पहले देख चुके हैं कि यह बाद की कल्पनाएँ हैं। किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि महायान के पूर्ण विकास के पहले स्थविरवादियों में ही ये मन्त्र धरणियों के रूप में प्रविष्ट हो चुके थे और उन्होंने धरणियों को अपने साहित्य में स्थान देना प्रारम्भ कर दिया था।³⁸ ये धरणियाँ सूत्रों के संक्षिप्तीकरण थे और जो साधक कि सभी

बौद्ध-धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास

सूत्रों को नहीं समझ सकते थे उनकी सुविधा के लिये छोटी छोटी धरणियाँ रची गईं।¹³⁹ बहुत पहले ही पूर्वोक्त १८ बौद्ध सम्प्रदायों में लगभग लगभग सूत्र लिखे गये थे। बाद में ईस्वी शती के लगभग उन सबों का धरणी रूप में संक्षिप्तिकरण किया गया और उनके पहले ओम् और वाद में मन्त्रों का समावेश लगा कर उन्हें सिद्धि, रक्षा, उपासना और सुख का साधन मान लिया गया।¹⁴⁰ कालान्तर में यही धरणियाँ तान्त्रिक प्रभाव में मन्त्र और बीजाक्षर रूप में परिवर्तित हो गईं। इसका एक उदाहरण डा० विनयतोप भट्टाचार्य ने दिया है। प्रख्यात अष्ट साहसिका प्रज्ञापारमिता का सभी साधकों द्वारा पढ़ा जाना कठिन था। किन्तु उसके पाठ का बहुत बड़ा फल बताया गया है। अतः उसे पहले शाश्वती की प्रज्ञापारमिता और बाद में प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्र में संक्षिप्त किया गया। उसे भी दुस्तर जान कर प्रज्ञापारमिता धरणी बनी और अन्त में वह धरणी मन्त्र रूप में परिवर्तित हो गई। फिर उस मन्त्र को भी 'द्रो' नामक बीजाक्षर में ध्वनि-भूत कर दिया गया। यह बीजाक्षर स्वतः समस्त प्रज्ञापारमिता साहित्य की पुञ्जिका ध्वनि है और इसके जप से शून्य स्वतः प्रज्ञापारमिता देवी के रूप में प्रगट हो सकता है।¹⁴¹ इस प्रकार के बहुत से बीजाक्षरों की कल्पना मिलती है। वैराचन का 'अ', अक्षोभ्य का 'य', रत्नसंभव का 'र', अमिताभ का 'अ', अर्थाध्याय का बीजाक्षर 'ल' था।¹⁴² इन अक्षरों में देवताओं की कल्पना के पीछे भांगारों का शब्द-सिद्धान्त था,¹⁴³ जिसमें कहा गया है कि शब्द शाश्वत है, अक्षर रूप में वर्णमाला में सदैव विद्यमान रहता है। अर्थ की स्थिति शब्द में है, ज्ञान में नहीं, अर्थ शब्द की ही विवृति है और इसीलिये तन्त्रों में लगानार शब्द-रूप की कल्पना मिलती है जिससे समस्त मानवों और देवों की सृष्टि हुई है।¹⁴⁴

इन मन्त्रों के साथ साथ इनकी रेखात्मक अभिव्यक्तियाँ मन्त्र और कवच रूप में वज्रयान में प्रचलित हो चुकी थीं। ये मन्त्र भी देवताओं की अभिव्यक्तियाँ होते थे और धातु, या कागज या भोजपत्र पर अंकित किये जाते थे।¹⁴⁵ इनके साथ साथ मुद्रा की भावना भी विकसित हो चुकी थी और महा अभिव्यक्तियों के साथ मन्त्र कहने से समाधि की अवस्था प्राप्त होती थी।¹⁴⁶ कालान्तर में मुद्रा या महामुद्रा प्रज्ञा तथा उसकी अभिव्यक्ति नारी शक्ति मान ली जा गयी जगत् जिनके समागम से सिद्धि मिलती थी, पर मन्त्रों से सम्बन्ध मुद्रा, अक्षरों, होश्वर द्वारा ग्रहीत पद्म, शंख, वज्र आदि को धारण करने वाली देवताओं का मुद्राएँ थीं।¹⁴⁷

इन मन्त्रों को किसी न किसी देवता से सम्बद्ध माना गया था और जैसे वे मन्त्र वस्तुओं के धर्मों की शून्यता की ओर संकेत करते थे, वैसे ही वे देवता भी शून्य के प्रतिबिम्ब थे।^{४८} इसके लिये अद्वयवज्र ने ४ अवस्थाओं का संकेत किया है। शून्यता-ज्ञान से बीज, बीज से बिम्ब, बिम्ब से न्यास-विन्यास और न्यास-विन्यास से देवता का बाह्य रूप परिकल्पित होता है।^{४९} मन्त्रयान में देवताओं के विभिन्न रूपों का विस्तृत विधान मिलता है। महायानी सम्प्रदायों में पाँच स्कन्ध, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान माने गये हैं। ये वस्तुओं के समान धर्मों के पुंज हैं। किन्तु हैं वे सब-शून्य। शून्य-धर्मों के इन पाँच स्कन्धों के आधार पर पाँच ध्यानी बुद्धों की परिकल्पना विकसित हुई।^{५०} ये पाँच ध्यानी बुद्ध थे वैरोचन, रत्नसम्भव, अमिताभ, अमोघसिद्धि और अक्षोभ्य। तान्त्रिक पद्धति के अनुसार इनकी पाँच भार्याओं या शक्तियों की भी कल्पना की गई- मोहरति, इर्ष्यारति, रागरति, वज्ररति, द्वेषरति। ये पंच भार्याएँ या रतियाँ पंच कुलों को उत्पन्न करती थीं मोह, ईर्ष्या, राग, वज्र और द्वेष। न्यास-विन्यास के अनुरूप इनके रंग, चिह्न, वर्ण, अक्षर, भूत, और शक्तियों के भी चिह्न परिकल्पित किये गये।^{५१} इसके पूर्व भी त्रिकाया के अनुसार वैरोचन, ध्यानी-बोधिसत्व और शाक्य-मुनि का रूप विकसित हो चुका था और उनके समवेत स्वरूप तथागत या अमिताभ का रूप परम-रूप था और वे अपने परम-रूप में सुखावती नामक लोक में पश्चिम दिशा में निवास करते थे।^{५२} इन समस्त ध्यानी बुद्धों की जो मूर्तियाँ मिलती हैं उनमें विशेष समाधि और मुद्रा भी रहती है। कालान्तर में इनकी युगनद्ध मूर्तियाँ भी बनने लगीं जिनमें वे अपनी शक्तियों के साथ सम्मोग करते हुए प्रदर्शित किये गये।^{५३} इनके कुल के देवता जो इनसे उद्भूत होते हैं उनके किरिटर पर अपने कुल-पिता ध्यानी-बुद्ध की छोटी सी मूर्ति बनी रहती है।^{५४} इस प्रकार समस्त वज्रयानी देवशृंखला इन्हीं ध्यानी बुद्धों से उद्भूत हुई है।

डा० भट्टाचार्य ने इस मन्त्रयान को वज्रयान की एक प्रशाखा माना है और वज्रयान को सहजयान आदि से अलग माना है जो नितान्त भ्रमात्मक है।^{५५} जैसा हम देख चुके हैं कि समस्त बौद्ध तान्त्रिक पद्धतियों को मन्त्रयान के समवेत नाम से पुकारा जाता रहा है और उसे पारमितानय से अलग माना

बौद्ध धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास

गया।^{५६} सहज-साधना और कालचक्र पद्धति के विकसित होने के बाद भी मन्त्रयान संज्ञा का तिरस्कार नहीं हुआ और अद्वयवज्र तथा वज्र की कल्पना सिद्ध लोग भी मन्त्रयान नाम को स्वीकृत करते थे।^{५७} किन्तु और वज्रयान कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि मन्त्रयान का यद्यपि तिरस्कार का नामकरण तो नहीं होता पर वज्र की एक सर्वव्यापी कल्पना बौद्ध तन्त्रों में विकसित होने लगती है और वह देव-कल्पना, बोधिचित्त-साधना, समाधि सभी पर आच्छादित हो जाती है। पहले प्रज्ञापारमिताओं में वज्रोपम समाधि^{५८} वज्री^{५९} आदि का उल्लेख है और उसके बाद तो स्वतः शून्य को वज्र की संज्ञा मिल जाती है। फिर वज्रसत्व, देवता का वज्र-स्वभाव, शून्यज्ञान को वज्रज्ञान, उपाय को वज्र, योग को वज्रयोग, मन्त्रों को वज्र-वर्ण, और शक्तियों को वज्रवाराही, वज्ररूपिणी, वज्रमोहिनी कहा जाने लगता है और उनकी उपासना में तिल, यव, आसन, ध्वज, पात्र, अक्षत, अंजलि, पंचामृत सभी वज्र-सिक्त होने चाहिये।^{६०} कालान्तर में यह वज्र-कल्पना इतनी प्रमुख हो गई कि उसने मन्त्र, देवता, साधना सभी पर अपनी छाप डाल दी और इसका नया वज्र-समन्वित नाम वज्रयान पड़ गया। वज्रयान मन्त्रयान का उत्तराधिकारी कोई नवीन तांत्रिक सम्प्रदाय नहीं था। केवल वज्र की नवीन कल्पना के आधार पर मन्त्रयान का नया नामकरण था और उसमें उसने कई नवीन तत्व जोड़ दिये थे जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध वज्र से था।

किन्तु इस वज्र का प्रयोग सिद्ध लोग शून्य के अर्थ में करते थे। दृढ़ता, अच्छेद्यता, अभेद्यता आदि वज्र के लक्षण शून्यता में हैं अतः वही वज्र है^{६१} इसी शून्यता या नैरात्म्य दर्शन को वज्रयानियों ने वज्रयान की संज्ञा दी? और उसी को प्राप्त कराने वाले मार्ग को वज्रयान कहा। किन्तु यह वज्रयान महायान या मन्त्रयान से अलग नहीं था केवल अनुत्तर सम्यक्सम्बोधि को प्राप्त करने का वज्र-प्रधान मार्ग था।^{६२}

वज्रयान की इस केन्द्रीय कल्पना वज्र के शून्य स्वभाव को समझ लेने के उपरान्त अब यह प्रश्न उठता है कि वज्र की यह कल्पना आई कैसे? वज्र इन्द्र का आयुध है और अश्रम तथा मणि के अर्थ में भी प्रयोग होता है किन्तु हिन्दू देवता का अस्त्र बौद्धों की कल्पना में इतना प्रधान कैसे हो गया? और क्या इसका सम्बन्ध वज्र की परम्परागत वैदिक कल्पना से भी है?

अथर्ववेद में वज्र के स्वामी इन्द्र का अर्थ, इन् + द्रः, शत्रुओं का नाशक

है और उससे प्रार्थना की गई है कि 'इन्द्रः वज्रेण शीर्षाणि वृश्चतु ।' अर्थात् वह वज्र से शत्रुओं का शिरच्छेद करे ।^{६३} वह शची-पति या शक्ति का पति है ।^{६४} वज्र का दूसरा अर्थ मणि भी है और मणियों को अथर्ववेद में सुख, समृद्धि, रक्षा आदि का साधन बताया है ।^{६५} और अमीवर्त नामक मणि का उल्लेख मिलता है जिसे धारण करने से इन्द्र दिग्विजयी हुआ था ।^{६६} वज्र को अश्म भी कहते हैं और अथर्ववेद में अश्मतनु की कामना की गई है ।^{६७}

वज्रयान में वज्र के इन सभी धर्मों का उल्लेख मिलता है । बोधिचर्या-वतार में बोधिसत्व को वज्री^{६८} या वज्रधारण करने वाला बताया गया है जिसके भय से यमदूतादिक पराजित हो कर भागते हैं । तिब्बती बौद्ध-धर्म में गुरु के पास वज्र (दोर + जे) का अस्तित्व बताया गया है जिससे भूत प्रेत पिशाचादि डर कर भागते हैं ।^{६९} दूसरी ओर बौद्ध साधनाओं में वज्र का वैभवदाता मणि के रूप में भी उल्लेख मिलता है ।^{७०} इनसे स्पष्ट है कि बौद्धों का वज्र मूल रूप में इन्द्र का ही वज्र है । बाद में उसे शून्यता का दार्शनिक परिधान अवश्य पहना दिया गया है पर कहीं-कहीं ऐसे उल्लेख हैं कि उसकी इन्द्र के वज्र से एकात्मकता स्पष्ट हो जाती है । एक स्थान पर वज्र को स्पष्ट त्रिदत्त बताया गया है और धर्म बुद्ध और संघ को उसकी तीन अस्थियाँ बताया गया है ।^{७१} इससे इन्द्र के वज्र में और इनके वज्र के मूल रूप में किसी सन्देह का स्थान नहीं रह जाता ।

इन्द्र का इतिहास देखने पर ज्ञात होता है कि पौराणिक काल में इन्द्र की ब्राह्मणों द्वारा बहुत उपेक्षा हुई है और नये अवतार पुरुषों के आगे उनका महत्व बिल्कुल लुप्त प्राय हो जाता है । उसके बाद सहसा प्रज्ञापारमिताओं में इन्द्र के नये रूप के दर्शन होते हैं ।^{७२} संगीतियों में इन्द्र भगवान बुद्ध के महायानी उपदेशों में श्रोता रूप में सम्मिलित होते हैं ।^{७३} ज्ञात यह होता है कि ब्राह्मणों द्वारा उनकी उपेक्षा देख कर बौद्धों ने शक्र को अपनी मण्डली में सम्मिलित कर लिया है और कालान्तर में सम्भवतः गुरुदक्षिणा स्वरूप उन्होंने अपना अस्त्र बोधिसत्वों को सौंप दिया और वे उससे इतने अभिभूत हुए कि उसे शून्यता का ही प्रतिरूप मान बैठे । एक वैदिक देवता को शिष्य बनाने की भावना, अपने विरोधियों से रक्षा के लिये अमोघ अस्त्र की प्राप्ति, मणि रूप में वैभव और सिद्धियों की उपलब्धि, अश्म-रूप में अमर काया की प्राप्ति, इन सबों ने वज्र की कल्पना को इतना सर्वाच्छादनकारी बना दिया, कि पाँच ध्यानी बुद्धों के अधिष्ठाता परम देवत् के रूप में वज्रयानी सिद्धों और चिन्तकों ने वज्रसत्व नामक एक छुटे बुद्ध

बौद्ध धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास

की कल्पना की जो प्रज्ञापारमिता रूपी शक्ति के पति हैं, जिनका अस्त्र अमोघवज्र है और जो युगनद्ध रूप में सदैव अपनी शक्ति से समन्वित रहते हैं।

तिब्बती अनुश्रुतियों में यह कहा गया है कि वज्रयान की यह तान्त्रिक परम्परा असंग के ही समय में प्रारम्भ हो गई थी किन्तु असंग से ले कर आचार्य धर्मकीर्ति (लगभग ६ वीं या ७ वीं शती) तक यह गुप्त रूप से वज्रयान की गुरु परम्परा से चलती रही। प्रथम बार इन पद्धतियों को रूपरेखा नियमित रूप देकर प्रचारित करने का श्रेय सरहपा को दिया जाता है। इसके उपरान्त सातवीं शती से दशवीं शती तक इतने आचार्य हुए और उन्होंने इतनी प्रकार की चिन्ताएँ और पद्धतियों का प्रचार किया, इस बीच में वज्रयान का सम्पर्क भोट, चीन, जापान, गान्धार और इतने सुदूर देशों से हुआ, इतनी संस्कृतियों से हुआ, इतने नये देवी देवता शैवों, शाक्तों, वैष्णवों, बोनपा आदि से ग्रहण किये गये, इतने मन्त्र बने, बुद्ध के कुलों का इतना विकास हुआ कि वज्रयान का एक शृंखलाबद्ध चित्र प्रस्तुत कर सकना असंभव है। इतना स्पष्ट है कि चिन्तना, साधना, मन्त्र, देवता, तन्त्र, योग, आचार, भाषा और जीवनदर्शन इन सभी दिशाओं में बौद्ध धर्म इतना सर्वग्राही कभी नहीं रहा जितना सिद्ध-काल में। एक ओर समस्त सांसारिक बन्धनों और भवजाल से मुक्त होकर केवल अनुत्तर सम्यक् सम्बोधि की साधना ही को श्रेयस्कर बताया गया है^{१४} तो दूसरी ओर शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण^{१५} आदि षट्कर्मों, ६ अभिचारों का भी विस्तृत विधान है। एक ओर हठयोग और उनके चार चक्रों का विधान है तो दूसरी ओर केवल सहज मन की साधना है। एक ओर पारमितादर्शन भी मिलता है तो दूसरी ओर समस्त आचारों को त्याग कर सर्वथा उच्छृंखल असामाजिक अनैतिक आचारों का भी विधान मिलता है।^{१६} इसका कारण यह है कि बहुत सी प्रवृत्तियाँ महायान की चली आ रही थीं जिन्हें वज्रयानी आचार्यों ने नया रूप दे दिया था।^{१७} बहुत सी नई पद्धतियाँ उन्होंने प्रचलित की थीं और वे सबकी सब स्वीकृत होती चली गईं। अन्त में इतनी विभिन्नताओं में एकसूत्रता स्थापित करने के लिये यह तरीका अपनाया गया कि वज्रयान के अन्तर्गत कई आम्नाय मान लिये गये^{१८} और साधक को स्वतंत्रता दी गई कि वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन आम्नायों की (जिन्हें बाद में यान कहा गया) साधना करे। इसके अतिरिक्त साधकों के

मानसिक स्तर के अनुरूप इन पद्धतियों का विधान किया गया और पहले क्रिया, फिर चर्चा, फिर योग, फिर अनुत्तर की साधना का विधान किया गया। कहीं-कहीं ये सभी पद्धतियाँ एक बड़ी साधना-प्रणाली की विभिन्न अवस्थाओं में ग्रहणीय बताई गईं। लगभग प्रत्येक आचार्य की प्रवृत्ति यह मालूम होती है कि वह दूसरी पद्धतियों का तिरस्कार नहीं करता है, किन्तु उसकी अपनी एक विशेष प्रिय पद्धति होती है जिसे वह दूसरों से श्रेष्ठ बताता है और यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि यह बड़ा गुह्य भेद है। अन्य पद्धतियों को तो साधारण लोग भी जान सकते हैं किन्तु यह केवल कुछ ही प्रज्ञावानों के लिये है। फिर अपनी अपनी पद्धतियों के अनुसार वे वज्रयान की व्याख्या करते हैं।^{१७} किन्तु इस विषय में लगभग सब एकमत हैं कि वज्रयान ही भवसागर से पार उतारने में समर्थ है।^{१८}

इसके पहले कि इन विभिन्न पद्धतियों के कारण वज्रयान की विभिन्न शाखाओं पर हम विचार करें, हमें यह देखना चाहिये कि वज्रयान ने परम्परागत तत्वों की क्या नई व्याख्या की या उसमें कौन से नये तत्व जोड़े।

सबसे पहले वज्रयानी आचार्यों ने शून्य को वज्र में बदल शून्य नहीं वज्र, दिया। माध्यमिकों ने जगत की शून्यता-स्वभाव का बताया निवृत्ति नहीं था। इन्होंने शून्य को नकारात्मक और रहस्यात्मक न रख कर उसकी वज्रपरक व्याख्या की, वज्र जो दृढ़ है, अच्छेद्य है, अभेद्य है, सुखदायक है।^{१९} अतः उसकी साधना केवल नका-

रात्मक साधना न रह कर सक्रिय, भोगमयी, सब प्रवृत्तियों को सन्तुष्ट कर चलने वाली साधना हो गई। इस प्रकार शून्य को वज्र में बदल कर इन्होंने अपने धर्म को केवल त्याग और संयम-परक न बना कर भोग और सुख से समन्वित कर दिया, निवृत्तिमूलक धर्म न रहकर वज्रयान में बौद्ध धर्म प्रवृत्तिमूलक बन गया।^{२०}

यह वज्र चूँकि शून्यता का प्रतीक है और शून्यता जगत का स्वभाव होने के नाते तथागत का भी स्वभाव है अतः तथागत भी वज्रसत्व हैं। वज्रसत्व की व्याख्या अवधूतीपा ने इस प्रकार की है कि 'वज्र के अर्थ शून्यता हैं और सत्व विज्ञप्ति-मात्रता का प्रतीक है दोनों का तादात्म्य सिद्ध होने से वज्रसत्व कहा जाता है।'^{२३}

चूँकि यह वज्रसत्व शून्यता स्वभाव का है और शून्यता ही चरम धर्म है जिसकी प्रतीक धर्मकाया थी अतः वज्रयान में धर्मकाया के स्थान पर वज्रकाया की

बौद्ध धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास

प्रतिष्ठा हुई, ^{१७} और कालान्तर में उसी को सहजकाया कहने लगे। तीन कायाओं से पृथक चौथी काया के रूप में उसकी गणना होने लगी। ^{१४}

इस वज्रसत्त्व तथा इसी के अनुरूप समस्त संसार की वस्तुओं का मूल स्वभाव नैरात्म्य का है। इसी नैरात्म्य को पहचान लेना ही वज्रज्ञान बताया गया है। ^{१५} इसी वज्रज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधक बोधिचित्त को उद्भूत करता है। इसी बोधिचित्त के द्वारा वह वज्रयान प्राप्त कर सकता है क्योंकि बोधिचित्त ही वज्रचित्त है या बोधिवज्र है। ^{१६}

वज्रसत्त्व तथा उसको प्राप्त कराने वाले बोधिचित्त का स्वभाव पूर्ववर्ती ग्रंथों में बहुत गहन चित्रित किया गया है। वह नैरात्म्य स्वरूप है, निस्वभाव है, निरालम्ब है, प्रज्ञापारमिता रूप है, प्रकृति-शुद्ध है, अद्रव्य है, अग्राह्य है। ^{१७} किन्तु वज्रयान में विशेषता यह थी कि इसे दो तत्वों के अद्रव्य के रूप में प्रधानता दी गई। पहले भी महायान में शून्य तथा करुणा दोनों ही को बोधिचित्त में परिकल्पित किया गया था, इसमें शून्य तथा करुणा को प्रज्ञा तथा उपाय के रूप में परिकल्पित किया गया। ^{१८} अतः वज्रज्ञान वास्तव में प्रज्ञोपाय का ज्ञान है और उसी के जल रूपी ज्ञान से चित्त रूपी रत्न पर जमा हुआ अनादिवासना का पंक धुल जाता है। ^{१९}

अपने को देवता ही समझ लेना वज्रयानी साधना में अहंकार नाम से अभिहित होता है। ^{२०} इस साधना में साधक लगातार इन मन्त्रों का पाठ करता है, 'ओं सर्वतथागतात्मकोऽहम्' या 'ओं शून्यताज्ञान अहंकार वज्रस्वभावत्मकोऽहम्' ^{२१} और उसके बाद तथागत की ही भाँति आचरण करता है। जब साधक स्वतः तथागत है तो उसकी मुद्रा भी प्रज्ञापारमिता होगी। ^{२२}

इस अहंकार पद्धति में मन्त्र जप के उपरान्त साधक में आवेश जागृत होता है जो स्वतः देवता के स्वभाव के अनुरूप होता है। उस आवेश में देवता उसके माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करने लगता है और यह उसी के अनुरूप कार्य करता है। काम श्लोष आदि अनेक आवेश 'अहंकार' पद्धति में प्राप्त हैं जिनके उपशमन के बाद साधक मण्डल में प्रवेश करता है। ^{२३} इसी प्रकार कामावेश में उसका उपशमन मुद्राओं द्वारा होता है किन्तु ये मुद्राएँ प्रज्ञा की अभिव्यक्तियाँ होती हैं इसीलिए इस मुद्रायोग को 'गुह्यप्रज्ञांगमंग' भी कहा गया है। ^{२४}

इस प्रकार हम देखते हैं कि वज्रयान वास्तव में तान्त्रिक पद्धति का बौद्ध संस्करण मात्र है। तन्त्रों के जिन दस सामान्य तत्वों की ओर हम संकेत कर आये हैं वे सभी वज्रयान में विकसित हो चुके थे। देह, गुरु का महत्व, मन्त्र, तन्त्र, हठयोग, जाति पांति का तिरस्कार, भैरुन तथा गुह्य साधनाएँ, सिद्धियाँ, मण्डल चक्रादि, अनुष्ठान, सभी ज्यों के त्यों वज्रयान में मिलते हैं। लिंगांग-सामरस्य, मुक्ति की अपेक्षा सिद्धियों के प्रति आग्रह, रसरसायन आदि की कल्पना, अमर शरीर तथा गुह्याचार आदि सभी प्रवृत्तियाँ वज्रयानियों में पाई जाती हैं, किन्तु उन सबों को स्वीकृत कर बौद्ध अर्थ दे दिये गये हैं। इसमें अपनी साम्प्रदायिक विशिष्टता भी है जिस पर हम उनके सिद्धान्तों का विवेचन करते समय विचार करेंगे।

इन सभी बाह्य अनुष्ठानों से बिल्कुल ऊपर उठ कर अनुत्तर सम्यक् सम्बोधि की भी साधना थी जिसका विकास सहजपद्धति में हुआ। वास्तव में ये साधनाएँ एक दूसरे की विरोधिनी न होकर पूरक मान ली गई थीं। साधकों की चित्तवृत्तियों के अनुरूप, उसके मानसिक विकास के अनुरूप साधनाओं का विधान था। कभी कभी एक साधना पद्धति तथा दूसरी साधना पद्धति एक ही प्रणाली में विभिन्न अवस्थाओं में विहित बताई जाती थीं।^{९६} कभी कभी कुछ आचार्य किसी एक विशेष देवता की प्रतिष्ठापना करते थे, फिर उसकी पूजा, उसके न्यास-विन्यास उसकी साधना, मन्त्र, यन्त्र आदि के पूरे साधन का विवरण देते थे,^{९७} और किसी एक साधना को इतना महत्वपूर्ण बताते थे कि उसके आगे अन्य सभी साधनाएँ हेय हैं। इससे यह अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिये कि उनका सम्प्रदाय या मत वज्रयान से अलग कोई स्वतन्त्र सम्प्रदाय है, जैसा बहुत से लोगों ने सहजयान या कालचक्रयान को मानने की भूल की है।^{९८} वास्तव में वे सभी साधनापद्धतियों को स्वीकार करते हैं किन्तु अपनी विशेष पद्धति को सर्वोपरि रखते हैं और उसके महत्व को प्रचारित करने के लिये अन्य सभी साधनाओं को 'उसकी तुलना में' हेय समझते हैं।

साधक की अवस्थानुसार साधना-पद्धति अपनाने की दृष्टि से चार पद्धतियाँ प्रमुख थीं और उन्हीं के नाम पर वज्रयान के चार तन्त्र हो गये। क्रियातन्त्र, चर्यातन्त्र, योगतन्त्र, अनुत्तर तन्त्र।^{९९} ये चारों विभाग वैष्णव-तन्त्रों, संहिताओं तथा अधिकांश तन्त्रों में निर्दिष्ट ज्ञान योग क्रिया तथा चर्यापाद के ही आधार पर बने थे।^{१००} इन्हीं तन्त्रों में कुछ की और भी प्रशाखाएँ हो गई थीं। चूँकि

बौद्ध धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास

सहज और कालचक्र दोनों पद्धतियों का विकास इसी प्रकार हुआ था और सिद्धों में दोनों का प्रतिपादन मिलता है अतः वज्रयान की शाखाओं के वर्गीकरण पर भी एक विहंगम दृष्टि डाल लेनी आवश्यक है ।

आचार्य अवधूतीपा ने 'कुट्टिनिर्घातक्रम' में दो प्रकार के साधक बताए हैं शैक्ष तथा अशैक्ष (इह द्विधा सत्त्वा शैक्षाः अशैक्षाश्च) । इनमें आदि-कर्म, प्रारम्भिक क्रियाएँ तथा चर्याएँ केवल शैक्षों के लिये आवश्यक है क्योंकि वे अविकसित मन वाले होते हैं । अशैक्षों के लिये आदि-कर्म की विशेष आवश्यकता नहीं ।^{१०१} शैक्षों को आधार के सभी नियम पालन करने पड़ते हैं किन्तु अशैक्षों को आचारगत स्वतन्त्रता प्राप्त है ।^{१०२} उसी में साधक की तीन अवस्थाएँ बताई गई हैं हेत्वस्था, फलावस्था, सत्वार्थ-क्रियावस्था । हेतु के भी आशय, प्रयोग तथा वसित वर्ग हैं । वसित भी पंच-विध है-क्लेश, उपपत्ति, कर्म, उपाय, सत्व-परिपाक । इन विभिन्न अवस्थाओं में साधना की विभिन्न पद्धतियाँ बताई गई हैं ।^{१०३} और इसी कारण वज्रयान के विभेदों को शाखाएँ न कह कर पद्धतियाँ कहना अधिक उचित होगा ।

काज़ी दावासमटुप ने ^{१०४} वज्रयान के छः प्रमुख भेद बताये हैं—

१. क्रियातन्त्रयान
२. चर्यातन्त्रयान अथवा उपाय तन्त्रयान
३. योगतन्त्रयान

इनमें से योगतन्त्रयान के भी तीन भेद मिलते हैं ४. महायोगतन्त्रयान, ५. अनुत्तर योगतन्त्रयान तथा ६. अतियोग तन्त्रयान । इन छः भेदों का विस्तृत विवरण उन्होंने नहीं दिया है किन्तु उनके तिब्बती नामों से ज्ञात होता है कि तिब्बती बौद्ध तन्त्रों में ये छः साधना पद्धतियाँ रही होंगी । इनमें से महायोग तन्त्रयान में सम्भवतः पुरुषयान से बोधिचित्त की भावना थी, अनुत्तर में स्त्री भाव से और अतियोगतन्त्र में अद्वैत भाव से । किन्तु इसका भी कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है ।^{१०५} भारतीय बौद्ध तन्त्रों में केवल चार शाखाएँ परिगणित हैं क्रियातन्त्र, चर्यातन्त्र, योगतन्त्र तथा अनुत्तर तन्त्र ।^{१०६} इनमें से प्रथम दो तन्त्र प्रारम्भिक अवस्था के शैक्षों के लिये हैं और तृतीय तथा चतुर्थ अशैक्षों के लिये हैं ।^{१०७} क्रियातन्त्र सम्भवतः उसी आदिकर्म-प्रधान पद्धति का

नाम है जिसमें प्रज्ञापारमिताओं के नियम पालन का विधान है। दान, शील, दया, धीर्य, ध्यान, तथा प्रज्ञा का सेवन होना चाहिये।^{१०८}

शरीर-दान के उपरान्त चर्या होती है।^{१०९} यह चर्या उपाय-प्रधान है अर्थात् बोधिचित्त में उपाय तथा करुणा जाग्रत करने के लिये है।^{११०} उसके फलमें ही उसकी दीक्षा या पोषण का अनुष्ठान होता है।^{१११} इस क्रिया तथा चर्या पर्याप्त के माध्यम से भी साधक को सहज सिद्धि प्राप्त होती है। इस क्रिया तथा चर्या का भी उद्देश्य प्रज्ञा तथा उपाय का अद्भय ही है।^{११२} विधि, देवी, देवता, उनकी साधनाएँ, दीक्षा, अभिषेक, मण्डल, आवेश आदि क्रियाओं और चर्याओं के ही अन्तर्गत आते हैं।

योग तथा अनुत्तर उच्च स्तर की अधिक सूक्ष्म साधनाएँ थीं, जिनका प्रभावकार केवल ऐसे साधकों को था जो स्वभावतः निस्वभाव हो गये हों या जिन्होंने मग्न समाधि या वज्रात्मक स्वभाव को पूर्णतया आत्मसात् कर लिया हो। ऐसे योगियों के लिये किसी भी आचार का कोई बन्धन नहीं था और यह विश्वास किया जाता था कि जिन आचारों के कारण लोक नरक-बन्धन पड़ जाता है योगी उन्हें से सिद्धि प्राप्त करता है।^{११३}

अनुत्तर में आस्था रखने वाले सिद्ध अन्य पद्धतियों का तिरस्कार नहीं करते थे। जिनमें सहज स्वभाव की साधना को लेने वाले के लिये मन्त्र तन्त्र आदि का कोई भाव्य नहीं मानते थे। इसलिये वे सहज पर अधिक बल देते थे। वैसे वे सभी वज्रयानी थे और अनुत्तर सिद्धि के अतिरिक्त भी इन्हें अगणित भौतिक और गूढ सिद्धियाँ प्राप्त थीं जिनका प्रयोग वे 'जगदुद्धारणाशय' से किया करते थे।

इस प्रकार सहजयान को वज्रयान से अलग कोई शाखा मानना अथवा सहजयान को वज्रयान के अन्तर्गत कोई स्वतन्त्र शाखा मानना अथवा सहज साधना में देवता मंत्र, तन्त्र, योग मैथुन तथा अतिचारों का अभाव मानना युक्तिसंगत नहीं है। हाँ यह अवश्य है कि सरह आदि कुछ आचार्य ऐसे हुए जिन्होंने उच्चकोटि के अनुत्तर साधकों के लिये तन्त्र मन्त्र का निर्बंध कर केवल सहज में भावाभाव से तान्त्रिक होकर महासुख की साधना का विधान किया है। किन्तु वे भी तान्त्रिक थे, वज्राचार्य थे, उनकी चिन्तना को सहजयान क्यों पुकारा गया इसका प्रमुख

बौद्ध धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास

कारण अभी तक यह बताया जाता रहा है कि उन्होंने गुह्याचारों से भिन्न केवल सहज स्वाभाविक जीवन का उपदेश किया। जहाँ तक आचार का प्रश्न है महायान स्वतः हीनयान से अधिक उदार हैं और उतने कठोर 'विनय' और संयम को नहीं स्वीकार करता इसलिये महायान के विभिन्न नामों में से चीनी बौद्ध धर्म में एक नाम सहजयान और हीनयान के लिये कठिनयान भी प्रचलित है।^{११४} इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि इनका भुक्ताव सहज स्वाभाविक की ओर भी था इसीलिये इन्होंने वज्रकाया को सहजकाया अथवा स्वभावकाया कहा, किन्तु चूँकि प्रज्ञोपाय साधना ही इनकी प्रमुख साधना थी अतः इन्होंने सहज का अर्थ लिया था 'जो सहगमन से उद्भूत हो' और चूँकि बिना उपाय के प्रज्ञा और बिना प्रज्ञा के उपाय बन्धन का कारण है अतः जो इन दोनों के अद्वय अनुत्तर को सिद्ध कर सामरस्य का अनुभव करता है और महासुख की प्राप्ति करता है वही सहज-सिद्ध है।^{११५} इस विषय में एक विचारणीय प्रश्न यह है कि इस मत को सहजयान नाम कब और कैसे दिया गया। जहाँ तक मैंने सामग्री देखी है वज्रयान, मन्त्रयान, तन्त्रयान आदि नामों का तो बौद्ध तान्त्रिक ग्रन्थों में प्रचुर प्रयोग है, किन्तु एक विशेष सम्प्रदाय के रूप में सहजयान नाम का प्रयोग नहीं मिलता। यदि हम चीनी साध्य पर विचार करें तो वहाँ भी यह नाम महायान के लिये हीनयान की साधनापद्धति की कठोरता का विरोध दिखाने के लिये प्रयुक्त हुआ है, वज्रयान के बाद किसी नवविकसित साधनापद्धति के लिये नहीं। प्रतीत यह होता है कि विद्वानों ने सिद्धों के साहित्य में सहज का इतना अधिक प्रयोग देख कर उसे अन्य 'यानों' की तुलना में 'सहजयान' कहना उचित समझा।

स्वतः सिद्धों के दोहों या चर्यापदों में इस नाम का कहीं प्रयोग नहीं है। इन्द्रभूति, अर्नगवज्र, अद्वयवज्र, आर्यदेव आदि के अब तक प्रकाशित ग्रन्थों में भी सहजयान का ऐसा प्रयोग मुझे नहीं मिला। गुह्य-समाज-तन्त्र में भी इस नाम का प्रयोग नहीं है। अद्वयवज्र ने सरहपा के दोहों की टीका करते हुए उसे 'सहजाग्नाय पंजिका' नाम दिया है। यह नामकरण महत्वपूर्ण है। वास्तव में सहज एक आम्नाय या पद्धति थी जिसमें हठयोग द्वारा प्रज्ञा और उपाय का सामरस्य स्थापित कर अनुत्तर ज्ञान, महासुख अनुभूति और सहज स्वभाव सिद्ध कर, महामुद्रा के साथ रहते हुए समस्त बाह्य अनुष्ठानों से मुक्त होने पर विशेष बल दिया जाता था। यद्यपि अनुष्ठानों का सर्वथा बहिष्कार नहीं था क्योंकि स्वतः महामुद्रा की साधना में हठयोग के बहुत ही सूक्ष्म और गहन मार्ग का विधान

था जिसमें कभी कभी प्रारम्भ में मण्डल-चक्र, अभिषेक आदि बाह्य अनुष्ठानों को सम्पन्न करना पड़ता था। साधना के उपरान्त समस्त अनुष्ठानों से मुक्त होने का विधान था।

चर्यापदों की टीका में एक स्थान पर सहजयान शब्द का प्रयोग हुआ है, किन्तु वह केवल एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति मात्र है। १४ वीं चर्या की टीका में डोग्डी रूपिणी भगवती नैरात्मा को सहजयान (सहजनौका) की खेवनहार कहा गया है।^{१९६} सहज-नौका कोई विशेष सम्प्रदाय न होकर ललना और रसना रूपी गंगा और यमुना श्रयवा प्रज्ञा और उपाय का वर्जन कर प्रज्ञोपाय के अद्वय-रूपी श्रवधूती के मध्य में स्थित शुक्र नाड़ी ही है। उसी नाड़ी के माध्यम से बोधचित्त उष्णीष कमल तक पहुँचता है अतः उसे नौका कहा गया है, जो सहजरूपिणी है। नौका रूप में कभी करुणा, कभी श्रवधूती का वर्णन चर्यापदों में मिलता है किन्तु इसी के आधार पर सहजयान नाम पूरे सम्प्रदाय को देना उचित नहीं कहा जा सकता। इस 'सहज' को आम्नाय या पद्धति ही मानना उचित है।

इस सहज की कल्पना का मूल उद्गम कहाँ है इसके विषय में डा० प्रबोधचन्द्र बागची का एक विचारणीय मत है। वे इस सहज को प्राचीन चीनी धर्म का प्रभाव मानते हैं और सहज को उनके मूल सिद्धान्त सहज और 'ताओ' का संस्कृत अनुवाद मात्र। वास्तव में ताओ धर्म चीनी चीनी ताओमत जनता का बहुत पुराना धर्म है जिसका मूल प्रवर्तक लाओत्से लगभग ६०० ई० पू० में हुआ था और उसका प्रमुख प्रचारक च्वांगत्से लगभग ४०० ई० पू०।^{१९७} इसमें कोई सन्देह नहीं है कि लाओत्से की ताओ भावना अपनी रूपरेखाओं में उपनिषदीय ब्रह्म से इतनी मिलती जुलती है कि बहुत दिनों तक विद्वान उस पर भारतीय प्रभाव का सूत्र ढूँढ़ने का प्रयास करते रहे।^{१९८} किन्तु वह इतना पुराना धर्म है कि भारतीय चीन सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित होने के पहले ही उसका समुचित विकास हो चुका था।^{१९९}

ताओमत का जीवनदर्शन वास्तव में सहज जीवन-दर्शन था। वह मनुष्य के सहज शुद्ध स्वभाव में विश्वास करते थे और उनका सहज कभी कभी तो निष्क्रिय कर्मशून्यता के स्तर तक चला जाता था। उनका मूल तत्व ताओ पूर्ण भी है और शून्य भी। वह संज्ञाहीन है, स्वभावहीन है, रूपहीन है, नैरात्म्य-रूप

बौद्ध धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास

है। यहाँ तक कि वह ज्ञान से भी परे है और तर्क उसे नहीं पा सकता। वह ताओ शून्य है, सर्वसत्वमय है और उसे समस्त संसार की जननी कहा जा सकता है, वह नारी रूप है। उसकी सृष्टि में त्रितत्वों का महत्व है। कहा जाता है कि प्रारम्भ में केवल शून्य था, फिर उससे एक की सृष्टि हुई, फिर एक से दो हुए, दो ने तीन का सृजन किया और तीन से समस्त संसार हुआ।^{१२०}

ताओ साधना में निष्क्रियता और उसके माध्यम से अपनी शक्ति का अपव्यय रोक कर अमरता प्राप्ति का विधान है। च्वांगत्से ने एक स्थान पर नौ वर्ष में अमरता प्राप्ति का मार्ग बताया है। च्वांगत्से ने ही एक चीनी स्त्री की कथा लिखी है जो अमर थी और जिसके रूप का कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ था। उससे किसी ने पूछा कि तुम्हें यह अमरत्व का रहस्य कहाँ से मिला तो उसने कहा 'पुस्तकों से। और पुस्तकों ने इसे समवेत ज्ञान से ग्रहण किया और ज्ञान ने खोज से और खोज ने समन्वय बुद्धि से और समन्वय बुद्धि ने अभ्यास से और अभ्यास ने जिज्ञासा से और जिज्ञासा ने ज्ञानोपरि (अनुत्तर) से और ज्ञानोपरि ने महाशून्य से और महाशून्य ने ताओ से और ताओ ने अनन्त से।'

इनकी यह शून्योद्भूत साधना इन्हें विचित्र भौतिक सिद्धियाँ भी देती थीं। सिद्ध पुरुष ठोस तत्वों में से गुजर सकता था, वह अग्नि से बिना जले गुजर सकता था, उड़ सकता था, पवन पर सवार हो सकता था और नाना रूप धारण कर सकता था।

ताओ के इस वर्णन में वास्तव में यह ज्ञात होता है कि तन्त्रों ने इस मत की बहुत समानता थी। इस मत का प्रमुख प्रचारक च्वांगत्से था और बहुत सी प्राचीन चीनी किम्बदन्तियों में ऐसी कथा मिलती है कि चीन में ताओ का उपदेश देने के बाद आचार्य च्वांगत्से भारत की ओर चले गये और शेष जीवन उन्होंने भारत में बिताया।^{१२१} च्वांगत्से का समय लगभग ४०० ई० माना जाता है, अतः संभव है ३०० वर्ष में यह सिद्धान्त विकसित होकर सहज मत के रूप में आया हो।

तान्त्रिक काल में भारत का सम्बन्ध एशियाई देशों से बहुत घनिष्ठ था और सांस्कृतिक दृष्टि से कितने ही देशों को तो एक ही समझा जाता था जिसमें मध्य तथा पूर्वी एशिया के लगभग सभी देश थे। तन्त्रों के प्रभाव में तीन क्रान्ताएँ थीं जिनमें बहुत विदेशी राष्ट्र आते थे।^{१२२} तन्त्रों के पाँच प्रमुख पीठों में से कई ऐसे पथों पर थे जो मध्यदेश को गान्धार, चीन, मंगोलिया, भोट, ब्रह्मा

आदि से सम्बद्ध करते थे।^{१२३} उस समय भारत और इन देशों में इतनी उदारतापूर्वक सांस्कृतिक आदान प्रदान चल रहा था कि भारतीय आचार्य चीन और भोट के देवी देवताओं की पूजा भारत में प्रचलित करते थे।^{१२४} उग्रतारा, तारा, एकजटा, महानील सरस्वती ये बौद्धों तथा हिन्दू तान्त्रिकों द्वारा पूजित देवियाँ तिब्बती या चीनी हैं।^{१२५}

इन परिस्थितियों में सम्भव है कि सहज सिद्धान्त ताओ से ग्रहण किया गया हो किन्तु केवल किम्बदन्तियों के आधार पर इसे मान लेना कठिन है। डा० बागची के अनुसार कामरूप के राजा भास्करवर्मन ने लगभग ६०० ई० में कुछ चीनी दूतों से प्रार्थना की थी कि वे वापस जाकर ताओ की धर्म पुस्तक का एक संस्कृत अनुवाद तथा लाओत्से का चित्र अवश्य भेजें। कहा जाता है कि लाओ का संस्कृत अनुवाद कराया गया जिसमें ह्वेनसांग से सहायता भी मांगी गई। ह्वेनसांग ने उसका अनुवाद मार्ग किया था। और अन्य विद्वान बोधि कर रहे थे। कुछ दिनों तक उस पर विवाद भी चला और अन्त में ह्वेनसांग का अनुवाद स्वीकृत हुआ। वह अनुवाद भारत आया या नहीं इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है किन्तु इसका उल्लेख मिलता है कि भारतीय विद्वान कुमारजीव ने ताओ की पुस्तक पर टीका लिखी थी। डा० बागची का अनुमान है कि बाद में ताओ का अनुवाद 'सहज' प्रचलित हुआ क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में सहज का प्रयोग अन्य किसी सम्प्रदाय में नहीं मिलता है।^{१२६}

उपर्युक्त मत बहुत रोचक और आकर्षक होते हुए भी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाण-सम्मत नहीं है। जहाँ तक लाओत्से के भारत आने की बात है, वह केवल किम्बदन्ती है जो सम्भवतः बाद में ताओ मत और चीनी बुद्धमत के बहुत निकट आने पर गढ़ी गई है। ऐसी उर्वर कल्पना मध्यकाल की अपनी विशेषता रही है। भास्करवर्मन वाला अनुवाद यदि भारत आया भी होगा तो ७०० ई० तक आया होगा। किन्तु सरहपा ने इतने शीघ्र सहजमत का इतना प्रचार कर दिया और उसकी बौद्ध एक व्याख्या भी कर डाली, यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। यदि सरहपा या अन्य किसी आचार्य ने इसका समावेश बौद्ध परम्परा में किया भी होता तो उसका उल्लेख अनुश्रुतियों में अवश्य होता। तारानाथ ने लगभग सभी सिद्धों द्वारा प्रथम प्रवर्तित तन्त्रों का उल्लेख किया है।^{१२७}

एक दूसरा सूत्र मिलता है जिसमें सहज शब्द लगभग इसी अर्थ में

बौद्ध धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा चन्द्रयान का विकास

प्रयुक्त हुआ है और सिद्धों से कई शताब्दियों पूर्व प्रयुक्त हुआ है। वह है विष्णु-पुराण। विष्णु-पुराण का समय फर्कहर ने लगभग ४०० सहज और ई० माना है और उसका निर्माण जिस सामग्री पर हुआ है विष्णु पुराण वह और भी पुरानी है।^{१२८} विष्णुपुराण में कहा गया है—

तता सा सहजासिद्धिस्तासांमनातीवजायते
रसोल्लासादयश्चान्याः सिद्धियो ऽष्टौ भवन्ति याः^{१२९}

और इसी को स्वाभाविक सिद्धि के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है :—

तेषाम् स्वाभाविकी सिद्धिः सुखप्राया ह्ययत्नतः।^{१३०}

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाभाविक मार्ग के अर्थ में हमें विष्णु पुराण में ही सहज सिद्धि का उल्लेख मिलता है। किन्तु केवल इतने ही से यह नहीं प्रमाणित किया जा सकता कि सहज की कल्पना चीन से नहीं आई। यह हो सकता है कि सिद्धों ने इसे विष्णु-पुराण या उसी समय की अन्य किसी भारतीय चिन्तना धारा से लिया हो, किन्तु चीनी जनश्रुतियों की भाँति कुछ भारतीय जन-श्रुतियाँ भी ऐसी मिलती हैं कि ईसा के पूर्व ही कोई चीनी ताओवादी आचार्य भग या भोग भारत आया था और देह की अमरता का उपदेश करता था। कुछ विद्वानों का यह भी अनुमान है कि भोग अगस्त्य का समकालीन था और उसने दक्षिण भारत के शैवागम तथा शाक्तागम सम्प्रदाय के कुछ अनुयायियों को शुद्ध मार्ग की दीक्षा दी थी। उसका निवास तिनेवेली के सिद्धकूट पर्वत पर था। पूर्वी भारत में भी कोई चीनी धर्म बहुत पहले से प्रचलित था क्योंकि इत्सिंग ने लिखा है कि नालन्दा से ४० योजन पूर्व महाराज श्रीगुप्त ने चीनी पुरोहितों के लिये एक चीनी मन्दिर बनवाया था और उसको २४ गाँव दान में दिये थे।^{१३१} यद्यपि केवल इतने प्रमाण ही सहज भावना का चीनी उद्गम सिद्ध कर देने के लिये यथेष्ट नहीं हैं किन्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि विष्णु-पुराण में भी यह 'सहज' कहीं बाहर से आया हो।

ओषधियों द्वारा सिद्धि का उल्लेख पतंजलि में भी मिलता है जिनका समय २०० से ६०० ई० तक कहीं भी अनुमानित किया जा सकता है। विष्णु पुराण में सहज की कल्पना स्वाभाविक जीवन के रूप में है। इस कल्पना को जो

सहज रागात्मक प्रवृत्तिमूलक स्वाभाविक जीवन के रूप में थी, भारतीय चिन्तना पद्धति में सर्वथा भुला नहीं दिया गया था। १२वीं शती में बल्लभदेव के कामरूप के एक शिलालेख में 'सहज' का प्रयोग इसी स्वाभाविक जीवन के अर्थ में प्राप्त होता है, ^{१३२} जिससे ज्ञात होता है कि बौद्धों के अतिरिक्त भी कोई सहज चिन्तना पद्धति बराबर चली आ रही थी जिसका वैष्णव परम्परा से अधिक सम्बन्ध था, जो केवल भाव साधना पर बल देती थी। सन्तों के 'सहज' की समीक्षा करते समय हम इस पर विस्तृत विचार करेंगे। सिद्धों ने उसी सहज में बौद्ध प्रज्ञोपाय के अंश को भी सम्मिलित कर लिया है। किन्तु सिद्ध और रसायन की कल्पना को वे भूले नहीं हैं। उनका 'अमिथ्र रस' और 'समरस' उसी कल्पना का तान्त्रिक रूप है। किस प्रकार उन्होंने इस रसायन और अमरत्व भावना को प्रज्ञोपाय परक रूप दिया था और सहज को प्रज्ञा तथा उपाय के युगनन्द का रूप दिया था, इस पर हम आगे विचार करेंगे। उनकी यह व्याख्या, विष्णुपुराण, तांत्रोवाद तथा रसायन मत या रसेश्वर सिद्धों से कुछ पृथक् थी।

सहजमत के अलावा एक दूसरी वज्रयानी पद्धति थी जिसका परवर्ती सिद्ध साहित्य से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है। वह है कालचक्रयान। उसके विषय में विद्वानों में बहुत भ्रम और मतभेद रहे हैं जिनके विस्तार में जा सकना कालचक्रयान यहाँ सम्भव नहीं है। कालचक्र के विषय में वैडेल ने दो सर्वथा विरोधी मत दिये हैं। एक स्थान पर वह कहता है कि कालचक्रयान का उद्भव १०वीं शती में हुआ, उसने मन्त्रयान की पद्धति ग्रहण की और अपने को वज्रयान कहना प्रारम्भ किया और उसके अनुयायी वज्राचार्य कहलाते थे। दूसरे स्थान पर वह कहता है कि तन्त्रयान का चरम विकास कालचक्रयान में हुआ जिसमें आदिबुद्ध के सिद्धान्त का विकास हुआ जो काली से समागम करता है। वे तथा अन्य बुद्ध रक्त पिपासु भयंकर और क्रूर थे। उनकी पूजा बलिदानों और तन्त्र मन्त्र से होती थी। ^{१३३} महापातोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने काल को समय, काल और विध्वंस का देवता माना है। कालचक्र के अर्थ हैं ध्वंस का चक्र और कालचक्रयान वह यान है जो उससे रक्षा करे। ^{१३४} सर चार्ल्स ईलियट तिब्बती अनुश्रुतियों के अनुसार इसका प्रारम्भ शम्भल नामक देश में बताते हैं जिसकी स्थिति का कुछ पता नहीं चलता। उनका अनुमान है कि शम्भल चीनी तुर्किस्तान के निकट कोई देश है जहाँ के राजा कुलिक कहलाते

बौद्ध धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश तथा वज्रयान का विकास

थे, जहाँ बारह पशुओं के संकेतों से समय चक्र का प्रचार है, अतिशय दीर्घकर ने नये तिब्बती संवत में जिसका उपयोग किया था। कहा जाता है कि उसी शम्भल के राजा सुचन्द्र (दूसरे स्थान पर मञ्जु-श्रीकीर्ति नाम मिलता है) ने प्रथम बार कालचक्र का प्रवर्तन किया। ईलियट इसे वैष्णव धर्म से प्रभावित सम्प्रदाय मानते हैं जो १०वीं शती के मध्य में प्रचलित हुआ था, जिसमें विष्णु के चक्र को कल्पना भी समाविष्ट हो गई थी।^{१३५}

इधर कालचक्रयान के दो तीन ग्रन्थ मिल जाने से कुछ उसका स्वरूप सम्मुख आया है। कुछ तिब्बती ग्रन्थों का सरांश प्रकाशित हुआ है।^{१३६} पद्म कारपो (जिसका समय १६वीं शती था) ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि कालचक्र का उद्भव पहले हो चुका था। पितो नामक सिद्ध नालन्दा में आया और नालन्दा विहार के द्वार पर दश दिग्पालों का चित्र बनाकर उसने कालचक्र का सिद्धान्त लिख दिया।^{१३७} उस समय विहार के अध्यक्ष सिद्ध नारोत्तपा (नरोत्तम या नडपाद, नारोपा) थे। वे अपने ५०० शिष्यों के साथ आये और उन्होंने शास्त्रार्थ किया। अन्त में पितो (?) ने उन्हें निरुत्तर कर दिया तब उन्होंने पितो से दीक्षा ली और उनसे कालचक्र का सन्देश सुना।

सम्भवतः ये नरोत्तपा पूर्वोक्त सिद्ध नारोपा थे जिनका 'सैकोद्देश टीका' नामक ग्रन्थ मिलता है। यह ग्रन्थ 'कालचक्र तन्त्र' के सैक विभाग पर टीका है। मूल कालचक्र-तन्त्र की भी पाराडुलिपि प्राप्त हो गई है। डा० शशिभूषण दास गुप्त ने उसका प्रचुर उल्लेख किया है।^{१३८} इन दोनों सूत्रों से कालचक्रयान का जो रूप हमारे सम्मुख आता है वह इस प्रकार है—

कालचक्रयान वास्तव में योग मार्ग है और उसमें योगसाधना की विशद व्याख्या है। यह साधना शम्भल के राजा सुचन्द्र (जो सीता नदी के तट पर राज्य करते हैं,) की प्रेरणा से भगवान तथागत ने धान्यकटक में प्रगट की थी।^{१३९} इसमें काल की व्याख्या इस प्रकार दी गई है—धर्म, धातु और आकाश के लक्षण वाले परम अक्षर और अच्युत क्षण को काल कहते हैं। वही काल वज्रज्ञान है। वह सर्वाकार है, सर्वेन्द्रिय है, विश्वरूप है, विन्दुरूप है। वही देह-रूप है। वह प्रज्ञा और उपाय से समन्वित है।^{१४०} वही आदिबुद्ध कालचक्र है। आदि शब्द के अर्थ हैं, आदि तथा अन्त से रहित। वह कस्या तथा शून्य रूप है और कालरूपी सम्बृत्ति शक्ति उसकी शून्यता-चक्र है। उसके नाम के

अक्षरों का अर्थ इस प्रकार है। का के अर्थ है 'कारण', ल के अर्थ हैं लय, च के अर्थ हैं चलचिच्च, क्र के अर्थ हैं क्रम-बन्धन।^{१४१}

जहाँ तक साधना का प्रश्न है कालचक्र तत्व में इसकी साधना को केवल देह और उसके चक्रों और नाड़ी जाल में ही सीमित बताया गया है। समय या काल की भी स्थिति देह में ही है और वह प्राण वायु की गति के रूप में है। अधिकांश रोगों का शमन प्राण और अयान के वशीकरण में बताया गया है। डा० शशिभूषण दास गुप्त का मत है कि तन्त्रालोक (११वीं शती) में वर्णित काल और प्राणवायु साधना शब्दशः कालचक्र की योग साधना से मिलती है।^{१४२}

इस प्रकार वैशाली की प्रथम संगीति से लेकर मंत्रयान के विकास, भारतीय धर्म साधना में तन्त्रों का आकस्मिक उदय और प्रभुत्व, महायान में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश और उसका वज्रयान तथा उसकी सहज और कालचक्र पद्धतियों में परिणति एक समुचित पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है, जिसे हम सिद्ध-साहित्य की दार्शनिक चिन्तना का सम्यक् आकलन कर सकते हैं। जैसा हम आगे देखेंगे कि सिद्धों ने वास्तव में जो विचार रखे हैं वे उपरोक्त सभी विचार सरणियों को प्रतिबिम्बित करते हैं और वज्रयान के विकास में तो सिद्धों का भाग सर्वोपरि रहा है। अगले अध्याय में हम चर्यापदों और दोहाकोष में प्राप्त सिद्धों की चिन्तना प्रणाली का विवेचन करेंगे।

तृतीय अध्याय
सिद्धान्त-पत्र

क तत्व-चिन्तन

सिद्धों के समस्त तत्व-दर्शन की मूल पीठिका विज्ञानवाद का वह परमार्थ सिद्धान्त है जिसे अनिर्वचनीय बताया गया है क्योंकि वह अद्रव्य^१ है और उसमें शून्य तथा अशून्य, अभाव तथा भाव का अद्रव्य हो जाता है। तत्वदर्शन की इस अद्रव्य की सिद्धि विज्ञानवादियों ने शून्यवादियों की भाँति मूल भित्ति : चित्त का भी अस्तित्व और अनुत्पाद मान कर नहीं की थी। जगतानुबोध जैसा हम देख चुके हैं कि वे चित्त की सत्ता स्वीकार करते थे और संसार को चित्त की ही भ्रान्ति मानते थे। उनकी दृष्टि में संसार का अस्तित्व वाह्य न होकर चित्तगत ही था। जिस समय चित्त इस भ्रान्ति से मुक्त होकर जगत के वास्तविक स्वभाव का अनुबोध कर लेता है उसी समय वह सदेह निर्वाण प्राप्त कर लेता है। अतः विज्ञानवाद में जगतानुबोध को तत्वदर्शन की मूल भित्ति माना गया है।^२

सिद्धों ने भी स्थान स्थान पर जगत को चित्तगत बताकर आभ्यन्तर और वाह्य की दृश्यमान भिन्नता को भ्रान्ति बताकर दोनों की एकता का प्रतिपादन किया है। तिलोपा ने स्पष्ट कहा है कि 'निर्मल चित्त स्वभाव से देखने पर यही परिभाषना होती है कि जो आत्मा है वही जगत है...पर तथा आत्म का भेद केवल भ्रान्ति मात्र है।'^३ सरहपा भी दोनों की द्वयता को छोड़कर दोनों को एक ही समझने का आग्रह करते हुए कहते हैं 'उसै एक ही करके जानो, दो नहीं।' उसमें भेद न करो क्योंकि जो आभ्यन्तर है वही बाहर है, एक ही तत्व है जो १४ भुवनों में निरन्तर स्थित है। और वह तत्व है चित्त जो कि निरालम्ब स्थित

है। उसे अन्य किसी रूप में देखना भ्रान्ति है।^{१४} डाकार्णव में भी पार उतरने का साधन जगत के इसी चित्त-गत स्वभाव का परिदर्शन माना गया है।^{१५}

समस्त जगत कतिपय धर्म-समूहों का स्वप्न या माया-निर्माण है। वे सभी धर्म अन्ततोगत्वा नैरात्म्य-स्वभाव के हैं किन्तु मोहजाल के रूप में वे चित्त को भ्रान्त कर देते हैं। उनका अस्तित्व वाह्य जगत में नहीं है, चित्त में ही है।^{१६} सरहपा चित्त को जहाँ निरालम्ब कहते हैं वहाँ उनका यही तात्पर्य है कि स्कन्ध, आयतन, धातु आदि सभी चित्त की उत्पत्तियाँ हैं जैसा हम आगे देखेंगे।

जगत के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए सिद्धों ने स्थान स्थान पर इन आयतन, स्कन्ध, भूत तथा इन्द्रियों की ओर संकेत किया है जो विज्ञानवाद द्वारा मान्य थे। इन्हीं की चेतना एक नदी प्रवाह की भाँति बहती रहती है, एक अवि-रल स्रोत की भाँति जिसे भव नदी कहा जा सकता है और इसीलिये इसे पार करने के लिये पारमिताओं का विधान है। सिद्ध चाटिल्लपाद अपने चर्यापद में इसी का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि भव रूपी नदी गहन, गम्भीर वेग से बहती है। दोनों तटों पर पंक के कारण स्थान नहीं मिलता।^{१७}

सिद्ध तिल्लोपा इस संसार को स्कन्ध भूत आयतन और इन्द्रियों द्वारा निर्मित मानते हैं जो सहज स्वभाव से बाँधे जा सकते हैं।^{१८} इसी प्रकार सरहपा

भी क्षिति जल पवन हुताशन आदि पंच महाभूत तथा स्कन्ध, भूत, इन्द्रिय विषयों से युक्त चित्त को पंच जिनों अथवा ध्यानी आयतन इन्द्रिय बुद्धों में आवद्ध करने का आदेश देते हैं।^{१९} इन्हीं विषयपरक

इन्द्रियों को उन्होंने जन्म तथा मरण-रूपी संसार का कारण माना है।^{२०} तथा उसमें प्रवेश करने का निषेध किया है,^{२१} क्योंकि यह जगत-प्रवाह अबोध को बहा ले जाता है और उसमें बालक अबोध, अज्ञानी अपने मुक्त स्वभाव को नहीं पहचान पाते।^{२२} इसी को भवमुद्रा भी कहते हैं जो कल्मष से युक्त है और तत्व से, परमार्थ से वंचित है।^{२३} उसी के कारण काम लोभ आदि की उत्पत्ति होती है तथा मन्त्र और तन्त्रादिक भी उसी के कारण मलिन हो जाते हैं।^{२४} अतः इन्द्रियों का विलयन आवश्यक है क्योंकि वे ही संसार की विधायिका हैं।^{२५} इन्द्रिय-मय यह संसार तो मृगटृष्णा है, आकाश-जल मात्र है जिसमें तत्व नहीं है।^{२६} क्योंकि यह तो स्कन्ध, धातु, भूत, आयतन तथा इन्द्रियों के विषय और विकल्प से रचित विभ्रम मात्र है और सरहपा कहते हैं कि 'दोहों

तत्व-चिन्तन

में, नये नये दोहों में मैं बार बार इस तत्व की ओर संकेत कर रहा हूँ। मैं यह भेद उद्घाटित कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ।^{१७} रूपादि पंच स्कन्ध तथा धातुओं से यह भ्रान्तिरूप संसार निर्मित है यह काण्हपा ने भी कहा है। वे पंच महाभूतों को बीज मानते हैं जिससे समग्र भूतों की उत्पत्ति होती है, उसी से समस्त सुरासुर उत्पन्न होते हैं।^{१८} इन्हीं पंच महाभूतों की महत्ता को हेवन्न-तन्त्र में भी बताया गया है।^{१९} चर्यापद भी संसार के मूल में इन्हीं रूपादि स्कन्ध धातु और आयतन का उल्लेख करते हैं। लुईपा कायारूपी तरुवर को पाँच शाखाओं का पुञ्ज मानते हैं जिसमें चंचल चित्त कालाच्छादित होकर भ्रमता रहता है।^{२०} टीकाकार ने इस तरुवर के रूपक को और भी विस्तृत करते हुए रूपादि पाँच स्कन्धों को शाखा माना है और षडेन्द्रिय, आयतन, धातु आदि को ग्राह्य ग्राहक और ग्रहण भाव से उपलक्षित पल्लवादि माना है। सिद्ध कम्बला-म्बरपाद भी अपनी करुणा नौका के सम्बन्ध में इन रूपादि स्कन्धों का संकेत संधा भाषा में करते हैं।^{२१} इन पाँच स्कन्ध, इन्द्रिय विषयादि का स्पष्ट विवेचन करना सिद्धों ने इसलिये आवश्यक समझा है कि अशुद्ध चित्त इन्हीं में भ्रमण करता रहा है, यद्यपि यह केवल सम्वृत्ति-सत्य है। इसीलिए सरहपा बड़े साहस और बलपूर्वक कहते हैं कि पंडित लोग जो इस ज्ञान को यत्नपूर्वक छिपाकर रखते हैं, मुझे क्षमा करें क्यों कि मैं इसमें विकल्प नहीं करूँगा, मैं कृत संकल्प हूँ कि नये नये दोहा छन्दों में इस ज्ञान को, जगत-बोध को विकीर्ण करूँ, यह जगत जो स्कन्ध, भूत, आयतन, इन्द्रिय आदि के विषय विचार का ही माया-जाल है। मेरे गुरु ने यह ज्ञान मुझे दिया है तो मैं इसे गोप्य क्यों रखूँ। क्योंकि इसी अज्ञान के कारण असावधान जीव विषयतृष्णा में भटक भटक कर प्यासे मर जाते हैं जैसे मोन, पतंग, करी, भ्रमर और हरिण।^{२२}

इन सिद्धों ने लोक कल्याण के लिये जिस 'जगतानुबोध' का उपदेश किया है उस पर थोड़ा विस्तार में विचार करना उचित है। हम देख चुके हैं कि स्थान स्थान पर इन्होंने स्कन्ध, भूत, आयतन तथा इन्द्रियों से इस संसार की रचना मानी है। इनमें से सबसे पहले हम भूत (तत्व) की विवेचना करेंगे।

काण्हपा ने पंच महाभूतों का उल्लेख करते हुए पृथ्वी, आप, तेज, गन्धवह वायु तथा गगन की गणना की है और उन्हें इस समस्त संसार का बीज रूप माना है। मनुष्य, सुर-असुर आदि पंच महाभूत यह समस्त देहधारी सृष्टि इन्हीं पंच महाभूतों से निर्मित

है।^{२३} किन्तु अन्य स्थानों में हमें भूतों की गणना में गगन का उल्लेख नहीं मिलता है केवल क्षिति, जल, वायु तथा हुताशन की गणना मिलती है। सरहपा ने केवल उपयुक्त ४ महाभूतों, उनकी इन्द्रियों तथा उनके विषयों का उल्लेख किया है और गगन की गणना नहीं की है।^{२४} किन्तु ऐसा नहीं है कि सरहपा ने गगन भूत को विस्मृत कर दिया हो। वास्तव में सरहपा तथा काणहपा में भूतों की संख्या के विषय में इस भिन्नता का एक कारण है और वह बौद्ध चिन्तना की विकास परम्परा से सम्बन्ध रखता है। सरहपा द्वारा कथित ये ४ भूत ही मूलतः बौद्धों द्वारा माननीय थे। आचार्य वसुबन्धु अपने अभिधर्म कोष में केवल ४ महाभूतों की गणना करते हैं। पृथ्वी जिसकी प्रकृति स्थैर्य है, आप जिसकी प्रकृति सम्पिण्डन है, तेज जिसकी प्रकृति उष्ण है तथा वायु जिसकी प्रकृति चलनशील है।^{२५} इन महाभूतों में गगन की कहीं भी गणना नहीं है। योगाचार में गगन तत्व को स्वीकार कर लिया गया था और भ्राण साधना में गगन तत्व का निरन्तर उल्लेख मिलता है।^{२६} फिर सरहपा द्वारा गगन तत्व के उल्लेख न होने का क्या कारण हो सकता है। प्रतीत यह होता है कि गगन तत्व को नैरात्म्य या सभी धर्मों में व्याप्त मान कर इन्होंने उसकी गिनती पंच महाभूतों में न कर अलग, समस्त विश्व में व्याप्त शून्यता रूप में की है। जहाँ इन्होंने ४ महाभूतों का उल्लेख किया उसके दो ही पंक्ति पहले वे सकल आकारों को गगन (शून्य) रूप ही बता चुके हैं।^{२७} अतः फिर महाभूतों में गगन की गणना सरहपा ने नहीं की। गगन को पंचम तत्व के रूप में शून्यता अथवा सर्वव्यापी नैरात्म्य का महत्व दिया जाता था। इसका संकेत हमें हेवज्र में उद्धृत एक दोहे से भी मिलता है जहाँ क्षिति, जल, पवन, हुताशन तथा शून्य की गिनती करने के पश्चात् यह कहा गया है कि इस पंचम गगन-तत्व का भेद कोई भी नहीं जानता।^{२८} अतः सरहपा द्वारा गगन तत्व का विस्मरण नहीं है या सर्वास्तिवादियों के चार महाभूतों के सिद्धान्त का अनुसरण नहीं है। वे भी गगन तत्व को स्वीकार करते हैं पर उसे विशिष्ट नैरात्म्य रूप में ग्रहण करते हैं, शेष चार भूतों को साधारण मानते हैं। काणहपा यह अन्तर न कर प्रचलित परम्परा के अनुसार पाँचों महाभूतों की गणना करते हैं। इन महाभूतों को काणहपा ने संसार का बीज माना है।^{२९} आचार्य वसुबन्धु भी इनकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि भूत की संज्ञा इन्होंने इसलिये मिली है कि ये 'भव' के आधार हैं। प्रत्येक अणु का निर्माण इनके

तत्व-चिन्तन

मेल से हुआ है और अणुओं से समस्त संसार का निर्माण हुआ है। 'महा' इन्हें इसलिये कहा जाता है कि ये सर्वत्र व्याप्त हैं।³⁰ इसीलिये काहूपा इन्हें बीज रूप कहते हैं।

इन्द्रियाँ तथा उनके विषय जिनकी ओर सिद्धों ने संकेत किया है वे भी इन्हीं पंच महाभूतों के आश्रित हैं। इसीलिये सिद्धों ने जहाँ जहाँ महाभूतों का उल्लेख किया है उनके साथ साथ इन्द्रियों और उनके इन्द्रिय, विषय विषयों का भी उल्लेख किया है, किन्तु महाभूतों की भाँति इन्द्रियों और विषयों की पृथक् गणना और विवरण उन्होंने देने की आवश्यकता नहीं समझी है। काहूपा के उपरोक्त दोहे की टीका में इन इन्द्रियों और विषयों का विवरण मिलता है। उसके अनुसार क्षिति अथवा पृथ्वी का विषय है गन्ध और उसे ग्रहण करने वाली इन्द्रिय है—नासिका, जल का विषय है रस-स्वाद और उसकी ग्राहक इन्द्रिय है—रसना, तेजस् का विषय है रूप और उसको ग्रहण करने वाली इन्द्रिय है चक्षु। वायु की इन्द्रिय है त्वचा और उसके द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है। आकाश का विषय है शब्द और शब्द को श्रोत्र ग्रहण करते हैं। सिद्ध नरोपा भी इन पाँच इन्द्रियों और उनके पाँच विषयों का उल्लेख करते हैं।³¹

किन्तु चर्यापदों में पाँच इन्द्रियों के बजाय षडेन्द्रियों का उल्लेख है।³² और 'रूपादयः पंच स्कन्धाः' का उल्लेख है। इन्द्रियों की संख्या छः बताई गई है। यहाँ पर पुनः सर्वास्तिवादी और विज्ञानवादी चिन्तन-छठीं इन्द्रिय धारा का प्रभाव प्रतीत होता है। इन्द्रिय की व्याख्या करते हुए आचार्य वसुबन्धु ने इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दिखाई है। इन्द्रिय की मूल धातु है 'इन्द्रि' जिसका अर्थ होता है अध्ये-क्षता जिससे इन्द्राणी बनता है। जो विज्ञानों की अधिष्ठात्री है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह है इन्द्रिय अर्थात् जो विज्ञान की अधिष्ठात्री है। विज्ञान ५ प्रकार के हैं : चाक्षुष, श्रोत्रिय, घ्राण, रसना तथा काया (त्वचा) और इन्हीं की अधिष्ठात्रियों को पंचेन्द्रिय कहा गया है।³³ किन्तु विज्ञानवाद में इन पाँच इन्द्रियों में एक इन्द्रिय मन भी जोड़ दी गई क्योंकि वह मनोविज्ञान की अधिष्ठात्री है।³⁴ अतः बाद में षडेन्द्रियों की कल्पना प्रमुख हो गई, अर्थात् पाँच कर्मेन्द्रियाँ और एक मन और चर्यापदों में इन्हीं षडेन्द्रियों का उल्लेख है।

इन्द्रियों के साथ साथ आयतनों का भी उल्लेख है और उनकी भी संख्या ६ गिनी जाती है। आयतन के अर्थ होते हैं निवास अथवा गृह। इसके लिये हम एक उदाहरण लें। यदि हम एक सुन्दर पुष्प को आयतन देखते हैं तो पुष्प का दर्शन यह चाक्षुष विज्ञान है। इसके आधार-स्थल दो हैं, पुष्प तथा चक्षु। चक्षु, इस चाक्षुष विज्ञान का इन्द्रिय-आयतन हुआ और पुष्प विषय-आयतन अथवा रूप-आयतन। यदि फूल सूखे तो नासिका इस ग्राह्य-विज्ञान की या गन्ध-विज्ञान की इन्द्रिय-आयतन होगी और पुष्प गन्ध-आयतन। इस प्रकार मनोविज्ञान को सम्मिलित कर छः विज्ञानों के १२ आयतन होते हैं। जिनमें कभी कभी इन्द्रिय आयतनों को अलग गिना जाता है और उन्हें षडेन्द्रिय कहते हैं। दोहाकोषों तथा चर्यापदों में आयतनों की संख्या तथा विज्ञानों की संख्या का अलग उल्लेख नहीं है। किन्तु सिद्ध नारोपा ने ६ ज्ञानों, विज्ञानों तथा बारह आयतनों की संख्या विस्तार में दी है।^{३५} इस प्रकार ६ ज्ञान, ६ इन्द्रिय-आयतन तथा ६ विषय-आयतनों की समवेत संख्या १८ होती है और यही १८ धातुएँ हैं जिनका उल्लेख १३वीं चर्या की टीका में है।^{३६} इन्हें धातु इसीलिये कहा जाता है कि वे ही जगत को धारण करती हैं।^{३७}

सर्वास्तिवादियों ने समस्त संसार का जगत का विभाजन दो दृष्टियों से किया था। चित्तगत दृष्टिकोण से सारा संसार उपरोक्त ६ विज्ञानों और उनके १२ आयतनों और इनकी १८ धातुओं में विभाजित है, तथा स्कन्ध वस्तुगत दृष्टिकोण से वस्तुओं के असंस्कृत व संस्कृत धर्मों में विभाजित है।^{३८} शून्यवाद ने इन सभी धर्मों को प्रतीत्य समुत्पाद के तर्क से शून्य या नैरात्म्य सिद्ध कर दिया तथा विज्ञानवाद ने इन्हें चित्तगत ही माना, वस्तुगत नहीं। इन धर्मों में पाँच प्रकार के साम्य माने गये हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान। अतः समस्त धर्मों को इन्हीं पाँच स्कन्धों में वर्गीकृत कर दिया गया है। इन पाँचों स्कन्धों का स्पष्ट उल्लेख और पूरी संख्या दोहों और चर्यापदों की टीकाओं में मिलती है।^{३९} इन पाँच स्कन्धों का भी विस्तार विज्ञानवादी आचार्यों ने किया था।^{४०} किन्तु सिद्धों ने उतने विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं समझी है। इस प्रकार सरहपा ने 'कन्ध भूञ्ज आञ्जत्तण, इन्दी विषञ्ज विञ्जारु' जगत की जो व्याख्या दी है वह उसकी

तत्व-चिन्तन

पूर्णा व्याख्या है।^{४१} रूप, वेदना, संस्कार, संज्ञा तथा विज्ञानादि पाँच स्कन्ध; पृथ्वी आप, तेज, वायु गगनादि पाँच महाभूत; चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, त्वक्, काया व मन; इनके १२ इन्द्रिय आगतन और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द (नाद) ये विषय, इनके अन्तर्गत समस्त संसार अथवा मायाजाल आ जाता है।

जैसा हम देख चुके हैं कि सिद्धों ने निरन्तर इस संसार की आध्यन्तरिक प्रकृति पर जोर दिया है और बार-बार उन्होंने चेतावनी दी है कि इस संसार को

अपने आन्तरिक चित्त से अलग करके मत देखो, दोनों वास्तव चित्त, मन, में एक हैं, संसार और मन में कोई भेद नहीं है। इसका कारण यह है कि सिद्ध लोग वास्तव में संसार का बीज विज्ञान-वाद के अनुसार चित्त को मानते थे और इसकी ओर बार-

बार उन्होंने संकेत किया है। विज्ञानवाद में अन्तिम तथ्य विज्ञान की तीन स्थितियाँ मानी गई हैं चित्त, मन और विज्ञान। चित्त वह है जो कर्मों का चयन करता है, मन उसका विधान करता है और विज्ञान उन्हें जानता है, उनकी संवेदना प्राप्त करता है।^{४२} अतः वास्तव में चित्त रूप में विज्ञान चंचल होकर वाह्य दृश्यों की कल्पना करता है और उनके जाल में उलभता रहता है। इसी-लिये लुईपा ने इसे 'चंचल चित्त' कहा है।^{४३}

सरहपा ने इसी चित्त को भव तथा निर्वाण दोनों का बीज कहा है।^{४४} इसी से भव-बन्धन की भी प्राप्ति होती है और इसी के द्वारा निर्वाण की भी।^{४५} यह समस्त अविद्या का बीज है और भव निर्वाण दोनों की स्थिति इसी में है।^{४६} वास्तव में यह निरालम्ब है।^{४७} कारणहपा ने मन रूप में इसी को तस्वर कहा है और इसकी पाँच स्कन्ध रूपी शाखाएँ हैं अपनी शाखाएँ फैलाये हुए यही मन संसार रूपी वृक्ष है।^{४८} यह संसार उसी का विस्तार है, आच्छादन है, सम्भृति है। आशा के बढ़ते ही उसके पत्र फल आदि बढ़ने लगते हैं। केवल सद्गुरु के उपदेश द्वारा वज्र-कुठार से, ज्ञानरूपी कुठार से इसका उच्छेदन होता है।

संसार की सापेक्षता में इस चित्त के दो रूप हैं। बद्ध तथा मुक्त। जब अपने ही संकल्पों द्वारा निर्मित इस संसाररूपी मोहजाल में मन आबद्ध रहता है तब तक उसे परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती चित्त के दो रूप क्योंकि वह अपने स्वभाव को भूला रहता है। सरहपा कहते बद्धः मुक्त हैं कि मन कर्मों के द्वारा बँध जाता है और प्रज्ञा द्वारा

कर्म करने से उन्हीं के द्वारा मुक्त भी होता है, स्वतः बँधने से वह बँध जाता है और मुक्त होने से मुक्त हो जाता है और जिस प्रकार ऊँट बँधने पर इधर उधर भागता है, किन्तु मुक्त होने पर निश्चल खड़ा हो जाता है उसी प्रकार चित्त भी भव-बन्धन तथा विषयासक्ति में आबद्ध होने पर इधर उधर भागता है किन्तु मुक्त होने पर निश्चल खड़ा हो जाता है।^{४८} इसी मन की निश्चलता पर सरहपा का विशेष आग्रह है और वे कहते हैं कि निश्चल होने पर मन भव-प्रवाह से मुक्त हो जाता है।^{४९} इसी बद्ध मन को अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं होता है अतः पाशुपतों की ही भाँति सरहपा इस बद्ध आत्म-स्वरूप से अचेत मन को पशु कहते हैं क्योंकि वह पशु इव निर्बोध है।^{५०} विषयासक्त होने पर उसकी दशा मीन (स्वादासक्त), पतंग (रूपासक्त), करी (विषयासक्त), भ्रमर (गन्धासक्त), तथा हरिण (नादासक्त) की सी होती है।^{५१} इसीलिये कारणहवा अपने मन को बाँध कर उसे आत्मस्वभाव में स्थित करने का उपदेश देते हैं।^{५२} सरहा भी स्थान स्थान पर निज स्वभाव को पहचानने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि 'हे मूर्ख अपने को जान, ध्येय, धारण जप से क्या होता है।^{५३} जब तक तू अपने और पर (संसार) में भेद मानता है तब तक तुझे अनुत्तर की प्राप्ति भला कैसे होगी। तू अपने चित्त के द्वारा ही अपने को जान।^{५४} निज स्वभाव को तो कोई जानता ही नहीं और ध्यानादि के पीछे लोग भागे जाते हैं।^{५५}

वास्तव में यह संसार तो उन्हीं की सम्मृत्ति है और लोग उसी में बंध गये हैं। यह सम्मृत्ति उन्हीं के हृदय में प्रविष्ट हो जाती है^{५६} और उन्हें भ्रमजाल में डाल देती है। अतः स्वतः निर्मित स्व-सम्मृत्ति में भ्रमण नहीं करना चाहिये।^{५७} यहाँ पर इस सम्मृत्ति का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। यह सम्मृत्ति जगत का या सृष्टि का स्रोत है। चित्त में यह अविद्या तथा राग रूप में वास करती है, किन्तु वज्रसत्व में शक्ति रूप में ! सेकोद्देश टोका में सिद्ध नारोपा ने इसे चित्तगत होने पर अनन्त भाव-सम्मृत्ति को मायाजाल के रूप में वर्णित किया है। कर्षणा-शून्यता मूर्ति के साथ साथ यह सम्मृत्ति काल रूप में भी निवास करती है।^{५८} इसी के अनुसार सत्य को भी विज्ञानवादियों तथा शून्य-वादियों ने दो प्रकार का माना है। एक तो सांसारिक, दूसरा पारमार्थिक। पहले को सम्मृत्ति सत्य कहते हैं दूसरे को पारमार्थिक। सम्मृत्ति में सांसारिक ज्ञान होता है किन्तु पारमार्थिक सत्य में चित्त को शून्यता ज्ञान होता है।^{५९} सिद्धों ने भी

तत्त्व-चिन्तन

निरन्तर विषय सुख छोड़ कर शून्य में विहार करने का उपदेश दिया है।^{६०}
इसी शून्य में प्रवेश करते ही इन्द्रिय विषय मात्र अदृश्य हो जाते हैं।^{६१}

इस शून्य स्वभाव में व्याप्त चित्त को निर्मल चित्त कहा गया है क्योंकि वह वेदनाओं, क्लेशों वासनाओं के आवरण से मुक्त हो जाता है। वह स्वभावतः शुद्ध होता है।^{६२} स्वसमृत्ति के प्रति मोह टूट जाने पर रात में खिले चाँद की तरह निर्मल होता है।^{६३} चंचल चित्त लोकाचार में लीन रहता है किन्तु निश्चल निर्मल चित्त शून्य निरंजन में वास करता है। बद्ध चित्त के लिये यही लोक मोह-जाल है, मायाजाल है, मुक्त निर्मल चित्त के लिये यही भव परमज्ञान-रूप निर्वाण में परिवर्तित हो जाता है। इस वासनामुक्त निर्मल चित्त का बड़ा ही मनोरम वर्णन कायहपा के २५ वें चर्यापद में है। यह पद मूल रूप में नहीं प्राप्य है किन्तु डा० बागची ने इसका तिब्बती रूपान्तर प्रकाशित किया है। उसकी छाया इस प्रकार होगी : 'निर्मल होने पर चित्तराज उस प्रकार सुशोभित होता है जैसे नवोदित चन्द्रमा। गुरु के उपदेश से मोहमल छिन्न होकर सभी आयतन इन्द्रियादि गगन शून्य में समाविष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार चित्त जो खसम का बीज है खसम में लीन हो जाता है। आत्म-वृत्त से त्रिभुवन में छाया विस्तार होता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि चली जाती है उसी प्रकार भव-समुद्र से मोह-तिमिर दूर हो जाता है। कायहपा कहते हैं कि जैसे हंस क्षीर में से जल विलग्न कर उसका पान करता है उसी प्रकार भव को भोग करना चाहिये।'^{६४}

अतः सिद्धों ने स्थान स्थान पर भव और निर्वाण के अभेद की ओर जो संकेत किया है वह इसीलिये कि वास्तव में ये दोनों वही भव, चित्तवृत्तियों की ही दो स्थितियों के भेद हैं। सरहपा ने २०वें वही निर्वाण चर्यापद में स्पष्ट कहा है कि :

अपणे रचि रचि भव निव्वाणा, मिळें लोअ वंधावए अपणा।
अर्थात् अपनी चित्तवृत्तियों के अनुसार भव निर्वाण की रचना कर लोग अपने को भव-बद्ध रखते हैं। चित्त का संकल्प और विकल्प, राग और विराग, मोह और ज्ञान ही भव और निर्वाण के नाम से प्रख्यात हैं। सरहपा इसीलिये कहते हैं कि जो भव है वही निर्वाण है, उसका

अन्यथा नहीं मानना चाहिये।^{६५} आर्य नागार्जुनपा भी युगानुक्रम में भव-निर्वाण की एकता का प्रतिपादन करते हैं।^{६६}

वास्तव में भव का परिज्ञान ही निर्वाण है। काण्हपा की चर्या की टीका^{६७} तथा सरहपा के दोहों की टीका^{६८} में आगमों का यह वचन उद्धृत है कि 'परिज्ञानम् भवस्यैव निर्वाणमिति कथ्यते।' काण्हपा की १२ वीं चर्या की टीका में भी चित्त के वैराग्य विकल्प ज्ञान को निर्वाण बताया गया है। उसके अतिरिक्त निर्वाण और कुछ भी नहीं है।^{६९} प्रज्ञोपाय-विनिश्चय-सिद्धि में संसार और निर्वाण का यह स्वभाव बड़े ही स्पष्ट ढंग से निरूपित किया गया है। अनंग-वज्र कहते हैं कि वज्री, अर्थात् वज्रज्ञानी या वज्र-साधक चित्त की उस स्थिति को संसार कहते हैं जिसमें वह अग्रणीत संकल्पों के तम से आच्छादित होता है। उन्मत्त प्रभंजन में चमकती हुई विद्युत की भाँति चंचल होता है, रागादि के दुर्निवार मलिन पंक से लित होता है। निर्वाण उसे कहते हैं जो इस प्रकार की कल्पनाओं से विमुक्त, ज्योतिर्मय, रागादि मलों से शुद्ध और निर्लित आह्य तथा ग्राहक भाव से परे, नित्य होता है।^{७०}

यह भव चूँकि संकल्पों से निर्मित, चित्त का ही प्रक्षेपण मात्र है अतः इसे माया कहा गया है और चूँकि यह चित्त के निर्मल, सहज स्वभाव को आच्छादित कर लेता है अतः इसे मोहजाल भी कहते हैं। संसार, माया-सरहपा ने इसे मोहजाल कहा है जो ज्ञान प्राप्त होते ही टूट-संकल्प निर्मित जाता है।^{७१} और इस मायाजाल को अपने अंकस्थ करने मोहजाल का निषेध किया है।^{७२} महायान-विशंक में आर्य नागार्जुन-पाद ने इस संसार को स्वाँकित चित्र के समान बताया है तथा चर्यापदों की टीका में (पद २) महायान-विशंक के इस श्लोक का प्रमाण दिया गया है। नागार्जुनपा कहते हैं कि जैसे कोई चित्रकार किसी अति भयंकर यत्न का चित्र स्वतः आलेखित कर उससे भयभीत होने लगे उसी प्रकार अपनी कल्पना से निर्मित इस संसार से चित्त भयभीत होने लगता है।^{७३} आर्यदेव (जो सम्भवतः सिद्ध आर्यदेव से पृथक नहीं हैं) जगत के मायामय स्वरूप का विवेचन करते हुए कहते हैं कि यह जगत माया-मरीचिका है, गन्धर्वनगर के समान केवल आन्ति है, स्वप्नवत है।^{७४} वास्तव में चित्त इन कल्पनाओं से रंजित हो जाता है जैसे स्वच्छ वर्णहीन स्फटिक दूसरे के रंग की आभा ग्रहण कर

तत्त्व-चिन्तन

ले ।^{७५} नैरात्म्यपरिपृच्छ में भी संसार को मृगमरीचिका तथा केवल प्रतिबिम्ब-मात्र बताया है ।^{७६} सूत्रालंकार में असंग^{७७} ने तथा ज्ञानसिद्धि^{७८} में इन्द्र-भूतिपाद ने भी इसे मायाजाल बताया है । साधनमाला में भी स्थान स्थान^{७९} पर जगत के मायोपम रूप की और संकेत है । वाक्साधनम् में संसार को जल में चन्द्र की परछाईं सा बताया गया है ।^{८०}

भूसुकुपा अपने एक पद में कहते हैं :—

‘इस जगत का आदि अन्त नहीं है अतः इसे भ्रान्ति जानो । जो रस्सी में सांप देखकर डरता है, उसे यह भव खा जाता है । इसे हाथ में स्थित लवण वत जानकर आश्चर्य मत करो । यदि इसी प्रकार इस जगत को जान लोगे तो तुम्हारी वासना का क्षय हो जायगा । यह संसार मरुमरीचिका है, गन्धर्वनगरी है । दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिम्ब के समान है...वन्ध्यासुत जैसे क्रीड़ा करे वैसे ही यह संसार है, बालुका से निस्तृत तेल की भाँति, शशशृंग की भाँति, आकाशपुष्प की भाँति...’^{८१}

इस भ्रान्ति और मोहजाल से छुटकारा पाकर, अपने निर्लिप्त स्वभाव को जानकर मोक्ष पा लेना ही निर्वाण है । सरहपा इसीलिये कहते हैं कि जिन संकल्पयुक्त मोहलित्त रागवद्भ कर्मों से जन्तु बँधते हैं उनके परित्याग से ही मन-मोक्ष प्राप्त होता है । इसी मनमोक्ष से वह परमनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है ।^{८२} यह निर्वाण वास्तव में भव के अनित्य स्वरूप का ही ज्ञान है इसी को जानने वाला मोहजाल को तोड़ पाता है, तभी कहा गया है कि ‘सिफिड्ड मोहजाल जड़ जाणसि’ ।^{८३} इसी ज्ञान के द्वारा चित्त का हनन होता है अर्थात् उसके संकल्पाभिनिविष्ट स्वरूप का विनाश होता है ।^{८४} और ज्यों ही मन अस्त होता है^{८५} त्यों ही बन्धनों का विनाश होता है, इसीलिये काणहपा ने कुठार द्वारा इस चित्त के आच्छादन तरु को समूल उत्पाटित करने का व्रत लिया था । वे कहते हैं ‘मन रूपी तरुवर में पाँच इन्द्रियों की विषयासक्ति रूपी शाखाएँ निकल आई हैं । आशादिक के बढ़ने से उसमें पत्ते और फल बढ़ते ही जा रहे हैं । गुरु-वचन (नैरात्म्यज्ञान) रूपी कुठार लेकर मैं उसे इस प्रकार काटूँगा कि वह फिर कभी न उगे । वह शुभाशुभ, सम्वृत्तिजन्य पुण्यापुण्य-रूपी पानी से बढ़ता है । विद्वान् उसे गुरु के समर्थन से काट देते हैं । जो इस संकल्पात्मक अज्ञान और विषयासक्ति से लिप्त बद्ध-चित्तरूपी तरुवर के उत्पादन की रीति नहीं जानते वे ही इसे (भव-को) मान्यता देते हैं ।’^{८६} इस निर्वाण के कारण साधक अपने स्वभाव को पहचान

अन्यथा नहीं मानना चाहिये।^{६५} आर्य नागार्जुनपा भी युगनद्ध-क्रम में भव-निर्वाण की एकता का प्रतिपादन करते हैं।^{६६}

वास्तव में भव का परिज्ञान ही निर्वाण है। कारणपा की चर्या की टीका^{६७} तथा सरहपा के दोहों की टीका^{६८} में आगमों का यह वचन उद्धृत है कि 'परिज्ञानम् भवस्यैव निर्वाणमिति कथ्यते।' कारणपा की १२ वीं चर्या की टीका में भी चित्त के वैराग्य विकल्प ज्ञान को निर्वाण बताया गया है। उसके अतिरिक्त निर्वाण और कुछ भी नहीं है।^{६९} प्रज्ञोपाय-विनिश्चय सिद्धि में संसार और निर्वाण का यह स्वभाव बड़े ही स्पष्ट ढंग से निरूपित किया गया है। अर्नग-वज्र कहते हैं कि वज्री, अर्थात् वज्रज्ञानी या वज्र-साधक चित्त की उस स्थिति को संसार कहते हैं जिसमें वह अगणित संकल्पों के तम से आच्छादित होता है। उन्मत्त प्रभंजन में चमकती हुई विद्युत की भाँति चंचल होता है, रागादि के दुर्निवार मलिन पंक से लिप्त होता है। निर्वाण उसे कहते हैं जो इस प्रकार की कल्पनाओं से विमुक्त, ज्योतिर्मय, रागादि मलों से शुद्ध और निर्लित आह्य तथा ग्रहक भाव से परे, नित्य होता है।^{७०}

यह भव चूँकि संकल्पों से निर्मित, चित्त का ही प्रक्षेपण मात्र है अतः इसे माया कहा गया है और चूँकि यह चित्त के निर्मल, सहज स्वभाव को आच्छादित कर लेता है अतः इसे मोहजाल भी कहते हैं। संसार, माया-सरहपा ने इसे मोहजाल कहा है जो ज्ञान प्राप्त होते ही टूट संकल्प निर्मित जाता है।^{७१} और इस मायाजाल को अपने अंकस्थ करने मोहजाल का निषेध किया है।^{७२} महायान-विशंक में आर्य नागार्जुन-पाद ने इस संसार को स्वाँकित चित्र के समान बताया है तथा चर्यापदों की टीका में (पद २) महायान-विशंक के इस श्लोक का प्रमाण दिया गया है। नागार्जुनपा कहते हैं कि जैसे कोई चित्रकार किसी अति भयंकर यद्द का चित्र स्वतः आलेखित कर उससे भयभीत होने लगे उसी प्रकार अपनी कल्पना से निर्मित इस संसार से चित्त भयभीत होने लगता है।^{७३} आर्यदेव (जो सम्भवतः सिद्ध आर्यदेव से पृथक नहीं हैं) जगत के मायामय स्वरूप का विवेचन करते हुए कहते हैं कि यह जगत माया-मरीचिका है, गन्धर्वनगर के समान केवल भ्रान्ति है, स्वप्नवत है।^{७४} वास्तव में चित्त इन कल्पनाओं से रंजित हो जाता है जैसे स्वच्छ वर्णहीन स्फटिक दूसरे के रंग की आभा ग्रहण कर

तत्त्व-चिन्तन

ले ।^{७५} नैरात्म्यपरिपृच्छ में भी संसार को मृगमरीचिका तथा केवल प्रतिबिम्ब-मात्र बताया है ।^{७६} सूत्रालंकार में असंग^{७७} ने तथा ज्ञानसिद्धि^{७८} में इन्द्र-भूतिपाद ने भी इसे मायाजाल बताया है । साधनमाला में भी स्थान स्थान^{७९} पर जगत के मायोपम रूप की ओर संकेत है । वाक्साधनम् में संसार को जल में चन्द्र की परछाईं सा बताया गया है ।^{८०}

भूसुकुपा अपने एक पद में कहते हैं :—

‘इस जगत का आदि अन्त नहीं है अतः इसे भ्रान्ति जानो । जो रस्सी में सांप देखकर डरता है, उसे यह भव खा जाता है । इसे हाथ में स्थित लवण बत जानकर आश्चर्य मत करो । यदि इसी प्रकार इस जगत को जान लोगे तो तुम्हारी वासना का क्षय हो जायगा । यह संसार मरुमरीचिका है, गन्धर्वनगरी है । दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिम्ब के समान है...वन्ध्यासुत जैसे ब्रीड़ा करे वैसे ही यह संसार है, बालुका से निस्तृत तेल की भाँति, शशशृंग की भाँति, आकाशपुष्प की भाँति...’^{८१}

इस भ्रान्ति और मोहजाल से छुटकारा पाकर, अपने निर्लित स्वभाव को जानकर मोक्ष पा लेना ही निर्वाण है । सरहपा इसीलिये कहते हैं कि जिन संकल्पयुक्त मोहलित रागबद्ध कर्मों से जन्तु बँधते हैं उनके परित्याग से ही मन-मोक्ष प्राप्त होता है । इसी मनमोक्ष से वह परमनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है ।^{८२} यह निर्वाण वास्तव में भव के अनित्य स्वरूप का ही ज्ञान है इसी को जानने वाला मोहजाल को तोड़ पाता है, तभी कहा गया है कि ‘सिफिट्टइ मोहजाल जइ जाणसि’ ।^{८३} इसी ज्ञान के द्वारा चित्त का हनन होता है अर्थात् उसके संकल्पाभिनिविष्ट स्वरूप का विनाश होता है ।^{८४} और ज्यों ही मन अस्त होता है^{८५} त्यों ही बन्धनों का विनाश होता है, इसीलिये काणहपा ने कुठार द्वारा इस चित्त के आच्छादन तरु को समूल उत्पाटित करने का व्रत लिया था । वे कहते हैं ‘मन रूपी तरुवर में पाँच इन्द्रियों की विषयासक्ति रूपी शाखाएँ निकल आई हैं । आशादिक के बढ़ने से उसमें पत्ते और फल बढ़ते ही जा रहे हैं । गुरु-वचन (नैरात्म्यज्ञान) रूपी कुठार लेकर मैं उसे इस प्रकार काटूँगा कि वह फिर कभी न उगे । वह शुभाशुभ, सम्वृत्तिजन्य पुण्यापुण्य-रूपी पानी से बढ़ता है । विद्वान् उसे गुरु के समर्थन से काट देते हैं । जो इस संकल्पात्मक अज्ञान और विषयासक्ति से लिप्त बद्ध-चित्तरूपी तरुवर के उत्पाटन की रीति नहीं जानते वे ही इसे (भव-को) मान्यता देते हैं ।’^{८६} इस निर्वाण के कारण साधक अपने स्वभाव को पहचान

स्तेता है। वह स्वभाव (निज स्वभाव) ही कल्याणकारी है, उसी कारण वांछनीय है, ऐसा सिद्धों ने बराबर बताया है। इस निज स्वभाव की व्याख्या सरहपा ने ३२ वें चर्यापद में इस प्रकार की है। 'नाद, विन्दु, रवि मण्डल, शशिमण्डल सब गौण हैं। चित्तराज तो स्वभावतः मुक्त हैं। ऋजु पथ को छोड़कर कुटिल पथ ग्रहण करने की क्या आवश्यकता। पास ही आत्मस्थ होकर बोधि मिलती हो दूर तो जाने से क्या लाभ है। हाथ के कंगन में ही अपने को देख सकते तो आरसी का क्या होगा। अपने आप अपने स्वभाव को जानने का प्रयास करो।' ^{१८७} उस 'निज स्वभाव' को जानते ही वह जग को अपने से अलग नहीं मानता। अपने को ही जग, बुद्ध और निरंजन, शून्य मानने लगता है। वह अमनसिकार हो जाता है और भव का भंजन कर देता है, अर्थात् जिस परिकल्पित मोहजाल ने उसे आवद्ध कर रखा था उसे छिन्न भिन्न कर देता है। ^{१८८} 'मैं ही जगत हूँ, तीनों भुवन मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, सभी दृश्यमान जगत में मैं ही व्याप्त हूँ' ऐसा जानने वाला योगी निश्चय ही सिद्ध हो जाता है। ^{१८९}

इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्त के ही संकल्प और विकल्प, कल्पना और ज्ञान के रूप में भव निर्वाण की स्थिति मान कर सिद्धों ने भव और निर्वाण की एकता प्रतिपादित की है। नागार्जुन ने भी शून्यवाद का शून्यवाद में प्रतिपादन करते हुए संसार और निर्वाण को एक ही माना निर्वाण है। ^{१९०} वे निर्वाण की स्थिति सुखावती में नहीं मानते। ^{१९१} केवल सर्वज्ञान के विनाश में मानते हैं, लेकिन जब प्रतीत्य-समुत्पाद के अनुसार न कुछ उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, न कुछ स्थित है, न अनस्थित तो विनाश किस वस्तु का? इसीलिये वे निर्वाण की निषेधात्मक व्याख्या करते हैं न उसमें कुछ खोता है, न सम्प्राप्त होता है, न कुछ उच्छिन्न होता है, न कुछ शाश्वतता को प्राप्त होता है, न कुछ निरुद्ध होता है, न कुछ उत्पन्न होता है ^{१९२} वह तो केवल आकाश (शून्य) द्वारा बँधी हुई गाँठ है जो खुल जाती है। ^{१९३}

किन्तु विज्ञानवाद ने निर्वाण का केवल निषेधात्मक रूप नहीं लिया था। 'लंकावतार सूत्र' में यह कहा गया है कि शून्य तो वस्तुओं के धर्म का स्वभाव है,

तत्त्व-चिन्तन

दृश्यमान जगत चाहे शून्य स्वभाव हो, किन्तु चित्त का तो अस्तित्व है ही। अतः निर्वाण में भव का विनाश होने पर भी चित्तमात्र-विज्ञानवाद में व्यवस्था का अभाव नहीं होता।^{१४} इसी को अश्वघोष ने भव और निर्वाण महायान-श्रद्धोत्पाद-सूत्र में तथता तथा आलय-विज्ञान के सिद्धांत से समझाया है।^{१५} वे संसार की परिकल्पना करने वाले चित्त को आलय-विज्ञान की संज्ञा देते हैं। चित्त अपनी स्मृतियों, अज्ञानजन्य कल्पनाओं को एक ऐसे विज्ञान में संग्रहीत करता जाता है जो आलय है, भण्डार है।^{१६} उसी का पुँज संसार कहलाता है। वाह्य संसार मिथ्या है। किन्तु उन स्मृतियों के विनाश से भी चित्त का विनाश तो नहीं होता। इसका उदाहरण अश्वघोष ने जल और तरङ्गों से दिया है। अविद्यारूपी वायु के भोंके से जल में तरंगें उठती हैं। उसके शांत होने पर तरंगें नष्ट हो जाती हैं, किन्तु जल का शांत धरातल बना रहता है। वही परमार्थ है, सत्य है, वही 'तथता' है। उसका कभी विनाश नहीं होता। निर्वाण में हम उसी तथता-स्वभाव को प्राप्त करते हैं।^{१७} यही तथता-स्वभाव सम^{१८} तथा अद्वय-स्वभाव है, यही परमार्थ है।^{१९}

सिद्धों का निर्वाण शून्यतावादियों की अपेक्षा विज्ञानवादियों के निर्वाण अधिक निकट है। काएहपा ने निर्वाण में चित्त का अनस्तित्व नहीं बताया है, वे कहते हैं कि जो चित्तस्थिति निश्चल है, निर्विकल्प है, निर्विकार है, उदयास्तरहित है, ऐसी स्थिति को निर्वाण कहते हैं, जिसमें चित्त कुछ भी नहीं करता^{२०}। इसकी व्याख्या करते हुये मेखला टीका में कहा गया है कि निश्चल इसलिये है क्योंकि इसमें मन सभी संकल्प-अविद्यारूपी वायु आघातों में भी अचल रहता है, निर्विकल्प इसलिये कहा गया कि वह भवसुद्रा से रहित होता है, इन्द्रियजन्य विषयों की आसक्ति से मुक्त होता है। अतः वह निर्विकार है, उत्पत्ति तथा मन से रहित होता है। जाड़े के निर्मल मध्यान्ह के निरभ्र आकाश की भाँति यह निर्वाण है। इसमें चित्त मन की चौबीस प्रकृतियों के द्वारा भी कुछ नहीं करता।^{२०}

उपरोक्त व्याख्या में हम देखते हैं कि चित्त का अनस्तित्व नहीं स्वीकार किया गया है, यही नहीं भवाच्छादितावस्था में मन की २४ प्रकृतियों का भी उल्लेख है। ये २४ प्रकृतियाँ विज्ञानवाद द्वारा निर्दिष्ट विप्रयुक्त संस्कार-धर्म हैं जो अचैत हैं तथा अरूप हैं, वे चित्त तथा रूप के प्रतिघात से उदित होती हैं, केवल विज्ञान, मनोविज्ञान द्वारा प्राह्य है और अशाश्वत हैं तथा प्रभास्वर ज्ञानो-

द्य के क्षण में इनका विनाश हो जाता है। ये अधिकांश विप्रयुक्त संस्कार-धर्म आलय-विज्ञान में संचित रहते हैं।^{१०२} इस 'आलयविज्ञान' का उल्लेख सरहपा के दोहाकोष की टीका में एक स्थान पर आया है जहाँ गन्धर्व-सत्वात्मकता के कारण आलयविज्ञान में प्रवृत्ति बताई गई है अतः देवपूजा भी मिथ्या घोषित की गई है।^{१०३} इससे स्पष्ट है कि सांसारिक वासनाओं^{१०४} का आश्रय सिद्धों के टीकाकारों ने आलय-विज्ञान माना है। वही संसार है, उसके परिशोधन के बिना संसार से निस्तार नहीं है।^{१०५} संसार से निस्तार पाने के लिये तथता-ज्ञान आवश्यक है इसका संकेत चर्यापदों में मिलता है। जयनन्दीपा ने अपने चर्यापद में तथता-स्वभाव द्वारा चित्त के विशोधन का विवरण दिया है। वे कहते हैं 'जिस प्रकार स्वप्न में प्रतिबिंब दीख पड़ता है, उसी प्रकार यह समस्त भव अन्तराल में, मन में, आलयविज्ञान में प्रतिभासित है। यदि मन उसके मोह से विनिर्मुक्त हो जाय तो गमनागमन का बन्धन टूट जाता है। तब न उसे अग्नि व्यापती है, न जल और न उस पर शस्त्रों का प्रभाव पड़ता है। यह देखते हुए भी लोग मोह में आवद्ध हैं। पक्षद्वय भाव अभाव आदि के कारण नाना विज्ञानों की उत्पत्ति होती है, उसी से छाया, माया, काया आदि सांसारिक वस्तुओं का अस्तित्व है। जयनन्दीप स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे चित्त का तथता-स्वभाव से ही विशोधन करना चाहिये, अन्यथा नहीं।^{१०६} इसकी टीका में कहा गया है जो मोह-विमुक्त हो जाता है वही परमार्थ को जान लेता है। इसके लिये चित्त का विशोधन आवश्यक है जो तथता-स्वभाव से मिलता है, अन्यथा नहीं।^{१०७} नवीं चर्या में काण्हा कहते हैं कि जहाँ जहाँ चित्तरूपो महाकरी, शून्यतारूपों करिणी पर आसक्त होता है, वहाँ वहाँ 'तथता' रूपी मदजल की वर्षा होती है।^{१०८}

कोंकणपाद भी अपने चर्यापद में तथता-स्वभाव का महत्व प्रतिपादित करते हुए उसकी योगपरक व्याख्या करते हैं और उसे नाद के रूप में परिकल्पित करते हैं।^{१०९} और टीकाकार कहता है कि बालयोगी उस साकार निराकार, भाव अभाव को तथता रूपी कलकल नाद से मग्न कर देते हैं, आगम-सूत्रों में इसी को शून्यता सिंहनाद कहा गया है जिससे शत्रु भी भयतीत हो जाते हैं।^{११०} काण्हा इसी चित्त-साधना को घृतक्रीड़ा शतरंज के रूपक में प्रस्तुत करते हैं जिसमें वे कमल कुलिश साधना से बोधिचित्त को जाग्रत कर निर्माण चक्र के ६४ खानों को जीतना चाहते हैं।^{१११} उसी में वे तथता-रूपी चित्त गजेन्द्र से पंचेन्द्रियों को जीतते हैं।^{११२}

तत्व-चिन्तन

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धों द्वारा मान्य भव और निर्वाण को परिकल्पना का मुख्य आधार विज्ञानवाद है और अपने तत्व-दर्शन के मूल सिद्धान्त उन्होंने विज्ञानवाद से लिये हैं। सिद्धों का तत्व-दर्शन चित्त-परक है, वाह्य जगत की सत्ता अस्वीकार करता है किन्तु वह शून्यवाद की भाँति शुद्ध निषेधात्मक नहीं है।

किन्तु फिर प्रश्न उठता है कि अपने भव और निर्वाण का विवेचन करते समय उन्होंने सब को शून्य स्वभाव क्यों बताया है। काण्हपा के टीकाकार ने निर्वाण प्राप्त चित्त को ख+सम (शून्य) के समान बताया है।^{११३} निर्वाण से चित्त का हनन करने के बाद त्रिभुवन शून्य-निरंजन में प्रवेश करना चाहिये।^{११४} चित्त जब शून्यात्मक हो जाता है तब इन्द्रिय विषयों का लोप हो जाता है।^{११५} मन को ध्यान करना चाहिये कि मैं शून्य हूँ, जग शून्य है, त्रिभुवन शून्य है,^{११६} शून्य से संगम की सम्भावना धारण करनी चाहिये।^{११७} इन सभी उपदेशों से ज्ञात होता है कि वे शून्य को अत्यधिक महत्व देते थे। योगाचार तथा विज्ञानवाद के अनुयायी होते हुए भी वे शून्य को इतना महत्व क्यों देते थे इसका एकमात्र कारण यह है कि विज्ञानवादियों ने तथता ज्ञान को भी शून्यता ज्ञान माना था, वे तथता को शून्य मानते थे। शून्य को उन्होंने शून्यवाद से भी विस्तृत अर्थ में ग्रहण किया था और क्योंकि शून्यवाद में तो प्रतीत्य-समुत्पाद के द्वारा केवल धर्म और पुद्गल का अभाव प्रतिपादित कर उनके भाव का निषेध किया गया था, तथतावाद में धर्म और पुद्गल नैरात्म्य को स्वीकार कर भाव की शून्यता तो बताई ही गई थी किन्तु तथता तथा चित्त-विशति-व्यवस्था स्वीकार कर अभाव की भी शून्यता मान ली गई। अतः वे इस तथता को शून्यता कहते थे।^{११८}

सिद्धों ने अपने शून्य के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है सभी विज्ञानवाद में तथता के लिए कहा जा चुका है और अंत में वे तथता को ही शून्य कहने लगे थे। यह तथता शून्य-तत्व रूप में धर्म और पुद्गल के नैरात्म्य रूप में विद्यमान थी, और इसी को परमार्थ कहते थे। भावाभाव, ग्राह्यग्राहक आदि की द्वयता से विवर्जित परिनिष्पन्न ज्ञान के रूप में यह तथता थी। अतः इसे परिनिष्पन्न ज्ञान, अद्वय, या सम कहते थे और जब यही साधक की प्रवृत्ति में प्रवेश कर जाती थी तो यही शून्य स्वभाव बन जाती थी। तत्व रूप में वह 'तथता' परमार्थ कहलाती

थी। इसका उल्लेख हम कर चुके हैं।^{११९} सिद्ध लोग भी इस परमार्थ का बार-बार इसी अर्थ में प्रयोग करते हैं। सरहपा तो इसको परम तत्व मान कर बड़े बल से कहते हैं, 'मैं सरहा तुझसे कहता हूँ कि इस प्रकार तू विमति को प्राप्त होगा औ मूर्ख, परमार्थ को बूझ।'^{१२०} तिलोपा इसी को तत्व फल बताते हैं जिसका आस्वादन उन्होंने किया है, किन्तु उसे प्रकट कैसे करें क्योंकि वह मन-गोचर नहीं है।^{१२१} वह गुण दोष से भी रहित है।^{१२२} सरहपा उसी परमार्थ को पथ और महासुख मानते हैं।^{१२३} सरह के टीकाकार ने अपने गुरु की साक्षी देते हुए इसी परमार्थ को सिद्ध करना^{१२४} उचित ठहराया है। यह परमार्थ ज्ञान परिनिष्पन्न ज्ञान था^{१२५} जिसके लक्षण थे भाव और अभाव में समानता।^{१२६} यही नैरात्म्यज्ञान था जो द्विविध है, धर्म नैरात्म्यज्ञान, अर्थात् सांसारिक वस्तुओं का नैरात्म्य या शून्यता और पुद्गल नैरात्म्य अर्थात् आत्मा जैसी किसी शाश्वत सत्ता के अभाव का ज्ञान।^{१२७} यही सम ज्ञान है क्योंकि समस्त वस्तुओं के 'अनुत्पाद' से सब कुछ आदि-रहित है अन्त-रहित है, अतः यही अद्वय ज्ञान है।^{१२८} यही ज्ञान साधक का स्वभाव हो जाता है तो वह शून्य स्वभाव का हो जाता है, सम स्वभाव का हो जाता है, अद्वय स्वभाव का हो जाता है।^{१२९} और ऐसे को शून्यज्ञ कहते थे क्योंकि वह भाव की शून्यता, अभाव की शून्यता और प्रकृति अर्थात् स्वभाव-ज्ञान की शून्यता को जान लेता है।^{१३०}

सिद्धों ने भी शून्य का उल्लेख इसी आधार पर तत्व रूप में किया है जो अगोचर है, अगम है, तथा ज्ञान रूप में किया है जहाँ वह भाव, अभाव ग्राह्य ग्राहक आदि अन्त आदि से रहित है। तथा वही चित्त में त्रिविध शून्य प्रविष्ट होने पर 'ख सम' स्वभाव हो जाता है। इस प्रकार तत्व, ज्ञान, शून्य स्वभाव का साधक, शून्य तत्व को प्राप्त कर शून्य रूप स्वभाव हो जाता है, या वज्र रूप और सहज रूप हो जाता है जैसा कि कंकणपा ने कहा है।^{१३१}

इस शून्यतत्व को भादेपा ने 'सर्वशून्य' कहा है।^{१३२} तिलोपा इसमें उत्पादविहीन, आदिरहित एवम् अन्तरहित, अद्वय^{१३३} कहते हैं। यह प्रतीत्य-समुत्पाद के ही सिद्धान्त से आदिरहित एवम् अन्तरहित है। वह तत्व वर्णविहीन है, आकृतिविहीन है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, वही शून्यता रूप में समस्त आकृतियों में व्याप्त है। न वह महान है, न ह्रस्व है, न लघु है, न दीर्घ है, न

तत्त्व-चिन्तन

वह लाल है, न हरा है, न मजीठ रंग का है, न पीला है, न काला है, वह वर्णहीन है, सभी वर्णों और आकारों में व्याप्त है।^{१३४} यही तत्त्व चित्त में, जग में, त्रिभुवन में व्याप्त है।^{१३५} सरहपा कहते हैं कि जिस समय यह भव रूप में होता है तब सभी आकारों में व्यक्त होता है।^{१३६} जब सम रूप में होता है तो ख + सम, गगनोपम शून्य हो जाता है।^{१३७} इसी को सरह ने नदी तरंग न्याय से समझाया है। वे कहते हैं कि वायु आघात से तरंगें उत्पन्न होती हैं पर वे नदी से भिन्न नहीं हैं, उनके शान्त होने पर नदी का स्वरूप सम शान्त रूप होता है। इसी प्रकार भव केवल उस परम-तत्त्व का तरंग प्रवाह मात्र है जो उसी में विलीन हो जाता है, जैसे जल जल में मिल कर समरस हो जाता है। यह तत्त्व इतना गूढ़ है कि इसे कौन कहे, किससे कहे। सुरंग में उठने वाली धूल की भाँति यह हृदय में ही उठ कर हृदय में विलीन हो जाता है।^{१३८} इसी को काणहपा तथा अन्य सिद्धों ने 'निरंजन' कहा है क्योंकि यह अंजन अर्थात् कलुष से विहीन है।^{१३९} किन्तु इसका स्वरूप इतना गुह्य है कि कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता।^{१४०}

इसका इतना अनिर्वचनीय रूप इसलिये है कि यह प्रत्येक प्रकार की द्वयता का निषेध करता चलता है। शून्यता ज्ञान में चित्त का भी निषेध है और अचित्त का भी, भाव का भी अभाव का भी, ग्राह्य का शून्यता-ज्ञान भी ग्राहक का भी, भव का भी निर्वाण का भी, यहाँ तक कि शून्य का भी और अशून्य का भी। सिद्धों ने स्थान स्थान पर शून्यता ज्ञान के इस द्वयता विवर्जित रूप का वर्णन किया है। तिलोपा कहते हैं जहाँ चित्त का गमन है वही अचित्त का भी, समरस निर्मल भावाभाव रहित ज्ञान को प्राप्त करो।^{१४१} भव निर्वाण दोनों का परित्याग उचित है।^{१४२} काणह तो शून्य और अशून्य दोनों के परित्याग का उपदेश देते हैं।^{१४३} चर्यापदों की टीकाओं में रूपकों में संध्या-भाषा द्वारा निर्दिष्ट नैरात्म्यज्ञान तथा ग्राह्य दोनों को वर्जित करने की ओर संकेत है।^{१४४} धर्म और पुद्गल नैरात्म्य से क्या तात्पर्य है यह हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं।^{१४५} इसी को ग्राह्य ग्राहक भाव से भी मुक्ति की संज्ञा मिली है क्योंकि जब धर्मों का नैरात्म्य सिद्ध हो गया तो कोई ग्राह्य वस्तु नहीं रही और पुद्गल का नैरात्म्य सिद्ध हो गया तो उन्हें ग्रहण करने वाला कोई नहीं रहा। संसार की

समस्त वस्तुओं को 'प्रतीत्य समुत्पाद' के सिद्धान्त से मिथ्या सिद्ध कर देने पर भाव का निषेध हो जाता है।^{१४६} किन्तु फिर उसके बाद सर्वथा अभाव की भावना भी भ्रान्तिपूर्ण है। क्योंकि यदि हम पूर्ण अभाव ही मान लें तो फिर कौन बढ़ रहता है और किसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभाव कल्पना से तो भाव कल्पना ही श्रेष्ठ है क्योंकि जलते दीप का निर्वाण तो हो सकता है। बुझे हुये दीप के बुझने की कल्पना ही असङ्गत है। अतः भाव तो नैरात्म्य के कारण निषिद्ध है ही अभाव कल्पना भी श्रेयस्कर नहीं है।^{१४७} इसी प्रकार भाव कल्पना संकल्पात्मक होने के कारण भवजाल में बढ़ करने वाली है किन्तु अभाव कल्पना भी तथता के कारण भ्रमोत्पादक है और श्रेयस्कर भी नहीं है। इसलिए सिद्धों ने स्थान स्थान पर भावाभाव दोनों के निषेध की देशना की है।^{१४८}

भावाभाव की ही भाँति सिद्धों ने भव निर्वाण दोनों के ही निषेध की व्यवस्था दी है।^{१४९} भव तो मोहजाल के रूप में बन्धनकारी होने से त्याज्य है ही, निर्वाण भी केवलमात्र साध्य नहीं है क्योंकि निर्वाण केवल भवज्ञान मात्र है और उससे प्रत्येकयानियों और श्रवकयानियों को सन्तोष हो सकता है, महायान ने सदा निर्वाण की अपेक्षा लोकहित को बोधिसत्वों का ध्येय माना है। वज्रयानी सिद्धों ने भी इस लोक कल्याण भावना को सुलाया नहीं था।^{१५०} इसके अतिरिक्त वे निर्वाण को ही अन्तिम उपलब्धि नहीं मानते थे। महासुख उससे भी ऊपर है। अतः वे जो केवल निर्वाण में सीमित रह जाते हैं वे महासुख को नहीं प्राप्त कर सकते।^{१५१} अद्वयवज्र ने सरहपा के दोहाकोष की टीका में भव और निर्वाण की व्यर्थता प्रतीत्य-समुत्पाद के सिद्धांत से सिद्ध की है। वे कहते हैं कि भव का जब धर्म-नैरात्म्य तथा अनुत्पाद के कारण अस्तित्व नहीं है तो उससे मोक्ष का प्रश्न भी नहीं उठता।^{१५२} सिद्धों में से सभी का यही तात्पर्य था यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि अद्वयवज्र माध्यमिक सिद्धांतों की तर्क शृङ्खला से विशेष प्रभावित थे और उसका प्रभाव उनकी टीका पर पड़ना भी स्वाभाविक है।^{१५३}

चित्ताचित्त दोनों का निषेध भावाभाव के ही निषेध पर आधारित है। चित्त संकल्पात्मक होने के कारण मोहजाल उत्पन्न करता है और विषयासक्त होकर बढ़ हो जाता है, वह ग्राह्य-ग्राहक-भाव युक्त होता है। अचित्त निःस्वभाव नैरात्म्य-ज्ञान रूप है।^{१५४} किन्तु केवल नैरात्म्यज्ञान भी अश्रेयस्कर है, वह निष्केवल शून्य

तत्व-चिन्तन

है, करुणाविहीन है जो त्याज्य है।^{१५५} अतएव भवोत्पादकारी चित्त भी त्याज्य है और केवल शून्य अचित्त भी।^{१५६}

और इसी आधार पर शून्य तथा अशून्य दोनों को त्याज्य बताया गया है। प्रतीत्य समुत्पाद के कारण अशून्य तो त्याज्य है ही किन्तु केवल शून्य में सीमित हो जाने वाला साधक भी कभी करुणा को ग्रहण नहीं कर पाता, अतः प्रज्ञोपाय साधना में वह सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। इसके साथ ही एक कारण इसका और है। तथता-सिद्धान्त में तथता के दो रूप व्याख्या की दृष्टि से बताये गये हैं। शून्य जिसमें तथता की निषेधात्मक व्याख्या है, अशून्य जिसमें तथता की सकारात्मक व्याख्या है। परन्तु तथता इन दोनों के परे हैं।^{१५७} सिद्ध काण्डहा सम्भवतः परमार्थ के उसी रूप की ओर संकेत करते हैं जब वे शून्याशून्य दोनों के निषेध का उपदेश करते हैं।^{१५८} इस भावाभाव विवर्जित शून्यता-ज्ञान को लुईपा अपने चर्यापद में शून्यता पाश के रूप में चित्रित करते हैं जिससे इन्द्रियाँ संयमित और नियन्त्रित हो जाती हैं।^{१५९} कृष्णाचार्य इस शून्यताज्ञान में आयतन तथा इन्द्रियों के शून्यात्मक होने को ख-सम बीज का ख-सम में प्रविष्ट होना बताते हैं।^{१६०} भावाभाव, चित्त-अचित्त, भव-निर्वाण और शून्याशून्य इन सभी द्वयताओं का निषेध कर चित्त में उदित होने वाले इस शून्यज्ञान की साधना कितनी सूक्ष्म है इसका वर्णन शान्तिपाद भी अपने चर्यापद में बड़े रोचक ढंग से करते हैं : 'चित्त रूपी कपास को धुनते धुनते उसके रेशे रेशे अलग कर दिये। फिर उन रेशों को भी धुनना प्रारम्भ किया इस प्रयास की कोई सीमा नहीं रही। भव का भी निषेध किया, फिर अभाव का भी फिर भाव का भी निषेध हुआ। उसके बाद फिर उन्हें धुनना प्रारम्भ किया और अपने को भी धुन डाला और अपना भी निषेध किया। इस अद्वय की भी कोई सीमा है। कार्य और कारण की शृंखला पर आधारित संसार सब शून्य सिद्ध हुआ। तब उससे उपलब्ध स्वसम्बेद्य अनुभूति का उदय हुआ।'^{१६१} यही स्वसम्बेद्य शून्यमार्ग है और यद्यपि इसका सही स्वरूप पहले समझ में नहीं आता किन्तु इसी पर चलना श्रेयस्कर है।^{१६२}

इस शून्यमार्ग पर चल कर साधक शून्य स्वभाव में स्थित हो जाता और शून्य में विचरण करने लगता है। वहाँ वह गुण दोष, शुभाशुभ तथा पुण्य पाप से विमुक्त हो जाता है।^{१६३} क्योंकि यह वह स्थिति है जिसमें मन ख-सम स्वभाव का हो जाता है और सभी रूपादि विषय ख-सम या शून्य स्वरूप

के हो जाते हैं।^{१६४} इसी को भूसुकुपा खसम स्वभाव कहते हैं जिससे बन्धन टूटते हैं और अन्त में मनोरत्न शून्य में समा जाता है।^{१६५} यह पाप पुण्य से रहित है अद्रव्य है, सम है, शान्त है, समरस है और यही तथता रूप है।^{१६६}

यहाँ तक हमने देखा कि सिद्धों ने शून्य-तत्व, शून्यताज्ञान तथा शून्य स्वभाव को विज्ञानवादी परम्परा के अनुसार ही अपनाया है, उसके लिये तथता, परमार्थ, अद्रव्य, सम, शान्त आदि जिन शब्दों का भी व्यवहार वे करते हैं वे सब योगाचार सम्प्रदाय के ही शब्द हैं। किन्तु एक सर्वथा नवीन शब्द हमें सिद्ध साहित्य में मिलता है जिसका योगाचार परम्परा में कोई उल्लेख नहीं है, वह शब्द है 'सहज'। जो जो गुण शून्य के हैं बिल्कुल वे ही सहज के हैं जिससे स्पष्ट है कि सहज से शून्य से अलग कोई अन्य तत्व नहीं।

सहज शब्द का प्रयोग सिद्धों ने बराबर उसी प्रसंग में और लगभग उसी अर्थ में किया है जिसमें उन्होंने शून्य का प्रयोग किया है। सहज परम तत्व है।

वह एकमात्र परम तत्व है, जिसे काएहपा जानते हैं किन्तु

सहज

बहुत से शास्त्रागम का पठन पाठन और श्रवण करने वाले उसे नहीं जान पाते।^{१६७} किन्तु जो उस सहज लक्षण को

जान लेता है उसको विषय विकल्प रूपी जगत से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा वेद तथा आगमों में भी कहा गया है।^{१६८} इसी सहज रूपी परमतत्व में स्थित होकर जिस अमृत रस की उपलब्धि होती है उसे कौन किससे कहे क्योंकि न गुरु उसे कह सकता है न शिष्य उसे समझ सकता है।^{१६९} वह गुह्य तथा रहस्यमय अवश्य है किन्तु फिर भी उसी की साधना करना श्रेयस्कर है।^{१७०} क्योंकि जो अपने मन को निश्चल, सहज तथा समरस कर देता है वही सिद्ध है।^{१७१} अतः सहज ही वह शून्यतत्व है, वह परमार्थ है जिसकी साधना अभिप्रेत है।

यही सहज नैरात्म्यज्ञान के रूप में भावाभाव की भावना को वर्जित करता है। उसमें भव और निर्वाण का भी स्थान नहीं है। न सहज भाव स्वभाव है न अभाव स्वभाव। यदि भाव स्वभाव हो तो वही बन्धनकारी संसार हो जायगा यदि अभाव रूप है तो वह उच्छेद है, अनस्तित्व है।^{१७२} सहज के इसी परिज्ञान से मोक्ष मिलता है। अन्य कोई पथ नहीं।^{१७३} अन्य जितने भी मोक्ष के पृथक् पथ हैं वे सभी सहज ही हैं अन्य नहीं, किन्तु इस सहज ज्ञान को जो नही हृदयंगम करता वह संसार में भ्रमता रहता है। यह सहजज्ञान शून्यताज्ञान ही है

तत्त्व-चिन्तन

जिसमें वाच्य-वाचक, या धर्म और पुद्गल नैरात्म्य या ग्राह्य-ग्राहक भाव का विलयन हो जाता है।^{१७४}

इसी शून्यताज्ञान रूपी सहज ज्ञान को प्राप्त कर चित्त सहज-चित्त हो जाता है क्योंकि वह सहज द्वारा विशोधित होता है। इस सहज स्वरूप में चित्त की स्थिति को सहज स्वभाव कहते हैं। इस सहज स्वभाव से स्कन्ध-भूत-आयतनेन्द्रिय-जन्य संसार के प्रवाह को बांध लेना चाहिये।^{१७५} इसमें चित्त तथा अचित्त दोनों का शमन हो जाता है।^{१७६} विभिन्न वासनाओं के पवनावर्तों में यह मन जो भ्रमित हो रहा था, वह सहज स्वभाव में स्थित होकर निश्चल हो जाता है।^{१७७} इस सहज में पाप पुण्य भी नहीं व्यापता।^{१७८} इसी सहज स्वभाव में स्थित होने में शोभा है।^{१७९} और श्रेय भी क्योंकि जो सहज को छोड़कर निर्वाण के पीछे दौड़ता है वह परमार्थ लाभ कभी नहीं करता।^{१८०} इस अत्यन्त गहन स्वरूप में जिसमें न मन, न पवन, न रवि, न शशि किसी का भी प्रवेश नहीं है, सरह उसमें अपने चित्त को स्थित करने का उपदेश देते हैं।^{१८१} उसमें स्थित होने के उपरान्त व्यक्ति की जीवनचर्या ऐसी हो जाती है कि वह सकल कलुष, वासना, क्लेशादि से मुक्त होकर, निस्तरंग सहज रूप में पाप और पुण्य से निर्लिप्त हो जाता है।^{१८२}

इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्व, ज्ञान अथवा स्वभाव रूप में 'सहज', नाम से नवीन होने पर भी वास्तव में वज्रयानियों का चिरपरिचित परमार्थ और शून्य ही है। किन्तु सिद्धों ने इसे इतना महत्व दिया है कि सहज का अपनी साधना से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु का नाम सहज दिया विस्तार है। सहज तत्व, सहज ज्ञान, सहज स्वरूप, सहज सुख, सहज समाधि, सहज काया, सहज पथ, यहाँ तक कि बुद्ध को सहज सम्बर और नैरात्मा या शून्यता को सहज सुन्दरी कहा जाने लगा।^{१८३} परमतत्व को यह नयी संज्ञा देने का क्या कारण है। क्या 'शून्य' उस परमतत्व के पूरे अर्थ को नहीं अभिव्यक्त कर सकता था। वास्तव में बात यही थी। शून्यताज्ञान या खसम-स्वभाव के अतिरिक्त एक तत्व और था जिसकी ओर सिद्ध विशेष रूप से संकेत करना चाहते थे। वह तत्व था करुणा। ✓

हम पहले ही देख चुके हैं कि महायान के अन्तर्गत करुणा को विशेष स्थान दिया गया था और करुणा के अभाव में ही प्रत्येक यान और आभकयान

को बोधिसत्वयान से निम्न स्तर का माना गया था। उसी करुणा को वज्र रूप में प्रतिष्ठित किया गया और उसे शून्य का अभेद्य, अच्छेद्य रूप माना गया, सिद्धों ने भी उसे मणि, कुलिश, तथा उपाय रूप में स्वीकार किया किन्तु उसकी शून्यता के साथ समरसता पर, अद्वय पर विशेष बल दिया। वह उपाय, या वज्र या कुलिश, या मणि या सक्रिय चित्त जब प्रज्ञा, या शून्यता, या कमल या पद्म, या खसम में प्रविष्ट होकर एकमेक रूप हो जाता है तब वही अद्वय सहज कह-या उत्पन्न हुआ है।^{१=४} जिस समय सिद्ध लोग सबको सहजस्वरूप कहते हैं तो उनका तात्पर्य प्रत्येक वस्तु के आन्तरिक स्वभाव में निहित उस नैरात्म्य से है जिसमें शून्यता तथा करुणा अद्वय रूप में स्थित हैं। और सहज ज्ञान के अर्थ हैं कि शून्यता के साथ साथ करुणा को भी उपाय रूप में जान लेना चाहिये अन्यथा परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। इस सहज तत्व-दर्शन में शून्य का महत्व कम नहीं है। वास्तव में तो सब कुछ शून्य ही है और जैसा हम आगे देखेंगे सिद्धों ने वज्र, उपाय आदि को भी शून्य का ही सक्रिय या करुणा रूप माना है किन्तु शून्य दर्शन के बिना करुणा लक्ष्यभ्रष्ट होती है और करुणा के बिना शून्यता ज्ञान भी निष्फल होता है। अशून्य के साथ साथ शून्य का भी तिरस्कार करने में सिद्धों का संकेत इसी ओर था।

सरहपा शून्यता और करुणा की अद्वय साधना के विषय में स्पष्ट कहते हैं कि करुणा छोड़ कर जो केवल शून्य में लीन रहता है वह उत्तम मार्ग, सहज नहीं ग्रहण कर पाता। साथ ही जो शून्यता के बिना करुणा तथा करुणा की परिभावना करता है वह सहस्र जन्मों तक मोक्ष शून्य का ऐक्य नहीं पा सकता।^{१=५} जो सहज द्वारा चित्त को विशुद्ध कर जीवन का उपभोग नहीं करता केवल शून्य में विहार करता है, वह बोहित के काग की भाँति बार बार उड़ कर भी अज्ञान में गिरता रहता है।^{१=६} सरह की टीका में अद्वयवज्र ने भी केवल शून्यता की साधना करने का निषेध किया है क्योंकि उससे सत्ता ही उच्छिन्न हो जाती है।^{१=७} इसीलिये शून्यता और करुणा दोनों की समरसता का आदेश है^{१=८} और जो योगिनी उसे सिद्ध कर लेती है वह भव निर्वाण की प्रवंचना में भ्रान्त नहीं होती।^{१=९} योग वही है जहाँ दोनों का एकात्म हो, द्वयता विवर्जित हो, ऐसा गुरु का उपदेश

तत्व-चिन्तन

है। १९० वास्तव में यही शून्य तथा करुणा समस्त ब्रह्माण्ड में मूल धर्म है। सारा विस्तार इन्हीं दोनों तत्वों का है जिसमें कि शून्य गगनोपम अभाव है, एकता है और करुणा उसका वैविध्य और विचित्रता। किन्तु निष्करुण शून्य-वृद्ध निर्मूल और शाखविहीन हो जाता है और उसका आश्रय लेने वाले की बाहें टूट जाती हैं। किन्तु जो इनको एक करके मानता है उसका फल भी अद्रव्य, या समरसता रूप में ग्रहण करता है वह भव-निर्वाण से मुक्त हो जाता है। १९१

उपरोक्त कथन में सरहपा ने यह आदेश दिया है कि इस तरु को एक ही करके मानो। अर्थात् शून्य और करुणा वास्तव में अभिन्न हैं। 'ए अभि-
रणा जो मुण्ड सो भवणिव्वाण विमुक्क।' इस अभिन्नता
चतुर्विध शून्य को उन्होंने पंचक्रम शून्य के ४ क्रमिक विकासों के सिद्धान्त
द्वारा प्रतिपादित किया था। १९२ नागार्जुनपाद की एक
संस्कृत कृति 'पंचक्रम' में चतुर्विध शून्य का रूप इस प्रकार समझाया गया
है—शून्य चार हैं शून्य, अतिशून्य, महाशून्य तथा सर्वशून्य। इनका भेद
कार्य-कारण शृङ्खला पर आधारित है। १९३ पहला शून्य आलोक ज्ञान प्रज्ञा है,
चित्त इसमें संकल्पाभिभूत रहता है और यह स्वभाव से परतन्त्र है। इस
अवस्था में यह मनजात ३३ दोषों से आच्छादित रहता है। इसकी समस्त मायाओं
में सर्वश्रेष्ठ माया स्त्री है जो इस शून्य प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। इसी को वाम
चन्द्रमण्डल का कमल या अकारादि बीजाक्षर भी कहते हैं। द्वितीय क्रम में
अतिशून्य है जो आलोक का आभास है, इसका स्वभाव परिकल्पित है, वह उपाय
है, दक्षिण है, सूर्यमण्डल है, वज्र है, पुरुष है और मन की पूर्वकथित २४
प्रकृतियों से आवेष्टित है। तृतीय क्रम में महाशून्य है जो आलोक तथा आलोका-
भास के युगनद्ध से उदित होता है। प्रज्ञोपाय, शून्यातिशून्य के युगनद्ध से यह
अवस्था आती है जिसे आलोकोपलब्धि कहते हैं वह परिनिष्पन्न स्वभाव की होती
है। किन्तु वह भी अविद्यारूप है क्योंकि उसमें भी दोष रहते हैं। तीनों क्रमों में
दोषों की कुल संख्या १०६ है। उन दोषों से भी मुक्त होने पर प्रज्ञोपाय अद्वैत
का सर्वशून्य रूप उदित होता है १९४ जो प्रज्ञोपाय के सहगमन से उद्भूत होने
के कारण सहज माना जा सकता है। क्योंकि यही सर्वशून्य परमतत्व है, आदि
अन्त से विहीन, गुणदोष रहित, भाव, अभाव से रहित तथा भावाभाव से भी
रहित।

कारहृपा ने अपने एक दोहे में महासुख की स्थिति वाले कमल के चार पाँखुरियाँ और ४ मृगाल बताये हैं।^{१९५} इन चार पत्रों और मृगालों को टीकाकार ने शून्य के चार रूप, शून्य, अतिशून्य, महाशून्य और सर्वशून्य बताया है।^{१९६} शत्रुपा भी एक स्थान पर प्रथम तीन शून्यों को अतिक्रमण कर सर्वशून्यरूपी नैरात्मा नैरामणि बालिका को कण्ठ लगाने का वर्णन करते हैं।^{१९७} इस प्रकार प्रज्ञा, उपाय, प्रज्ञोपाय तथा दोनों के सहगमन से उत्पन्न सहज को एक ही रूप मान कर सिद्धों ने चतुर्विध शून्य द्वारा सब का एक ही तत्व के क्रमिक विकास के रूप में चित्रित किया है। परमतत्व या सर्वशून्य या सहज तक पहुँचने के लिये प्रज्ञोपाय का समागम अनिवार्य है।^{१९८} सहज इसी से उद्भूत है। वह समस्त वासनाओं, क्लेशों, सुखदुःखादि संकल्पों और वेदनाओं से मुक्त है। ये सारे दोष तृतीय अवस्था तक समाप्त हो जाते हैं। इस प्रज्ञोपायोद्भूत सहज-भावना से सिद्धों ने अभी तक महायानी परम्परा से आगत समस्त तत्वों और सिद्धान्तों को प्रज्ञोपाय मूलक या मिथुनपरक रूप दे दिया।

प्रज्ञा तथा उपाय का युगनद्ध सिद्धों की चिन्तना और साधना की मूलभित्ति हो गई। उसे स्थान स्थान पर विभिन्न रूपकों में अभिव्यक्त किया गया है। भगवान् वज्रधर और भगवती नैरात्मा, चित्त-वज्र और नैरात्म-प्रज्ञोपाय स्वभाव वज्र और खसम, कुलिश और कमल, मणि और पद्म, शुक्र और रज, चन्द्र और सूर्य आदि रूपकों में इसी प्रज्ञोपाय सिद्धान्त का विस्तार है। ये सब युगनद्ध रूप में हैं। इनका स्वरूप मिथुन-परक है। प्रज्ञा तथा उसके अप्रस्तुत भग के प्रतीक हैं और उपाय तथा उसके अप्रस्तुत लिंग के प्रतीक हैं। इसके अनुसार महायान की भी नवीन व्याख्या दी गई और कहा गया कि महाप्रज्ञा और महाउपाय के युगनद्ध का प्रतिपादन करने से इसका नाम महायान पड़ा।^{१९९}

प्रज्ञा तथा उपाय को पुरुष और नारी के रूप में परिकल्पित करने की प्रवृत्ति उसी तान्त्रिक प्रवृत्ति का बौद्ध रूप था जो तत्कालीन प्रत्येक सम्प्रदाय में परमतत्व और उसकी परम शक्तियों की युग्म कल्पना के रूप में प्रकट हो रही थी। वज्र की ही भाँति इस कल्पना का भी अथर्ववेद की परंपरा से कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। किन्तु अथर्ववेद में स्थान स्थान पर पर्जन्य

मैथुन
कल्पना
का विकास

तत्व-चिन्तन

को पिता और पृथ्वी को माता रूप में परिकल्पित किया गया है जिससे शर की उत्पत्ति होती है।^{२००} चर्यापदों में करुणा का मेघ के रूप में वर्णन आया है।^{२०१} यद्यपि प्रज्ञा सदैव गगन के रूप में ही वर्णित है, गगन जिसमें मेघ विहार करता है और प्रवेश करता है जो शून्य रूप है ख-सम है। किन्तु पति पत्नी या नारी पुरुष के रूप में प्रज्ञा और उपाय का उल्लेख हमें विमलकीर्तिसूत्र में मिलता है जिसमें तान्त्रिक साधनाओं की अपेक्षा शुद्ध महायानी दृष्टि से प्रज्ञा की बोधिसत्वों की माता और उपाय की पिता रूप में परिकल्पना है। प्रज्ञा समता है, शून्यता है, उपाय नानात्व है, वैसे दोनों भिन्न नहीं, प्रज्ञा का ही सक्रिय रूप करुणा है किन्तु दोनों के समागम के बिना कभी भी महासत्वों (महापुरुषों) की उत्पत्ति नहीं होती।^{२०२} इस प्रकार प्रज्ञा और उपाय के पूर्वागत नारी-पुरुष रूपक को तान्त्रिक साधनाओं का आधार बना लिया गया और जहाँ पहले पारमिता नय में यह युग्म केवल बोधिसत्वों का उत्पादक था, वहाँ मन्त्रनय के विकसित रूप वज्रयान में वह तत्व और शक्ति, नारी और पुरुष, चित्त और खसम (शून्य), योगी और योगिनी के युग्म के रूप में समस्त सिद्धियों का प्रदायक माना गया और सिद्धों ने इसी से उद्भूत परिकल्पनाओं को 'सहज' की समवेत संज्ञा दी। विद्वानों ने सिद्धों की प्रज्ञोपाय भावना की एक विलक्षणता की ओर संकेत किया है^{२०३} जो उनके प्रज्ञोपाय सिद्धान्त को समस्त तान्त्रिक पद्धतियों से भिन्न एक विशिष्टता प्रदान करती है। शैवों, शाक्तों, वैष्णव तन्त्रों तथा ताओवादियों में भी जिनमें 'ताओ' पुरुष तथा 'ती' उसकी शक्ति मानी गयी है निष्क्रिय चरम तत्व-ज्ञान को पुरुष माना गया है और सृष्टि, विविधता और सक्रियता को स्त्री शक्ति। सिद्धों ने इस क्रम को उलट दिया है। वे अंतिम निष्क्रिय निस्संग सत्य, परमार्थ या तथता को प्रज्ञा परिकल्पित करते हैं और विविधता तथा सक्रियता का प्रतीक उपाय हैं। इस क्रम विपर्यय के पीछे क्या आधार हो सकता है इसका कोई संकेत विद्वानों ने नहीं किया है। यह कहा जा सकता है कि केवल साम्प्रदायिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण ऐसा हुआ है और अपनी विशिष्टता सिद्ध करने के लिये सिद्धों ने यह क्रम उलट दिया है। किन्तु यह क्रम विपर्यय का यथेष्ट कारण नहीं है। इसके लिये हमें वज्र के विकास की ओर ध्यान देना होगा जिस पर हम पिछले अध्याय में विचार कर चुके हैं। वज्र इन्द्र की कल्पना से बौद्ध धर्म में आया था और शची प्रज्ञा इन्द्र की पत्नी हैं। अतः उपाय वज्र का बोधक हो गया और प्रज्ञा वज्रवर की स्वामिनी। उधर करुणा को पुरुष रूप तथा प्रज्ञा को नारी रूप

महायान में ही प्रदान किया जा चुका था। अतः अपनी साम्प्रदायिक परम्परा का निर्वाह करते हुये उन्हें तान्त्रिक पद्धतियों का यह क्रम उलटना पड़ा।

कुछ विद्वानों ने वज्रयान की ऐसी भी शाखा का उल्लेख किया है जो परमतत्व या शून्यता को पुरुष रूप में मानते थे, किन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता^{२०४}। सिद्ध साहित्य में तो प्रज्ञा का नारी और उपाय का पुरुष रूप ही सर्वस्वीकृत है।

हम देख चुके हैं कि उपाय 'नानात्व' और सक्रिय प्रयास का बोधक है। उपाय या वज्र से तद्रूप हो जाने वाले साधक^१ को सिद्धों ने स्थान स्थान पर 'वीर' की संज्ञा दी है। कमल कुलिश साधना की प्रणाली में गुण्डरीपा अपने को कुन्दरु वीर कहते हैं।^{२०५} कुक्कुरीपा एक चर्या में कमल कुलिश योग का रहस्य जानने वाले को वीर कहते हैं।^{२०६} एक स्थान पर साधक को तथता रूपी खंग से शून्य वासनागारों पर प्रहार करने का रूपक मिलता है।^{२०७} सिद्धों का यह वीरतापरक रूपक वास्तव में बौद्ध परम्परा के अन्दर उपाय के पूर्व-इतिहास की ओर संकेत करता है। योगाचार में केवल षड्पारमिताएँ स्वीकृत थीं जिनमें उपाय कौशल नामक पारमिता नहीं थी और वीर्य नामक पारमिता में उपाय कौशल के लक्षण बताये गये थे।^{२०८} कालान्तर में पारमिताओं की संख्या में वृद्धि हुई और वीर्य के अतिरिक्त उपाय कौशल भी जोड़ दिया गया।^{२०९} किन्तु साधना में प्रज्ञा एक प्रमुख पारमिता के रूप में स्वीकृत हुई और बोधिचित्त में शेष ६ पारमिताएँ विलयित हो जाती थीं। कालान्तर में उपाय का प्रज्ञा के वर के रूप में विकास हुआ जिसमें वीर्य पारमिता के लक्षण भी जुड़ गये। इसीलिये उसे वज्रोपम भी कहा गया।^{२१०} दोहों की टीका में इसीलिये स्थान स्थान पर उपाय से समन्वित सहजोन्मुख चित्त को चित्त-वज्र कहा गया है। यह चित्त-वज्र सांगृत स्पन्द रूप है, शुक और रज से भूषित है।^{२११} इस चित्त-वज्र से ही प्रज्ञोपाय योग की साधना हो सकती है।^{२१२} इसी उपाय की कालचक्रयान में कालरूप में व्याख्या की गई। परमतत्व या आदिबुद्ध की दो मूर्तियाँ हैं। शून्यता और करुणा।^{२१३} इसमें से शून्यता रूप अज्ञेय रूप है, ज्ञान से परे अरूप। किन्तु समय, काल, अथवा सृजन शक्ति से समन्वित होकर वही अभिव्यक्त और ज्ञेय हो जाता है और उसे उपाय, करुणा अथवा काल कहते हैं।^{२१४} इस प्रकार उपाय के साथ वीर, वज्रकाल आदि की प्रतीक-योजना जुड़ गई। इसी प्रकार उपाय के अन्य प्रतीकों का भी आधार है जिस पर हम बाद में विचार करेंगे,

तत्त्व-चिन्तन

जिनमें इसे नौका, कुठार, मणि आदि प्रतीकों से अभिव्यक्त किया गया है। चूँकि इनका संगम प्रज्ञा से अनिवार्य है अतः उस साधक को जो इस प्रज्ञोपाय अद्वय योग को सिद्ध कर लेता है, परम सुरत वीर कहा गया है।^{२१५} इसी प्रज्ञोपाय के कारण सिद्धों की साधना भी मिथुन-परक हो गई थी और मन को भगवान और स्वसम शून्य को भगवती रूप में, प्रतिष्ठित करने का उपदेश मिलता है। उसी से रात दिन सहज की साधना होती है।^{२१६} भगवान और भगवती का यह स्वरूप सिद्धों के उपास्य देवताओं की योजना में भी मिलता है।

प्रज्ञापारमिता आदि के आधार पर विकसित यह अद्वय ज्ञान प्रज्ञोपाय युग-नन्द ही वास्तव में तथागत बुद्ध है और उसकी अविकल चित्त से उपासना करनी चाहिये। यह सिद्ध तिल्लोपा ने अपने दोहाकोष में स्पष्ट कहा है।^{२१७} सरहपा के टीकाकार भी सकल अशेष बुद्ध वज्रधर का संकेत करते हैं।^{२१८} शुद्ध भाव वाले साधक को समस्त जगत बुद्धमय जानना चाहिये।^{२१९}

समस्त जगत बुद्धमय है और यह जगत पंचस्कन्धों से निर्मित है तो तथागत के भी प्रत्येक स्कन्ध के आधार पर पाँच रूप होने चाहिए। उस दृष्टि से ही बौद्ध परम्परा में ५ ध्यानी बुद्धों की कल्पना की गई थी जिसे ये सिद्ध स्वीकार करते थे और उन्हें हृदयंगम करते थे। कृष्णाचार्य अपने चर्यापद में उन पाँचों तथागतों की परिभाषना कर महासुख नौका को ग्रहण कर साधना पथ पर अग्रसर होते हैं। वे पाँचों उस नौका के केडुआल हैं। पाँचों स्कन्धों के स्वामी पंच-तथागत ही जब केडुआल हैं तो अब पंचस्कन्धों से निर्मित यह संसार भला कृष्णाचार्य का क्या कर सकता है।^{२२०} इसीलिये क्षिति, जल, पवन, हुताशनादि से युक्त इस चित्त को पंच जिनों से वेष्टित करने का आदेश सरहपा भी देते हैं।^{२२१} ये पाँच तथागत वैरोचन आदि हैं।^{२२२} जो समस्त जगत में व्याप्त हैं और उनमें मिल कर एकीभूत होकर साधक भी वज्रधर शरीर को प्राप्त करता है। उसके काय, वाक्, चित्त सभी वज्र रूप हो जाते हैं।^{२२३} इन वैरोचन, अद्भोभ्य, रत्नसम्भव, अमिताभ तथा अमोघसिद्धि आदि की पाँच शक्ति-रूपिणी देवियों का सिद्धों की प्रज्ञोपाय साधना में विशेष महत्व है। क्रिया-समुच्चय में 'महासमय गीतिका' नामक पाँच दोहों का एक लघु संग्रह मिला है जिसके रचयिता का नाम तो नहीं मिलता।^{२२४} किन्तु उसके कुछ उद्धरण चर्यापदों की टीका में मिलते हैं।^{२२५} महासमय गीतिका ५ दोहों की है और वे दोहे भगवती नैरात्म्य योगिनी,

लोचना, मामन्ता, (मामकी) पाण्डुरा, (चण्डा) और तारा का आह्वान करने के लिये गाये जाते हैं। उनके साथ नृत्य भी होना अनिवार्य है। वास्तव में वे भगवान को शुक और उनके सुख को कामिनी मानते थे।

समस्त उत्तरी महायानी बौद्ध धर्म इन बुद्धों और इनकी देवियों की युगनद्ध की भावना से अभिभूत है। वास्तव में धर्म, बुद्ध और संघ का त्रिरत्न भी इसी युगनद्ध के सिद्धान्त में ढाल दिया गया। प्रज्ञा धर्म है, युगनद्ध उपाय बुद्ध है, संघ दोनों का युगनद्ध है। इसके लिये दो धातुओं की कल्पना की गई। प्रज्ञा के लिये गर्भधातु और उपाय के लिये वज्र धातु। ये ही दोनों मिलकर मण्डल चक्र का निर्माण करते हैं। नेपाल में इस युगनद्ध को चन्द्र से उठती हुई अग्निशिखा के रूप में चित्रित करते हैं, तिब्बत में एक पात्र में स्थित अशोक की शाखा के रूप में तथा चीन में समागम करती हुई मूर्तियों के रूप में।^{२२६}

इस प्रकार त्रिकाय सिद्धान्त द्वारा बुद्ध के दिव्यरूप की जाँ परम्परा महायानी आचार्यों ने प्रारम्भ की थी उसका चरम विकास सिद्धों में हुआ। महायानी आचार्यों ने बुद्ध की तीन कायाओं के मूल में तीन धातुओं की कल्पना की थी जो सिद्धों को मान्य थी।^{२२७} रूप धातु से निर्मित निर्माण काया, कामधातु से सम्भोग काया और धर्मधातु से धर्मकाया। धर्मधातु से वे 'तथता' का अर्थ लेते थे।^{२२८}

सिद्धों ने इन तीन कायाओं को स्वीकृत किया किन्तु प्रज्ञोपाय सिद्धान्त की प्रतिष्ठा इस दिशा में भी करने के लिये उन्होंने एक चतुर्थ काया की प्रतिष्ठा की जिसे वे स्वभावकाया, वज्रकाया, सहजकाया या महासुख काया कहते थे।^{२२९} इन चारों कायाओं में सहजकाया सर्वश्रेष्ठ थी। क्योंकि इसी में तथागत अपने उपाय रूप में प्रतिष्ठित होते हैं और उनका प्रज्ञा से एकात्म रहता है। युगनद्ध की काया यही सहजकाया है। यह समस्त द्रव्यताओं और क्लेशादि मलावरणों से निरावृत्त शुद्ध सहज रूप होती है अतः इसी को निरंजन कहते हैं।^{२३०} बुद्ध की इस सहजकाया का रहस्य केवल सिद्धों को ज्ञात था। पुराने बौद्ध सम्प्रदायों के आचार्य इसे नहीं जानते, इसीलिये उनका परमार्थ ज्ञान का गर्व सर्वथा भ्रान्ति है

तत्व-चिन्तन

क्योंकि वास्तविक परमार्थ तो यही बुद्ध का सहजकाया स्थित निरंजन रूप है जिसमें करोड़ों साधकों में से कोई एक ही लीन हो पाता है।^{२३१}

देवताओं को सिद्धों ने प्रज्ञोपायात्मक स्वभाव का माना है। जब वे प्रज्ञोपायात्मक हैं, सहज रूप हैं तो उनकी उपसना का एक ही रूप हो सकता है, अपने चित्त को प्रज्ञोपायात्मक बनाना, सहज बनाना। अपने में और बुद्ध में अद्वय स्थापित करना और यह सोचना कि मैं ही बुद्ध हूँ।^{२३२} अपने मन को बुद्ध तथागत के लिये प्रेरित कर दिन रात प्रज्ञोपायात्मक मिथुनपरक सहज रूप में रहना चाहिये।^{२३३} यही प्रज्ञोपाय समाधि का लक्ष्य है जिससे अनुत्तर की सिद्धि होती है।^{२३४} इसीलिये साधनमाला में साधक को सदैव वज्रात्मक स्वभाव की कामना करते दिखाया गया है। जब साधक वज्र स्वभाव धारण कर नैरात्म्य-ज्ञान से मुक्त होकर प्रज्ञोपायात्मक सहज रूप हो जाता है तब वह स्वतः बुद्ध हो जाता है,^{२३५} निरंजन हो जाता है। स्वतः को बुद्ध मान कर क्रियाएँ करना अहंकार साधना है।^{२३६}

ऐसी परिस्थिति में वह कामचारी हो जाता है, कुछ भी कर सकता है क्योंकि वह स्वतः बुद्ध है, स्वामी है। उसका समस्त राग और द्वेष परावृत होता है। योगाचार में ही इस कल्पना का विकास हो चुका और सिद्धों के समकालीन आचार्य इन्द्रभूति जिस प्रकार ऐसे बुद्धमय योगी को कामचारी^{२३७} कहते हैं उसी प्रकार असंग भी उसे कामचारी कहते हैं।^{२३८} इसी को सिद्ध सहज रूप में 'रहना' कहते हैं जिसमें पाप और पुण्य नहीं व्याप्त होता।^{२३९} किन्तु यह सब स्वतः को बुद्ध मान कर करना चाहिये, उसे वज्र वाक्य बोलना चाहिये, वज्रसत्य के रूप में रहना चाहिये। उस परिस्थिति में नृत्य, गीत, वास, पुष्पमालादि भूषण, चमर, छत्र आदि से अपनी पूजा भी करा सकता है, उपभोग कर सकता है। यदि वह यह स्मरण रखे कि सर्व बुद्धमय है तो वह सुगन्धि आदि में लित आत्म-सन्तुष्ट रह सकता है, ब्रती, मुण्डी, गृहस्थ, सेवक, राजा किसी भी रूप में वह स्थित रह सकता है।^{२४०} किन्तु इसके लिये अनिवार्य है कि वह प्रज्ञोपाय समाधि के द्वारा अनुत्तर की सिद्धि कर ले और सहज स्वभाव को धारण कर ले।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धों का तत्व-चिन्तन आचारोन्मुख है वह शून्यवाद की तटस्थता का निषेध कर विज्ञानवाद के योगचार की परम्पर ग्रहण करता है और तथता या शून्य की साधना तत्कालीन समस्त तान्त्रिक पद्धतियों की भाँति परम तत्व और उसकी शक्ति के अद्वय रूप में, सहज रूप में प्रज्ञोपायात्मक है, मिथुन-परक है। उपाय रूपी चित्त का शून्य या नैरात्मा रूपी भगवती से योग, यही वह साधना है जिसकी पीठिका-स्वरूप सिद्धों के समस्त तत्व-चिन्तन ने, प्रज्ञोपायात्मक रूप धारण किया है। अब हम उनकी साधना पर दृष्टिपात करेंगे।

ख साधना-पद्धति (१)

सिद्धों ने चूँकि चित्त को ही वज्रसत्व का रूप और भगवान माना था और साधक को वज्र स्वभाव ग्रहण करने का आदेश दिया था अतः उनकी साधनापद्धति का केन्द्रविन्दु चित्त ही है जिसे वे संकल्पात्मक मोहजाल से मुक्त कर सहज रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। साधना का केन्द्र-विन्दु बोधिचित्त जव तक चित्त में सहज-बोधि नहीं जाग्रत होती तव तक वह चंचल रहता है और काल में प्रवेश कर जाता है। उसे दृढ़ (वज्र-रूप) करना अभीष्ट है।^१ इस चंचल संकल्पाभिनिविष्ट चित्त^२ की उपमा भुसुकुपा चूहे से देते हुए कहते हैं—‘अन्धेरी रात में चंचल उन्मुक्त मन रूपी मूषक स्वच्छन्द विचरण करता है। यह चंचल मूषक रूपादि स्कन्धों का भक्षण कर विनष्ट हो जाता है और अमृत-तत्व को भी दूषित कर देता है। इस पवन सरीखे चंचल मूषक को योगी लोग मार कर गमनागमन से मुक्ति पाते हैं। जब इस मूषक का मुक्त विचरण समाप्त होता है तभी भव-बन्धन से योगी मुक्त हो जाता है।’^३

किन्तु यही मूषकरूपी संकल्पाभिनिविष्ट चित्त जब नैरात्मज्ञान के प्रति जाग्रत होकर उपाय से समन्वित हो जाता है तो वह बोधचित्त हो जाता है और उसे सिद्ध नलिनीवन में प्रवेश करने वाले गजेन्द्र की उपमा देते हैं जो ज्ञानामृत पान कर पंच-इन्द्रिय-विषयों का नायक कामचारी बन जाता है।^४

सिद्धों ने बोधिचित्त के दो रूप बताये हैं। पहला है प्रज्ञोपायात्मक मार्ग में प्रवृत्त होने के पूर्व, जो सम्वृत्त और स्पन्द रूप है और दूसरा प्रज्ञोपायात्मक मार्ग में प्रवृत्त होने के बाद, जो चित्त का वज्र-रूप है।

इसी को संधाभाषा में उलटवाँसी शैली में देण्डरणा बैल द्वारा प्रसव और गो के बन्ध्यात्व के रूपक में अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात् जब तक बोधचित्त नैरात्म्य से संग नहीं करता तब तक वह बलद के रूप में रहता है और उससे संसार उत्पन्न होता रहता है। जब वह ज्ञान प्राप्त कर ख-सम या नैरात्मा रूप गाय हो जाता है तब वह संसार का उच्छेद कर बन्ध्या हो जाता है। बोधचित्त के पहले रूप को सांवृत स्पन्द रूप कहा गया है।^५ इन दोनों विशेषणों को समझ लेना आवश्यक है। सम्वृत सत्य परमार्थ सत्य के विपरीत भवज्ञान रूपी सत्य को कहते हैं।^६ इस अवस्था में बोधचित्त संसार-लित और सम्वृत रहता है। स्पन्द के अर्थ 'चलनशील' हैं। 'रन्द' वास्तव में त्रिकवादी काश्मीरी शैवों का शब्द है।^७ और अभिनवगुप्त इससे मन की उस अवस्था का बोध कराते हैं जिसमें वह 'किंचिच्चलनशील' रहता है और ग्रहम-संलग्न होने के कारण उसमें नानात्व का आभास रहता है।^८ सिद्ध 'स्पन्द' शब्द का अर्थ 'किंचिच्चलनशील' ही लेते हैं और क्योंकि चलनशील चित्त से उनका तात्पर्य भव-निमज्जित चित्त से है। अतः साम्वृत स्पन्द रूप में भी बोधचित्त में थोड़ी सी चंचलता या भवचेतना रह जाती है जिनके कारण उसके च्युत होकर साधनास्खलित होने का भय रहता है। काण्हुपा ने स्पष्ट कहा है कि शुक्रद्रवाकार विमल सलिल रूपी बोधचित्त भी सूख जाता है यदि उसमें कालाग्नि पैठ जाय।^९ किन्तु इस साम्वृत स्पन्द शुक्रद्रवाकार चित्त को नैरात्म्यज्ञान रूपी रज से युक्त कर देने पर यही चित्त 'वज्र' हो जाता है।^{१०} इस प्रज्ञोपाय युगनद्ध के कारण इसको सहज-चित्त भी कहते हैं।

विज्ञानवाद में चित्त को भवजाल से मुक्त कर करुणा से समन्वित कर साधना के लिये अप्रसर करने की प्रणाली को समुत्पाद कहा जाता था। उसको वे साधना का महारम्भ, चित्त का महाउदय तथा साधक का बोधिचित्त महाउत्साह कहते थे।^{११} इस समुदित करुणा-समन्वित महा-समुत्पाद चित्त के लिये वे पृथ्वी, रत्नाकर, चिन्तामणि, नौका तथा मेघ आदि के रूपों^{१२} का प्रयोग करते थे जिसमें से कई अप्रस्तुत सिद्धों ने भी अपने चर्यापद में प्रयुक्त किये हैं।^{१३} किन्तु समुत्पाद की भावना सिद्धों के साहित्य में इस रूप में नहीं आती। केवल एक स्थान पर चित्त-वृत्तियों के अस्त के बाद शीतल रजनी का उदय चित्रित है, वह रजनी प्रज्ञा या शून्य की

साधना-पद्धति

रजनी है, उसी को प्रज्ञाज्ञानाभिधेक-दान का समय भी कहते हैं। उसी में कमल या महाउष्णीष कमल का विकास होता है।^{१४} इसी रात्रि के कारण बोधिचित्त की नवचन्द्र के रूप में कल्पना की गई है।^{१५}

सिद्धों ने इस बोधिचित्त समुत्पाद के लिये चार शब्द प्रयुक्त किये हैं। पहला है 'विशोधन' दूसरा है 'हनन्'। इन दोनों के पीछे एक तान्त्रिक परम्परा थी जैसा हम आगे देखेंगे। इनके अतिरिक्त कहीं कहीं 'स्थिरीकरण'^{१६} या 'दृढीकरण'^{१७} का भी प्रयोग है। 'स्थिरीकरण' तो चित्त की चपलता के कारण प्रयुक्त है। इस चंचलता का उल्लेख पहले किया जा चुका है। उसे दृढ़ भी इसीलिये कहा गया है कि बोधिचित्त च्युत नहीं होता।

किन्तु सिद्धों ने जिस शब्द का विशेष प्रयोग किया है वह है 'चित्त विशोधन'। सरहपा इस चित्त को महासुख द्वारा शोधनीय बताते हैं।^{१८} तिल्लोपा भी चित्त को सहज ज्ञान से शोधित करने का उपदेश देते हैं^{१९} और दोनों ही इसके द्वारा मोक्ष की सिद्धि बताते हैं।

यह 'विशोधन' शब्द वास्तव में रसायन शास्त्र और उस पर आधारित वज्रयान में प्रयुक्त प्राचीन परम्परागत शब्द है जो तान्त्रिक सम्प्रदायों में पारे के विशोधन तथा उसके द्वारा काया के अजरत्व और अमरत्व की प्राप्ति के सन्दर्भ में प्रयुक्त होता था।^{२०} पिछले अध्यायों में हम देख चुके हैं कि रसेश्वर सम्प्रदाय में अभ्रक को पार्वती का रज तथा पारे को शिव का शुक्र मानकर रस साधना की जाती थी और उससे अमर शरीर की प्राप्ति की कल्पना की जाती थी। रसेश्वर सम्प्रदाय की प्राचीनता के किसी निश्चित प्रमाण के अभाव में यह कहना तो उचित न होगा कि सिद्धों ने यह कल्पना रसेश्वर सम्प्रदाय से ग्रहण की है, किन्तु धातुओं के विशोधन द्वारा अमरत्व या स्वर्ग की प्राप्ति की परम्परा से ही यह शब्द सिद्धों ने तथा उनके समकालीन आचार्यों ने ग्रहण किया है, इसमें कोई सन्देह नहीं। कहीं कहीं तो उन रासायनिक प्रक्रियाओं का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है जिनमें रस स्पर्श से ताम्र के स्वर्ण बनाने का या मधु तथा घृत के रसायन रूप सेवन का विधान है।^{२१}

सिद्धों ने इसको दूसरे अर्थ में प्रयुक्त किया है। बुद्ध की तीन कायाओं में से परम्परागत सर्वमान्य धर्मकाया धर्म-धातु से निर्मित होती है। धर्मधातु अजर,

अमर तथा अक्षय है। मन को बुद्ध की धर्मकाया तथा सहजकाया में लीन बुद्धत्व ग्रहण करने का उपदेश बराबर सिद्धों ने दिया है।^{२२} इस विश्व प्रक्रिया से चित्त धर्मकाया में लीन हो जाता है, निःस्वभाव हो जाता है और सहजकाया में अमरता प्राप्त हो जाती है। अमरता वास्तव में मरण का निषेध और मरण केवल शून्यता के अज्ञान से होता है। शून्यता के ज्ञान के पर-तो साधक जान जाता है कि न मरण है न उत्पत्ति, 'प्रतीत्य समुत्पाद' के सिद्धों से सभी वस्तुएं निःस्वभाव हैं, नैरात्म्य हैं। इसी ज्ञान के द्वारा^{२३} धर्मधा प्रवेश करना ही अमरत्व है। अतः रसायन शास्त्र में धातुओं के परिशोधन सिद्धों ने बुद्ध-काया के धातु परिशोधन के अर्थ में ग्रहण किया है।

किन्तु यह परिशोधन की क्रिया बड़ी ही भ्रान्तिपूर्ण है और जो इसे भँति नहीं जानता है वह नष्ट हो जाता है। इसीलिये सरहपा साधकों को न-वनी देते हुए कहते हैं कि 'ओ वत्सो इस रसरसायन का भेद तो पहले समझ-सब लोग तो उसे पढ़ते मात्र हैं उसका शोधन कोई भी नहीं जानता।^{२४} वा-में अजर अमर वह है जो जीवन का उपभोग करते हुए भी वृद्ध नहीं होता'। इसीलिये काणहपा कहते हैं कि जो सहज में अपने मन को निश्चल कर लेते-वह सिद्ध होता है और उसे जरामरण का भय नहीं रहता। महामुद्रा से-करने के लिये ऐसा ही रसायन सिद्ध समर्थ है।^{२६}

किन्तु लोकप्रचलित धातु को स्वर्ण बनाने वाली रसायन साधना को नि-लोग त्याज्य समझते थे क्योंकि वास्तविक धातु तो धर्मकाया की धर्मधातु है। इसीलिये सरहपा अपने चर्यापद में कहते हैं कि :

'लोक स्वतः निर्वाण और भव की रचना करते हैं और उसमें बँध-फिर दुखी होते हैं। जो नैरात्म्यज्ञान को जानता है वह मरण और जन्म में क-अन्तर नहीं समझता। अतः वह अमर हो जाता है। जो जन्म और मरण-भ्रान्ति में पड़ा रहता है ऐसा योगी ही लौकिक स्वर्ण-सिद्धि के लिये रसायन शं-में पड़ा रहता है।^{२७} वास्तव में यह तो नैरात्म्यज्ञान के रस द्वारा चित्त के विश-धन की प्रक्रिया है। यह नैरात्म्यज्ञान का रस बहुत रहस्यमय है। इसीलि-सरहपा पुनः कहते हैं कि पुत्रों यह तो प्रज्ञोपाय या सहज-तत्व रूपी विचित्र रस-इसका वर्णन ही नहीं हो सकता।'^{२८}

विशोधन के अतिरिक्त सिद्धों द्वारा प्रयुक्त दूसरा शब्द है हनन् अर्था

साधना-पद्धति

मन का हनन् । चर्यापदों की रूपक-प्रधान शैली में चित्त के हनन् को चंचल मूषक के हनन् तथा शतरंज की गोटी के हनन् के रूपकों में चित्त का हनन् व्यक्त किया गया है । सुसुकुपा इस चंचल चित्त रूपी मूषक को मारने का आदेश योगियों को देते हैं ताकि वे 'श्रवणा गवणा' से मुक्ति पा सकें ।^{२९} कृष्णपा करुणारूपी पीढ़िका पर साधनारूपी शतरंज खेलते हुए ठाकुर को मति द्वारा (वज़ीर द्वारा) पराजित करने का उल्लेख करते हैं ।^{३०} मति के अर्थ टीका में प्रज्ञापारमिता ज्ञान तथा ठाकुर का अर्थ चित्त बताया गया है । चित्त रूपी ठाकुर के मारे जाने का अर्थ है चित्त का परि-निर्वाण में स्थित होना ।^{३१} तिल्लोपा अपने दोहों में निर्वाण द्वारा चित्त का हनन् कर उसे मारने का उपदेश देते हैं ।^{३२} जब वह मर जाता है तब वह पवन में लीन हो जाता है ।^{३३} महामुद्रा की साधना के लिये इस चित्त का मारना और निर्मूल कर देना अनिवार्य है ।^{३४} इस प्रसंग में मारने या हनन् करने का भी एक परम्परागत रासायनिक अर्थ ही है ।

रसेश्वर सम्प्रदाय में परम्परागत रासायनिक प्रक्रियाओं के आधार पर मन को पारद की संज्ञा दी गई थी । वह चंचल है । उसे बढ कर उस को मृत कर दिया जाता था और विशोधन की प्रक्रिया से स्थिर और निश्चल हो जाने वाले पारे को मूर्छित, और शुद्ध पारा कहते थे और तब उसका अभ्रक से संयोग कराया जाता था जो गौरी का रज है ।^{३५} इस पारे के हनन और विशोधन में पवन विशेष साधन था । पवन में लीन बद्ध-पारा मनुष्य साधक को उड़ने की शक्ति दे देता था । सिद्धों ने भी मृत चित्त की पवन में लीन होने की बात कही है । जिससे उनका अर्थ वज्र चित्त को कमल तक ले जाने वाली श्वास-प्रक्रिया से है । तथा मृत्यु का विकल्प करने वाले इस चित्त को खेचरी पद भी प्राप्त हो जाता है । बौद्ध अष्ट महासिद्धियों में भी रसरसायन के बाद ही खेचरी की गणना की गई है । इससे स्पष्ट है कि चित्त के हनन से भी सिद्धों का तात्पर्य रासायनिक प्रक्रिया में वर्णित पारे के रूक से चित्त को हठयोग में प्रवृत्त करना है ।

पुरानी बौद्ध परम्परा में इसी प्रक्रिया को अमनस्कार, या अमनसिकार साधना कहते थे । सिद्धों ने इस शब्द को भी अपनाया है और उसका प्रचुर प्रयोग किया है । प्रबुद्ध साधक को उन्होंने स्वतः को 'भवभंजन अमनसिकार' मानने का उपदेश दिया है ।^{३६}

इस अमनस्कार साधना का योगाचार में ही विधान मिलता है। असंग के मन्त्राचार के विचार में ही अमनस्कार प्रणाली का विवेचन है।^{३०} इस अमनस्कार की व्यवस्था करने हुए हरिभद्र कहते हैं कि यह बोधिसत्व मन का स्वभाव है। जैसे अमनस्कार के अर्थ वाक्य में 'मनस्कार' का विरोधी स्वभाव है। मनस्कार की कल्पना महायोगी सम्प्रदायों में इस प्रकार विकसित हुई है। सर्वास्ति-वादी मनस्कार को पञ्चभूमिक चैत धर्मों में से एक मानते थे जिसका अर्थ था सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होना।^{३१} विज्ञानवादियों ने इसे व्यापक चैत धर्मों में से प्रमुखतया तथा सर्वप्रथम माना और वह केवल एक प्रवृत्ति न रह कर मन की सभी वृत्तियों को परिचालित करने वाली मूल प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार की गई।^{३२} अतः अमनस्कार साधना का उपदेश दिया गया जिसके द्वारा वह उस मूल मनस्कार वृत्ति से दृढकाया जा जाता है जो पंचस्कन्धादि चित्त के विकार रूपा संसार में जीविसत्तों को प्रवृत्त करती है।

मिद्धों के संज्ञाकार भी इसकी अमन संज्ञा देते हैं और इसकी व्याख्या 'न मनस्विनाप्येव अमनस्कारः' इस प्रकार कहते हैं।^{३३} सरहपा भी इस मन को 'अमन' करने का उपदेश देते हैं और सहज स्वभाव में स्थित करने का उपदेश देते हैं।^{३४}

किन्तु यह अमनस्कार की साधना केवल निषेधात्मक साधना नहीं थी। इसके बाद साधक विरक्त नहीं होता था। वह फिर भी विषयों में रमता था, समस्त कार्यों में भाग लेता था किन्तु विशुद्ध मन से। इसके लिये वे प्रख्यात परम्परागत जल और कमल की उपमा देते थे। सरहपा कहते हैं कि विषयों में रमण करने हुए भी विषयों में निम्न न हो जैसे उत्पल जलतरंगों पर विकसित होता है किन्तु जल से निर्निमित्त रहता है।^{३५}

वास्तव में मिद्धों के मार्ग में कहीं भी मन की वृत्तियों को सर्वथा निर्मूल कर वैराग्ययुक्त, निर्वृत्तिमय साधना का उपदेश नहीं है। वे जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकार करना चाहते थे और राग का शुद्ध रूप पहचानने का आग्रह करते थे। इसीलिये उन्होंने सांसारिक राग का तो परि-
राग और त्याग करने का उपदेश दिया ही है किन्तु निवृत्तिमूलक, निषे-
महाराग धात्मक, निराशावादी विराग को भी बन्धन का कारण बता कर उसके भी परित्याग का उपदेश दिया है।^{३६} इस प्रकार सांसारिक राग का^{३५}

साधना-पद्धति

परित्याग कर और विराग का भी परित्याग कर उस राग का स्वरूप पहचानना चाहिये जो मोक्ष का कारण है। वह राग उस तरुणी महासुद्रा ज्ञानरूपी प्रज्ञा के प्रति स्नेह के रूप में है, उसके बिना इस जन्म में तो बोधि की उपलब्धि नहीं हो सकती और न बोधिचित्त की साधना हो सकती है।^{४६} क्योंकि बोधिचित्त तो शून्यता और करुणा के अद्रव्य से सिद्ध होता है और राग ही करुणा है।^{४७} यदि राग नहीं रहा तो केवल शून्यताज्ञान कुछ नहीं कर सकता। संबोधि का वास्तविक लक्षण तो महाराग ही है।^{४८} राग करुणा का प्रतीक होने से वज्र है, उपाय है और महासुद्रा की साधना उसके बिना सम्पन्न नहीं हो सकती।^{४९} चूँकि राग करुणा का प्रतीक है और शून्यता से संग करने के लिये उन्मुख है अतः उसे वज्र राग कहा गया है।^{५०} जो वज्र स्वभाव धारण कर लेता है, उसे यही वज्र राग (महासुद्रा के प्रति अनुरक्त होने से महाराग) बन्धन से मुक्त कर देता है, यद्यपि यही राग सांसारिक बुद्धि से ग्रहण किये जाने पर बन्धन का कारण होता है। इस प्रकार राग को सिद्धों ने राग द्वारा ही परिशमित करने का प्रयास किया था। यही उनके जीवन-दर्शन की मूल भित्ति थी।^{५१}

किन्तु इस महारागयुक्त सहज-बोधि का समुत्पाद गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के बिना असम्भव है। इसीलिये सिद्धों की साधना पद्धति में समस्त तान्त्रिक पद्धतियों की ही भाँति गुरु का अद्भुत महत्व है। गुरु के प्रति अपनी अटल भक्ति का प्रमाण सिद्धों ने कई प्रकार से दिया है। तिलोपा कहते हैं कि समस्त लोक तथा पंडितों के लिये भी परमतत्व अगम अगोचर है। किन्तु गुरु के प्रसन्न होने पर कौन ऐसी वस्तु है जो अगम रह जाय।^{५२} आगमन तथा निगमन से रहित 'तथता' केवल गुरु के ही उपदेश से हृदय में प्रविष्ट हो सकती है।^{५३}

सरहपा भी सदगुरु के वचनों से ही परम गुह्य सत्य का स्फुट रूप से प्रतिभासित होना मानते हैं।^{५४} वह परम तत्व इस प्रकार नहीं दीख पड़ता किन्तु केवल एक गुरु ऐसे हैं जो उसे प्रदर्शित कराते हैं।^{५५} साधक तो मूर्ख बालक के समान है जो जगतप्रवाह में बहता चला जा रहा है किन्तु यदि गुरु के वचन हृदय में प्रवेश कर जायं तो निश्चित रूप से साधक को इष्ट हस्तगत हो जाता है।^{५६} जहाँ इन्द्रियाँ अपना धर्म छोड़ कर प्रज्ञोपाय में विलयित हो जाती हैं उस सहज तनु, उस महासुखकाया का भेद गुरु से ही पूछ कर स्पष्ट जाना जा

इस अमनस्कार साधना का योगाचार में ही विधान मिलता है। असंग के महायान-सूत्रालंकार में ही अमनसिकार प्रणाली का विवेचन है।^{३७} इस अमनसिकार की व्याख्या करते हुए हरिभद्र कहते हैं कि यह बोधिसत्व मन का स्वभाव है।^{३८} अमनस्कार के अर्थ वास्तव में 'मनस्कार' का विरोधी स्वभाव है। मनस्कार की कल्पना महायानी सम्प्रदायों में इस प्रकार विकसित हुई है। सर्वास्तिवादी मनस्कार को दशभूमिक चैत धर्मों में से एक मानते थे जिसका अर्थ था सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होना।^{३९} विज्ञानवादियों ने इसे व्यापक चैत धर्मों में से प्रमुखतम तथा सर्वप्रथम माना और वह केवल एक प्रवृत्ति न रह कर मन की सभी वृत्तियों को परिचालित करने वाली मूल प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार की गई।^{४०} अतः अमनसिकार साधना का उपदेश दिया गया जिसके द्वारा वह उस मूल मनस्कार वृत्ति से छुटकारा पा जाता है जो पंचस्कन्धादि चित्त के विकार रूपी संसार में बोधिसत्वों की प्रवृत्त करती है।

सिद्धों के टीकाकार भी इसकी अमन संज्ञा देते हैं और इसकी व्याख्या 'न मनसिक्रियते इति अमनसिकारः' इस प्रकार कहते हैं।^{४१} सरहपा भी इस मन को 'अमन' करने का उपदेश देते हैं और सहज स्वभाव में स्थित करने का उपदेश देते हैं।^{४२}

किन्तु यह अमनस्कार की साधना केवल निषेधात्मक साधना नहीं थी। इसके बाद साधक विरक्त नहीं होता था। वह फिर भी विषयों में रमता था, समस्त कार्यों में भाग लेता था किन्तु विशुद्ध मन से। इसके लिये वे प्रख्यात परम्परागत जल और कमल की उपमा देते थे। सरहपा कहते हैं कि विषयों में रमण करते हुए भी विषयों में लिप्त न हो जैसे उत्पल जलतरंगों पर विकसित होता है किन्तु जल से निर्लित रहता है।^{४३}

वास्तव में सिद्धों के मार्ग में कहीं भी मन की वृत्तियों को सर्वथा निर्मूल कर वैराग्ययुक्त निवृत्तिमय साधना का उपदेश नहीं है। वे जीवन को ज्यों का त्यों स्वीकार करना चाहते थे और राग का शुद्ध रूप पहचानने का राग और महाराग त्याग करने का उपदेश दिया ही है किन्तु निवृत्तिमूलक, निषेधात्मक, निराशावादी विराग को भी बन्धन का कारण बता कर उसके भी परित्याग का उपदेश दिया है।^{४४} इस प्रकार सांसारिक राग का^{४५}

साधना-पद्धति

परित्याग कर और विराग का भी परित्याग कर उस राग का स्वरूप पहचानना चाहिये जो मोक्ष का कारण है। वह राग उस तरुणी महासुद्रा ज्ञानरूपी प्रज्ञा के प्रति स्नेह के रूप में है, उसके बिना इस जन्म में तो बोधि की उपलब्धि नहीं हो सकती और न बोधिचित्त की साधना हो सकती है।^{४६} क्योंकि बोधिचित्त तो शून्यता और करुणा के अद्रव्य से सिद्ध होता है और राग ही करुणा है।^{४७} यदि राग नहीं रहा तो केवल शून्यताज्ञान कुछ नहीं कर सकता। संबोधि का वास्तविक लक्षण तो महाराग ही है।^{४८} राग करुणा का प्रतीक होने से वज्र है, उपाय है और महासुद्रा की साधना उसके बिना सम्पन्न नहीं हो सकती।^{४९} चूँकि राग करुणा का प्रतीक है और शून्यता से संग करने के लिये उन्मुख है अतः उसे वज्र राग कहा गया है।^{५०} जो वज्र स्वभाव धारण कर लेता है, उसे यही वज्र राग (महासुद्रा के प्रति अनुरक्त होने से महाराग) बन्धन से मुक्त कर देता है, यद्यपि यही राग सांसारिक बुद्धि से ग्रहण किये जाने पर बन्धन का कारण होता है। इस प्रकार राग को सिद्धों ने राग द्वारा ही परिशमित करने का प्रयास किया था। यही उनके जीवन-दर्शन की मूल भित्ति थी।^{५१}

किन्तु इस महारागयुक्त सहज-बोधि का समुत्पाद गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के बिना असम्भव है। इसीलिये सिद्धों की साधना पद्धति में समस्त तान्त्रिक पद्धतियों की ही भाँति गुरु का अद्रुसुत महत्व है। गुरु के प्रति अपनी अटल भक्ति का प्रमाण सिद्धों ने कई प्रकार से दिया है। तिलोपा कहते हैं कि समस्त लोक तथा पंडितों के लिये भी परमतत्व अग्रम अगोचर है। किन्तु गुरु के प्रसन्न होने पर कौन ऐसी वस्तु है जो अग्रम रह जाय।^{५२} आगमन तथा निगमन से रहित 'तथता' केवल गुरु के ही उपदेश से हृदय में प्रविष्ट हो सकती है।^{५३}

सरहपा भी सद्गुरु के वचनों से ही परम गुह्य सत्य का स्फुट रूप से प्रतिभासित होना मानते हैं।^{५४} वह परम तत्व इस प्रकार नहीं दीख पड़ता किन्तु केवल एक गुरु ऐसे हैं जो उसे प्रदर्शित कराते हैं।^{५५} साधक तो मूर्ख बालक के समान हैं जो जगतप्रवाह में बहता चला जा रहा है किन्तु यदि गुरु के वचन हृदय में प्रवेश कर जायं तो निश्चित रूप से साधक को इष्ट हस्तगत हो जाता है।^{५६} जहाँ इन्द्रियाँ अपना धर्म छोड़ कर प्रज्ञोपाय में विलयित हो जाती हैं उस सहज तनु, उस महासुखकाया का भेद गुरु से ही पूछ कर स्पष्ट जाना जा

सकता है।^{५७} केवल गुरु के वचनों से ही सत्य पर प्रत्यय किया जा सकता है।^{५८} यही नहीं साधना पद्धति में भी गुरु की सहायता अनिवार्य है। गुरु द्वारा प्रदत्त बोध से ही चित्त का निरोध और पवन का श्वास निरोध होता है।^{५९} गुरु के उपदेश से ही साधक अजर और अमर हो जाता है।^{६०} विरले ही यह भेद जानते हैं कि गुरु के उपदेशों से ही पुण्यों की प्राप्ति होती है।^{६१} वास्तव में सद्गुरु के वचन तो भवसागर के पार उतारने वाली नौका के पतवार हैं जिन्हें धारण कर साधना प्रारम्भ की जाती है।^{६२}

शबरपा अपनी रूपक शैली में गुरु के वचनों को धनुष मानते हैं जिस पर उन्होंने अपने बोधचित्त रूपी बाण का सन्धान कर एक ही बार में भव और निर्वाण दोनों को वेध दिया है।^{६३} लुईपा भी समस्त ज्ञान की गुरु से ही प्राप्ति बताते हैं।^{६४} काण्ठपा भी वज्ररूपी कुठार से भवरूपी वृक्ष का उन्मूलन करने का पक्ष लेते हैं।^{६५}

सिद्धों के उपरोक्त कथनों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि गुरु के महत्व के निम्नलिखित कारण हैं :

- क. गुरु जगतप्रवाह में बहते साधक को निरुद्ध कर लेता है।
- ख. जो तत्व शिष्य अपनी अज्ञानता के कारण नहीं ग्रहण कर पाता वह गुरु की प्रसन्नता से सहज में ही प्राप्त हो जाता है।
- ग. साधना में गुरु के वचन पतवार के समान रहते हैं। वह शिष्य की साधना का निर्देशन करता रहता है।

इन्हीं कारणों से सिद्धों ने गुरु का नाम सदैव बड़े आदर से लिया है। 'वरगुरुपाद'^{६६} या 'श्री गुरुनाथ'^{६७} का प्रयोग तो मिलता ही है, सरहपा एक स्थान पर गुरु को तथागत वज्रधर बताते हैं।^{६८} अतः शिष्य को उनके चरणों की आराधना करनी चाहिये^{६९} और उनके प्रति अटल भक्ति रखनी चाहिये। गुरु के सामने मुग्ध बालक की भाँति सरल चित्त से रहना चाहिये तभी सहज, उल्लास की अनुभूति होती है।^{७०}

सिद्धों में गुरु के प्रति यह अटल भक्ति तान्त्रिक होने ही के नाते थी, बौद्ध होने के नाते नहीं। क्योंकि बौद्धों में संघ को महत्व दिया गया था। गुरु को इतना महत्व नहीं मिला था। कहा जाता है कि एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा

साधना-पद्धति

कि आपका गुरु कौन है तो उन्होंने उत्तर दिया था 'मैंने सबको पराभूत कर लिया है, मैं सर्वविद् हूँ, सब धर्मों में निर्लित हूँ, सब का मैंने परित्याग किया है, मेरी समस्त तृष्णाओं का क्षय हो चुका है। किन्तु यह सब मेरे निजो अभिज्ञान का फल है, इसमें किसी के उपदेश का क्या। मेरा गुरु कौन है?'^{१०१}

किन्तु ज्यों ज्यों महायानी परम्परा में बौद्ध धर्म तर्कशीलता छोड़ कर साधना और अनुभूति-परक होता गया त्यों त्यों बौद्ध धर्म में गुरु का महत्व बढ़ता गया। समस्त तान्त्रिक साधनाओं में गुरु का विशेष महत्व है क्योंकि तन्त्र, योग तथा अनुष्ठानों को विशेष महत्व देते हैं। ये योग और अनुष्ठान दुरूह तथा अगम्य हैं और अज्ञानी व्यक्ति इनकी साधना नहीं कर सकता। साधना की इस दुरूहता के अतिरिक्त गुरु की महत्ता में इस अद्भुत वृद्धि का एक दूसरा रहस्य भी है। तन्त्र-सम्प्रदाय नये सम्प्रदाय थे और उनके प्रवर्तक अधिकांश या तो अब्राहमण थे या ऐसे ब्राह्मण जो कर्मकाण्डी वैदिक ब्राह्मणों द्वारा हेय समझे जाते थे। अतः अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिये और अपने प्रतिद्वन्दी वैदिक ब्राह्मण आचार्यों को पराजित करने के लिये उन्होंने अपने सम्प्रदाय और अपने शिष्यों का समुचित संगठन करना चाहा होगा जो गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा के बिना असम्भव है। यह प्रतिद्वन्द्विता कभी कभी जातीय और कभी कभी स्थानीय आधार पर चलती होगी। यही कारण है कि तन्त्र कई क्रान्ताओं^{१०२} में विभाजित थे और कहीं कहीं तन्त्रों में इस प्रकार के भी निर्णय मिलते हैं कि कहाँ के गुरु श्रेष्ठ होते हैं।^{१०३} उस प्रदेश के अतिरिक्त प्रदेशों के गुरु द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी के बताए गए हैं।

बौद्धों में ज्यों-ज्यों तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश होता गया त्यों त्यों गुरुओं का महत्व बढ़ता गया। साधना की प्रमुखता के साथ साथ साधना के निर्देशक गुरु का महत्व बढ़ना स्वाभाविक है। अनांगवज्र ने तो गुरु की महत्ता का कारण ही यह बताया है कि वे साम्नाय होते थे अर्थात् विभिन्न आम्नायों का भेद जानते थे और अपने आम्नाय में शिष्य को दीक्षित कर वे उसे निर्वाण और भव दोनों से विमुक्त कर प्रज्ञोपायात्मक सहज सुख में प्रतिष्ठित कर देते थे। वसुधातल पर यह तत्व केवल गुरु जानता है। अतः सिद्धि के लिये उसकी उपासना करनी आवश्यक है।^{१०४} इसलिये तत्त्व-रत्न वही प्राप्त करते हैं जो आम्नाय में दीक्षित होकर वज्राचार्यों की उपासना करते हैं।^{१०५} गुह्य-समाज-तन्त्र में तो प्रत्येक तथागत का भी एक वज्राचार्य बताया गया है और वे तथागत उसकी पूजा करते हैं।^{१०६}

क्योंकि तथागत तो केवल बुद्ध हैं जब कि गुरु बुद्ध भी है, संघ भी है, धर्म भी है।^{१०} इसीलिये आर्यदेव ने उसकी छाया का उल्लंघन भी वर्जित ठहराया है।^{१०} ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा आवश्यक है क्योंकि जैसे जलमणि मलिन जल को भी स्वच्छ कर देती है उसी प्रकार गुरु के प्रति श्रद्धा-रूपी मणि भी चित्त को विशुद्ध कर देती है।^{११} इस प्रकार यह चित्त-विशुद्धि बिना गुरु के असम्भव है और इसीलिये गुरु का इतना महत्व है।

किन्तु इसके साथ ही साथ सिद्ध स्पष्ट संकेत करते हैं कि गुरु वही होना चाहिये जो सहज साधना में निष्णात हो या अनंगवज्र के शब्दों में प्रज्ञोपायोपदेशक हो, अन्यथा गुरु और शिष्य दोनों की वैसी परिस्थिति होगी जैसे अन्धा अन्धे की खींचता है और दोनों कूप में जा गिरते हैं।^{१२}

शिष्यों अथवा साधकों की विभिन्न अवस्थाएं बताई गई हैं और उन्हीं के अनुसार साधनाओं का विधान गुरु करता था इसकी ओर हम पहले संकेत कर चुके हैं। इस विभिन्न क्रमिक अवस्थाओं की ओर पूरी तान्त्रिक वाह्य अनुष्ठान परंपरा का ध्यान था। वैष्णव संहिताओं में ही पूरी साधना पद्धति को चार पादों या चरणों में विभाजित किया गया था, ज्ञान, योग, क्रिया तथा चर्या। वज्रयान में कुछ क्रमान्तर से ये ही चारों पद्धतियाँ मिलती हैं और उन्हीं के आधार पर वज्रयान की प्रमुख शाखाएं परिकल्पित की गई हैं।^{१३}

हिन्दी के कुछ विद्वानों का यह विचार है कि 'सिद्धों ने इस समस्त क्रिया और चर्यासाधना के मन्त्र, तन्त्र, देवपूजा आदि का प्रबल विरोध कर केवल सहज जीवन-पद्धति पर विशेष आग्रह किया। सिद्ध समस्त वाह्य अनुष्ठानों में एकदम विश्वास नहीं करते थे... और किसी प्रकार की पूजा अर्चा में विश्वास नहीं करते थे।'^{१४} कुछ विद्वान सहजयान की परवर्ती अवस्था में उसमें तन्त्र मन्त्र का प्रवेश मानते हैं और सरहपा को इन सभी 'पाखण्डों' का विरोधी मानते हैं।^{१५} उनके इस मत का आधार दोहाकोष में स्थान-स्थान पर की गई मन्त्र-तन्त्र, देवता, पूजा आदि की कठोर आलोचना है जो सरहपा, तिलोपा तथा काग्रहपा में एक समान मिलती है।^{१६} किन्तु उस समय सिद्धों की साम्प्रदायिक परिस्थिति और तान्त्रिक सम्प्रदायों की अतान्त्रिक सम्प्रदायों और एक तान्त्रिक सम्प्रदाय की दूसरे तान्त्रिक सम्प्रदायों से जो द्विविध प्रतिद्वन्द्विता चल रही थी उसकी पृष्ठभूमि में देखने से

साधना-पद्धति

यह आलोचना सिद्धान्ततः सभी देवताओं, मन्त्रों, मण्डल-चक्रों और तन्त्रों की आलोचना न होकर अपने देवता, मंत्र, मण्डल-चक्र और तन्त्रों को उचित प्रमाणित करने के लिये दूसरे सम्प्रदायों के देवता, मंत्र, मण्डल-चक्र और तन्त्रों की आलोचना सिद्ध होती है, ^५ जिस पर हम आगे विस्तार से विचार करेंगे।

इसका एक पहलू और है। सिद्धों की पद्धति प्रज्ञोपाय योग की पद्धति थी अतः वे वाह्य पद्धतियों के बौद्ध रूप को बहुत सीमा तक स्वीकार करते हुए भी अन्तर्साधना या चित्त साधना पर विशेष बल देते थे। इसीलिये उन्होंने तत्वज्ञान के बिना की जाने वाली क्रिया और चर्चा को निष्फल ठहराया है। ^६ किन्तु उस का सर्वथा निषेध-परक अर्थ नहीं लिया जा सकता क्योंकि न केवल सिद्ध वरन् अन्य तान्त्रिक आचार्यों ने भी सांकेतिक अर्थ से विहीन अपनी पद्धति के अनुष्ठानों का भी उतना ही विरोध किया है जितना अन्य सम्प्रदायों के अनुष्ठानों का। तन्त्रों में एक स्थान पर कहा गया है कि यदि केवल मद्यपान से मुक्ति मिल जाती तो सभी मद्यपी मुक्त हो जाते। यदि केवल स्त्री संग से मुक्ति मिलती तो संसार में कौन है जो मुक्ति से बच जाता। तन्त्रों का पथ इतना सरल नहीं है। वह खड्गधार पर चलने के समान है। ^७

जत्र वे अनुष्ठानों का विरोध करते थे तत्र उनका तात्पर्य प्रज्ञोपाय की चेतना से रहित 'वाह्य' अनुष्ठानों से था क्योंकि प्रज्ञोपाययुक्त नैरात्म-स्वभाव के अनुष्ठान तो वाह्य रहे ही नहीं। यह तर्क हमें सरहपा के दोहाकोष की अद्रयवज्र द्वारा की गई टीका में कई जगह मिलता है। अद्रयवज्र ने ही अपने ग्रन्थों में अन्यत्र इन वाह्य अनुष्ठानों के पक्ष में काफी तर्क दिये हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि यद्यपि अन्ततोगत्वा शुभ तथा अशुभ में कोई अन्तर नहीं, फिर भी शुभ अनुष्ठान सुखद ही होते हैं जैसे जल में विभिन्न चन्द्र सुखद ही होता है, दुःखद नहीं। अन्य स्थान पर उन्मत्त व्रती के लिये भी उन्होंने आदि कर्मों का विधान किया है और यदि कोई यह तर्क दे कि संसार नश्वर है, वाह्य अनुष्ठान व्यर्थ हैं तो उसका यह तर्क नास्तिक चार्वाक मत के अन्तर्गत आयेगा, वज्रयान के अन्तर्गत नहीं। ^८

किन्तु इसके विरुद्ध यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि संभव है सरहपा का यह तर्क न रहा हो, यह तर्क टीकाकार का है जो सरहपा के बाद हुआ जत्र सहजयान में मन्त्र तन्त्र फिर अपना लिये गये हों। ^९ किन्तु हमें कई स्थानों पर सरहपा के ही दोहों में वाह्य अनुष्ठानों का संकेत मिलता है और वाह्य प्रमाण

तो इस बात के यथेष्ट मिलते हैं कि सरहपा तथा सिद्धों की पूरी परम्परा मन्त्र तन्त्र में निष्णात थी। पहले हम वाह्य प्रमाणों पर विचार करेंगे।

पंच तथागत तथा उनके पाँच कुलों से उद्भूत अगणित बौद्ध देवी देवताओं के पूजन आदि की विधियों के कुछ संग्रह साधनमाला में हैं। उनमें से बहुत सी साधनाएँ ऐसी हैं जिनके सिद्धों के द्वारा रचित होने का उल्लेख मिलता है। यदि हम उनमें से उन सिद्धों की गणना न भी करें जिनकी रचनाएँ दोहा-कोष और चर्यापद में नहीं मिलती हैं तो भी कई महत्वपूर्ण सिद्ध हैं जिनकी साधनाएँ उस संग्रह में प्राप्य हैं।

स्वतः सरहपा के नाम की दो साधनाएँ 'त्रैलोक्यवशंकर लोकेश्वर' के प्रति मिलती हैं। उनमें से पहली तो उनके द्वारा रचित बताई गई है^{१०} और दूसरी उनके द्वारा ओड्डियान क्रम में अवतरित बताई गई है।^{११} ये साधनाएँ वास्तव में सरहपा द्वारा ही रचित हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता लेकिन यह साधना सरहपा ही के नाम की है इसका कोई कारण तो होगा ही।

शबरपा कृत सित कुरुकुल्ला साधना^{१२} प्राप्त होती है जिसमें सिद्ध शबरपा का एक दोहा भी प्राप्त है।^{१३} इसी प्रकार विरुपान्न कृत एक साधना महाकाल के प्रति मिलती है।^{१४} कुक्कुरीपा महामाया साधन^{१५} के लेखक हैं और तिब्बती अनुश्रुतियों के अनुसार वे महामाया तन्त्र के प्रवर्तक भी थे। इसी प्रकार कृष्णपाद द्वारा कृत कुरुकुल्ला साधना प्राप्त है जिसमें सपों के विष-मोचन का भी साधन बताया गया है।^{१६} कोंकणपा की एक साधना में शव पर आसीन होकर मन्त्र जाप का विस्तृत विधान मिलता है।^{१७} यदि हम इन साधनाओं को इन सिद्धों द्वारा रचित न भी मानें तो ये उनके आम्नाय से सम्बन्धित थीं इसमें संदेह नहीं किया जा सकता।

वाह्य अनुष्ठानों की दृष्टि से अगर हम इन साधनाओं का परीक्षण करें तो क्या है जो हमें इन साधनाओं में नहीं मिलता है। देवी देवताओं के भयोत्पादक विचित्र रूप, वेशभूषा, वाहन, मुद्राएँ और विन्यास, पूजा का समय-निर्णय, तान्त्रिक चक्र रेखाएँ और मन्त्र, धूपदीप, नैवेद्य, होम, मन्त्र जाप, तन्त्र, मुद्रा, शव और कपाल साधनाएँ, जादू टोना, छोटे-छोटे चमत्कार, और षट्कर्म सभी का उल्लेख इन साधनाओं में है।

अब हम आन्तरिक प्रमाणों पर विचार करेंगे। जहाँ तक पंच तथागत और उनकी पूजा का उल्लेख है हम देख चुके हैं कि दोहों में 'बुद्ध आराहित्र

साधना-पद्धति

अविभ्रल चित्ते' ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है।^{१९८} इन पंच तथागत, उनकी शक्तियों और कुलों की समस्त कल्पना सिद्धों को मान्य थी और वे इनके अतिरिक्त अन्य देवताओं का निषेध करते थे। दोहों की टीका में अष्ट-साहस्रिका का वह आदेश उद्धृत किया गया है जिसमें अन्य देवताओं को धूम्रदीप मुष्प देने का निषेध है और केवल बुद्ध की पूजा का विधान है।^{१९९} अगले दोहों की टीका में तथागत को अद्वय प्रज्ञोपायात्मक ज्ञान का रूप बताया गया है।^{२००} किन्तु अद्वय की स्थिति सिद्धांताय में धुनन कम्पन आदि क्रियाओं में भी मानते थे। ऐसा हम सरहपा की साधना में देख चुके हैं। शवरपा की साधना में वर्णित वं वीजाक्षर का सिद्धों के दोहों में स्पष्ट उल्लेख है। एवंकार को बीज बताते हैं जिसे ग्रहण कर सुरत वीर साधक कुसुमित अरविन्द ऊष्णीष कमल में मधुकर रूप से प्रवेश कर मकरन्द सहजानन्द का पान करता है।^{२०१} इस एवंकार को जो जान लेता है वह सकल अशेष को जान लेता है।^{२०२} इस 'एवं' को हेवञ्ज तन्त्र में प्रज्ञोपाय, युगनद्ध, अद्वय का अक्षर प्रतीक माना गया है। एकार के मध्य जो वकार प्रतिष्ठित है वह सर्वसुखों का आलय है।^{२०३} क्योंकि यह ए माता, प्रज्ञा, कमल, भगवती है और वं पिता, उपाय, कृष्णा, कुलिश और भगवान है।^{२०४} एवं रूपी बीज को ग्रहण करने के अर्थ ही हैं कि योग के समय इन दोनों अक्षरों पर ध्यान केन्द्रित कर या उनका जप करते हुए पवन का निरोध करना चाहिये। योगसाधना में सभी सम्प्रदायों में इन तन्त्राक्षरों का विशेष महत्व रहा है और प्रत्येक चक्र की पाँखुरियों पर ये तन्त्राक्षर स्थापित किये गये थे। दोहों में भी हमें अवधूती पर हं अक्षर की स्थापना मिलती है।^{२०५}

यद्यपि इन अक्षरों के मन्त्र रूप जप करने में कई सिद्धियाँ बताई गई हैं किन्तु यह अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिये कि केवल योग में चित्त वृत्ति को दृढ़ रखने तथा शून्यताज्ञान और वज्रस्वभाव से समन्वित बोधिचित्त का समुत्पाद करने के लिये ही इनका जप सार्थक है। ये मन्त्रादि स्वतः प्रमुख साधन नहीं हैं। ये योग के सहायक साधन हैं। इस प्रकार के बाह्य अनुष्ठानों से आन्तरिक साधना में सहायता लेने की परम्परा योगाचार से ही चली आ रही है। योगाचार में श्वास प्रक्रिया के समय अर्हन् शब्द के जाप का महत्व था क्योंकि अर्हन् त्रिरत्न का प्रतीक था। अ धर्म का, र बुद्ध का और हन् संघ का। इस प्रकार के बीजाक्षरों को वे 'सद् गहन' कहते थे।^{२०६} इन अक्षरों को मन में धारण करके वे विस्तार का ध्यान करते थे अर्थात् मूलाधार से हृदय तक के आन्तरिक विस्तार

का, जिनमें चक्र स्थित हैं।^{१००} फिर इस ध्यान को और भी केन्द्रित करने के लिये वे मोम समिधाओं का उपयोग करते थे। एक समिधा मोम में गाड़ कर जला दी जाती थी। जब एक मोम समिधा जलती होती थी तब तक वे ध्यान करते जाते थे और एक समिधा के बुझते ही उनके मन में प्रथम महाभूत का उदय होता था। इस प्रकार ५ समिधाओं के बाद पाँचों महाभूत उदित होते थे और पंचविध सुख की प्राप्ति होती थी।^{१००} मोमदीपों की ही भाँति, पृथ्वी कषिण, आपो कषिण, अग्नि कषिण, वायु कषिण, सभी कषिणों का समवेत प्रबन्ध, नील, पीत, रक्त, श्वेत कषिण, क्षिति कषिण और ज्योति कषिण का प्रयोग होता था। अतः आन्तरिक साधनाओं पर विशेष ध्यान रखते हुए भी बाह्य अनुष्ठानों का प्रयोग सिद्धों को विज्ञानवादी परम्परा से ही प्राप्त हुआ था, इसी कारण वे क्रियाचर्यादि के उस रूप का बहिष्कार करते थे जो केवल बाह्य अनुष्ठानात्मक हो और आन्तरिक साधनाओं का सहायक न हो।

इस प्रकार सिद्धों ने क्रिया और चर्या का आन्तरिक साधनाओं से अभेद स्थापित कर दिया था। चर्या का तो एक विशेष अर्थ सिद्ध सम्बन्धी अनुश्रुतियों में प्राप्त होता है। कहा यह जाता है कि इन सिद्धों की दैनिक चर्या या चर्या सम्भवतः उनकी जीविका या उस जाति की जीविका से सम्बद्ध होती थी जिससे कि वे आये हैं। अनुमान किया गया है कि लुईपा मछली पकड़ते थे, तैलोपा तिलों से तेल निकालते थे।^{१०१} तन्तिपा जुलाहे थे। सिद्ध होने के उपरान्त भी इन्होंने अपनी चर्या नहीं छोड़ी केवल उसका अध्यात्म-परक अर्थ दे दिया। शून्यताज्ञान की प्राप्ति को किस प्रकार रुई धुनने के रूपक में व्यक्त किया गया है यह हम देख चुके हैं।^{१००} कौन जानता है कि जैसे कबीर करवे पर बैठ कर ताना बाना बुनते हुए 'भौनी भौनी चीनी रे चदरिया' के रूपक से आत्म-ज्ञान का उपदेश देते थे, वैसे ही ये सिद्ध भी अपनी अपनी दिनचर्याओं को नैरात्म्य-ज्ञान का अनुष्ठान बना चुके हों।^{१०१}

वास्तव में इसके पीछे वही सामाजिक परिस्थिति, जातिगत संघर्ष रहा होगा जिसमें वे ब्राह्मण जो निम्न-वर्ग के श्रमिकों की वृत्ति अपना चुके थे, उन ब्राह्मणों द्वारा तिरस्कृत किये जा रहे थे जो केवल कर्मकारण पर निर्भर थे। इन नयी वृत्तियों वाले ब्राह्मणों तथा उनके साथ अन्य नई श्रमिक जातियों ने नये तान्त्रिक सम्प्रदाय अपनाये।^{१०२} और उनके नये प्रकार के अध्यात्म में आन्त-

साधना-पद्धति

रिक और बाह्य, दिव्य और भौतिक तथा साधना और श्रम में एक समन्वय मिलता है। वे अपने श्रम को भी सम्मान की दृष्टि से देखते होंगे और अनुदार कर्मकांडी ब्राह्मणों को समुचित उत्तर देने के लिये उस श्रम की भी अध्यात्म-परक व्याख्या करते रहे होंगे।

श्रम को एक लय और गठन देने के लिये संगीत का सदैव विशेष महत्व रहा है। इन बाह्य अनुष्ठानों के साथ-साथ गीत का विज्ञान बराबर योगाचार में भी मिलता है। भाषण (ध्यान) की एकाग्रता के लिये साधक को महामैत्री-गीतिका का गान करना चाहिये।^{११३} सिद्धों की साधना में भी इनको गीतिकाएँ कहते हैं। कुम्भुरीपाद के महामाया साधन में एक वज्रगीति का उल्लेख है जो नृत्य के साथ साधना में गाई जानी चाहिये।^{११४} इसी प्रकार क्रिया-समुच्चय में वज्राचार्य द्वारा प्रगीत एक महासमय गीतिका दी गई है जिसमें ५ दोहे हैं और पाँचों द्वारा नैरात्म्य-योगिनी, लोचना, मामाक्षी, पाण्डुरा तथा तारा के आह्वान का विधान है।^{११५} इन वज्रगीतिकाओं में चर्या तथा बाह्य अनुष्ठानों के आन्तरिक आध्यात्मिक अर्थों की व्याख्या रहती थी अतः चर्यादिक में इन गीतियों और पदों के गाने का विधान था।^{११६}

इस प्रकार ये बाह्य अनुष्ठान और आन्तरिक साधनाएँ इतनी घुलमिल गई थीं कि यह कह सकना असम्भव है कि यह विशुद्ध बाह्य अनुष्ठान है और यह शुद्ध आन्तरिक योग-पद्धति। किन्तु एक अनुष्ठान का कुदृष्टि-निर्घात उल्लेख सरहपा के दोहों में मिलता है जो बोधचित्त समुत्पाद और साधक को इस गुह्य मार्ग में दीक्षित करने की विधि रूप में सम्पन्न होता था। वह है कुदृष्टि-निर्घात। सरहपा मूर्ख साधक को चित्त द्वारा चित्त का निरीक्षण करने उपदेश देते हुए समस्त कुदृष्टि का त्याग करने का उपदेश देते हैं।^{११७} सेकोद्देश टीका में नडपाद ने भी सरहपाद की एक उक्ति उद्धृत की है जिसमें सरहपा दृष्टि के निरोध का उपदेश देते हैं।^{११८} इस कुदृष्टि के परित्याग और निरोध के साथ कौन से बाह्य अनुष्ठान थे और गुरु उनका निर्देशन किस प्रकार करता था इसका विस्तृत विवरण हमें अद्रयवज्रपाद की कुदृष्टि-निर्घात नामक छोटी सी कृति में मिलता है।^{११९}

कुदृष्टि-निर्घात साधना के विस्तार में न जाकर इतना ही जान लेना यथेष्ट होगा कि मन्त्र, देवताराधन आदि से समन्वित यह अनुष्ठान-चर्या आदि-

कर्म के नाम से पुकारी जाती थी और इस आदि-कर्म का विधान साधना की प्रारम्भिक अवस्था में था ।

आदि-कर्म द्वारा शुद्ध दृष्टि प्राप्त कर लेने के बाद दीक्षा प्राप्त साधक को गुरु यह बताता है कि यह सब वाह्य अनुष्ठान तो चित्त के निरोध से तुम शरीर के ही अन्दर कर सकते हो क्योंकि देह में बुद्ध का वास है पर देह का महत्व अज्ञानी उसे नहीं जानता है । इसी को सरहपा योगिनी के दृष्टान्त से समझाते हुए कहते हैं कि जैसे कोई योगिनी घर में प्रियतम के होते हुए भी ग्राम भर में जाकर पूछती फिरे कि प्रिय कहाँ गये, उसी प्रकार अज्ञानी साधक है जो देह ही में भगवती नैरात्मा तथा तथागत दोनों का वास होते हुए भी संसार भर में वाह्य अनुष्ठानों के माध्यम से उन्हें खोजता फिरता है ।^{१२०}

सरहपा इसीलिये कहते हैं कि पंडितगण समस्त शास्त्रों का बखान करते हैं किन्तु इसी देह में बुद्ध का वास है और पंच तथागत अपनी शक्तियों से युक्त इसी में निवास करते हैं इस भेद से कोई अवगत नहीं है ।^{१२१} चर्यापदों में भी कृष्णाचार्य इक्षी देह रूपी नगरी में कपाली योगी द्वारा एकाकार होकर विहार करने का वर्णन करते हैं ।^{१२२} दूसरे पद में वे काया रूपी नौका में पंच तथागतों को डांड बनाकर मायाजाल को पार करने का व्रत लेते हैं ।^{१२३} सरहपा भी अपने एक पद में काया रूपी नौका का कर्णधार मन को प्रज्ञोपायज्ञान से विशुद्ध बताते हैं ।^{१२४} वास्तव में सरहपा ने काया के महत्व को सबसे सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया है । अपने दोहों में वे कहते हैं—‘यही देह सुरसरि है, यमुना है, यही गंगासागर, यही प्रयाग वाराणसी, चन्द्र दिवाकर, धर्मक्षेत्र, पीठ, उपपीठ सभी यहीं हैं । मूर्ख ! तू कहाँ कहाँ घूमता फिरता है । देह के समान सुख प्रदान करने वाला तीर्थ और कहीं नहीं है ।^{१२५} इसकी व्याख्या करते हुये अद्वयवज्र लिखते हैं कि यह तन यमुना है, क्योंकि यमुना गहरी है, उसका पाट चौड़ा है, उसमें सभी प्रकार की नौकाएँ आ जा सकती हैं अतः सभी प्रकार के यानों (साधना पद्धतियों) को आश्रय देने वाला यह शरीर जमुना है । यह गंगा है, क्योंकि यह समस्त समाधि रूपी सागरों में निमग्न होता है । प्रयाग है क्योंकि जैसे प्रयाग में संगम है उसी प्रकार इस तन में कमल और कुलिश का संगम होता है । यह वाराणसी भी है क्योंकि जैसे वाराणसी में जल की धारा को न केवल गंगा कह सकते हैं

साधना-पद्धति

क्योंकि उसमें जमुना का अंश है और न उसे गंगा-यमुना का अद्रय ही कह सकते, वह गंगा ही कहलाती है, उसी प्रकार इस तन में निहित तत्व भी भाव और अभाव, भव निर्वाण दोनों से ही परे है। इसी में चन्द्र दिवाकर का भी वास है। उसमें ये पुराने परम्परागत तीर्थ ही नहीं बुद्ध-क्षेत्र और सहज सिद्धि के पीठ आदि भी हैं। ये धर्म-महासुखपीठ हैं। ऐसे अद्भुत तीर्थ को छोड़कर बाह्य तीर्थों में भ्रमण करने से क्या लाभ है।^{१२६}

देह को समस्त तीर्थों, क्षेत्रों तथा पीठों का आलय मानने की भावना सभी तान्त्रिक सम्प्रदायों और योगमार्गों में प्रचलित थी। कामरूप, पूर्णांगिरी, जालन्धर और ओडियान इन पाँचों प्रख्यात तन्त्र पीठों का स्थान इस शरीर में ही बताया गया है (योगसार)।^{१२७}

अतः यह देह का महत्व केवल शुद्ध भौतिक दृष्टिकोण से प्रतिपादित नहीं किया गया था। इसके पीछे एक गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य था। इसीलिये हेवन्न तन्त्र में महासुख को देह में स्थित बताया है किन्तु 'देहज' नहीं।^{१२८} प्रज्ञोपायात्मक ज्ञान से जब साधक अपनी देह को भी तथागत के स्वभाव का जान लेता है तब यही देह धर्मकाया हो जाती है।

जो पाँच डालों वाली तरुवर रूपी विनाशमान काया है उसे साधक धर्मकाया के रूप में परिलक्षित करने लगता है। उस समय वह काया में रहते हुए भी काया से भिन्न रहता है। यदि काया से संयुक्त हुआ, उसमें लित हुआ तो उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता।^{१२९} किन्तु यदि वह अपनी काया में वास करने वाले अशरीरी बुद्ध को जान लेता है, बुद्धकाया को जान लेता है तो वही ज्ञानवान व्यक्ति 'कायस्थ' कहलाता है।^{१३०} वह पवन रूपी काल का निरोध कर चन्द्र दिवाकर का संगम कर अजरामर शरीर प्राप्त कर लेता है और उसी को सिद्ध कहते हैं।^{१३१} इसी शरीर में स्थित मेरुदण्ड के सहारे पवन के निरोध से बोधिचित्त ऊर्ध्वगामी होता है। चारों चक्रों को भेद कर नाड़ियों में से होता हुआ प्रज्ञा-कमल से संगम करता है तभी रस (अमृत) की वर्षा होती है। यही कमल-कुलिश योग है जिस पर अब हम विचार करेंगे।

ग साधना-पद्धति (२)

समस्त सभी तान्त्रिक और योग साधना-पद्धतियों की भाँति सिद्धों की साधना-पद्धति में भी समस्त सृष्टितत्त्व और उसके मूल में व्याप्त सिद्धान्तों का और उनके सापेक्ष संबंधों का साक्षात्कार अपनी देह में ही पंचमहाभूत करने का उपदेश मिलता है। कैसे समस्त सृष्टि पंच-महाभूतों चित्त में से निर्मित हुई है और उनके सम्मिलन का मूल आधार प्रज्ञा और उपाय तथा उनका मिलन है, इस पर हम विचार कर चुके हैं। सिद्ध भी उन पंच महाभूतों और उनके सृष्टि-रूप में गठन के मूल आधार प्रज्ञोपाय अर्थात् की अनुभूति अपने ही अन्दर करने का उपदेश देते हैं क्योंकि वे समस्त बाह्य सृष्टि की उत्पत्ति चित्त की परिकल्पना से ही मानते हैं। अतः ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि ध्यान एकाग्र कर अपने ही अन्दर उन पंच महाभूतों और प्रज्ञा तथा उपाय का साक्षात्कार किया जाय, तभी वह संसार के धर्म और पुद्गल-वैराग्य का दर्शन कर, वज्रज्ञान प्राप्त कर सिद्ध बन सकेगा।

इस साधना की ओर कायहपा ने अपने दोहों में संकेत किया है। वे कहते हैं कि पृथ्वी, आप, तेज, समीर तथा गगन इन पाँचों तत्वों को बीज-रूप में ग्रहण करना चाहिये। इन्हीं पाँचों से यह शरीर बनता है और इसी से समस्त सुरासुर उत्पन्न होते हैं।^१ किन्तु इसका बीज वास्तव में बोधिचित्त का सुख स्वभाव है जो रज से भूषित अज्ञोभ्य वैरोचन रूप में स्थित है। जब महासुख रूपी गगन नीर अभिताम रूपी पंक का सृजन कर देता है तब यह वज्र रूपी सुख-स्वभाव अवधूती रूपी मूल नाल पर चतुर्शून्य रूपी कमल के रूप में खिलता है। किन्तु इन सबों को 'सिद्ध देहहि दिदृशो' अर्थात् अपनी देह में ही देखना चाहिये।^२

साधना-पद्धति

इसका साक्षात्कार अपनी देह में अपने ही चित्त के अन्तर्गत प्राप्त करने की प्रणाली काग्रहपा इस प्रकार बताते हैं कि पहले साधक को प्रज्ञोपाय की एकता पर ध्यान करना चाहिये। इसके लिये उसे 'एव' बीजाक्षर को केन्द्र बनाना चाहिये।^३ 'एव' का अर्थ प्रज्ञा और उपाय या कमल और कुलिश, या पद्म और वज्र है।^४ इस ध्यान में 'एव' के प्रज्ञोपाय युगनद्ध से सहज-ज्ञान की उत्पत्ति होती है,^५ जो बिन्दु रूप में होता है और ऊर्ध्वगामी होता है।

इस 'एव' युगनद्ध से चित्त में ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है इसका उल्लेख टीकाकार ने हेवज्र तन्त्र के उद्धरण से स्पष्ट किया है।^६ उसमें प्रज्ञा तथा उपाय को कक्कोल और बोल कहा गया है। यह नाम हमें और भी कई स्थानों पर मिलता है।^७

इस बोल कक्कोल योग से स्पर्श और काठिन्य धर्म की अभिव्यक्ति पृथ्वी के रूप में होती है।^८ इसी सहज से बोधिचित्त की उत्पत्ति होती है जिसे शुक्र या वज्रोदक^९ कहा गया है। इसी से अप्धातु की उत्पत्ति होती है। यह चन्द्र रूप है। इसी से जल उत्पन्न होता है। जब यही बोधिचित्त वज्र या कुलिश के रूप में पद्म अथवा कमल प्रज्ञा से वर्धण करता है तो उससे तेज धातु अग्नि की उत्पत्ति होती है। उसके चलने से, हिलने से वायु की उत्पत्ति होती है और जो मुख प्राप्त होता है वही आकाश है। ये वही पाँच महाभूत हैं जिन्हें अशुद्ध चित्त बाह्य साँसारिक तत्वों के रूप में परिकल्पित कर भवजाल में उलभ जाता है किन्तु इन्हीं को जब बोल कक्कोल योग से प्रज्ञोपाय युगनद्ध का ध्यान करते हुए अपने ही अन्दर अनुभव करता है तो पूर्णता को प्राप्त होता है।^{१०}

इस योग का मूल रूप हमें विज्ञानवाद की 'भाण' (ध्यान) साधना में मिलता है। विज्ञानवाद ने चित्त को एकमात्र सत्य माना था अतः विज्ञानवाद में भी भव की स्थिति और पंच महाभूतों की स्थिति मन के पूर्व-परम्परा अन्दर ही मानी गई थी और 'भाण' या ध्यान साधना में बाह्य भव-प्रवाह से मुक्त होने के लिये साधक एकान्त में जाकर इस बाह्य दृश्यमान जगत का चित्त के अन्दर साक्षात्कार करने की साधना करता था।^{११} इसका साधन था चित्त की एकाग्रता (एकाग्रता)। योगाचार के अनुसार पहले साधक को अर्हन शब्द को अपने मन में धारण कर उसी पर ध्यान एकाग्र

करना चाहिये। यह अर्हन् साधारण शब्द नहीं वरन् बीजाक्षर है और इसके तीनों अक्षर त्रिरत्न धर्म, बुद्ध और संघ के वाचक हैं।^{१२} एक लम्बी साधना के उपरान्त उसके मन में दो रूप-चित्रों का उदय होता है। एक धूमिल और दूसरा स्पष्ट। दूसरे के उदय के अर्थ यह है कि अब उसका समस्त व्यक्तित्व जाग्रत हो गया है। सबसे पहले तेज धातु का उदय होता है। इसमें स्वर्ण-वर्ण और अरुणोदय के वर्ण की अनुभूति होती है। इसका स्वरूप ब्रह्मावेला में उगने वाले शुक्रतारक का होता है। इसके बाद आपो धातु का उदय होता है जो षोडश कलाओं से पूर्ण चन्द्र से उद्भूत है और पीत पुष्प और कमल वर्ण का द्योतक है। उसके पश्चात् वायु की उत्पत्ति होती है जो मेघ की भाँति उदित होती है और उसका वर्ण दोपहर के सूर्य का होता है। उसके बाद चमेली और कमल की भाँति, मयूरपंखों की भाँति आकाश-धातु का उदय होता है।^{१३} साधक इन सबों को समग्र रूप से नासिकाग्र से ग्रहण कर नाभि में स्थित करता है और तत्पश्चात् पथवी धातु (पृथ्वी) का उदय होता है। तब उसके पश्चात् वह हठयोग की साधना में प्रवृत्त होता है और इन पंच महाभूतों को ऊर्ध्व प्रवृत्त कर चक्रों में स्थापित करता है।^{१४}

वास्तव में सिद्धों ने इसी साधना को संशोधित कर बोल कक्कोल योग के रूप में ग्रहण किया है। उनका प्रमुख संशोधन इस साधना का प्रज्ञोपायात्मक रूप देना है। अर्हन् के बजाय उन्होंने 'एवं' बीज को ग्रहण करने का आदेश दिया है ताकि साधक इस योग के प्रज्ञोपायात्मक स्वरूप के सदैव ध्यान में रखने और अन्त में उपाय का प्रज्ञा से युगनद्ध अभीष्ट था अतः सिद्धों ने प्रज्ञा (शून्य, गगन) का उदय अन्तिम धातु के रूप में माना किया। योगाचार में जहाँ पृथ्वी अन्तिम धातु थी, यहाँ वह पहली हो गई और गगन अन्तिम हो गया। योगाचार में शुक्रतारक के रूप में तेज धातु का उदय माना गया था, सिद्धों में बोधिचित्त का उदय शुक्रतारक^{१५} के रूप में मिलता है।

दूसरी मौलिक स्थापना सिद्धों ने इस बोल कक्कोल साधना को रासायनिक अर्थ देकर की। कुछ स्थानों पर बोल कक्कोल रस का उल्लेख मिलता है।^{१६} संभवतः यह रस साधना 'कपूर' के किसी प्रयोग के रूपक में अभिव्यक्त की जाती थी। योगाचार की भाण साधना में भी हम देख चुके हैं कि प्रथम महाभूत तेज का उदय शुक्र के रूप में माना गया है और उसी प्रसंग में^{१७} वहीं शुक्र को औषधि-तारक भी कहा गया है। प्रतीत होता है कि औषधियों के

साधना-पद्धति

उसी प्रसंग को कर्पूर-साधना के रूप में सिद्धों ने विकसित किया और बाद में उस योग का भी प्रतीक मान लिया। कर्पूर के रूप में उपाय का उल्लेख तिलोपा के दोहाकोष की टीका में मिलता है जहाँ कहा गया है कि कक्कोल में (कमल में) बोल (कुलिश) का प्रक्षेपण कर उसका कुन्दुरु योग करे तो उससे कर्पूररूपी सहज उत्पन्न होता है।^{१९} कर्पूर का उल्लेख प्रज्ञोपाय-विनिश्चय-सिद्धि में बोधिचित्ताभिषेक के समय है जहाँ इसका प्रयोग रक्तचन्दन के साथ बताया गया है।^{२०} क्रियासमुच्चय में उद्धृत कुछ वज्रयानी दोहों में भी इसका उल्लेख कस्तूरी, मालती ईंधन आदि के साथ आता है, जिनमें किसी गुह्य रासायनिक प्रयोग तथा संधाशैली में किसी चित्तगत साधना का समानान्तर वर्णन मिलता है।^{२१} शबरीपा भी रत्नचर्यापद में समागम के समय ताम्बूल तथा कर्पूर के भक्षण का वर्णन करते हैं।

इस बोल-कक्कोल साधना के क्रम-विकास में हमें एक अवस्था और मिलती है जिसमें इसका महाभूत-समुत्पाद-योग या रसायन का पक्ष सर्वथा गौण हो जाता है और यह शुद्ध मुद्रा नैथुन के प्रसंग में आता है। दोहाकोष की टीका में कर्पूर की व्याख्या कर्ममुद्रा से संयोग के क्षण का वर्णन देते हुए की गई है।^{२२} अद्वयवज्र भी चतुर्मुद्रा निरूपण में कर्ममुद्रा के प्रसंग में बोल-कक्कोल वयस का उल्लेख करते हैं।^{२३}

योगाचार की परम्परा में सिद्धों ने एक संशोधन और किया। योगाचार में यह हठयोग की मुख्य प्रणाली से अलग एक प्राथमिक साधना के रूप में यह पंचमहाभूतों की ध्यान-साधना स्वीकृत थी। जब इस साधना द्वारा पंचमहाभूतों को अन्तस्थ कर लिया जाता था, उसके उपरान्त हठयोग-साधना प्रारम्भ होती थी और साधक मेरुदंड में स्थित चक्रों पर ध्यान केन्द्रित करता था।^{२४} किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धों में यह साधना हठयोग के ही अन्तर्भूक्त हो गई थी और द्वितीय मुद्रा से समागम की अवस्था में इसकी साधना की जाती थी।^{२५} इस प्रकार सिद्धों ने इसको योगाचार से ग्रहण किया, प्रज्ञोपायात्मक भावना से ग्रहित किया और हठयोग तथा मुद्रा-नैथुन-साधना में अन्तर्भूक्त कर रासायनिक प्रक्रियाओं से संयुक्त कर दिया।

बौद्ध तंत्रों में योग के लगभग वे सभी अंग स्वीकृत थे जो योग-शास्त्र में

निर्दिष्ट थे। उनको वे षडंग योग कहा करते थे। इसमें ६ अंग थे, प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रत्याहार में हठयोग बाह्य रूपादि में अप्रवृत्ति, प्रत्याहारांग में त्रैधातुक बुद्ध-बिम्ब षडंग योग का दर्शन, ध्यान में एवंधर्म-शून्यता में चित्त-प्रवृत्ति, और पाँच ध्यानांग प्रज्ञा, वितर्क, विचार, रति और अचल सुख, प्राणायाम में ललना-रसना (वाम-दक्षिण) का मार्ग-निरोध और मध्यमार्ग अत्र-धृती में प्राणवायु की प्रवृत्ति, प्राणायाम के तीन अंग पूरक, कुम्भक, रेचक, धारणा में प्राण का नाभि, हृदय, कंठ और ललाट में प्रवेश, धारणांग में विन्दु का प्राणप्रवेश, अनुस्मृति में अपने इष्टदेवता का विकल्परहित प्रतिबिम्बाकार दर्शन, इसके अंगों में देवता की अनेकाकार रूपाभिव्यक्तियाँ, तथा समाधि में इष्ट देवता के अनुराग में अपार सुख; बौद्ध-तन्त्रों में षडंग योग का वर्णन इसी प्रकार मिलता है।^{२५} गुह्य-समाज-तन्त्र में उपाय को योग के रूप में परिकल्पित किया गया है और उसके चार रूप या चार अवस्थाएँ निर्दिष्ट हैं। सेवाविधान, उपासधन, साधन तथा महासाधन।^{२६} सेवा भी दो प्रकार की है, सामान्य सेवा तथा उत्तम सेवा।^{२७} उत्तम सेवा में षडंग योग आता है।^{२८}

वास्तव में यह हठयोग चित्त का निरोध कर गुह्य साधनाओं के लिये भूमिका प्रस्तुत करता है। बिना इस हठयोग के द्वारा विन्दु का निरोध किये गुह्य साधनाएँ कभी भी सफल नहीं होतीं, उनमें च्युति तथा स्वलन का भय रहता है। अतः योगदर्शन में जो योग एकमात्र साधन माना गया है, यहाँ वही हठयोग केवल तन्त्र की आनुषंगिक सहायक साधना मात्र है। इसके लिये भी दो परिस्थितियों का उल्लेख है। एक तो गुह्य साधनाओं के पूर्व चित्त-विशुद्धि के लिये और दूसरा उन गुह्य साधनाओं में ही विभिन्न क्षणों में विभिन्न मुद्राओं से युगनद्ध स्थापित कर विभिन्न आनन्दों का उपभोग करने के लिये विन्दु को ऊर्ध्वमुखी कर उन मुद्राओं के उपयुक्त चक्रों में विन्दु धारण करना। ऐसी परिस्थिति में योग-साधना अन्दर श्वासनिरोध द्वारा चलती रहती है और बाहर मुद्रा-मैथुन द्वारा तान्त्रिक गुह्य साधनाएँ। दोनों एक दूसरे का समर्थन करती रहती हैं।^{२९}

हठयोग द्वारा पवन का निरोध कर मेरुदंड में स्थित चक्रों का वेधन, यह योगाचार की स्वीकृत पद्धति थी। ध्यान द्वारा चित्त में ५ महाभूतों के उदय के उपरान्त साधन के लिये अन्तस्थ चक्रों का ध्यान करने का आदेश था। योगाचार में हिन्दू योग की भाँति मस्तक नहीं, वरन् हृदय में ही अन्तिम चक्र की स्थिति

साधना-पद्धति

मानो जाती थी। हृदय ही मन का केन्द्र या मनोविन्दु था। योगाचार सम्प्रदाय में केवल ५ चक्र माने गये थे। पाँच चक्र थे, पाँच धातुएँ अन्तस्थ थीं, पूर्वोक्त ध्यान पद्धति द्वारा पाँच पीतियाँ थीं, पाँच सुख थे और ध्यान की ५ पद्धतियाँ थीं। जब साधक ध्यान द्वारा पंच महाभूतों को अंतस्थ कर लेता था तब वह मनो-वस्तु से नाभि तक क प्रदेश पर चिन्तन करता था और ध्यान एकाग्र कर चक्रों का वेधन करता था।^{३०}

सिद्धों ने इसमें से बोल कक्कोल योग द्वारा पंच महाभूतों को अन्तस्थ करना स्वीकृत किया।^{३१} यद्यपि उसकी प्रणाली उन्होंने चित्त की एकाग्रता न रख कर प्रज्ञोपायात्मक घर्षण के रूप में संशोधित कर दी। नैरात्म्यज्ञान अथवा भगवती प्रज्ञा का स्थान उन्होंने हृदय के बजाय हिन्दू योग दर्शन के समान कपाल या मस्तक के अन्दर रक्खा। किन्तु चक्रों की संख्या उन्होंने घटा कर चार कर दी क्योंकि उनके योग का मूल आधार उनका परम्परागत तीन बुद्ध कायाओं के साथ चौथी सहज या महासुख काया (चतुर्काया) सिद्धान्त था। यह ४ की संख्या सिद्धों के हठयोग में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ५ की संख्या योगाचार में। चार कायाएँ हैं, चार क्षण हैं, चार मुद्राएँ हैं, चार आनन्द हैं चार शून्य हैं और चार चक्र हैं। ये चारों चक्र मेरुदंड में स्थित हैं।

काण्हा इस मेरुदंड को मेरुगिरि या सुमेरु पर्वत के रूप में परिकल्पित करते हुए कहते हैं कि यह कंकाल रूपी श्रेष्ठ सुमेरु पर्वत है जिसके शिखर पर शबरी नैरात्मा का वास है। उसके मूल में कन्दरा (मूलाधार चक्र) है जिसमें विमल सलिल रूपी शुक्र वैरोचन बोधिचित्त स्थित है। अन्दर ही अन्दर कालाग्नि है जो साधना के बिना अधोमुखी होकर शुक्र को सुखा डालती है, और पवन निरोध के बाद ऊर्ध्वमुखी होकर प्रकाश करती है और शुक्ररूपी उपाय भी प्रज्ञा के समागम के लिये गतिमान होता है।^{३२} शबररूपी वज्रधर साधक^{३३} को चित्रित कर उसी अपनी चर्चा में शबरपाद भी मेरुदंड को सुमेरु परिकल्पित कर उसके ऊँचे शिखर पर शबरी का वास चित्रित करते हैं और उस शबरी को नैरात्मा सहज-सुन्दरी की संज्ञा देते हैं।^{३४}

इस मेरुदंड के उच्चतम शिखर पर महासुखचक्र या उष्णीष कमल है जिसमें नैरात्मा का वास है। इसके मूल में नाभिचक्र है जिसमें बोधिचित्त शुक्ररूप में वास करता है। इसके बीच में दो चक्र और हैं, हृदय प्रदेश में और कंठ के समीप। इन चार चक्रों को चार कमल के रूप में परिकल्पित किया गया

है। इनको नीचे से क्रमशः नाभिकमल, हृत्कमल, सम्भोगचक्र तथा उष्णीष कमल कहा जाता है।^{३५} बौद्ध तन्त्रों में प्रातः इन चक्रों के वर्णन पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है।

पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चारों चक्रों में बुद्ध की चार कायाओं का वास माना गया है और उन्हीं पर इन चक्रों का नामकरण भी कर दिया गया है। उष्णीष कमल में महासुख काया है अतः उसे महासुख चक्र भी कहते हैं। कंठ के समीपवर्ती चक्र में सम्भोगकाया है अतः वह सम्भोग चक्र है। हृदय प्रदेश में स्थित चक्र में धर्मकाया अतः वह धर्म चक्र और नाभि में निर्माणकाया अतः वह निर्माण चक्र कहा जाता है। यहाँ पर एक बात विचारणीय है। इन चक्रों के प्रसंग में कायाओं के क्रम में कुछ व्यतिरेक हो गया है। परम्परा में निर्माण के बाद सम्भोगकाया और सम्भोग के उपरान्त धर्मकाया, यह क्रम चला आ रहा था। चक्रों में इन कायाओं को स्थापित करते समय वज्राचार्य ने धर्मकाया को नीचे और सम्भोगकाया को ऊपर स्थान दिया। यह क्रम बदल क्यों दिया गया इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिलता।^{३६} इसके सम्बन्ध में एक अनुमान यह किया जा सकता है कि सम्भोगकाया में ही भगवान तथागत ने सूत्रों तथा संगीत साहित्य का उपदेश दिया था और यही काया 'उपाय-कौशल' से सम्बद्ध है। अतः इसकी सक्रिय उपाय-सिद्धान्त से अधिक निकटता है और इसी कारण प्रज्ञोपायात्मक योग में इसे महासुख-काया के पहले और धर्मकाया के ऊपर स्थान मिला हो क्योंकि यह हम देखते आ रहे हैं कि प्रज्ञोपाय सिद्धान्त के निर्वाह के लिये सिद्धों ने पूर्वागत परम्परा में यथेष्ट संशोधन किये हैं। हेवज्र तन्त्र में भी सम्भोग काया को ६ रसों के उपभोग की काया बताया गया है।^{३७} अतः इस क्रम व्यतिरेक का यह कारण ठीक ही मालूम देता है।

इन चक्रों को कमल के रूप में चित्रित किया गया है और लगभग सभी तन्त्र इस बात से सहमत हैं कि निर्माण चक्र में ६४, धर्म चक्र में ३२, सम्भोग चक्र में १६ और उष्णीष कमल या महासुख चक्र में ६ पाँखुरी हैं।^{३८} इन कमल की पाँखुरियों पर बीजाक्षर भी अंकित हैं। महासुख चक्र पर हः अंकित है, इसी कमल में चन्द्र की षोडश कलाओं से अभिषिक्त योगिनी का वास है जिसके दो और आली तथा काली स्वभाव की ललना तथा रसना नाड़ियाँ स्थित हैं। ये ही षोडश कलाएँ दिन तथा रात्रि के स्वभाव का अनुगमन कर द्विगुणित होकर ३२ पाँखुरियों का रूप धारण कर लेती हैं। हेरुक तन्त्र में महा-

साधना-पद्धति

मुख कमल की चार पाँखुरियों पर ३२ पाँखुरियों वाले कमल का आवेष्टन बताया गया है जो इन्हीं षोडश कलाओं के दिवारात्रि द्विविध स्वरूप का द्योतक है। सम्भोग चक्र पर हूँ बीजाक्षर है। धर्मचक्र पर अंकित हूँ बीजाक्षर निम्न मुख होकर अंकित है और निर्माण चक्र पर 'अं' बीजाक्षर अंकित है। श्री सम्पुट तन्त्र में से चारों चक्र, नाभि ए, हृदय वं, कंठ म उष्णीष या (एवम् मया) बीजाक्षरों से अंकित हैं और क्षिति, जल, पावक, और समीर भूतों के आवास बताये गये हैं। इनकी शासिका देवियाँ भी हैं। लोचना, मामकी, पाँडरा और तारा। ये चारों देवियाँ करुणा, मैत्री, मुद्रिता और उपेक्षा की अधिस्वामिनी हैं।^{१९} करुणा, मैत्री, मुद्रिता, और उपेक्षा ये चार निर्दोष चित्त बताये गये हैं जिन्हें योगाचार परम्परा में ४ ब्रह्मविहार बताया गया है।^{२०}

इस प्रकार हम देखते हैं कि योगाचार परम्परा से काफी प्रभाव ग्रहण किया गया है। योगाचार में भी चक्रों की शृङ्खला का प्रारम्भ नाभि से माना गया है, और बौद्ध तन्त्रों में भी एक स्थल को छोड़कर सभी जगह निर्माण चक्र की स्थिति नाभि में मानी गई है।^{२१} ब्रह्मविहारों का भी समन्वय चार चक्रों में कर दिया गया है। किन्तु बौद्ध तन्त्रों में हिन्दू परम्परा का अनुसरण करते हुए अन्तिम चक्र मनोवल्थु (हृदय) में न मान कर मस्तक में माना गया है।

इसके पहले कि हम दोहों और चर्यापदों में इन चक्रों के उल्लेख पर दृष्टिपात करें, इन चक्रों की तुलना हिन्दू परम्परा के षट्चक्रों से कर लेनी आवश्यक है। षट्चक्र परम्परा में सहस्रार के अतिरिक्त छः हिन्दू योग के चक्रों से तुलना चक्र और सहस्रार को सम्मिलित कर ७ चक्र माने गये हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, तथा सहस्रार। मूलाधार-पद्म उपस्थ तथा गुदा के बीच रीढ़ मूल में स्थित चतुर्दल कमल है।^{२२} स्वाधिष्ठान लिंगमूल में^{२३}, दशदलयुक्त मणिपूर चक्र नाभि प्रदेश में^{२४}; द्वादशदली अनाहत चक्र हृदय प्रदेश में;^{२५} सोलह दलों से युक्त विशुद्धाख्य चक्र कण्ठ प्रदेश में^{२६}; द्विदल युक्त आज्ञाचक्र भ्रूमध्य ललाट में स्थित है।^{२७} अंत में सहस्रार चक्र है जिसमें सहस्र पाँखुड़ियाँ हैं जहाँ पवन विलीन हो जाती है और बुद्धि का उद्भव होता है।^{२८}

इस षट्चक्र परम्परा से तुलना करने पर हम पाते हैं कि मूलाधार और

स्वाधिष्ठान नामक चक्रों की तरह बौद्ध साधकों में लिंगमूल में कोई भी चक्र नहीं है। उनकी चक्र परम्परा नाभि^{४९} से प्रारम्भ होती है और इसमें उन्होंने योगाचार को परम्परा का अनुसरण किया है।^{५०} विशुद्ध और आज्ञा चक्रों में अधिकांश बौद्ध तन्त्रों ने सम्भोग चक्र के रूप में विशुद्ध को स्वीकृत किया है किन्तु सेकोद्देश में नडपाद ने विशुद्ध को अस्वीकृत कर आज्ञा की भाँति सम्भोग चक्र की स्थिति ललाट में मानी है। इसके साथ ही साथ बीजाक्षरों में भी उन्होंने बौद्ध तन्त्रों के एवम् आदि अक्षर लिये हैं और दलों की संख्या भी चार शून्यों की संख्या पर आधारित है।^{५१} चार शून्यों के प्रतीक रूप में उष्णीष कमल में चार दल हैं और उसके कारण सभी तत्व चार ही हैं, मुद्राएँ, क्षण, आनन्द इत्यादि।

कारहपा ने इस चतुर्दल से युक्त उष्णीष कमल का उल्लेख अपने दोहों में किया है।^{५२} वे कहते हैं कि 'ललना रसना रूपी सूर्य चन्द्र दोनों को वर्जित कर चार दलों और चार मृणालों वाले कमल में महासुख का वास है।' टीकाकार इन चार दलों को शून्य, अतिशून्य, महाशून्य और सर्वशून्य बताता है। यह मेरुगिरि के शिखर पर स्थित उष्णीष कमल है। इसी को सुसुकुपा नलिनीवन या पद्मवन कहते हैं जिसमें प्रवेश कर चित्त की द्विविधा समाप्त हो जाती है।^{५३} इसी में वास करने के कारण भगवती नैरात्मा को कमलिनी भी कहा गया है।^{५४} यह उष्णीष कमल प्रज्ञाज्ञानाभिधेक के समय भरपूर खिल जाता है और इसमें से अमृत-वर्षण होता है।^{५५}

सिद्धों के प्राप्य साहित्य में धर्मचक्र और सम्भोगचक्र की साधनाओं का उल्लेख लगभग नहीं के बराबर है तथापि उनमें प्रात परमानन्द और विरमानन्द का उल्लेख बराबर मिलता है, जिस पर हम आगे विचार करेंगे। किन्तु निर्माण चक्र^{५६} का उल्लेख बराबर मिलता है क्योंकि पवन निरोध कर बोधचित्त को उद्बुद्ध करने का साधनास्थल वही है। कृष्णपाद नैरात्मा को डोम्बी रूप में परिकल्पित कर कहते हैं कि चौंसठ पाँखुरियों वाला एक कमल है जिस पर चढ़ कर डोम्बीरूपी नैरात्मा नाच रही है।^{५७} इस कमल का अर्थ टीकाकार निर्माण चक्र बताता है जिसमें चौंसठ पाँखुरियाँ होती हैं।^{५८}

इन चक्रों के वेधन का मार्ग नाड़ियों में से होकर है। इन नाड़ियों की संख्या मुनिदत्त ने अपनी टीका में ३२ बताई है।^{५९} हेवज्र में भी नाड़ियों की संख्या ३२ ही बताई गई है।^{६०} इन बत्तीस नाड़ियों में से भी तीन नाड़ियाँ

साधना-पद्धति

प्रमुख हैं ललना, रसना और अवधूती।^{६१} चर्यापदों में इन तीन नाड़ियों को विभिन्न प्रतीकों से लक्षित किया गया है। विरूपा अवधूती की (शुंढिनी) मधुवाला से उपमा देते हैं जो दो स्थानों से मद को खींचती है, ललना और रसना।^{६२} इसी को गुंडुरी तिअड्डा या त्रिनाड़ी कहते हैं।^{६३} इनमें से ललना वाम नासापुट के समीप है, वह चन्द्र स्वभाव की है और प्रज्ञारूप है।^{६४} रसना दक्षिण नासापुट के समीप है, सूर्य स्वभाव की है और उपायरूप है।^{६५} इन्हीं दोनों को नैरात्म-दर्शन की परिभाषा में ज्ञेय और ज्ञान, ग्राह्य ग्राहक भी कहा जाता है और अवधूती इन दोनों के बीच ग्राह्य-ग्राहक-वर्जित रूप में स्थित है। उसी नैरात्म्यज्ञान रूपी मध्यम सहजपथ की भाँति वह क्लेशों को धुनने वाली है अतः उसका नाम अवधूती है।^{६६} इसी अवधूती में से होकर शुक्र नामक और भी सूक्ष्म नाड़ी है जिसमें से त्रिधित्त उर्ध्वगामी होता है विन्दु रूप में।^{६७} यह नाड़िका वैरोचन द्वार में लीन होती है जो नवद्वारों के अतिरिक्त दसवाँ द्वार है।^{६८}

चर्यापदों का यह नाड़ीजाल हिन्दू योग परम्परा में भी मिलता है। योग साधना में भी मेरुदंड के वहिःपार्श्व में चन्द्र और सूर्य रूपी इड़ा और पिंगला नाड़ियों की स्थिति बताई गई है। बीच में सुषुम्णा है जो मेरुदंड के विवर में है और वह अग्नि रूपी है।^{६९} इड़ा वामगा है, देवी है; पिंगला शिव है, सूर्य है। इड़ा यमुना है, पिंगला सरस्वती है, सुषुम्णा गंगा है। इस प्रकार त्रिवेणी बनती है।^{७०} इनमें से सुषुम्णा भी त्रिगुण के अनुसार ३ नाड़ियों का गुम्फन है। सत्वगुणमयी चित्रिणी, रजोगुणमयी वज्रा, और तमोगुणमयी सुषुम्णा, इसीलिये उसे त्रिगुणमयी बताया गया है।^{७१} शंखिनी रूपी नाल को ग्रहण कर वह ब्रह्मसदन को जाती है।^{७२}

हेरुक-तन्त्र में भी ललना रसना की यही स्थिति बताई गई है। ललना या आली धनुषाकार रूप में गर्दन से प्रारम्भ होती है और नाभि में वाम दिशा से प्रवेश करती है। रसना नाभि से प्रारम्भ होती है और कंठप्रदेश में होती हुई अवधूती वैरोचन द्वार तक जाती है। इसीलिये उसे मध्यम कहा गया है। चूँकि ललना और रसना को प्रज्ञोपाय कहा गया है अतः यह सहज है।^{७३}

तन्त्रों तथा चर्यापदों में विभिन्न प्रतीकों में आली काली, गंगा यमुना, सूर्य चन्द्र, धमन चमन, ललना रसना का उल्लेख है। इन नामों में से कुछ युग्मों पर विचार कर लेना आवश्यक है। आली के अर्थ हैं अ से प्रारम्भ होने वाली स्वर माला, और काली के अर्थ हैं क से प्रारंभ होने वाली व्यंजन माला।

तन्नों में स्वरों को रात्रि से और व्यंजनों को दिन से सम्बद्ध माना गया है अतः आली-वाहिका नाड़ी ललना रात्रि है, चन्द्र है, शशि है, उससे द्रवित सोम है, प्रज्ञा है, इसी प्रकार काली-वाहिका रसना सूर्य है, रवि है, अग्नि है। इन्हीं में से प्राण से राहु तथा अपान से कालामि की उत्पत्ति होती है।^{१४} धमन और चमन के अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाते पर बागची का अनुमान है कि धमन संभवतः धम धातु से है जिसके अर्थ हैं जाना, गति और चमन 'चम्' धातु से है जिसके अर्थ हैं निगलना^{१५}। इन नाड़ियों में से वामस्थित ललना शुक्र का वहन करती है और रसना रज का और अवधूती रज-भूषित शुक्र अथवा प्रज्ञोपाय अद्वैत रूपी बोधिचित्त का इसीलिये इसको सहज पथ भी कहा गया है।^{१६} इसीलिये यह नैरात्मा या सहजमुन्दरी भी कही गई है। यह जोगिनी भी कहलाती है। चर्यापदों में अवधूती के दो रूप मिलते हैं, परिशुद्धा और अपरिशुद्धा। परिशुद्धा अवधूती को डोम्बी कहते हैं जिससे बोधिचित्त समागम करता है और अपरिशुद्धा को छिन्नाली भी कहते हैं क्योंकि वह भेद ज्ञान युक्त होती है।^{१७}

अपान वायु से कालामि प्रज्वलित होती है जो अधोमुखी रहने पर शुक्र को सुला डालती है और मनुष्य की शक्तियों का क्षय होता रहता है।^{१८} काण्डपा के टीकाकार ने इसी शुक्र को बोधिचित्त बताते हुए कहा है कि अपान निम्नगा वायु होती है और उसके वशीभूत होकर बोधिचित्त पतित कहलाता है और उसका विनाश हो जाता है। इसी को लुईपा ने चंचल चित्त में काल का प्रवेश करना बताया है।^{१९} अतः काल पर विजय प्राप्त कर बोधिचित्त को उद्भुद्ध करने के लिये पवन का निरोध करना आवश्यक है। सरहपा ने कहा है कि जो वायु बहती है (अधोमुखी या ऊर्ध्वमुखी, अपान या प्राण) वह जत्र निश्चल हो जाती है तब उस योगी का काल क्या बिगाड़ सकता है।^{२०} तिलोपा के अनुसार ऐसी ही बद्ध नियन्त्रित वायु में लीन होकर चंचल चित्त मृत^{२१} अर्थात् विशुद्ध हो जाता है।^{२२} इसी को कुम्कुरीपा कुम्भीर फल (कुम्भक योग) कहते हैं और सांस की निद्रा (श्वास की निश्चलता) कहते हैं।^{२३} इसी पवन के निरोध को सरहपा पवन का क्षय भी कहते हैं।^{२४} इस साधना में वायु के निश्चल करने के अर्थ हैं प्राणवायु को ऊपर जाने और अपान वायु को नीचे जाने से रोक कर यथास्थान रोक देना ताकि उसे चित्त भी चंचल न रह कर स्थिर और एकाग्र हो जाय। अध-ऊर्ध्व से विमुक्त बोधिचित्त उसी समय प्राण अपान से विमुक्त तथता-स्वरूप का हो जाता है।^{२५} इसी से काण्डपा ने ऐसी गृहणी को इस बोधिचित्त का

साधना-पद्धति

प्रतीक माना है जो घर ही में रहती है बाहर नहीं आती जाती है।^{१६} इसके लिये कुम्भक, रेचक, पूरक आदि का विधान है^{१७} जो योगाचार में ही अपनाया जा चुका था।^{१८}

किन्तु इसके साथ ही साथ स्वेच्छा से लिंग और गुदा के समीप की मांसपेशियों का संकुचन कर एक प्रकार का मूलबन्ध भी किया जाता था जिससे शुक्र अधःपतित न हो।^{१९} ये बन्ध देह के अन्दर स्थित विभिन्न पीठों ओडियान जालन्धर आदि के समीप की पेशियों को संकुचित कर किये जाते थे। इसी के आधार पर तन्त्रों में जालन्धर बन्ध, उड्डियान बन्ध आदि उल्लेख मिलते हैं।^{२०} इस मणिमूल बन्ध के कारण चन्द्र और दिवाकर रूपी ललना और रसना का निरोध हो जाने से अन्धकार हो जाता है।^{२१} कालाम्नि का भी क्षय हो जाता है। तब उस समय साधक अवधूती का उद्घाटन करता है और चंडाम्नि रूपी आलोक ऊपर की ओर उठता है और उससे बोधिचित्त मणि की भाँति जगमगा उठता है। इसी को चान्डाली योग भी कहा जाता है।^{२२} इसी चंडाम्नि के ऊपर पहुँच कर सभी क्लेश वासनाओं को जला कर भस्म कर देने का वर्णन चर्यापदों में बड़े सुन्दर ढंग से मिलता है। धामया कहते हैं—कमल और कुलिश के मध्य में मैं लीन हो गया हूँ। समता योग से मेरी चांडाली प्रज्ज्वलित हो गई है। डोम्बी के घर में राग-दाह से आग लग गई है। शशहर (परिशुद्ध चित्त) को लेकर मैं आग को बुझा रहा हूँ। यह ज्वाला दाहक नहीं है, न इससे नयन में धुँआँ लगता है। यह अग्नि सुमेरु शिखर में जाकर गगन में प्रवेश कर रही है। उससे हरिहर ब्रह्मादिक सब जल गये हैं। नवगुण वासना क्लेशादि सब इससे भस्म हो गये हैं। अन्त में पाँच नाड़ियों से जल पहुँचा।^{२३}

टीका के अनुसार^{२४} इसमें कमल कुलिश या ललना रसना के बीच में अवधूती मार्ग के उद्घाटन से चंडाली प्रज्ज्वलित करने का वर्णन है। यह महासुख रूपी राग की अग्नि है जो परिशुद्धावधूती रूपी डोम्बी के घर में लग गई है। इससे सभी विषयाश्रय दग्ध हो गये हैं। यह ज्ञानाग्नि है अतः इसमें दृष्टि-दोष (आँख में धुँआँ लगना) नहीं होता। हरिहर और ब्रह्मा से मूत्र नाड़ी, शुक्र नाड़ी और विट नाड़ी परिलक्षित हैं। ये तीन उपनाड़ियाँ हैं और हिन्दू देवताओं को नोचा दिखाने के लिये इन्हें त्रिदेव की संज्ञा दी गई है। ये तीनों नाड़ियाँ भस्म हो गई हैं। पाँच नाड़ियाँ पूर्वोक्त तीन नाड़ियाँ तथा ललना और

रसना हैं।^{१५} या टीका के अनुसार इन्हें चतुर्शून्य और अवधूती, इन पाँचों के रूप में गिनना अधिक संगत होगा। इन पाँचों से अमृत भरता है।

इस चंडाली के प्रज्वलित होने के उपरान्त साधक वज्रजाप आदि साधनाओं से काय, वाक् और चित्त को वज्र बना कर तत्र मध्यपथ, अवधूती को वधू के रूप में ग्रहण करता है। इस काय-वाक्-चित्त वज्र साधना की व्याख्या चौथी चर्या की टीका में की गई है जहाँ देवता योग से काय-वज्र, वज्र जाप द्वारा वाक्-वज्र और पवन निरोध द्वारा चित्त-वज्र का प्रतिपादन किया गया है।^{१६} कृष्णाचार्य इसी काय-वाक्-चित्त को त्रिशरण कहते हैं और उससे चतुर्थ अर्थात् महासुखकाय नौका रूप में ग्रहण करने का आदेश देते हैं।

इस काय-वाक्-चित्त वज्र^{१७} की साधना से सिद्धों का अर्थ हठयोग में अन्तर्भुक्त उन चार वज्रयोगों से है जिनका विस्तृत विवरण हमें सेकोदेश टीका में मिलता है। निर्माण-काय रूपी तथागतों की काया का ध्यान कर काया को वज्र बना लेना चाहिये। इसीलिये कृष्णाचार्य देह रूपी नौका का केडुआल पंच तथागतों को बनाते हैं।^{१८} इसीलिये टीकाओं में देवता योग से काय-वज्र की सिद्धि बताई गई है। इसके बाद वज्रजाप द्वारा वाग्-वज्र की सिद्धि का उल्लेख मिलता है। वज्रजाप प्राणायाम के समय एवं आदि बीजाक्षरों तथा मन्त्रों के निरन्तर जप को कहते हैं। वज्रजाप का उल्लेख हमें पाँचवीं चर्या की टीका में भी मिलता है।^{१९} यह वज्रजाप सदैव प्राणायाम से संबद्ध रहता था अतः बहुत से वज्रयानी मन्त्र तीन अक्षरों के मिलते हैं ताकि पूरक, कुंभक और रेचक इन तीनों में उसका जाप हो सके।^{२०} सेकोदेश टीका में चौथी अवस्था को ज्ञान-वज्र बताया है।^{२१}

इसी प्रकार अवधूती द्वारा चारों चक्रों का वेधन करने की प्रणाली में चार क्षणों, चार आनन्दों और चार मुद्राओं का उल्लेख बार बार सिद्धों ने किया है जिसका परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तिलोपा कहते हैं कि क्षण और उनके आनन्दों का भेद भली भाँति जान लो।^{२२} जो क्षण तथा आनन्दों का भेद जान लेता है वही योगी कहलाता है।^{२३} सरहपा भी क्षणों के उपाय और उनके सुख का वर्णन करते हुए चतुर्थ क्षण में प्राप्त सहजानन्द की उपलब्धि को श्रेयस्कर मानते हैं।^{२४}

इन चार क्षणों की व्याख्या टीका में इस प्रकार की गई है कि क्षण चार होते हैं।^{२५} इन चार क्षणों को हैवज्र-तन्त्र में विचित्र, विपाक, विमर्द और

साधना-पद्धति

विलक्षण की संज्ञा दी गई है।^{१०६} विचित्र निर्माणचक्र के वेधन का क्षण है, विपाक धर्मचक्र का, विमर्द सम्भोगचक्र का और विलक्षण ऊष्णीष कमल का। इसी न्याय से विचित्र निर्माणकाया का क्षण है, विपाक धर्मकाया का, विमर्द सम्भोगकाया का और विलक्षण महासुखकाया का। अद्रयवज्र भी इन्हीं चारों क्षणों का विवरण देते हुए चतुर्थ क्षण तक पहुँचने के लिये हठयोग की साधना का उपयोग करते हैं।^{१०७}

दोहों के टीकाकार ने इन्हीं चार क्षणों के भेद से ४ आनन्द बताए हैं।^{१०८} ये चारों आनन्द उन्हीं चारों क्षणों के होते हैं।^{१०९} ये चार आनन्द हैं, प्रथमानन्द, परमानन्द, विरमानन्द और सहजानन्द। चार आनन्द प्रथमानन्द विचित्र क्षण का आनन्द है जिसकी अनुभूति आलिंगन चुम्बनादिक से मिलती जुलती है। परमानन्द ज्ञान-सुख का योग है। विरमानन्द समागम सुख की भाँति है और इन सभी राग विरागों से वर्जित चतुर्थ आनन्द है सहजानन्द जो सर्वश्रेष्ठ है। परम और विरम इन दोनों के मध्य और दोनों से श्रेष्ठ यह सहजानन्द है जो साधक को महासुख की अनुभूति देता है।^{११०}

यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना चाहिये। हिन्दू योगशास्त्र में जहाँ सुख को आनन्द से नीचा स्थान दिया गया है वहाँ सिद्धों ने साम्प्रदायिक प्रति-द्वंद्विता के कारण महासुख को शीर्ष स्थान दिया है जो प्रज्ञोपाय योग के उपरान्त प्राप्त होता है और आनन्दों को उससे निम्न श्रेणी का माना है। उसमें भी हिन्दुओं की सर्वोच्च अनुभूति ब्रह्मानन्द को उन्होंने केवल तीसरा स्थान दिया है और अपने प्रज्ञोपाय मैथुन से प्राप्त सहजानन्द को ब्रह्मानन्द से भी ऊँचा ठहराया है।

इन आनन्दों को प्राप्त कराने वाली ४ मुद्राएँ हैं जिनका नाम दोहाकोष में कर्ममुद्रा, धर्ममुद्रा, ज्ञानमुद्रा और महासुद्रा बताया गया।^{१११} चर्यापदों में कर्ममुद्रा, ज्ञानमुद्रा और महासुद्रा का कई बार उल्लेख आता है जैसा हम आगे देखेंगे। बौद्ध तन्त्रों में बाद में इन नामों में कुछ विपर्यय भी हुआ है। अद्रयवज्र ने ज्ञानमुद्रा का उल्लेख नहीं किया है और समयमुद्रा को सर्वश्रेष्ठ माना है।^{११२} श्रीसम्पुट

में भी यही क्रम है।^{११३} सरहपा ने एक और मुद्रा भवमुद्रा का उल्लेख किया है जो सांसारिक सुख दुख और क्लेश देकर भव बन्धन में बाँधने वाला है।^{११४} बोधिचित्त के उद्बुद्ध हो जाने के बाद प्राप्त होने वाली उपर्युक्त चारों मुद्राएँ मोद प्रदान करनी वाली हैं। इसीलिए उन्हें मुद्रा कहा गया है।^{११५} 'मोद प्रदान करने वाली' यह व्याख्या बौद्ध तन्त्रों की अपनी व्याख्या है अन्यथा पहले तन्त्रों में मुद्रा का अर्थ यह नहीं दिया गया है।^{११६}

इन चारों मुद्राओं में प्रथम मुद्रा होने के कारण कर्ममुद्रा का काफी महत्व बताया गया है। तिलोपा कर्ममुद्रा को दूषित न करने का उपदेश देते हैं।^{११७} क्योंकि क्षण आनन्द का भेद कर्ममुद्रा के बिना पहचाना ही नहीं जा सकता।^{११८} बोल-क्कबोल-साधना द्वारा पंच महाभूतों को अन्तस्थ करने की साधना भी कर्म-मुद्रा के समागम में विचित्र क्षण में ही बताई गई है।^{११९} अद्रयवज्र वज्रयोगों द्वारा काय वाक्चित्त की दृढ़ता और वज्र-परिणति भी कर्ममुद्रा के ही सहयोग से बताते हैं।^{१२०}

मुद्रा अर्थात् मोद देने वाली इस व्याख्या से मुद्रा को नारी रूप में परिकल्पित किया गया है। श्रीसम्पुट में भगवान बुद्ध को निर्माण चक्र में लोचना मुद्रा, धर्मचक्र में मामकी, सम्भोग चक्र में पाण्डरा और महासुख चक्र में महासुख काया में तारा से मुद्रारूप में सम्भोग करते बताया गया है। सिद्धों ने भी भगवती नैरात्मा को महामुद्रा में परिकल्पित कर उनके डोम्बी, चांडाली, कपाली, योगिनी, शवरी आदि कई नाम दिये हैं, जिन पर विचार कर लेना आवश्यक है।^{१२१} इन नामों से यह भ्रम हो सकता है कि ये निम्न जातियों की स्त्रियों के वाचक हैं जो सम्भवतः इन सिद्धों की गुह्य साधनाओं में सम्मिलित हुआ करती होंगी। किन्तु इनके पीछे योग साधनाओं से सम्बन्धित गहन सांकेतिक अर्थ हैं जिन पर आगे हमने विचार किया है।^{१२२} किन्तु यह सब केवल सांकेतिक शब्दावली है और वास्तविक नारियाँ इनकी साधना में सम्मिलित नहीं होती थीं, यह धारणा भी सर्वथा एकांगी है।

बौद्ध तन्त्रों के सर्वमान्य ग्रन्थों में इस विषय में स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं कि मण्डल चक्र और मुद्रा मैथुन में स्त्रियों का उपभोग उनके यहाँ आवश्यक अनुष्ठान माना जाता था। किन्तु वे इन साधनाओं को केवल भौतिक अर्थ में ग्रहण नहीं करते थे। वे प्रज्ञा को परमार्थ रूप में नैरात्म ज्ञान मानते थे और सम्बुद्धि रूप में देहधारी नारी रूप। अतः प्रज्ञा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के

साधना-पद्धति

लिये पहले नारी रूपिणी सम्भृत प्रज्ञा, देहधारिणी प्रज्ञा का उपभोग करना आवश्यक है।^{१२३} यदि नारी के इस प्रज्ञारूप को हृदयंगम कर लेते हैं तब फिर किसी कुल जाति की स्त्री में रमण कर हम शून्यता ज्ञान की उपलब्धि कर सकते हैं।^{१२४} मुद्रा की जाति की विशेष चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि जाति की स्थिति तो देह में है और प्रतीत्य-समुत्पाद के सिद्धान्त से देह अनित्य और नैरात्म्य-स्वभाव की है। अतः कैवर्ती, चांडाली, ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या, शूद्रा इनमें से कोई भी त्याज्य नहीं है। हमें वज्रज्ञान के प्रभाव में इनसे समागम करना चाहिये।^{१२५} इस वज्रज्ञान प्राप्त साधक के लिये गम्य-अगम्य तथा पेय-अपेय का कोई ध्यान नहीं रहता। सभी वर्णों में उत्पन्न स्त्रियाँ ग्राह्य हैं उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। वे भगवती प्रज्ञापारिमिता की ही सम्भृत रूपाभिव्यक्ति हैं।^{१२६}

बौद्ध तन्त्र ग्रन्थों में स्पष्टतः मुद्राओं की आयु, जाति रूप आदि के विषय में सांगोपांग विवेचन मिलता है। उनकी मण्डल चक्र साधनाओं में यह दायित्व गुरु पर है कि वह शिष्य को मुद्रा के चुनाव और उपभोग में निर्देशन दे। उनकी अभिप्रेक साधना ही मुद्रा के समागम से आरम्भ होती है।^{१२७} सेकोद्देश टीका में शिष्य को दीक्षित करते समय मुद्रा की आयु बारह से बीस वर्ष पर्यन्त की बताई गई है। उसका उपयोग प्रज्ञोपायात्मक देवता योग से अपनी कुलिश मणि से करना चाहिये।^{१२८} प्रज्ञोपाय-विनिश्चय में बताया गया है कि मुद्रा के आलिंगन के साधक में वज्रावेश जागता है, और वह साधना-मार्ग में पवृत्त होता है।^{१२९}

किन्तु ये समस्त आलिंगनादि कर्म क्षुब्ध, आसक्त और विषयी मन से नहीं करने चाहिये अन्यथा ये बन्धन के कारण बन जाते हैं और इनसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती।^{१३०} मन को इतना अनासक्त रहना चाहिये कि योगी को कभी स्वल्पित नहीं होना चाहिये।^{१३१} बाद में तो इन पद्धतियों का इतना विकास हुआ कि वज्रोली, सहजोली आदि पद्धतियों का उल्लेख मिलता है जिनमें साधक मैथुन के समय मुद्रा-योगिनी को स्वल्पित करा देता है, किन्तु स्वतः क्षुरित नहीं होता। इसके अनन्तर वह नारी के रज को भी प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर में खींच लेता है और उससे काय वाक् चित्त की वज्रता को उपलब्ध कर लेता है।^{१३२}

महामुद्रा की यह साधना सबसे कठिन साधना मानी जाती थी और इसी साधना में निष्णात होने के उपरान्त ही किसी की गणना सिद्धाचार्यों में होती

है। इन सिद्धों में से कई ने महामुद्रा साधना सम्पन्न की थी ऐसा तिब्बती अनु-श्रुतियों में मिलता है। तारानाथ ने स्वतः सरहपा के विषय में लिखा है कि वे महामुद्रा साधना के प्रथम आचार्य थे (बौद्ध परम्परा में)। नालन्दा से जब वे दक्षिण गये तब महाराष्ट्र में उन्हें अपनी ही समकक्ष योगिनी मिली जिससे महामुद्रा मैथुन सम्पन्न कर वे सिद्ध हुए।^{१३३} शबरीपा को दो मुद्राओं का स्वामी बताया जाता है। उनका नाम लोगी और गुनी था और जब शबरीपा ने उन्हें मुद्रा रूप में स्वीकार किया तो उनका नाम डाकिनी पद्मावती और ज्ञानावती हो गया। उनका बाह्य जीवन अनैतिक और पापमय सा प्रतीत होता था।^{१३४} लुईपा बंगाल गये और गंगातट पर मछलियों के ढेर में रह कर उन्होंने अपनी साधनाएँ कीं और मैथुन कर महामुद्रासिद्धि प्राप्त की।^{१३५}

बौद्ध परम्परा के बाहर भी कभी कभी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि सिद्ध लोग सपत्नीक गृहस्थ जीवन बिताते थे। यह परम्परा अवश्य पहले से चली आ रही थी। कालिदास में हमें सपत्नीक सिद्धों का एक रोचक उल्लेख मिलता है। जब मेघ से यज्ञ अलकापुरी जाने की प्रार्थना करता है तब वह कहता है कि 'इस पहाड़ी से जब तुम ऊपर उड़ोगे तो तुम्हारी गति से आकृष्ट होकर सिद्धों की भोली भाली प्रेयसियाँ अनिमेष दृष्टि से तुम्हारी ओर देखेंगी और आश्चर्य में पड़ जायंगी कि कहीं यह पर्वत ही तो नहीं उड़ा जा रहा है।'^{१३६} कालिदास के इस उल्लेख से स्पष्ट है कि मालव के दक्षिण में सम्भवतः महाराष्ट्र के आसपास सिद्धों की परम्परा थी जो सपत्नीक रहते थे। वे बौद्ध सिद्ध नहीं रहे होंगे किन्तु उन्हीं के अनुकरण में सरहपा ने इस पद्धति को ग्रहण किया होगा। किस प्रकार सरहपा ने इस योगिनीनय को दोहाकोष में प्रज्ञापरक अर्थ दिये हैं इस पर हम विचार कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त कई स्थानों पर सखि के प्रति उद्बोधन मिलता है जिससे इन साधनाओं में महामुद्रा नारी का साथ होना प्रमाणित होता है।

कुक्कुरीपा की महामाया साधना में वज्रनृत्य के साथ गाई जाने वाली वज्रगीति में सखि के प्रति स्पष्ट सम्बोधन है। 'ओ सखि वज्र द्वारा प्रबोधित होने पर कमल विकसित हो गया है आओ महासुख पर आरोहण कर नृत्य करें।'^{१३७} इसी प्रकार वीणापा को चर्या में हठयोग की वीणा का वर्णन देने के उपरान्त वे अपनी सखि को सम्बोधित कर कहते हैं—हे सखि हेष्क वीणा बजा रही है...राजा नाच रहा है, और देवी गा रही है। यह बुद्ध-नाटक हो रहा

साधना-पद्धति

है।^{१३८} टीका में इस सखी देवी योगिनी को नैरात्म्यरूप बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि मंडल चक्रों में वे स्त्रियों को नैरात्मा (प्रज्ञा) के ही रूप में ग्रहण करते थे ।

अब प्रश्न उठता है कि सिद्धों ने इस महामुद्रा साधना के शारीरिक मैथुन रूप के विषय में कुछ क्यों नहीं कहा । सिद्धों के शेष साहित्य में यदि इनका विवरण हो तो नहीं कहा जा सकता किन्तु चर्यापदों और दोहों में तो इनका बहुत अप्रत्यक्ष और थोड़ा सा उल्लेख है जैसा हमने देखा । इसके कई कारण हैं । पहला तो यह कि वे महामुद्रा साधना के आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल देना चाहते थे इसी लिये सरहपा, तिलोपा और काणहपा तीनों में जोगिनी, महामुद्रा और धारिणी का उल्लेख है किन्तु उसे प्रज्ञाज्ञानपरक व्याख्या वे बराबर देते गये हैं । दूसरी बात यह है कि ये साधनाएँ विकसित अवस्था के साधकों के लिये थीं और जनसाधारण को इनका उपदेश देना वर्जित था । अद्वयवज्र ने वज्रयान के साधक के मूल और स्थूल दो प्रकार के दोष बताए हैं और उनमें 'गुह्यख्यान जने पक्षे' यह दोनों में परिगणित है।^{१३९} अतः इस ज्ञान को सभी पर प्रकाशित नहीं किया जा सकता । इसके लिये साधक को पहले ४ अभिषेकों की साधना से गुजरना पड़ता है तब वह महामुद्रा-साधन-प्रणाली में दीक्षित किया जा सकता है । इन अभिषेकों का उल्लेख जहाँ तहाँ चर्यापदों की टीकाओं में मिलता है।^{१४०} इन्हीं अभिषेकों से दीक्षित साधक को चर्याधर या कपाली भी कहा जाता था।^{१४१}

महामुद्रा का वरण करने के उपरान्त योगी गुरु के पास जाता है जो उसे अभिषिक्त करता है । अभिषेकों से महामुद्रा साधना सम्पन्न होती है।^{१४२} चौदहवीं चर्या की टीका में 'गगन दुखोल' से पानी उलीचने को चतुर्थ सेक कहा गया है जिससे सम्भवतः प्रज्ञाभिषेक का संकेत है क्योंकि गगन शून्य-प्रज्ञा का प्रतीक है । २७ वीं चर्या की टीका में भी टीकाकार ने प्रज्ञाज्ञानाभिषेक का उल्लेख किया है और उसका समय चतुर्थी सन्ध्या बताया है।^{१४३}

इस अभिषेक के उपरान्त साधक महामुद्रा के साथ मण्डल चक्र में प्रवेश करता है । सिद्धों ने स्थान स्थान पर निम्न प्रकार के, अर्थात् अन्य सम्प्रदायों के, या बौद्धों में भी प्रज्ञोपायात्मक ज्ञान से विहीन मण्डल चक्रों का खंडन किया है।^{१४४} किन्तु इसी से यह समझ लेना उचित नहीं है कि वे मण्डल चक्र मात्र के विरोधी थे । कई स्थानों पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि वे मंडल चक्र

की साधना में प्रवृत्त होते थे किन्तु उत्तम मंडल चक्र वे उसे मानते थे जो प्रज्ञोपायात्मक हो। सेकोदेश टीका, गुह्यसमाज तन्त्र तथा अन्य कितने ही बौद्ध-तन्त्रों में मण्डल चक्र की साधना का विवरण देते हुए यह स्पष्ट कहा गया है कि प्रथम दीक्षा या अभिषेक के समय गुरु साधक के लिये मण्डल चक्र की नियोजना करता है किन्तु साधना की विकसित अवस्थाओं में उससे कहा जाता है कि वह इस वाह्य मण्डल चक्र को देह में व्याप्त पंच स्कन्धात्मक मण्डल चक्रों की अभिव्यक्ति मात्र समझे। इसके भी बाद उससे कहा जाता है कि वास्तविक चक्र तो तथागत की निर्माण काया में विन्दु और रज अथवा कमल और कुलिश के युग्म से नियोजित होता है।

मण्डल चक्र की प्राथमिक साधनाओं के विषय में सेकोदेश टीका में बड़ा रोचक विवरण मिलता है। गुरु पहले एक मण्डल चक्र बनाकर उसमें मन्त्र, पीठ, उपपीठ, देवतास्थान आदि अंकित कर देता है। फिर साधक के हाथ में एक फूल दे दिया जाता है जिसे गुरु की वन्दना कर साधक चक्र के अन्दर फेंकता है। उसके बाद गुरु उसकी आँख में पट्टी बाँध कर साधक को मण्डल के पूर्वी द्वार पर ले आता है। मण्डल के अन्दर प्रवेश कर वह फिर बाहर विजयकलश पर फूल फेंकता है। इस पुष्पाक्षेप के बाद उसकी आँखों की पट्टी खोल दी जाती है।^{१४५}

इस मण्डल चक्र को भी तथागत की काया बतलाया गया है क्योंकि मण्डल चक्र के उस भाग को, जो रंगमयी अल्पना से सुसज्जित है, तथागत की काया माना गया है और उसमें फूल फेंकना वर्जित है क्योंकि यदि रंगों की एक रेखा भी बिगाड़ी तो उससे तथागत की काया को आहत करने या एक चैत्य तोड़ने का पाप होता है।^{१४६}

जहाँ तक सिद्धों का सम्बन्ध है, वे निर्माण काया से उद्भूत आन्तरिक मण्डल चक्र को श्रेष्ठ मानते थे और सदा मण्डल चक्र के आध्यात्मिक पद्म पर बल देते थे। यह मण्डल चक्र तथागत की निर्माणकाया का प्रतीक होता था।^{१४७} इसका उल्लेख गुह्य-समाज-तन्त्र में भी मिलता है और वहाँ पंच स्कन्धों के मण्डल चक्रों का ध्यान करने का सन्देश दिया गया है और उन पंच स्कन्धों के अधिष्ठाता पाँच तथागत हैं।^{१४८} उनमें वज्रसत्व को जोड़कर षट्-तथागत होते हैं और काण्हा को टीकाकार ने षट् तथागत चक्री बताया है।^{१४९} गुह्य समाज तन्त्र के अनुसार नारी महासुद्रा के तन में भी पंच तथागतों का

साधना-पद्धति

वास है अतः उसकी साधना कर लेने वाले को भी तथागतचक्रि कहते हैं।^{१५०} इसीलिये महासुद्रा की साधना कर लेने वाला फिर समस्त बाह्य अनुष्ठानों से मुक्त हो जाता है। काण्हपा ने कहा है कि 'तन्त्र मन्त्र करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। निज गृहणी महासुद्रा को लेकर प्रणयकेलि, कमल-कुलिश साधना करना ही पर्याप्त है। ऐसे जप, होम, मण्डलकर्म केवल बाह्य होने के कारण निरर्थक हैं, उस तरुणी महासुद्रा के स्नेह के बिना बोधि (ज्ञान) नहीं प्राप्त हो सकती।'^{१५१}

महासुद्रा के साथ साधक की साधना की चरम परिणति को समाधि कहते हैं जो प्रज्ञा और उपाय के समागम के कारण प्रज्ञोपाय समाधि या दोनों से उद्भूत होने के कारण सहज समाधि कहलाती है। समाधि समाधि का उल्लेख योगाचार^{१५२} में भी है और प्रज्ञापारमिता^{१५३} में भी, किन्तु सिद्धों की सहज अथवा प्रज्ञोपाय समाधि^{१५४} वज्रयान के तान्त्रिक आचार्यों की अपनी निजी कल्पना है। यही समाधि सिद्धि, महासुख तथा अनुत्तर प्रदान करने वाली है और इसमें स्थित होने के उपरान्त फिर साधक आचार के बन्धनों से मुक्त हो जाता था। गम्यागम्य, भक्ष्याभक्ष्य का कोई भी बन्धन उस पर अनिवार्य नहीं रहता था क्योंकि वह सभी कर्म नैरात्म्य भावना से करता था। उसमें उसकी आसक्तियाँ नहीं रहती थीं।^{१५५}

यही समाधि अष्ट महासिद्धि, महासुख, समरस और अनुत्तर ज्ञान की उपलब्धि कराती थी।

घ उपलब्धि

हम देख चुके हैं कि तान्त्रिक काल में साधनाओं द्वारा सिद्धि की उपलब्धि का विशेष महत्व था और सिद्ध-पुरुष उन्हें कहते थे जो साधनाओं द्वारा असाधारण, अति-मानवीय शक्तियाँ उपलब्ध कर लेते थे।^१ इन सिद्धियों सिद्धियाँ का हठयोग, रसायन-साधना आदि की चिन्तनधारा में भी विशेष महत्व था। अथर्ववेद के ही सूक्तों में हमारा परिचय इन अति-प्राकृतिक सिद्धियों से होता है और उन्हें सिद्ध करने के अभिचार और अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। योगशास्त्र में मन्त्रादि के अतिरिक्त समाधि द्वारा सिद्धि-लाभ को सर्वोत्कृष्ट मार्ग बताया गया। भारतीय चिन्तन-परम्परा में धीरे-धीरे जगत का अस्तित्व चित्तगत माना जाने लगा अतः चित्त की वृत्तियों को भलीभाँति निरुद्ध कर एक ही दिशा में उन्मुख करने से विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों पर नियन्त्रण और प्रभुत्व लाभ करने को उत्कृष्ट सिद्धि माना जाने लगा। इसी परम्परा के अनुसार कालान्तर में सिद्धियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाने लगा, अधम, मध्यम तथा उत्तम।^२ अधम और मध्यम सिद्धियाँ अनुष्ठान-परक थीं और भौतिक सम्पन्नता को लक्ष्य मानती थीं, लेकिन उत्तम सिद्धि में केवल चित्त में विचार उठते ही कार्य का सम्पन्न होना बताया गया है।

अतः उत्तम सिद्धि चित्तगत ही मानी जाती थी और शेष सिद्धियों को उससे नीचा स्थान दिया गया था। यह उत्तम सिद्धि चित्तवृत्तियों के निरोध या समाधि से प्राप्त होती थी। पातंजल योग-दर्शन में साधन की दृष्टि से पाँच प्रकार बताई गई हैं, जन्मजा, ओषधिजा, मन्त्रजा, तपोजा, समाधिजा।^३ समाधिजा सिद्धि की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए पातंजलि ने लिखा है कि जिस

उपलब्धि

प्रकार वर्षा की नदी की समस्त दिशाएँ अवरुद्ध कर एक ही दिशा उद्घाटित कर दी जाय तो उसमें अदम्य और अपराजेय शक्ति आ जाती है उसी प्रकार चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध कर एक ही दिशा में उन्हें निर्देशित किया जाय तो उनमें असाधारण दैवी शक्ति आ जाती है।^४

बौद्ध तन्त्र-परम्परा में भी सिद्धियों के दो वर्गों को स्वीकार किया गया है। उत्तम तथा सामान्य। गुह्य-समाज-तन्त्र में अन्तर्धान आदि को सामान्य सिद्धि तथा बुद्धत्व-साधन द्वारा प्राप्त सिद्धियों को उत्तम कहा गया है।^५ यह बुद्धत्व साधन प्रज्ञोगय-समापत्ति-योग या प्रज्ञोपाय समाधि ही है।^६ सेकोद्देश में भी दो प्रकार की सिद्धियाँ बताई गई हैं। लौकिक तथा लोकोत्तर। लोकोत्तर सिद्धि को महासुद्रा सिद्धि, अनुत्तर सिद्धि या महासुख की सिद्धि बताया गया है।^७

इन सिद्धियों की संख्या यँ तो अनगिनती है किन्तु फिर भी इनमें से प्रमुख तथा उल्लेख्य सिद्धियों की एक संख्या निर्धारित करने की परम्परा रही है। ब्रह्मवैवर्त में मनोयातित्व, सर्वज्ञत्व, दूर-श्रवण, परकाय-प्रवेश, चिरजीवित, वायु-स्तम्भ आदि ३४ सिद्धियाँ बताई गई हैं।^८ कहीं कहीं सिद्धियों की संख्या १८ तथा २४ भी बताई गई हैं।^९ किन्तु हठयोग साधना में ८ प्रमुख सिद्धियाँ मानी जाती थीं।^{१०} अग्निमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा काम-वशायित्व। बौद्ध तन्त्रों ने भी इसी परम्परा का अनुगमन कर ८ विशेष महासिद्धियाँ स्वीकार की थीं किन्तु सम्प्रदाय भेद से ये अष्ट महासिद्धियाँ हिन्दू योगशास्त्र की अष्ट महासिद्धियों से अलग थीं। ये अष्ट महासिद्धियाँ थीं—खड्ग अंजन, पादलेप, अन्तर्धान, रस रसायन, खेचर, भूचर, पाताल।^{११} उत्तम, अनुत्तर सिद्धि के अतिरिक्त इन लौकिक अथवा सामान्य अष्ट महासिद्धियों की भी उपलब्धि तान्त्रिक साधनाओं द्वारा हो जाती थी।

चर्यापदों में एक स्थान पर इन अष्ट महासिद्धियों का उल्लेख आया है। शान्तिपा वाम और दक्षिण मार्ग को छोड़कर, अर्थात् केवल शून्य या केवल करुणा, केवल रसना या केवल ललना, केवल उपाय या केवल प्रज्ञा का मार्ग छोड़कर मध्यम सहज पथ या ऋजु पथ को ग्रहण करने का उपदेश देते हुए यह कहते हैं कि उसमें महासुख की अनुभूति तो होती है, अष्ट महासिद्धियों की भी उपलब्धि होती है।^{१२}

अभी तक प्राप्त बौद्ध तन्त्रों में इन सिद्धियों का सांगोपांग शृङ्खलाबद्ध

विवेचन नहीं मिला है किन्तु अलग अलग साधनाओं में इन सिद्धियों की :
अप्रत्यक्ष संकेत मिलते हैं । खंग सिद्धि संभवतः मन्त्र
अंजन आदि अभिषिक्त शस्त्र सिद्धि को कहते थे जो शत्रुओं को परा
करने और बलि देने के उपयोग में आती थी ।^{१३}

खड्ग की स्थिति मण्डल चक्र में उत्तर की ओर मानी जाती थी ।^{१४} खड्ग वार
में पंच रश्मि-प्रभाओं से युक्त वज्र^{१५} को ही कहते थे और उसे धारण क
वाले सिद्ध को खड्गधर या वज्रधर कहते थे ।^{१६} इसी वज्र या खड्ग धारण क
के कारण उस सिद्ध को महाशूर अथवा वीर भी कहा जाता था ।^{१७} अंजन
अर्थ उस अंजन से हैं जो आँख में लगाने से निहित तथा परोक्ष सत्ताओं व
वस्तुओं को देखने की शक्ति दे देता है ।^{१८} इसका चित्तगत अर्थ होगा नैरा
दृष्टि या सर्व-शून्य-दृष्टि । पादलेप उस सिद्धि को कहते थे जिसमें पाँवों में कुछ
कर लेने से सिद्ध कहीं भी जा सकता था । अर्थात् उसकी गति निर्बाध हो ज
थी । अन्तर्धान के अर्थ थे लोगों के सम्मुख खड़े, खड़े लुप्त हो जाना ।
इसके लिए गुह्य साधनाओं में महाभास समय का विधान है और इसको रि
कर लेने वाले को अन्तर्धानाधिप कहा जाता है ।^{२०} रस रसायन सिद्धि त
उसकी योग-परक साधना का विवरण पीछे दिया जा चुका है ।^{२१} खेचर सि
के अर्थ थे आकाश में विहार करने की शक्ति जिसके दार्शनिक अर्थ थे शून्य
विहार करना । इसी प्रकार भूचर के अर्थ हैं संसार में किसी भी स्थान में वि
रण कर सकना जिसके दार्शनिक अर्थ हम भव ज्ञान को पूर्णतः सिद्ध कर ले
भी कर सकते हैं । पाताल के अर्थ थे निम्न लोकों में गमन करने की शक्ति ।
वास्तव में तन्त्रों की प्रकृति यह थी कि उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक का
बिल्कुल मिटा दिया था । प्रत्येक वस्तु के लौकिक तथा अलौकिक दोनों व
होते थे और दोनों ही मान्य होते थे । इसी प्रकार इन सिद्धियों को हृदय
चित्तगत^{२३} भी माना जाता था और भौतिक लौकिक भी । दोनों अर्थ ।
दूसरे से अभिन्न होकर चलते थे ।

कालान्तर में लोक परम्परा में सिद्धियों के भौतिक चमत्कारपूर्ण अ
को महत्व दिया जाने लगा था और ये चौरासी सिद्ध उन्हीं चमत्कारों के रि
प्रख्यात थे । इन सिद्धों के चमत्कारों की एक भल्लक हमें मिल चुकी है ।
उनमें रस रसायन, अन्तर्धान, तथा अन्य कितनी ही सिद्धियों को उनके दर्श

उपलब्धि

परक अर्थ की अपेक्षा लौकिक अर्थों में ग्रहण किया गया है जो लोक परम्परा के लिये स्वाभाविक है।

अनुभूतियों द्वारा प्राप्त इन सिद्धों की चमत्कार-गाथाओं के विश्लेषण करने से इन विशेष बातों का पता लगता है। पहली तो यह कि ये इन सिद्धियों का प्रयोग करने सम्प्रदाय की रक्षा के लिये करते थे और सिद्धियों का अन्य सम्प्रदाय के लोगों को पराजित करते रहते थे। दूसरे इन सिद्धियों के प्रयोग में लोक-कल्याण की भी भावना रहती थी, लोकरक्षा का भाव रहता था। अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, महामारी, रोग, दारिद्र्य, आदि में यह जनता की सहायता करते थे। तिब्बती अनुश्रुतियों में इसके उल्लेख स्थान स्थान पर मिलते हैं। सरहपा के शिष्य नागार्जुन इन सिद्धियों में पारंगत थे। जिस समय सरहपा आर्यतारा की साधना में लौन थे उस समय मगध में अकाल पड़ा। जनता भूखों मरने लगी। भिक्षुओं को भी अन्न नहीं मिलता था। उसी समय नागार्जुन संघाराम में पधारे और उन्होंने रस रसायन की साधना की और दुर्भिक्ष समाप्त हो गया।^{२५} इसके अतिरिक्त ये सिद्ध महायान की रक्षा तथा अन्य सम्प्रदायों को पराजित करने के लिये भी सिद्धियों का उपयोग करते थे। विरूपा ने त्रिलिंग देश में जाकर ऐसा चमत्कार किया कि वहाँ जितनी बौद्धैतर देव-मूर्तियाँ थीं, सब खंड खंड होकर गिर गई, त्रिशूल भी टूट गया।^{२६} मध्यदेश में जाकर विरूपा ने अपने पैर धोकर उसका जल राजा के वनबादल नामक हाथी को पिला दिया जिससे वह रण में गया और एक शत मलेच्छ राजाओं को पराजित कर चला आया।^{२७} इसी प्रकार विरूपा ने गौड़ देश में एक ताजिक सुल्तान को अपनी सिद्धियों द्वारा वस्त कर दिया था।^{२८} कभी कभी ये सिद्ध इन रक्षात्मक सिद्धियों का प्रयोग राजाओं तथा प्रजाओं को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित करने के लिये भी किया करते थे। इस सम्बन्ध में एक रोचक कथा योगिनी-चिन्ता की मिलती है।^{२९} योगिनी-चिन्ता पहले शूडिनी (मद्य विक्रोता) थी। उसकी भेंट वीणापा तथा डोम्बी हेरुक से हुई। उस देश का राजा तीर्थियों का शिष्य था। चिन्ता ने डोम्बी हेरुक से कहा कि 'तुम इस राजा को बौद्ध बना सकते हो यदि इसे साँपों का भय दिलाओ।' डोम्बी हेरुक ने ऐसा चमत्कार किया कि उसके महल के चारों ओर विषधर सर्प घूमने लगे। राजा भयाकुल बैठा था कि यह स्त्री मंदिर

लेकर गई और कहा कि 'तीर्थियों की पूजा से कुछ नहीं होगा। आचार्य डोम्बी हेरुक अपनी सिद्धि द्वारा इस आपत्ति को दूर कर देंगे।' डोम्बी हेरुक को राजा ने बुलाया और उन्होंने ऐसी साधना की कि सभी साँप पाताल में प्रविष्ट हो गये। उसके बाद उस स्त्री को तथागतों का प्रेमी देख कर वीणापा ने अभिप्रेक और दीक्षा प्रदान की और भगवती लक्ष्मीकरा³⁰ ने उसे साधना सिखाई और अन्त में वह वज्र-योगिनी चिन्ता के नाम से प्रख्यात हुई।

इन लौकिक या सामान्य सिद्धियों से उच्चतर स्तर की सिद्धि अध्यात्म-परक चित्तगत सिद्धि थी जो साधक अपने ही देह में प्रज्ञोपाय योग या समाधि द्वारा सिद्ध करता था। उसी के लिये तिल्लोपा ने कहा है कि अनुत्तर सिद्धि प्रज्ञोपाय समाधि में जब साधक लीन होता है, तभी उसे काय वाक् चित्त की दृढ़ता (वज्रता) प्राप्त होकर अनुत्तर की सिद्धि होती है।³¹ यह अनुत्तर वास्तव में बुद्धज्ञान या तत्वज्ञान है जो शून्यता या करुणा, प्रज्ञा तथा उपाय के एकात्म ज्ञान का ही दूसरा नाम है।³² इस अनुत्तर की उपलब्धि को काण्हपा ने बड़ी ही रोचक शैली में अपने एक पद में वर्णित किया है।³³ इसको डोम्बी बधू तथा कान्ह वर या महामुद्रा और साधक के विवाह में दहेज स्वरूप मिलने वाला धन मानते हैं जो टीकाकार के अनुसार अनायास बिना श्रम (अक्लेशेन) प्राप्त हो जाता है।³⁴ जब कान्हपा डोम्बी से विवाह करने जा रहे हैं तब भव और निर्वाण दोनों की डोल और पखावज बज रही है। मन को पवन में लीन कर पालकी बनाई गई है (धर्मकाय का लय) और जय-जय-युक्त दुन्दुभिनाद आकाश में गूँज रहा है। कान्ह ने डोम्बी से विवाह कर जन्मादि बन्धनों को नष्ट कर दिया है और दहेज रूप में उसे अनुत्तर धर्म की प्राप्ति हुई है।³⁴

अनुत्तर उपलब्धि की यह परम्परा सिद्धों ने योगाचार से ग्रहण की थी। अनुत्तर के अर्थ हैं सर्वश्रेष्ठ, जिसके उपरान्त कुछ न हो, जो अशेष हो। विज्ञानवाद में उसे सर्वाकारज्ञता या तथता कहा गया है। और इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने से अनुत्तर पद की उपलब्धि बताई गई है।³⁵ यह अनुत्तर सहज का ही पर्याय बन गया क्योंकि अद्वयवज्र ने इसे अनुत्तर सहज कहा है।³⁶ वास्तव में सहज (प्रज्ञोपाय अद्वय) ही मूल तत्व है और अनुत्तर उसका विशेषण है जो उसके पर्याय रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसी की उपलब्धि प्रमुख उपलब्धि है।

उपलब्धि

यह उपलब्धि जो ज्ञान के क्षेत्र में सहज या अनुत्तर ज्ञान है, अनुभूति के क्षेत्र में वही महासुख, सहजानन्द, सहज सुख या समसुख है जो कि प्रज्ञा और उपाय के समान युगनद्ध से प्राप्त होता है। सिद्ध की व्याख्या करते हुए कान्हपा ने उसको सिद्ध बताया है जो समरसता द्वारा अपने चित्त को सहज में स्थित कर जरामरण के भय से मुक्त हो जाता है।^{३८} यह समरस गृहणी महामुद्रा के प्रगाढ़ स्नेह में प्राप्त होता है।^{३९} तिलोपा भी इसी समरस को श्रेयस्कर बताते हैं।^{४०} इस समरसता में शूद्रत्व और ब्राह्मणत्व का कोई विचार नहीं है क्योंकि यह अभेद-बुद्धि-जन्य है, भेद-बुद्धिजन्य नहीं।^{४१} जिस प्रकार जल जल में प्रवेश कर समरस हो जाता है उसी प्रकार प्रज्ञोपाय में प्रज्ञा और उपाय का दाम्पत्य रूप में युगनद्ध हो जाता है।^{४२} भुसुकुपा भी यही उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे जल जल में समाकर अभेद हो जाता है, उसी प्रकार समरस में मन रूपी मणि शून्यता में समा कर अभेद हो जाती है।^{४३}

इसी समरसता की अनुभूति को समसुख^{४४} अथवा महासुख कहते हैं। इस महासुख की व्याख्या करनी बहुत कठिन है, क्योंकि यह समरस है, सहजानन्द है, न वह श्रवण से सुन पड़ता है, न नयन से महासुख दीख पड़ता है, न पवन उसे हिला पाती है न अग्नि उसे जला पाती है, न जल वर्षा से वह आर्द्र होता है, न वह बढ़ता है, न घटता है, न वह अचल है, न गतिशील है, उपनिषदों के ब्रह्म की ही भाँति उसकी नेतिपरक व्याख्या ही दी जा सकती है। किन्तु साथ ही वह नेवल नेतिपरक नहीं है क्योंकि जिस भव में लग कर व्यक्ति मरता है, उत्पन्न होता है, बन्धन में पड़ता है, उसी में लग कर वह परम महासुख को भी सिद्ध कर लेता है।^{४५} इसकी तो केवल अनुभूति-परक व्याख्या ही की जा सकती है और इसीलिये सिद्धों ने स्थान स्थान पर उस अनुभूति की ओर संकेत करने पर भी अन्त में हार कर कह दिया कि उस अनुभूति की अभिव्यक्ति ही नहीं की जा सकती।^{४६}

इसी सहजानन्द परम महासुख को वे सहजामृत भी कहते हैं। अनुभूति की अगम्यता के कारण उसे भी व्याख्या से परे बताया गया है और गुरु केवल उस मार्ग में शिष्य को प्रवृत्ति करा सकता है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता।^{४७} किन्तु जो अनुभूतिपरक महासुख की साधना न कर केवल ज्ञानपथ में शास्त्रागम

इत्यादि के मरुस्थल में भटकते रहते हैं उनका विनाश हो जाता है, वे अमृत से वंचित रह जाते हैं।^{४८}

इस प्रकार सिद्धों ने अपनी साधना का लक्ष्य ज्ञान नहीं वरन् अनुभूति मान ली थी। तन्त्रों से प्रभावित होकर प्रज्ञोपायात्मक कल्पना से उन्होंने अपने समस्त तत्वज्ञान, साधनापद्धति, हठयोग, अनुष्ठान और साधना के अभिव्यक्ति को रंग डाला था किन्तु इसके पीछे उनका लक्ष्य का उद्देश्य क्या था इसका एक संक्षिप्त मूल्यांकन कर लेना विश्लेषण आवश्यक है। सिद्धों का उद्देश्य था बौद्धों के निवृत्तिमूलक, दुःखवादी रूप का निराकरण कर सुख, आनन्द, भावना और भोग की प्रतिष्ठा करना। वह जीवन जो कि सहज है, प्रवृत्तिमूलक है, मानवीयता का निषेध नहीं करता, उसी को उन्होंने अपने ढंग से, अपनी सीमाओं के अंदर बौद्ध परम्परा में प्रतिष्ठित किया। वे सीमाएँ हठयोग की दुरुहताएँ थीं किन्तु उनके अतिरिक्त जो कुछ बच रहता था वह लोकमानस के निकट था।

इसके लिये उन्होंने बौद्ध परम्परा से भी विद्रोह करने में संकोच अनुभव नहीं किया यद्यपि सम्प्रदाय परम्परा के अनुसार उस विद्रोह को उन्होंने पूर्वागत सिद्धान्तों की नवीन व्याख्या या नये संशोधन के रूप में रक्खा। उन्होंने सहज की कल्पना की और सारी परम्परा को सहजपरक व्याख्या देने का प्रयास किया। अभी तक साधना की उपलब्धि निर्वाण ही माना जाता रहा, इन्होंने निर्वाण को गौण स्थान दिया, उसे केवल भव का ज्ञान मात्र बता कर अन्तिम परिणति नहीं माना, निर्वाण को केवल पथ का एक मोड़ मान कर उसके भी आगे प्रज्ञोपाय अनुष्ठान और सहजानन्द को प्राप्त करने का उपदेश दिया। वैराग्यमूलक अस्वाभाविक जीवन को त्याग कर सिद्धों ने महामुद्रा रूप में गृहणी से परिणय कर गृहस्थ जीवन में समस्त भोगोपभोगों के बीच ही तत्वज्ञान का उदय सिद्ध किया। वे जीवन में विराग के स्थान पर राग, निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति और ज्ञान के स्थान पर अनुभूति की प्रतिष्ठा करने के लिये सन्नद्ध थे। यह पिछली बौद्ध परम्परा की कठिन श्रमण साधनाओं की अस्वस्थ प्रतिक्रिया मात्र ही नहीं थी। इसके पीछे सिद्धों का एक स्वस्थ, सुगठित जीवनदर्शन था। वे प्रवृत्तियों के दमन को हानिकर मानते थे, प्रवृत्तियों की स्वस्थ तृप्ति में ही जीवन का पूर्ण

उपलब्धि

विकास और लौकिक जीवन के चेतन समरस निर्वाह में ही आध्यात्मिक मूल्यों का प्रस्फुटन होता है यह उनका दृढ़ विश्वास था ।

तिलोपा ने एक स्थान पर कहा है 'जिम विस भक्त्वइ विसहिं पलुत्ता, तिम भव भुंजहि भवहिं ण जुत्ता ।'^{४९} जैसे विष का विधानपूर्वक उपभोग करने वाला फिर विष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है उसी प्रकार भव का विधान पूर्वक उपभोग करने वाला फिर भव में लिप्त नहीं होता । उसी को योगी कहते हैं । वह विराग-योगी नहीं है, महाराग-योगी है, ग्रहणीयुक्त है और ग्रहणी को वह महाप्रज्ञा के रूप में ग्रहण करता है । इसी भाव को आर्धदेव बड़े सुन्दर रूपकों में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं : 'जैसे कान में जाकर कष्ट पहुँचाने वाला जल, जल के ही आघात से बाहर निकलता है, जैसे काँटे से काँटा निकलता है, उसी प्रकार राग से राग-लित्ति का भी निराकरण होता है । जैसे धोत्री कपड़ों का मैल छुड़ाने के लिये मैली सज्जी मिट्टी का ही प्रयोग करता है उसी प्रकार मन से विषयासक्ति दूर करने के लिये विषयों की ही साधना अनिवार्य है । जैसे लोहा पानी में डालने से डूब जाता है, किन्तु वही लोहा पात्र रूप में गठित होने पर जलपोत बन कर यान के रूप में न केवल स्वयं तरता है वरन् दूसरों को भी तार देता है उसी प्रकार प्रज्ञोपाय-विधान से इस चित्त को पात्रीकृत कर साधक भवभोग करता हुआ स्वयम् भी मुक्त हो जाता है और दूसरों को भी मुक्त करता है । जैसे अग्नि दाहक होती है किन्तु स्नेह से सिक्त होकर वर्तिका में प्रतिष्ठित होकर वह निष्कम्प दीपशिखा के समान तिमिर का नाश करती है उसी प्रकार राग भी संस्कृत होकर ज्योति विकीर्ण करता है, अन्धकार का नाश करता है ।^{५०}

इस प्रकार इन सिद्धों का दर्शन भव के उपभोग का उपदेश देता था किन्तु महाराग द्वारा परिशोधित कर लेने के उपरान्त । वह केवल भोगवादी जीवन-दर्शन नहीं था । आध्यात्मिक चेतना के विना, यह उपभोग बन्धन में डाल देता था । खाओ पिओ, सुख से रमण करो किन्तु उसका आध्यात्मिक लक्ष्य समझ कर, उसके पीछे की व्यापक प्रज्ञोपायात्मक भूमिका को भलीभाँति हृदयंगम कर ।^{५१} खाने का अर्थ है सहजामृत का पान और सुख में रमण करने का अर्थ है महासुख का उपभोग करना । इस प्रकार उन्होंने एक और साधना को प्रवृत्तिमूलक बना कर उसमें लोकजीवन की प्रतिष्ठा की, वहाँ दूसरी ओर केवल विषयासक्तियों पर निरोध भी किया । अन्तर और बाह्य में उन्होंने अद्वय

स्थापित करने की चेष्टा की। उन्होंने ऐसा जीवन-दर्शन प्रतिपादित किया जो चित्त की विशुद्धता के साथ साथ बाह्य भव के उपभोग पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता था।

इसी प्रकार उन्होंने स्त्री और शूद्र को भी न केवल धर्म साधना में समा-विष्ट किया वरन् उन्होंने उनको सर्वोच्च महत्व दिया। डोग्बी, चांडाली, रजकी या उनके लिये प्रतीक शब्द थे, किसी जातिमात्र के वाचक होने के कारण ही सिद्ध इन्हें लाज्य नहीं समझते थे।

महासुद्रा की साधना के उपरान्त सिद्ध बाह्य तन्त्र-मन्त्रों का विरोध भी करते थे और अनुत्तर पद पाने के उपरान्त वे समस्त आचार बंधनों और कर्म-क्रांड विधानों के निषेध का भी प्रतिपादन करते थे। परम्परागत पांडित्यपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा वे जीवन की भावात्मक अनुभूतियों को अधिक महत्व देते थे। इस प्रकार सिद्धों ने निस्संदेह लोक-धर्म की प्रतिष्ठा बौद्ध-परम्परा में की और एक नया जीवन-दर्शन सम्मुख रक्खा।

किन्तु उनमें सब कुछ विराट, उदार और जीवन को विकास देने वाला ही नहीं था। उनकी अपनी सीमाएँ थीं। वे सीमाएँ अधिकतर युगप्रभाव से समन्वित साम्प्रदायिक सीमाएँ थीं। वे बौद्ध थे अतः साम्प्रदायिक परम्परा कायम रखने के लिये उन्हें बहुत सी ऐसी बातें अपनानी पड़ीं जो उनके मूल जीवन-दर्शन से मेल नहीं खाती थीं। वह तान्त्रिक युग था और तन्त्रों में जहाँ लोकजीवन के कुछ स्वस्थ पक्ष थे वहीं अन्धविश्वास, चमत्कारवाद आदि कुछ ऐसे भी तत्व थे जिन्हें हम दूसरे अध्याय में आदिम तत्व (Primitive element) या असंस्कृत तत्व बता चुके हैं, जो हानिकर थे, जिन्होंने अन्त में उनकी परम्परा को जर्जर बना दिया।

चतुर्थ अध्याय

काव्य-पद्म

क

भाव-पक्ष

‘चर्यापद वास्तविक रूप में ‘साहित्य’ नहीं कहे जा सकते। उनका अभिप्राय और उनका मर्म प्रमुखतः धार्मिक है, साहित्यिक नहीं। साहित्य के वास्तविक अर्थों में वे साहित्यिक सौन्दर्य से हीन हैं। उनका प्रमुख महत्व भाषात्मक और धार्मिक है। फिर भी कहीं कहीं उनमें ऐसे पद मिल जाते हैं जिनमें असाहित्यिक वातावरण के बावजूद शुद्ध काव्य की छटा दीख पड़ती है।’¹ यह मत चर्यापदों तथा दोहों के काव्यपद के विषय में डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने व्यक्त किया है। न केवल सिद्ध वरन् उनकी परम्परा में माने जाने वाले नाथों और सन्तों के साहित्य के विषय में भी विद्वानों की यह सम्मति रही है कि उनमें काव्य गौण रहा है, धार्मिक विवेचन प्रमुख। हिन्दी क्षेत्र में अभी तक कवि के रूप में कबीर का स्थान सर्वमान्य नहीं हो पाया है।

निस्सन्देह इस प्रकार का निर्णय लौकिक काव्य-शास्त्र की कसौटी पर कस कर दिया जाता रहा है। किन्तु हमें यह भूलना नहीं चाहिये कि इन समस्त कवियों के सम्मुख जीवन का लौकिक पक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं था। वे साधक थे और साधक के लिये लौकिक जीवन बन्धन था, अज्ञान था, मायाजाल था। उसकी समस्त साधना का लक्ष्य ही यह था कि वह इस मायाजाल से किसी प्रकार मुक्त होकर लौकिक जीवन के दिव्य और आध्यात्मिक अर्थों को ग्रहण कर पाये। इसीलिये उनके काव्य को लौकिक काव्य-शास्त्र की कसौटी पर कस कर हम उनका सही मूल्यांकन नहीं कर सकते और न उनके दृष्टिकोण को सही समझ सकते हैं। उनके काव्य का सही मूल्यांकन करने के लिये हमें उसी दृष्टिकोण

का परिचय प्राप्त करना चाहिये जिससे प्रेरित होकर, जिसे आधार बना कर यह काव्य प्रणीत किया गया है ।

इसके साथ ही साथ हमें इस भ्रम को भी दूर देना चाहिये कि ये सिद्ध तथा इनके समकालीन अन्य सम्प्रदाय के तान्त्रिक पद्धति के धार्मिक कवि काव्य-शास्त्र के नियमों से अपरिचित थे । उनमें से बहुतों ने सम्पूर्ण तन्त्र और संस्कृत वाङ्मय का गहरा अध्ययन किया था और तान्त्रिकों काव्यशास्त्र में कितने ही आचार्य ऐसे थे जिन्होंने व्याकरण और काव्य-शास्त्र की दिशा में अपनी अमूल्य देन दी है । अभिनवगुप्त का स्फोटवाद और ध्वनि-सम्प्रदाय भारतीय काव्यशास्त्र का सम्भवतः सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है^२ और अभिनवगुप्त एक प्रख्यात तान्त्रिक साधक थे यह तथ्य सर्वविदित है । किन्तु अभिनवगुप्त के इस सिद्धान्त के पीछे काव्यशास्त्र के विषय में तान्त्रिक धारणाओं^३ का एक लम्बी पूर्वागत परम्परा थी जिसकी ओर कम विद्वानों का ध्यान गया है । अभिनवगुप्त ने उन समस्त धारणाओं का विवेचन कर उनको एक तन्त्र (रीति, नियम) में अनुशासित कर उसके एक विशिष्ट परिणाम को तर्क सहित सम्मुख रखने और उसे काव्य-शैली की एक नई कसौटी के रूप में मान्यता देने का दुस्तर कार्य सम्पन्न किया था ।

वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार तान्त्रिक पद्धति ने एक सर्वथा नवीन जीवन-दर्शन और आचार-व्यवस्था का प्रतिपादन किया था उसी प्रकार भाव-जगत, हमारी अनुभूतियाँ और उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा, उसकी इकाइयाँ स्वर और व्यंजन आदि की भी वे नई, नाद और विन्दु सिद्धान्त पर आधारित व्याख्याएँ प्रस्तुत कर रहे थे । उनकी दिशा ही सर्वथा अलग, एक नई दिशा थी, जिससे वे इन समस्याओं की ओर अग्रसर हो रहे थे । जिस प्रकार उन्होंने यह प्रतिपादित किया था कि हमारे सारे बाह्य अनुष्ठानों के पीछे लौकिकता से सर्वथा ऊपर एक दूसरा गहन और अध्यात्मपरक अर्थ है, उसी प्रकार वे मानवीय भावों, वासनाओं, राग-द्वेष, काम-क्रोध आदि के भी एक दूसरे मानवोपरि दिव्य अर्थ पर विश्वास करते थे, यहाँ तक कि सम्भोग तक को उन्होंने किसी आन्तरिक आध्यात्मिक साधना का बाह्य समानान्तर मात्र माना था । इसी प्रकार भाषा का भी वे एक दूसरा अर्थ लेते थे । लौकिक प्रयोग में, लौकिक जीवन में, लौकिक पदार्थों का बोध कराने वाली भाषा ही अन्तिम नहीं है । भाषा के, अक्षरों के

भाव-पक्ष

अर्थों में कई स्तर होते हैं। सबसे ऊपर के छिछले स्तर पर ही भाषा का लौकिक अर्थ है, उससे और गहरे उतरने पर भाषा के, अक्षरों के सर्वथा दूसरे आध्यात्मिक और देवता-परक अर्थ निकलते हैं यहाँ तक कि स्वतः शब्द ही ब्रह्म है या अक्षर विभिन्न देवताओं के स्वरूप मात्र हैं। वाणी के परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी नामक बहुत पुराने वैदिक विभाजन का भी यही अभिप्राय है।^४ और तन्त्रों में स्वीकृत मन्त्रों की शक्ति, शब्दों के वैष्णव, शैव और शक्ति रूप तथा बीजाक्षरों के सिद्धांत का मर्म यही है।^५

चूँकि तन्त्रों ने हठयोग की साधनाएँ अपनाई थीं और बाह्य शब्द-तत्व का परम-रूप भी माना था अतः धीरे धीरे वाणी के गहनतम आध्यात्मिक रूप 'परा' का सम्बन्ध योग के नाद से कर दिया गया। इस सम्बन्ध में नागेश के शब्द-ब्रह्म का सिद्धान्त विशेष रूप से द्रष्टव्य है क्योंकि विद्वानों का मत है कि नागेश पर तांत्रिक प्रभाव बहुत अधिक है।^६ नागेश ने ब्रह्म-तत्व में लीन शक्ति को स्वीकार किया है और नाद का सम्बन्ध उसी से जोड़ा है। उनका कहना है कि प्रलय के समय समस्त प्राणी माया में लीन हो जाते हैं और माया चेतन ईश्वर में लीन हो जाती है। जब प्राणियों के कर्म कालवशात् अपरिपक्वता से परिपक्वता की अवस्था में पहुँचते हैं तब उन्हें फल प्रदान करने के लिये परमात्मा सृष्टि की कामना करता है। सृष्टि की इच्छा ही माया है। इसी माया को शक्ति-तत्व कहते हैं जिसके तीन विभाग होते हैं, बीज, नाद और विन्दु। बीज अचित् होता है, नाद चिद्-अचित् होता है और विन्दु चित् होता है। इसी विन्दु से शब्द-ब्रह्म नामक नाद की उत्पत्ति होती है जिसे रव या परा भी कहते हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति का उपादान कारण है। यँ तो यह शब्द ब्रह्म सर्वव्यापक है किन्तु प्राणियों में यह मूलाधार चक्र में गतिहीन रूप में स्थित रहता है किन्तु जब ज्ञात अर्थ के बोध की इच्छा से प्रयत्न होता है तब उसमें गति जाग्रत होती है और शब्द की अभिव्यक्ति होती है।^७

इस अभिव्यक्त शब्द की स्थिति चूँकि कण्ठ में है अतः कण्ठस्थ विशुद्धाख्य चक्र की भाषा और काव्य से बहुत निकट का संबंध माना गया है। विशुद्ध चक्र के चिन्तन से साधक कवि, वाग्मी और ज्ञानी बनता है।^८ इस प्रकार तन्त्रों में कविता भी हठयोग की साधना से प्राप्त होने वाली एक सिद्धि मान ली गई थी। अन्य तान्त्रिक आम्नायों में केवल बाह्य अनुष्ठानों द्वारा भी

कविता की सिद्धि का स्पष्ट विधान मिलता है। सुरा और मीठा मिले हुए दूध का उपहार देवता पर चढ़ाने से त्रैलोक्य का वशीकरण और काव्य-कौशल की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार जप करने से गद्य पद्यमयी सर्वाविध सम्पूर्ण वाणी का लाभ होता है।^{१८}

तान्त्रिक होने के नाते वज्रयानी सिद्धों में भी काव्य और भाषा शैली आदि के विषय में यही विचार बौद्ध शब्दावली में पाये जाते हैं। उनके यहाँ बहुत पहले, महायान के विकास के साथ ही साथ न केवल कविता वरन कला के समस्त रूप, चित्र स्थापत्य, संगीत, नृत्य आदि को धार्मिक साधनापद्धति के अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकृत कर लिया गया था। सद्धर्म-पुण्डरीक में उपाय-कौशल नामक द्वितीय परिवर्त में स्थापत्य, मूर्तिकला, संगीत आदि की साधना द्वारा बोधिलताभ करने का विधान मिलता है।^{१९} इसी प्रकार कविता भी उनके यहाँ तान्त्रिक साधनाओं द्वारा प्राप्त एक सिद्धि मानी जानी जाती थी। मृत्युवंचन-तारा की साधना में खंग, अंजन, पादलेप आदि अष्ट महासिद्धियों के अतिरिक्त कविता, वक्तृता, मेधा तथा एकान्त निर्मला प्रज्ञा आदि की भी सिद्धि का विधान है।^{२०} इसी प्रकार आर्य जांगुली की साधना द्वारा भी कविता, सर्वशास्त्रज्ञान आदि सिद्धियों की उपलब्धि बताई गई है।^{२१}

इसका कारण यह है कि बौद्ध तन्त्रों और वज्रयानी साधनाओं में भी काव्यशास्त्र, भाषा, शब्द और उनके अर्थों की स्थिति, बीज, नाद और विन्दु के सम्बन्ध में लगभग वे ही धारणाएँ प्रचलित थी जो हिन्दू तन्त्रों में मिलती हैं। जिस प्रकार शब्द ब्रह्म की हिन्दू कल्पना है उसी प्रकार सरहपा का मत सरहपा ने इस समस्त सृष्टि को एक ही वर्ण में आबद्ध बताया है।^{२२} उसी अक्षर में सकल आबद्ध है और जो उस अक्षर को साधना करता है वह निरक्षर लौकिक अक्षर (जो बन्धनरूप हैं) से मुक्त हो जाता है।^{२३} उसी अक्षर की साधना सरहपा करते हैं यद्यपि उसका रहस्य इतना गुह्य है कि उसके नाम की भी वे व्याख्या नहीं कर सकते।^{२४}

यही एक महाअक्षर बीज के रूप में समस्त बौद्ध तान्त्रिक देवताओं का उत्पादक है। ए तथा वं के दिव्य रूप पर हम विस्तृत विचार कर चुके हैं।^{२५} यह बीज शून्यतारुण होता है और इसी से देवता के बिम्ब, न्यास विन्यास

भाव-पञ्च

आदि की उद्भावना होती है।^{१७} इसी को गुह्य-समाज-तन्त्र में वज्रचतुष्टय कहा गया है।^{१८}


यह महाअक्षर काव्य की शैली के रूप में सन्धावचन कहलाता है जिस पर हम आगे विस्तार में विचार करेंगे। सरहपा ने इसके लिये एक स्थान पर वाच् या वाक् शब्द का प्रयोग किया है जो महत्वपूर्ण है। सरह कहते हैं कि मैंने गुरु के वचनों में सत्य विश्वास किया है और जो कुछ कहा है वह वाक् द्वारा कहा है।^{१९} वाक् का परम्परागत तान्त्रिक अर्थ है जिसका आधार वाणी की वैदिक कल्पना है। वैदिक कल्पना में वाक् के चार भेद माने जाते थे परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी जिन पर हम विचार कर चुके हैं।^{२०} यह वाक् ही विश्व रूप है, गोरूप है, वाक् ही सरस्वती है, माया है, वही ब्रह्म का विराट रूप है, यही वाक् अक्षर है और यही दिव्य काव्य है।^{२१} किस प्रकार यही वाक् इन्द्र (वज्र) की पत्नी या प्रज्ञा के रूप में वेदों में परिकल्पित की गई इस और भी हम संकेत कर चुके हैं।^{२२} इसी वाक् का मन अथवा प्राणतत्व से पत्नी रूप में समागम का भी संकेत ब्राह्मणों में मिलता है।^{२३} सरहपा तथा अन्य सिद्ध ब्राह्मण होने के नाते वेद वेदांगों के पूर्ण ज्ञाता थे। यह तारानाथ ने बराबर कहा है। फिर भी यदि हम उन पर वेदों का प्रत्यक्ष प्रभाव न भी मानें तो तान्त्रिक परम्परा के माध्यम से ये धारणाएँ उनसे अज्ञात नहीं रही होंगी। इसी काव्य की मूल शक्ति वाक् को वज्र से समन्वित कर वाग्वज्र सिद्ध करने की पद्धति सिद्धों की साधना में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। उस पर हम पीछे विचार कर चुके हैं।^{२४} वाग्वज्र में बीजाक्षरों के प्राणायाम सहित जप की साधना का विधान है और उसी से साधक की वाक्शक्ति या शून्यता-बोध में वज्र या उपाय की प्रतिष्ठा होती है। उपाय बोधचित्त या मन का प्रतीक है। इस प्रकार वाक् और मन के जिस मैथुन की ओर श्रुतियों का संकेत है, वह प्रज्ञोपाय साधना द्वारा वज्रयान में सम्पन्न होता है। इस प्रकार समस्त वाक् या काव्य शैली प्रज्ञोपायात्मक संकेतों से परिपूर्ण हो जाती है और उसमें वज्र और कमल का समागम पूर्ण होता है। अक्षर, पद, वाक्य सभी इसी प्रज्ञोपाय भावना से युक्त होते हैं, कम्बलाचार्य (कम्बलाम्बरपा) के कुछ श्लोक सरहपा के दोहाकोष की टीका में उद्धृत हैं जिनमें भाषा तथा काव्यशैली की इस तान्त्रिक प्रकृति की ओर संकेत किया गया है।^{२५}

सिद्धर

शैली :
भाव-पत्र
न कर
प्रकार स
प्रकार
इसकी वृ
साधक का
। किन्तु
में साध
तथा प्रस
स महारा
में नाधि
प्रादि के
। है। इस
ने इन श
में बाँटा है
की प्रधा
बंगाली
स वर्गीक
की टीक
ललना-र
रडाग्नि :
हैं, और
डाली का
ही प्रतीत
डोम्बी,
ताए हैं
त वर्गीक
में अ
कमल,

भाव-पञ्च

पाखुड़ियाँ, मार्ग के समस्त पीठ, उपपीठादि, समय की दृष्टि से विभिन्न अभि-
षेकों के विभिन्न समय, अर्द्धरात्रि आदि, चन्द्र-सूर्य, अमृत आदि अन्तस्थ तत्व
थे जिससे प्रकृति की एक विराट् सांकेतिक पृष्ठभूमि अन्दर ही विद्यमान थी।
प्रज्ञा तथा उपाय की प्रणय शीला के लिये यह समस्त तान्त्रिक संकेतों से युक्त
चित्त में स्थित रहने वाली प्रकृति उद्दीपन का काम देती थी। इस प्रकार सिद्धों
के तान्त्रिक रहस्यवादी काव्यशास्त्र की रूपरेखा इस प्रकार होगी।



शैली

संघा-भाषा

(महाक्षर से उद्भूत, संकेतयुक्त, प्रतीकात्मक)

इस प्रकार कविता के विषय में सिद्धों का दृष्टिकोण तथा उसके पीछे
की तान्त्रिक पृष्ठभूमि समझ लेने के बाद हम उनके काव्य की सही पीठिका से
अवगत हो जाते हैं। उनके काव्य का विश्लेषण करने पर
काव्यरूप और विषय-वस्तु हम पाते हैं कि स्थूल रूप से हम उनके काव्य को दो वर्गों
में विभाजित कर सकते हैं। गीति तथा मुक्तक। सिद्धों के तथा
उन्हीं के समकालीनों के वज्रयानी दोहे, पद तथा प्रहेलिकाओं में काव्य के
इतने रूप मिलते हैं—चर्यापद, वज्रगीति, मुक्तक, दोहे तथा अर्द्धालियाँ।^{३१}
इन रूपों में प्रथम दो गीति-काव्य और अन्तिम तीन मुक्तक-काव्य के अन्तर्गत
आते हैं। इस प्रकार स्थूल रूप से हम सिद्धों के साहित्य के दो भेद मान सकते
हैं—गीति तथा मुक्तक।

काव्यरूप की दृष्टि से हम इन पर बाद में विचार करेंगे किन्तु विषय-
वस्तु की दृष्टि से इनमें से गीति (चर्यापद, वज्रगीति) भावप्रधान और मुक्तक

(दोहे, प्रहेलिका) आदि नीतिप्रधान हैं। यह स्वाभाविक भी है। चर्यापद में बोधिचित्त की चर्या, अर्थात् प्रज्ञा को ग्रहण करने की महारागयुक्त चर्या का सन्धा-भाषा में काव्यात्मक वर्णन है और दोहे आदि जनता में उसी तत्त्व-चिन्तन और साधना को प्रचलित करने, साम्प्रदायिक खण्डन मण्डन करने, सैद्धान्तिक विवेचन करने, साधक को ज्ञान और चेतावनी देने के लिये थे। इनके इन विभिन्न लक्ष्यों का विधान हमें अन्य बौद्ध तान्त्रिक ग्रन्थों और विधानों में भी मिलता है। किस प्रकार साधना के समय गीतिकाओं के गाने की परम्परा योगाचार से ही चली आ रही है इस पर हम विचार कर चुके हैं।^{३२} हेरुक के बुद्धकपाल रूप को जाग्रत करने के लिये चर्यागीति के गाने का विधान साधनमाला में मिलता है।^{३३}

किन्तु दोहों का उल्लेख सर्वथा दूसरे प्रसंगों में मिलता है। तारानाथ ने अपनी कथाओं में सिद्धों और उनके दोहों का उल्लेख किया है। उसने यह दिखाया है कि इन दोहों से सिद्धों ने किस प्रकार अपने धर्म का प्रचार किया और किस प्रकार बड़े बड़े राजा अपनी समस्त प्रजा समेत इन दोहों के प्रभाव से बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गये।^{३४} इससे स्पष्ट है कि इन दो प्रमुख काव्यरूपों में न केवल रूप भेद था वरन उनकी विषयवस्तु तथा उनका उपयोग भी अलग अलग था। एक में भाव-पद्म प्रधान था; दूसरे में नीति-पद्म तथा विवेचना।

किन्तु उनका इतिहास देखने से एक बड़े रोचक तथ्य का पता चलता है। वास्तव में ये दोनों काव्यरूप एक विशेष पारमिता के विकास की दो अवस्थाओं के ही काव्यात्मक प्रतिफलन मात्र हैं, इसीलिये उनमें एक गहरी साम्प्रदायिक एकसूत्रता भी है। वह पारमिता है उपाय-कौशल। पहले उपाय-कौशल पारमिता के अर्थ थे वह कौशल और प्रयत्न जिसके द्वारा बौद्ध भिक्षु घूम घूम कर जनता में बुद्ध का सन्देश और महायान धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करते थे। इसी उपाय-कौशल के अन्तर्गत सन्धा-भाषा का प्रयोग तथा चैत्य-निर्माण, प्रतिमांकन, संगीत आदि कलाओं के उपयोग का विधान था।^{३५}

कालान्तर में जब सिद्धों की प्रज्ञोपाय-साधना का विकास हुआ, मैथुन भावना आई और उपाय-कौशल पारमिता वज्र में परिवर्तित होकर उपायरूप में बदल गई तब जनपद्म में धर्म-प्रचार के अतिरिक्त उसका रूप व्यक्ति-पद्म में

भाव-पद्

वज्र, मणि, कुलिश या वज्रचित्त हो गया और उसका सम्बन्ध लोक साधारण में धर्मप्रचार से न रह कर वैयक्तिक साधना में मुद्रा-मैथुन की गुह्यचर्या से हो गया।^{३६} इस प्रकार उपाय को जब पुराने उपाय कौशल के महायानी रूप में जन-पद् में धर्म प्रचार के रूप में ग्रहण किया जाता है तब उसका काव्यात्मक माध्यम दोहा होता है जो नीति और विवेचना प्रधान है। और जब वही उपाय कमल-कुलिश-साधना में व्यक्ति-पद् में कुलिश रूप ग्रहण किया जाता है तब उसका माध्यम होता है पद या गीति जो भाव तथा अनुभूति प्रधान है। इसी दृष्टि से सिद्ध साहित्य में विषयवस्तु की दृष्टि से दो पद् प्रमुख हैं, भाव-पद् तथा नीति-पद्, जो स्थूल रूप से चर्यापद तथा दोहों में अभिव्यक्त हुए हैं। किन्तु इसके पहले कि हम इन दोनों का विवेचन करें, यह भली भांति हृदयंगम कर लेना चाहिये कि भाव तथा नीति पद् में कोई ऐसी स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती और बहुत स्थलों में भाव-साधना गाते गाते सिद्ध नीति का उपदेश देने लगते हैं और बहुत स्थलों पर नीति का उपदेश और धर्मतत्व का विवेचन करते करते भावविभोर हो जाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह माना जा सकता है कि मूल में ये दोनों पद् एक ही पारमिता से विकसित हुए हैं।

हम पीछे देख चुके हैं कि उपलब्धि पद् में सिद्धों ने परंपरा से आती हुई निर्वाण भावना का तिरस्कार कर महासुख की अनुभूति को प्रमुखता प्रदान की है। अपने साहित्य के भावपद् में उसी महासुख का भाव पद् : उपलब्धि की प्रणाली का वर्णन तथा उसकी अनुभूति की सहज रस अभिव्यक्ति, यही उनका मुख्य लक्ष्य रहा है। महासुख उपलब्धि की प्रज्ञोपायात्मक योग-प्रणाली को दाम्पत्य प्रणय के रूपकों में वे वर्णित करते रहे हैं जिस पर हम अभी विचार करेंगे, किन्तु जहाँ तक महासुख की अनुभूति का प्रश्न है सिद्धों ने वाणी की विवशता स्वीकार कर ली है और स्पष्ट कहा है कि यह रहस्यानुभूति ऐसी है जिसे अभिव्यक्त ही नहीं किया जा सकता। इस रस की उद्भावना और आस्वादन इतना गुह्य है कि सारे व्यापार हृदय में ही हो जाते हैं, बाह्य अभिव्यक्ति तो उन्हें छू ही नहीं पाती। जैसे सुरंग में उठने वाली धूल सुरंग में ही विलीन हो जाय वैसी ही यह अनुभूति है। इसे कौन कह सकता है और कौन समझ सकता है।^{३७} इस सहजामृत रस का आस्वादन ही

किया जा सकता है, गुरु भी इसे समझा नहीं सकता, न शिष्य केवल गुरु के वचनों से समझ सकता है। इसके लिये तो स्वतः उसी मार्ग में प्रवृत्त होना पड़ता है।^{३८} चर्यापदों की टीका में भी इस अनुभूति की अतिशय गुह्यता का समर्थन सरहपा के एक दोहे का उद्धरण देकर किया गया है।^{३९} अन्ततोगत्वा इस अनुभूति की अभिव्यक्ति की असमर्थता को एक बड़े ही मार्मिक उदाहरण से सरहपा ने समझाया है। वे कहते हैं कि इस महासुख रूपी परमतत्त्व को कैसे अभिव्यक्त किया जाय ? इसमें साधक की परिस्थिति उसी कुमारी की भाँति होती है जिसने पहली बार सम्भोग का अनुभव किया हो और जत्र सखियाँ उससे बार बार पूछती हों कि अपने सुख का कुछ वर्णन तो करो, तो वह हार कर कहती हो कि उसके विषय में कहूँ क्या, वह वाणी से बताया ही नहीं जा सकता, उसे तो तुम तभी समझोगी जत्र तुम स्वतः परिणय के उपरान्त प्रिय से मिलोगी। वह तो अनुभव की वस्तु है, अभिव्यक्ति की नहीं^{४०} और उस अनुभूति की उपलब्धि का मार्ग यही है कि हम मन को नायकरूप में और शून्यता खसम को नायिका-रूप में आयोजित कर रात दिन सहज भाव से रहें।^{४१}

इस प्रकार वास्तव में इस भाव-साधना के वास्तविक नायक और नायिका तो तथागत और उनकी भगवती नैरात्मा है। उसी विश्वव्याप्त प्रणयकेलि को साधक बोधिचित्त को नायक और नैरात्म्य ज्ञान को नायिका मान कर अपने चित्त में आयोजित करता है। डोम्ब्री के प्रति कपाली आलम्बन-विभाव का प्रेम-निवेदन, चण्डाली के प्रति भुसुकु बंगाली का प्रेम-नायक नायिका: निवेदन, यह सब वास्तव में बोधिचित्त और शून्यता की ही दूती प्रणय-केलि के विभिन्न रूपक हैं। अद्रयवज्र ने इस दाम्पत्य भाव साधना का अपने 'प्रेमपंचक' में बड़ा ही स्पष्ट निरूपण किया है। उनके कथनानुसार शून्यता कामिनी है और प्रतिभास रूपी 'बोधिचित्त' उसका नायक है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते, एक दूसरे के बिना वे अपूर्ण हैं, मृत हैं। अतः वे अपने विरह का अतिक्रमण कर एक दूसरे से मिलने के लिये प्रवृत्त होते हैं। किन्तु ज्ञान के बिना वे शक्ति हैं। उन्हें पथ नहीं ज्ञात, एक दूसरे का व्यक्तित्व और प्रकृति नहीं ज्ञात। अतः गुरु उनके बीच में दूती का कार्य करता है और उनका मिलन करा देता है। उस मिलन से सहज प्रेम

भाव पक्ष

उत्पन्न होता है और अनुत्तर की प्राप्ति होती है, निःस्वभाव का उदय होता है।^{४२}

चर्याचर्यविनिश्चय के लगभग चौदह पदों में इस प्रज्ञोपाय दाम्पत्य प्रणय का काव्यात्मक वर्णन मिलता है।^{४३} उनमें नायक को वीर, शबर, कपाली, बंगाली आदि की संज्ञा दी गई है और नायिका को डोम्बी, चाण्डाली, शबरी आदि शब्दों से अभिहित किया गया है। इन शब्दों के पीछे काव्यशास्त्र की कोई परम्परा न होकर हठयोग तथा मुद्रामैथुन सम्बन्धी गुह्य संकेत हैं जिन पर हम आगे संधा भाषा के प्रतीकों के रूप में विचार करेंगे।

लौकिक काव्यशास्त्र की दृष्टि से सिद्धों ने नायिका के स्वकीया रूप पर विशेष बल दिया है। बाद में वैष्णवों में परकीया रूप पर जो इतना अप्रहमिलता है, उसका सिद्धों में सर्वथा अभाव है। वे बराबर स्वकीया नायिका को गृहणी, वधू आदि शब्दों से अभिहित करते हैं।^{४४} काण्वपा तो व्यवस्थित रूप से परिणय के लिये वर-यात्रा की सारी सज्जा के साथ प्रस्थान करते हैं, जिसमें पटह भी है, मादल भी, पालकी भी, दुन्दुभिनाद भी है।^{४५} अपने दोहों में भी वे प्रज्ञा महासुद्रा को बार बार गृहणी के रूप में वर्णित करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि जैसे नमक पानी में घुल जाता है, उसी प्रकार अपनी गृहणी को अपने चित्त में धारण करो।^{४६}

किन्तु कुछ चर्यापदों में नायिका का वर्णन ऐसा मिलता है कि उनसे उनका परकीयत्व लक्षित होता है। १० वें चर्यापद में जहाँ काण्वपा तन्त्री और भाजन लेकर नौका से प्रतिदिन नगर आने वाली डोम्बी से कापालिक के रूप में समागम की इच्छा प्रकट करते हैं वहाँ उनकी शब्दावली और डोम्बी का वर्णन ऐसा है कि वह स्वकीया तो कदापि नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जहाँ अनुराग की अभिव्यक्ति करते हैं वहाँ भी अनूढ़ा परकीया ही प्रतीत होती है।^{४७}

दो चर्यापदों में शुरिडनी तथा मातंगी का ऐसा वर्णन मिलता है कि वे बहुत कुछ सामान्या की कोटि में रक्खी जा सकती हैं। शुरिडनी नायिका दो घड़ों में वल्कल चूर्ण से मदिरा खींचती है। उसके मदिरालय सामान्या के कई द्वार हैं जिनमें से दशम वैरोचन द्वार से ग्राहक चिन्ह दिखा कर आते हैं, जिन्हें वह मदिरा पिलाकर सन्तुष्ट करती

है।^{४८} इसी प्रकार गंगा तथा यमुना के बीच से नाव खेकर ले जाने वाली मार्तंगी भी है जो सभी यात्रियों को नाव पर बिठा कर बारी बारी से पार उतारती है।^{४९}

कामचेष्टा की दृष्टि से सिद्धों के पदों में नायिकाओं में मुग्धात्व, मध्यात्व तथा प्रौढात्व तीनों ही प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। शबरपा की शबरी संसार से दूर, ऊँचे पर्वत पर, मोर पंखों से शृङ्गार किये हुए अबोध प्रकृति मुग्धा, मध्या, बालिका की भाँति रहती है। उसकी चेष्टाओं का जो विवरण प्रौढा शबरपा ने दिया है, उससे शबरी बालिका का मुग्धात्व प्रकट होता है।^{५०} कुक्कुरीपा की चर्या में वर्णित वधू जो दिन में काग से भय खाती है और रात को सास के सोने पर प्रिय से मिलने कामरूप जाती है, वह काम और लज्जा दोनों की स्थिति के कारण मध्या नायिका कही जा सकती है।^{५१} नायिका महामुद्रा की प्रौढा प्रवृत्ति के संकेत कई स्थानों पर मिलते हैं। गुण्डुरीपा कुन्दुरु वीर के रूप में जब योगिनी से त्रिनाडियों को दबाकर एक भरपूर आलिंगन देने का आग्रह करते हैं जिस प्रकार उस आलिंगन के उपरान्त वे योगिनी में चरम अनुरक्त होकर यह प्रकट करते हैं कि वे एक क्षण भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकते तब स्पष्ट हो जाता है कि महामुद्रा रतिप्रिया प्रौढा है, जिसे सम्भोग प्रिय है और जो नायक को पूर्णतया आनन्द दे सकने में समर्थ है।^{५२} जैसा हम पहले देख चुके हैं कि बौद्ध साधना में मुद्रा का अर्थ ही मुद्गरा (आनन्द देने वाली) बताया गया था, और समरसता पर विशेष बल दिया गया था जिसमें शून्यता तथा करुणा अथवा प्रज्ञा और उपाय दोनों ही का एक दूसरे के प्रति समान रूप से अनुरक्त होना अनिवार्य बताया गया था। इसी के निर्वाह के लिए महामुद्रा का प्रौढा रूप में चित्रण प्रज्ञोपायात्मक दृष्टि से भी अधिक उपयुक्त है।

इसी प्रकार अवस्था की दृष्टि से नायिकाओं का जो निरूपण किया गया है, उनमें से कई स्थानों पर नायिका नैरात्मा की अभिसारिका, स्वाधीनपतिका आदि अवस्थाएँ मिलती हैं। पूर्वोक्त गुण्डुरीपा की चर्या में वे अभिसारिका कहते हैं कि वे योगिनी का चुम्बन कर कमल-रस पीते हैं आदि और योगिनी ने उनके हृदय पर इतना अधिकार कर लिया है कि उसके बिना वे एक क्षण भी नहीं जी सकते। इस

भाव-पक्ष

परिस्थिति में योगिनी नैरात्मा स्वाधीन-पतिका नायिका है। इसी प्रकार पूर्वोक्त कुक्कुरीपा की चर्या में सास के सो जाने पर वधू अभिसारिका नायिका के रूप में प्रस्थान करती है और कामरूप आदि पीठ इस अभिसार के सहैट स्थल के रूप में परिकल्पित हैं।

नायक और नायिका के इस मिलन में अद्वयवज्र ने गुरु को दूती-रूप में जिस प्रकार चित्रित किया है, वैसा कोई स्पष्ट उल्लेख तो इन पदों में नहीं मिलता किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से इन साधनाओं में गुरु का अतिशय महत्व **दूती : गुरु** माना गया है जिस पर हम पीछे विस्तार से विचार कर आये हैं। जहाँ नायिका को मातंगी मान कर नौका बालिका के रूप में चित्रित किया गया है,^{५३} वहाँ त्रिना गुरु की प्रसन्नता के नौका जिनपुर नहीं जा पाती ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भारतीय रहस्य धर्मसाधनाओं में गुरु का दूती रूप में बराबर चित्रण होता रहा है।

शृङ्गार के सम्भोग तथा विप्रलम्भ दोनों पक्षों का चित्रण चर्यापदों में मिलता है। सम्भोग शृङ्गार के अधिकतर स्थल नायिकारब्ध हैं और नायक ही प्रणयप्रार्थी के रूप में चित्रित किया गया है। केवल एक **सम्भोग,** स्थल (चर्यापद २) में नायक का कोई उल्लेख नहीं है **नायिकारब्ध** नायिका कामपीडित होकर जागती है और अभिसार के लिये जाती हैं। अन्य पदों में नायक ही नायिका के प्रति आसक्त है और उससे प्रणयदान माँगता है। चौथे चर्यापद में गुण्डुरीपा योगिनी से आलिगन की भिन्ना माँगते हुए उसके मुख का चुम्बन कर कमल रस पीने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। इसी प्रकार दसवें चर्यापद में कपाली के रूप में काण्हा डोम्बी से समागम करने की कामना करते हैं और उसके मन में कामना जाग्रत करने की इच्छा से अस्थिमालाएँ धारण करते हैं। इसी प्रकार काण्हा ही वर रूप में डोम्बी को वरण करने के लिए प्रस्थान करते हैं। शबर भी अपने को प्रेमोन्मत्त नायक के रूप में चित्रित करते हैं और शबरी के मिलन के लिये पर्वतारोहण करते हैं। अन्त में पूर्ण सम्भोग का चित्रण करते हुए शबरपा शून्य बालिका या नैरात्मा बालिका को कण्ठ से लगा कर सुहाग-शयन का वर्णन करते हैं।^{५४}

सम्भोग-रति के नायिकारब्ध होने का दार्शनिक कारण यह है कि नायक

उपाय का प्रतीक है और प्रज्ञोपाय-प्रणयलीला में उपाय को ही सक्रिय तथा सचेष्ट माना गया है। हठयोग साधना के अनुसार भी उपाय रूप में बोधिचित्त जाग्रत होकर, उदबुद्ध होकर ऊर्ध्वगामी होता है और वधू (अवधूती) को ग्रहण करता है। इस पक्ष पर हम पीछे विचार कर चुके हैं।^{५५}

विप्रलम्भ श्रंगार का एक ही चर्यापद है और वह नायिकारब्ध है। कुक्कुरीपा उसमें भगवती नैरात्मा को आसन्नप्रसवा विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित करते हैं जिसका पति शून्य-चित्त विप्रलम्भ होने के कारण अन्यमनस्क (अमनसिकार) है और विरागी नायिकारब्ध है। उसी परिस्थिति में उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया है और वइ प्रसव श्रम से पराभूत है। अपने इस दुःख को स्वतः भगवती नैरात्मा चर्यापद में अभिव्यक्त करती हैं।^{५६}

नायिकारब्ध रति-भाव की दो मार्मिक परिस्थितियाँ वज्रगीतियों में मिलती हैं। पहली वज्रगीति बुद्धकपाल साधना में मिलती है जिसमें प्रज्ञा की अभिव्यक्ति के रूप में २५ योगिनियाँ हेरुक को समागम के लिये जगाती हैं। हेरुक उपाय के प्रतीक बौद्ध देवता हैं और अनुष्ठान के समय कल्पित किया गया है कि वे शून्य स्वभाव में ही लीन (निष्क्रिय, अन्यमनस्क) हैं और उपाय या सक्रिय स्वभाव को धारण नहीं कर रहे हैं। इस परिस्थिति में कामार्त नायिकाएँ उनके मन में काम (उपाय) जगाने का प्रयास करती हुई प्रणय निवेदन करती हैं और कहती हैं : 'यदि तुमने निश्चित कर लिया है कि मिलन के समय, अनुष्ठान के समय तुम सदैव इसी प्रकार अन्यमनस्क रहोगे तो इतने लोगों की (२५ योगिनियों को) निमन्त्रित करने की क्या आवश्यकता थी। तुम्हें प्रणय की पूर्व वार्ताएँ याद नहीं रहीं। उन्हें याद करो, इस विषादमयी उपेक्षा स्थिति से उठो। प्रियतम ! तुम्हारा अपना कार्य (उपाय-पक्ष) भी तो सम्पन्न होना चाहिये। तुम चित्त में यह द्वैत और द्विविधा क्यों लाते हो। समस्त लोग भव-भय से आकुल हैं, हे योगिनियों के मित्र उठो। अपने पूर्व पद को याद करो, विषाद त्यागो। तुम्हारे अस्तमित (उदास) होने से सभी लोग हतोत्साह हो गये हैं। उनकी निराशा दूर करो। प्रिय ! यह मिथ्या मान क्यों धारण किये हो। इस शून्य निष्क्रिय स्वभाव का परित्याग करो। द्विविधा भाव का परित्याग कर योगिनियों की कामना करो। उनकी कामनापूर्ण करो।^{५७}

भाव-पक्ष

इसी प्रकार की दूसरी वज्रगीति हेवज्रतन्त्र से बागची ने उद्धृत की है ।^५ = उसमें भी अपने को शबरी और डोम्बी की संज्ञा देती हुई नायिका नैरात्मा हेवज्र को शून्य स्वभाव का परित्याग कर सक्रिय करुणा अथवा उपाय का आश्रय लेकर शबरी की कामना (महासुख-युगनद्ध) पूर्ण करने का आग्रह करती हैं । नैरात्मा उसमें 'करुणामय' हेवज्र से कहती हैं 'उठो हे करुणामय प्रियतम, मेरी अवस्था तो देखो । महासुख संगम में ही काममधु है, वहीं शून्य-समाधि है । तुम्हारे बिना मैं मरणासन्न हूँ, उठो हे हेवज्र ! शून्यस्वभाव का परित्याग करो, सक्रिय उपाय-स्वभाव ग्रहण करो ताकि शबरी के सभी कार्य सिद्ध हों । तुमने लोगों को, नायिका को निमन्त्रित किया और अब शून्य स्वभाव धारण किये हुए हो । मैं चारुडाली हूँ, कोई अन्य नहीं हूँ, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी नहीं दीख पड़ता । अपना यह इन्द्रजाल रूप (इन्द्रियाद्ध) छोड़ो । मैं तुम्हारे हृदय की बात जानती हूँ । मैं उन्मन डोम्बी हूँ, अपनी करुणा को यों व्यर्थ नष्ट न करो ।'

इसी प्रकार का एक कामोद्बोधक अंश डाकार्णव में भी मिलता है । उसमें भी प्रज्ञा वज्रधर साधक से नायिका रूप में प्रणय निवेदन करती हुई कहती है—'तुमने समस्त जगत को (जगद्व्याप्त शून्यता को) निमन्त्रित किया है प्रभु ! अब तुम करुणा को भूल कर केवल शून्य स्वभाव में क्यों रम गये हो । उठो हे मेरे करुण स्वभाव वाले स्वामी ? वज्रधर तो महासुख की कामना करते हैं, तुम क्यों समागम नहीं करते । सुनो तो, तुम परोपकारगत हो, फिर पशुलोक की भाँति प्रियमाण निष्क्रिय क्यों हो । मेरे सम्पूर्ण विकसित कमल (भग, स्त्रीन्द्रिय) की कामना करो ताकि समस्त संसार में सुख छा जाये । मुझमें रमण करो, रमण करो हे वज्रधर ! यह प्रज्ञोपायात्मक सहज-भाव बड़ा ही गहन है... तुम यह शून्य निष्क्रियता छोड़ो ।'^६

नायिका की अभिलाषाजन्य प्रणयाकुलता लौकिक साहित्य में अधिकतर दूती द्वारा नायक के सम्मुख रखी जाती रही है । किन्तु यहाँ प्रज्ञा नायिका स्वतः नायक की करुणा (काम) को जाग्रत करती है । इसका कारण शुद्ध दार्शनिक है । महायान के उद्भव काल से ही करुणा को प्रमुख सिद्धान्त मान लिया गया था और महायानी साधक की विशेषता ही यह थी कि वह शून्य ज्ञान ही नहीं वरन करुणारूपी उपाय से भी समन्वित होता था । बिना उस करुणा के शून्य स्वाभाव की कोई सार्थकता नहीं होती है । इसीलिये स्थान स्थान पर करुणा को जाग्रत करने का आदेश है ।

भाव-पक्ष

चित्रण डोम्बी रूप में करते हैं तो लौकिक डोम्बी नारियों की भाँति उसका चित्रण बहुत ही यथार्थ हुआ है। वह डोम्बी नारियों की भाँति नगर के बाहर की कुटिया में रहती है। वह नृत्य में कुशल है।^{६२} वह नौका पर चढ़कर नदी पार कर नगर के हाट में अपना सामान बेचने आती है। तन्त्री, मालाएँ तथा हाथ की बुनी टोकरीयाँ बेचती है। उससे समरस रति के लिये नायक ने भी अस्थि की माला ग्रहण की है और कापालिक का वीर वेश बनाया है, श्राली काली का घण्टा और नूपुरादि धारण कर नायक नगर में विचरण कर रहा है।^{६३}

इस रूपवर्णन से यह प्रकट होता है कि सिद्धों ने प्रज्ञोपाय रतिभावना को लौकिक रति का रूपक देने के लिये नायक और नायिका के रूपवर्णन के लौकिक प्रतीक बड़ी ही सावधानी से चुने हैं और उनका बड़ी कुशलता से निर्वाह किया है। शत्रु के मन में एक शत्रु नायक तथा डोम्बी के मन में एक कापालिक नायक के लिये रति जाग्रत होना अधिक स्वाभाविक है, अतः कापालिक के वेश में रति की अपेक्षा जुगुप्सा अधिक होते हुये भी परिस्थितियों को देखते हुए वह संगत माना जा सकता है।

उद्दीपन का दूसरा अङ्ग है प्रकृति। रति भाव के सन्दर्भ में चर्यापदों में प्रकृति का वर्णन अपेक्षाकृत कम है। इसका एक सैद्धांतिक कारण है। वाह्य प्रकृति सिद्धों की दृष्टि में बन्धन का कारण है। वह धर्म-प्रकृति-चित्रण शून्य है, भ्रम है। भव और चित्त की सापेक्षता का विवेचन करते हुये सिद्ध-साहित्य के दर्शन पक्ष में हम यह देख चुके हैं कि सिद्ध लोग प्रतीत्य-समुत्पाद के शून्यवादी सिद्धांत के अनुसार वाह्य प्रकृति को सत्य नहीं मानते थे। विज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार वे इस समस्त संसार को चित्तगत मानते थे। उन्होंने ध्यान-पद्धति के द्वारा हठ-योग साधना में महाभूतों का उदय चित्त के अन्दर ही माना था, वही प्रकृति सत्य है और हठयोग की साधना में वही प्रज्ञोपायात्मक रूप ग्रहण कर लेती है।

इसी सिद्धांत के अनुसार सिद्धों ने प्रकृति को अन्तस्थ माना था। वही प्रकृति सत्य है क्योंकि वह प्रज्ञोपायात्मक है और बोधिचित्त से उद्भूत है। ये वाह्य गङ्गा भूठी हैं, वाह्य जमुना केवल भ्रम है, वास्तविक गङ्गा-जमुना तो दोनों नाड़ियों में हैं जिनके मध्य से अवधूती पथ द्वारा सहजयान (सहजनौका) प्रवाहित होता है। वाह्य कामरूप, उड्डीयान, जालन्धर, प्रयाग, वाराणसी, मेरु-पर्वत आदि

सत्र मिथ्या है। वास्तविक कामरूप, उड्डीयान, जालन्धर की स्थिति देह के अन्दर है। प्रयाग ललना रसना के मिलन स्थान को कहते हैं, वाराणसी उसके उपरान्त अवधूती मार्ग को कहते हैं। वास्तविक पर्वत तो रीढ़ की हड्डी या मेरुदण्ड है जिसके शिखर पर शबरी नैरात्मा वास करती है।

इस प्रकार उनकी प्रकृति अन्तस्थ है और हठयोगात्मक है। उसमें अग्नि है जो अधोमुखी होकर बाढ़वाग्नि बन जाती है और ऊर्ध्वमुखी होकर चण्डाग्नि। उसमें सूर्य और चन्द्र हैं जो ललना और रसना हैं। उसमें गंगा यमुना हैं। उसमें निष्कलंक चन्द्रमा है जो बोधित्त है। उसमें मेघ हैं जो करुणामेघ हैं, नाव भी करुणा नौका है जिसमें भरा हुआ स्वर्ण, शून्य-स्वर्ण है। स्थान स्थान पर कमल खिले हुए हैं जिनमें से कोई चौंसठ पांखुड़ी का है, कोई ४ पांखुड़ी का। इन समस्त प्राकृतिक तत्वों का हठयोग-परक संवेत क्या है, इस पर हम पीछे हठयोग साधना के अन्तर्गत विचार कर आये हैं।

चूँकि यह प्रकृति अन्तस्थ है, चित्तगत है, अभौतिक है अतः इसमें कभी कभी भौतिक प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण भी है। उदाहरण के लिये भौतिक प्रकृति में कमल रात को नहीं विकसित होता किन्तु भौतिक नियमों से मुक्त प्रकृति सुसुकुपा कहते हैं कि ३२ योगिनियाँ जिसकी पांखुरियों पर क्रीड़ा कर रही हैं ऐसा कमल आधी रात को खिला हुआ है (चर्यापद २७)। भौतिक दृष्टि से यह वर्णन असंगत है किन्तु हठयोग की दृष्टि से यही स्वाभाविक है क्योंकि प्रज्ञाज्ञानाभिषेक का समय अर्द्धरात्रि है और उसी समय महासुखचक्ररूपी कमल पूर्णतया विकसित हो जाता है। वही समय अभिसार का समय है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति में कच्छपी का दूध नहीं दुहा जाता, घड़ियाल इमली नहीं खाता, बैल प्रसव नहीं करता किन्तु कुक्कुरीपा (चर्यापद २) और देण्डणपा की चर्या (पद ३३) में यह सर्वथा संगत और युक्तियुक्त है क्योंकि इसके हठयोग सम्बन्धी गहन संकेत हैं।

इस प्रकार इन्होंने अपनी साधनाओं के लिये वाह्य प्रकृति के प्रतीक अपनाए थे और अपनी साधना को भौतिकता से मुक्त सिद्ध करने के लिये उन्होंने क्रम और प्रकृति, उनकी भौतिक कार्यकारण-शृंखला, उनके स्वरूप अदि में संशोधन कर दिया था और दार्शनिक दृष्टि से उनका आग्रह था कि

भाव-पक्ष

उनकी आन्तरिक प्रकृति ही सत्य है। यह बाह्य प्रकृति तो सर्वथा मिथ्या और भ्रम जाल है और उसकी तुलना वे काल्पनिक गन्धर्व-नगरी, या रज्जु में दृश्य-मान सर्प, बन्ध्यापुत्र, शश-शृंग, खपुष्प, मृगमरीचिका आदि से करते थे और इस प्रकृति का परित्याग कर आन्तरिक दृष्टयोगपरक प्रज्ञोपायात्मक पद्धति को पहचानने का आदेश देते थे (चर्यापद ४१)।

किन्तु जहाँ तक रति भाव के उद्दीपन का प्रश्न था सिद्ध भी रात्रि को रति का उपयुक्त समय मानते थे और दिन में रतिदोष मानते थे। इस रात के अर्थ थे प्रज्ञानाभिषेक का समय जो चतुर्थी सन्ध्या का रात्रि, रति का समय होता है।^{६४} इस समय कालाग्निरूपी धूप अस्त हो जाती है, निर्मल चन्द्र या शुक्ररूपी चित्त का उदय होता है।^{६५} और दिन में काग से भी भय खाने वाली वधू अभिसार के लिये कामरूप सहेट-स्थल को प्रस्थान करती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्ध साहित्य का भावात्मक अंश मुख्यतया शृङ्गार परक है। किन्तु अन्य भाव भी स्थान स्थान पर मिल जाते हैं। उनमें से उत्साह, विस्मय, तथा क्रोध मिलते हैं, हास्य तथा शोक अन्य भाव : भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। जहाँ तक उत्साह का प्रश्न है उत्साह आचार्यों ने दान, धर्म, युद्ध और दया में उत्साह की प्रवृत्ति कल्पित कर चार प्रकार के वीर माने हैं। सिद्धगण एक अन्य वीर सुरतवीर की भी कल्पना करते हैं।^{६६} वह वीर मधुकर रूप में पद्म का मकरन्द पीने में उत्साह दिखाता है और महाराग द्वारा विराग के दमन के कारण उसे वीर कहते हैं। रति के अन्तर्गत उत्साह (वीर) की स्थिति सम्भव है या नहीं, या उत्साह में रति सम्बन्धी उत्साह को परिगणित किया जाय या; नहीं इस पर आचार्यों में काफ़ी तर्क वितर्क रहा है। (सम्भवतः भूषण रति में भी उत्साह को स्थान देते थे^{६७} और अपने एक कवित्त में उन्होंने रति का युद्ध के रूप में चित्रण किया है)। काहूपा ने भी रति के समय वीर कापालिक की वेश-भूषा धारण की है (चर्यापद ११) किन्तु उस पद की परिणिति रौद्र में होती है जहाँ वे सास आदि की हत्या करने को सन्नद्ध होते हैं। इस रौद्र भाव या क्रोधा-वेश को सिद्धों की तांत्रिक साधना में विशेष स्थान था। लौकिक काव्य की

भाव-पद्म

की अद्भुत प्रतीक-योजना निश्चय ही सचेत रूप से श्रोताओं को विस्मय मुग्ध करने के लिये की जाती रही होगी क्योंकि दोनों ने ही गर्व से कहा है कि इस चर्या को करोड़ों में से कोई एक ही समझ पाता है। किस प्रकार इस विस्मय भाव को जाग्रत करने के लिये कुशल प्रतीक-योजना की जाती थी, इसका विवेचन हम शैली-पद्म के अन्तर्गत करेंगे।

शोक भाव केवल एक चर्यापद में मिलता है। (चर्यापद ५०) जिसमें शन्नर की मृत्यु (निर्वाण प्राप्ति) का रूपकात्मक वर्णन है। इसी प्रकार पिता बोधिचित्त की मृत्यु का वर्णन (चर्यापद २०) कुक्कुरीपा ने भी किया है जिसका उल्लेख हम विप्रलम्भ शृंगार के अन्तर्गत कर चुके हैं। निर्वाण का अर्थ अनस्तित्व यदि मान लिया जाय तो कुक्कुरीपा की चर्या भी शोक भाव के अन्तर्गत मानी जायगी। शन्नरपा की चर्या का पूरा अर्थ मुनिदत्त की टीका में भी मिलता है। किन्तु डा० सुकुमार सेन द्वारा की गई अंग्रेजी छाया में छायाकार ने शन्नरपा की मृत्यु पर शन्नरी के शोक को ही प्रधानता दी है और उनका अर्थ असंगत नहीं प्रतीत होता।^{६०}

हास्य का व्यंग और विद्रूप के रूप में शैलीगत प्रयोग हमें दोहों की नीति प्रधान शैली में मिलता है, जिसकी शैली पद्म पर विचार करते समय समीक्षा करना उचित होगा। इन भावों का उल्लेख करते समय यह हास्य स्पष्ट हो जाना चाहिये कि शुद्ध लौकिक दृष्टि से इनमें से शायद ही कोई भाव रस की स्थिति तक पहुँचता हो, शायद ही इनमें से कोई स्थल दोषहीन हो। कई स्थलों पर तो स्पष्टतः रसाभास की स्थिति है जैसे भुसुकुपा ने हरिण तथा हरिणी आदि पशुजगत से प्रतीक लेकर उनमें रति भाव का आरोप किया है (चर्यापद ५)। किन्तु पहले भी इस ओर संकेत किया जा चुका है कि जिस लौकिक काव्यशास्त्र में ये सिद्ध विश्वास ही नहीं करते थे उसी को इनका मानदण्ड बनाना अन्याय होगा। इनकी समीक्षा में तो हमें सदैव लौकिक के साथ साथ प्रतीकात्मक का ध्यान रखना होगा क्योंकि इनकी साधना के साथ साथ इनके साहित्य की मूल-भावना भी लौकिक और अलौकिक के बीच की मध्यम और सहज भूमि पर स्थित थी।

इस दृष्टि से कई धार्मिक कवि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने काव्य में

रति, आदि सभी लौकिक भावों का चित्रण करते हुए अन्त में सभी का शमन निर्वेद में किया है। किन्तु सिद्धों को हम उस कोटि में नहीं रख सकते। इसलिये कि सिद्धों का लक्ष्य ही निवृत्तिमूलक निर्वेद नहीं था। वे महाराग की साधना में विश्वास करते थे और महासुख की उपलब्धि के लिये सचेष्ट थे जो करुणाजन्य है, उपाय स्वरूप है, प्रवृत्तिमूलक है। विराग का महाराग द्वारा दमन करने ही से साधक को वीर की संज्ञा दी गई है। अतः विराग-परक निर्वेद सिद्धों का प्रधान भाव कैसे हो सकता है? सिद्धों का प्रधान भाव प्रज्ञोपायात्मक महाराग या महारति है, लौकिक रति के प्रतीक तो केवल अभिव्यक्ति के माध्यम हैं।

किन्तु किसी भी काव्य के सम्बन्ध में अन्तिम प्रश्न यह उठता है कि रसोद्रेक की दृष्टि से यह कहाँ तक सफल है। इस दृष्टि से भी तान्त्रिक साधकों ने गहन विचार किया था और अन्त में वे इस परिणाम पर पहुँचे थे कि दर्शकों या श्रोताओं के हृदय में जो मनोविकार वासना के रूप में उपस्थित रहते हैं वही जब विभाव के संयोग से, व्यंजना-वृत्ति के साधारणीकरण या विभावन व्यापार से जाग्रत होते हैं तभी रसास्वाद की अवस्था होती है।^७ यह मत अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद के रूप में प्रख्यात हुआ था। रस-ध्वनि को श्रेष्ठ ध्वनि के रूप में माना गया। इन विचारों और धारणाओं को सुव्यवस्थित करने का श्रेय अवश्य तन्त्राचार्य अभिनवगुप्त को था किन्तु ये पहले ही से दूसरे रूपों में प्रचलित थीं। इस प्रकार लौकिक-काव्य श्रोताओं की लौकिक वासनाओं को उद्बुद्ध करता था किन्तु सिद्धों का काव्य अलौकिक था, उनकी दृष्टि में लौकिक वासना-क्लेश आदि तो भवजाल थे, मोहजाल थे जो वज्रज्ञान से तोड़े जाते थे। इसीलिये सिद्ध सदैव यह कहते थे कि भवसुद्रा का परित्याग कर मणिमूल में चण्डाग्नि के आलोक में कर्मसुद्रा को ग्रहण कर साधक को अलौकिक वासना जगा कर प्रज्ञोपाय मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिये। यह करुणा या उपाय ही अलौकिक रति-वासना है जिसको उद्दीप्त करने के लिये योगिनियाँ हेरुक से प्रणय-निवेदन करती हैं। यह करुणा करोड़ों में से किसी एक में ही पूर्णतया जग पाती है इसीलिये करोड़ों में से कोई एक ही इन चर्याओं का भाव पूर्णतया ग्रहण कर पाता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर इस काव्य के आस्वादन में साधारण

भाव-पद्म

जन, (प्रज्ञोपाय साधना में अप्रवृत्त) की क्या स्थिति है। वह इनके मर्म को नहीं समझ सकता। वह केवल लौकिक प्रतीकों का लौकिक अर्थ सिद्ध-काव्य और ही ग्रहण करता है और एक लौकिक रति का आभास मात्र साधारणजन उसे मिल पाता है। किन्तु सिद्धों को यह अभीष्ट नहीं, इसी-लिये वे कभी कभी उल्टे रूपक बांध कर, चमत्कारयुक्त प्रतीक योजना कर लोगों को चेतावनी देते थे कि यह पथ लौकिक पथ नहीं है, यह रस लौकिक रस नहीं है, कुछ और गहन और गुह्य रस है जिसे न गुरु कह सकता है, न शिष्य सुन सकता है, इसे तो जिसने चाखा है वही जान सकता है। यही इस अनुभूति की अतिशयातिशय गुह्यता है जिसकी ओर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं। सिद्ध लौकिक रस के बजाय इसी कमल रस, अमृत रस, सहज रस के साधक थे और वही उनके काव्य का मूल रस है।

किन्तु उनकी साधना साधारण जन के लिये निषिद्ध तो नहीं थी। वे तो अपने धर्म से लोक को तारना चाहते थे। उन सबों में प्रज्ञोपाय की वासना जगाना चाहते थे, अतः उन्होंने काव्य का एक पद्म, नीति-पद्म रखा जो साधक के मन का संशय दूर कर, उसे भवजाल से मुक्त कर, अन्य सम्प्रदायों के भ्रान्तिपूर्ण मार्ग को त्याग कर प्रज्ञोपाय साधना की ओर उन्मुख करता था। इस नीति-पद्म के लिये उन्होंने दोहों का माध्यम अपनाया और जैसा हम तारानाथ की साक्षी से जान चुके हैं, ये दोहे पदों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय थे।

हम पहले यह संकेत कर चुके हैं कि बौद्धों में उपाय-कौशल्य पारमिता का अर्थ था, लोक-साधारण में बौद्ध-धर्म का प्रचार करना और सिद्ध-साहित्य का नीति-पद्म उसी पारमिता की परम्परा का निर्वाह करता है। इस नीतिपद्म का प्रधान माध्यम दोहा है किन्तु चर्यापदों में भी स्थान स्थान पर साधना तथा तत्व-दर्शन के उपदेश और विवेचन मिलते हैं जो प्रतीक प्रधान हैं, जिनका विवेचन हम आगे प्रतीक-योजना के अन्तर्गत करेंगे। प्रतीकों से मुक्त शुद्ध तार्किक दृष्टि से तत्व का विवेचन करने वाले पदों की संख्या ७१ इस प्रकार है :—

लुईपा, एक पद, संख्या २। सुसुकुपा दो पद, संख्या १३, १४। काणहपा दो पद, संख्या २५, २६। सरहपा, दो पद, संख्या ३४, ३५, तथा जयनन्दीपा,

एक पद, सं० ४७ । इनके अतिरिक्त एक शुद्ध विवेचनात्मक पद सहज-विलास की कुटुलासाधना में भी मिला है।^{१२} इन पदों में वे पद नहीं सम्मिलित किये गये हैं जिनमें साधकों ने आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति की है, या उन्होंने किस प्रकार ज्ञान-तत्व की उपलब्धि की, इसका वर्णन किया है। ये पद स्पष्टतः श्रोताओं को सम्बोधित किये गये हैं और निश्चित रूप से नीति-पक्ष में सम्मिलित किये जा सकते हैं क्योंकि उनका स्वर आत्माभिव्यक्ति का नहीं वरन उपदेश का स्वर है।

इस सम्बन्ध में एक विशेषता समझ लेनी आवश्यक है। हिन्दी में भक्ति तथा रीतिकाल में हमें जिस प्रकार नीति-परक मुक्तकों की परम्परा मिलती है उनमें लौकिकता अधिक है। वे व्यक्ति को लौकिक व्यवहार का उपदेश देते हैं किन्तु सिद्धों अथवा तत्कालीन अन्य सम्प्रदाय के तत्व-चिन्तकों की मुख्य चिन्ता यह नहीं थी व्यक्ति लौकिक जीवन में कैसे सफल हो, लौकिक जीवन को तो वे बन्धन का कारण मानते थे। उनकी मुख्य चिन्ता यह थी कि कैसे व्यक्ति इस सांसारिक मोहजाल को तोड़ कर सहज-प्रज्ञोपायात्मक पथ पर चले और नैरात्मज्ञान उपलब्ध करे। अतः उनका नीतिपरक उपदेश साधक को धर्म-साधना में ही प्रवृत्त कराने के लिये था। धर्म प्रमुख था, लौकिक व्यवहार गौण। नीति धर्मसाधना की सहायिका के रूप में थी।

एक विशेषता और है। परम्परागत संस्कृत नीतिग्रन्थ—विदुरनीति, चाणक्यनीति आदि में जो उपदेश हैं वे व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर अधिक केन्द्रित हैं। समाज का गठन कैसे हो, किस वर्ग का क्या स्थान हो, व्यक्ति की स्वतन्त्रता कहाँ पर बाधित होती है, परिवार में पिता, पति, पुत्र और भाई आदि का सामाजिक पक्ष क्या है, इन विषयों का विशेष प्रतिपादन होता है। उनका स्वर अनुशासनात्मक अधिक है।

सिद्धों का नीति-परक साहित्य इस दृष्टि से परम्परागत सामाजिक अनुशासन की उपेक्षा करता है और पूर्णतया व्यक्ति पर केन्द्रित है। उस समय की अधिकांश साधनाएँ व्यक्ति-परक थीं अतः वह व्यक्ति को साधना-पथ में प्रवृत्त होने का उपदेश देते थे, उस साधना-पथ का विवेचन करते थे, अन्य साधना पथों का खण्डन करते थे और अपने द्वारा उपदिष्ट विशेष साधनापद्धति के मार्ग के खतरों का निर्देश करते थे। उसका अनुशासन साधनापथ का अनुशासन है। उच्च-वर्ग द्वारा परम्परा से आने वाले समाज-गठन का अनुशासन नहीं।

भाव-पक्ष

इस प्रकार विषयवस्तु की दृष्टि से हमें इस नीतिपरक साहित्य में तीन अंग मिलते हैं। १. विवेचन, २. खण्डन, ३. चेतावनी।

विवेचन में इन्होंने शून्य, सहज, प्रज्ञोपाय समाधि, भवनिर्वाण, चित्त, वज्रज्ञान, नैरात्म-दर्शन आदि का उपदेश दिया है और कभी प्रत्यक्ष शैली में और कभी अप्रस्तुतों और प्रतीकों के सहारे इन्होंने इन सिद्धान्तों और साधनाओं को समझाने का प्रयास किया है। खण्डनात्मक साहित्य में इन्होंने तीन दिशाएँ अगुआई कीं। समकालीन अन्य सम्प्रदायों का खण्डन, पुराने महायान की तन्त्रेतर साधनाओं का खण्डन और अपने ही वज्रयान में अनुष्ठानों और हठयोग के माध्यम से महाभुद्रा सिद्धि कर लेने के उपरान्त अपने सम्प्रदाय के भी अनुष्ठानों का निषेध। चेतावनी अंग में इन्होंने स्थान-स्थान पर साधक को वाह्य का परित्याग कर आन्तरिक मर्म को समझने और चित्त को दृढ़ करने का उपदेश दिया है। साधना-मार्ग के उन स्थलों पर सचेत किया है जहाँ साधक के च्युत होने का भय है। पिछले अध्यायों में हम यथास्थान उनके इन विचारों और धारणाओं का उल्लेख कर चुके हैं।

काव्य-पक्ष की दृष्टि से इन नीतिपरक पदों और दोहों में विवेचना के अंश जहाँ अप्रस्तुतों और प्रतीकों से रहित हैं, वहाँ उनकी गति बहुत ही शिथिल और नीरस है। उनमें किसी प्रकार की मार्मिकता नहीं है। विवेचन किन्तु जहाँ प्रतीक-योजना आ जाती है वहाँ शैली कुछ चमत्कारिक हो जाती है और पाठक उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे स्थलों पर उनका काव्य-कौशल इस प्रकार का है कि पहले वे केवल प्रतीकात्मक पंक्तियाँ रखते हैं ताकि उनकी अद्भुत रहस्यात्मक प्रतीक-योजना से श्रोता उनकी ओर आकर्षित हो। उसके बाद वे उन प्रतीकों के रहस्य का कभी प्रत्यक्ष उद्घाटन कर देते हैं, कभी उनके पीछे के तत्व की ओर, अप्रत्यक्ष संकेत मात्र कर देते हैं। कभी कभी वे और भी चमत्कार लाने के लिये परस्पर विरोधी प्रतीकों का प्रयोग करते थे। इनका उद्देश्य यह तो रहा ही होगा कि भाव या रस के अभाव में वे चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ जनता को आकर्षित करें, साथ ही जहाँ अधिक गुह्य साधनाओं का उपदेश है, वह केवल सम्प्रदाय में दीक्षित लोगों को ही ग्राह्य हो सके क्योंकि 'गुह्याख्यान जने पक्षे' वज्रयानी उपदेशकों के लिये अपराध माना गया था। किन्तु इसका परिणाम यह

हुआ कि धीरे धीरे उनके ये प्रतीक दुरूहतम होते गये और आज उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनका वास्तविक अर्थ लुप्त हो गया है। स्वतः चर्यापदों के टीकाकार मुनिदत्त बहुत से प्रतीकों को नहीं समझ पाये हैं और कुछ चर्याओं की टीका तो उन्होंने अधूरी छोड़ दी है।^{७३}

खण्डनात्मक अंशों में सिद्धों की शैली अधिक बलशाली, प्रवाहमयी और ओजयुक्त है। उसमें साहस का स्वर है और कहीं-कहीं प्रच्छन्न व्यंग भी है।

उसमें तर्क है किन्तु वह शुद्ध बौद्धिक विवेचना का तर्क नहीं खण्डन है। व्यंग के कारण वह अधिक मर्मस्पर्शी, सहज ग्राह्य और रोचक है। वह खण्डन निस्सन्देह साम्प्रदायिक सीमाओं से

अंधा हुआ है और इसके साम्प्रदायिक पक्ष पर हम पीछे विचार कर लुके हैं किन्तु यह लौकिक जीवन की सहज प्रवृत्ति के अधिक निकट है और अभिव्यक्ति की दृष्टि से सिद्धों के कतिपय शृङ्गारपरक पदों के बाद उनके साहित्य का सबसे सफल अंश है। जहाँ सरहपा मट्टी पानी और कुश लेकर संकल्प करने वाले, घर में बैठ कर अभिहोत्र करने वाले, होम के कड़ए धुँएँ से आँख को कष्ट देने वाले, घर में बैठ कर दीवा जलाने वाले, घण्टा बजाने वाले, मूँड़ मुड़ाने वाले, नंगे होकर केश उखाड़ने वाले मिथ्या-साधकों का उल्लेख करते हैं वहाँ उनकी वाणी में अद्भुत बल और साहस है। उनमें अपने सम्प्रदाय के प्रति आस्था होते हुए भी सहज-सिद्धि प्राप्त कर लेने के उपरान्त अपने तथा दूसरे सगप्रदायों के बाह्य अनुष्ठानों की निरर्थकता पर इतना अटूट विश्वास था कि वे उसके बलपर किसी भी अनुष्ठान का उपहास कर सकते थे। उनमें वह वृत्ति कूट कूट कर भरी थी जिसे कबीर के सम्बन्ध में द्विवेदी जी ने 'अकखड़ता' कहा है।^{७४}

उनके इस व्यंग का काव्यशास्त्र की दृष्टि से विवेचन करने पर हम पाते हैं कि वह दो तत्वों के विषमता प्रदर्शन पर आधारित है। व्यंगकार जब किसी

भी व्यक्ति या प्रवृत्ति पर व्यंग करना चाहता है तो वह उसे व्यंग

ऐसी पृष्ठभूमि में दिखाता है जिसमें वह हास्यास्पद लगने लगता है। उदाहरण के लिये गाँवों में एक अत्याधुनिक युवक का व्यवहार और नगरों में एक ग्रामीण युवक का व्यवहार हास्यास्पद लगने लगता है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी पृष्ठभूमियों से मेल नहीं खाते। सिद्धों ने सहज और शून्य की विराट अग्रगम्य पृष्ठभूमि और उसकी अत्यन्त दुरूह साधना का

भाव-पक्ष

वर्णन करने के बाद इन छोटे छोटे अनुष्ठानों का वर्णन किया है। जो सहज सिद्धि इतनी दुरूह साधना से प्राप्त होती है उसे केवल घण्टा बजाकर, मूँड़ मुड़ा कर, मन्त्र पढ़ कर, संकल्प पढ़ कर पाने का प्रयास करने वाले ये मिथ्यासाधक ऐसे ही हास्यास्पद लगते हैं जैसे कोई शिशु कुदाल लेकर हिमालय खोदने का प्रयास करे।

नीति-पक्ष में इस व्यंग-शैली अपनाने का एक विशेष कारण यह है कि व्यंग सदैव उस साहित्य का मुख्य अन्न रहा है जिसका उद्देश्य समाज या व्यक्ति का सुधार करना चाहता है। जो नाटक सामाजिक व्यवहारों व्यंग का या पात्रों की जीवनपद्धति के दोष दिखाना चाहते हैं वे सामाजिक पक्ष दुखान्त न होकर प्रहसन या व्यंग नाटिकाओं का रूप लेते हैं। उनमें वे ही पात्र ऐसी पृष्ठभूमि में प्रदर्शित किये जाते हैं जिनमें उनका व्यवहार अपनी असंगति के कारण दर्शकों में हास्य का उद्रेक करता है और दर्शक हँसते हँसते अचेतन रूप से यह भी सोचने लगता है कि जैसा यह पात्र है वैसा मैं न बनूँ। इस प्रकार उनका सुधार हो जाता है जो व्यंगकार को अभीष्ट है।^{१५}

वही उद्देश्य सिद्धों का भी था जो इन साधकों को हास्यास्पद चित्रित कर जनता को उनसे विमुख करना चाहते थे। किन्तु जब ये व्यंगवाण भी व्यर्थ सिद्ध होते थे और साधक सहज का गहन अर्थ नहीं समझ पाते थे और सहज-साधना के भी बाह्य अनुष्ठानों और प्रतीकों में उलझे रहे जाते थे तब सिद्ध उन्हें चेतावनी देते थे और उन चेतावनियों में उनकी शैली कुछ तीखी हो जाती थी। कहीं कहीं वे अज्ञानी साधक को स्पष्ट मूर्ख सम्बोधित करते थे और उसे सचेत किया करते थे।^{१६}

सिद्धों के इन नीतिपरक दोहों का एक पक्ष और है जिसे समझ लेना बहुत आवश्यक है। लगभग उसी समय अर्थात् १० वीं और ११ वीं शताब्दी के पश्चिमी अपभ्रंश के जैनियों के जो दोहे मिले हैं उनमें सिद्धों और जैन और सिद्धों के दोहों में आश्चर्यजनक समता है। बाह्य मुनियों के दोहे अनुष्ठानों का खण्डन जैन दोहों में भी लगभग उसी शब्दावली में मिलता है। वे कहते हैं कि यदि अभ्यन्तर मैला है तो बाहर तप करने से क्या लाभ। चित्त में निरंजन को धारण करने से ही मल से

मुक्ति मिल सकती है।^{७७} उस निरंजन में जिसने मन को लीन कर लिया उसके लिये तन्त्र और मन्त्र सब व्यर्थ हैं।^{७८} ऐसे दोहे, जिनमें लगभग समान अक्षरसूत्रों में उन्हीं भावों की अभिव्यंजना हुई है बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

१. अशरीर की साधना ।

जैन : असरीरहं सन्धाणु किउ सो धाणुक्कु निरुत्तु...पाहुडदोहा,
पृष्ठ ३६

बौद्ध : असरिर कोई शरीरहि लुक्को । दोहा कोष, पृ० ३५ ।

२. तन्त्र-मन्त्र का निषेध ।

जैन : मन्तु ण तन्तु ण धेउ ण धारणु, ण वि उच्छासइ किज्जुइ
कारणु । पाहुडदोहा, पृ० ६२ ।

बौद्ध : मन्त ण तन्त ण धेउ ण न धारणु, सव्ववि रे वढ विब्भम
कारण । दोहाकोष, पृ० २० ।

३. निरक्षर साधना ।

जैन : किम किज्जइ बहु अक्षरहं जे कालिं खउजन्ति
जेम अणक्खरु सन्तु मुणि तव वढ मोक्खु कहन्ति...
पाहुडदोहा, पृ० ३६ ।

बौद्ध : अक्खर वाढा सअलु जगु णाहि णिरक्खर कोइ
ताव से अक्खर घोलिआ जाव णिरक्खर होइ...
दोहाकोष, पृ० ३५

४. योगिनी गृहिणी ।

जैन : धंधवालु मो घर पडिहासइ, धरि अच्छन्तु ण घरवइ दीसइ ।
पाहुडदोहा, पृ० ३६ ।

बौद्ध : धरे अच्छइ वाहिरे पुच्छइ । दोहाकोष, पृ० २८ ।

५. विषय भोगते हुए भी निर्लिप्त ।

जैन : आभुंजन्ता विसय-सुह जे ण वि हियहि धरन्ति
ते सासय सुहु लहु लहहिं जिणवर एम भणन्ति...
पाहुडदोहा, पृ० १

बौद्ध : विसअर रमन्त ए विसअरं विरालप्पइ, ऊअर हरइ ए पाणी
छिप्पइ । सरहपा, दोहाकोष, पृ० २६ ।

६. परमधाम ।

जैन : हत्थ अहुट्टहं देवली वालहं गाहि पवेसु
सन्तु निरंजणु तहिं वसइ णिम्मल होइ गवेसु...
पाहुडदोहा, पृ० २८ ।

बौद्ध : जहि मण पवण ए संचरइ रवि ससि गाह पवेस
तहि वढ चित्त विसाम कुरु सरहं कहिअ उएस...
दोहाकोष, पृ० २० ।

७. एकाक्षर साधना ।

जैन : बहुयइं परियइं मूढ पर तालू सुक्कइ जेण, एककु जि अक्खर
तं पढहु सिवपुरि गमइजेण ।
पाहुडदोहा, पृ० ३० ।

बौद्ध : सिद्धिरत्थु मइ पढमें पढिअउ, मण्ड पिवन्तै विसरअ एमइउ
अक्खर एककु एत्थु मइ जाणिउ, ताहर गाम जाणमि ए
सइउ । रोहाकोष पृ० ३५ ।

८. करभ रूपी मन की सहजावस्थिति ।

जैन : सहज अवत्थहिं करहु लउ जोइय जतउ वारि ।
पाहुडदोहा, पृ० ५२ ।

बौद्ध : बद्धो धावहि दहदिहहिं सुक्को णिच्चल ठाइ
एमइ करहा पेक्खु सहिं विहरिअ महुं पडिहाइ...
दोहाकोष पृ० २४ ।

९. लवण पानी की समरसता ।

जैन : जिम लोण विलिज्जइ पाणियहँ तिम जइ चितु विलिज्ज
समरसि हूवइ जीवड़ा काइँ समाहि करिज...
पाहुडदोहा, पृ० ५४ ।

बौद्ध : जिम लोण विलिज्जइ पाणिणह्मि तिम धरिणी लइ चित्त
समरस जाइ तक्खणे जइ पुणु ते सम गित्त...

दोहाकोष, पृ० ४६ ।

१०. देह में ही तीर्थ ।

जैन : देहादेवलि सिव वसइ तुहुँ देवलइं विणहि

पाहुडदोहा, पृ० ५६ ।

बौद्ध : देहा सरसिअ तित्य मइं सुह अरण्ण ण दिट्ठओ ।

दोहाकोष, पृ० २५ ।

११. शून्य में पाप-पुण्य विहीनता ।

जैन : उव्वस वसिया जो करइ वसिया करइ ज सुणणु

वलि किजउ तसु जोइयहि जासु ण पाउ ण पुणणु ॥

पाहुडदोहा, पृ० ५८ ।

बौद्ध : हउं सुणणु जगु सुण्ण तिहुअण सुणणु

णिम्मल सहजे ण पाप ण पुणणु ॥ दोहाकोष पृ० ८ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धों और जैनों के दोहों में न केवल विषयवस्तु वरन भाषा, शैली, प्रतीक-योजना आदि की आश्चर्यजनक समता है । हमने पहले कई बार इस बात का संकेत किया है कि उस दोहों की परम्परा समय तन्त्रों और हठयोग से प्रभावित लगभग सभी धर्म-पश्चात्य साधनाओं के साहित्य में और पद्धतियों में आश्चर्यजनक समता पायी जाती थी और लगभग वे सभी इतने समानान्तर विकसित होते रहे हैं कि उनमें से किसका प्रभाव किस पर है, यह कह सकना कठिन है । दर्शन के पारिभाषिक शब्द तो चाहे एक दूसरे से लिये गये हों किन्तु सबों की समान प्रतीक-योजना से ऐसा लगता है कि वे सभी एक ही अविच्छिन्न परम्परा के जैन, बौद्ध-शाक्त और शैव संस्करण मात्र हैं ।

अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी वही अन्तर्बद्धता, वही साहस, वही व्यंग और वही तीव्रता इन जैन दोहों में भी मिलती है जो सिद्धों के दोहों में मिलती है । भाषा और शैली की दृष्टि से यह नीति-साहित्य पश्चिमी परम्परा का लगता है, पूर्वी परम्परा का नहीं । भाषा तथा छन्द की दृष्टि से तो इस पर हम बाद में विचार करेंगे, शैली की दृष्टि से साम्प्रदायिक-परम्परा तथा काव्य-परम्परा से ग्रहीत

भाव पक्ष

प्रतीकों के अतिरिक्त जो प्रतीक दैनिक जीवन से लिये गये हैं वे पश्चिमी प्रान्तों के हैं, पूर्वी प्रान्तों के नहीं। मन के लिये करभ या ऊँट, मृगतृष्णा ७^२ आदि प्रतीक बंगाल, बिहार या आसाम के नहीं हो सकते। चर्यापदों में वर्णित मछुए, डोम्ब्री, चाण्डाली, शुण्डिनी, मातंगी आदि अवश्य पूर्वीय देशों के जीवन से लिये गये हैं, किन्तु नीतिपरक दोहे पश्चिमी ही हैं। सरहपा का भी महाराष्ट्र के आसपास सिद्धि पाना और तब दोहों का उपदेश करना प्रसिद्ध ही है।

ख शैली-पक्ष

तन्त्रों में काव्यशास्त्र सम्बन्धी विचारों का विवेचन करते हुए हमने यह संकेत किया था कि तन्त्रों में भाषा शैली का एक अलौकिक रहस्यात्मक गुह्य स्वभाव विकसित हो रहा था जिससे समस्त भाषा मन्त्र-स्वभाव की होती जा रही थी। बौद्धों ने अपने तन्त्रों की इस रहस्यमयी प्रतीकात्मक शैली को सन्धा-भाषा या संधा वचन कहा। सरहपा दोहों में अपनी शैली को गहिण गुहिर भास कहते हैं जिससे उनका तात्पर्य इसी प्रतीकात्मक शैली से है।¹ चर्यापदों की टीकाओं में बराबर इन सिद्धों द्वारा प्रतीकों का अर्थ बताते हुए मुनिदत्त ने कहा है कि 'सन्धा-भाषा में इसका अर्थ अमुक होता है।' और लगभग प्रत्येक टीका में वे सन्धा-भाषा का उल्लेख करते गये हैं।

यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना अत्यन्त आवश्यक है कि म० हरप्रसाद शास्त्री ने जिस प्रति से चर्यापदों की प्रतिलिपि कराई थी, उसमें लिपिकार ने बराबर सन्धा के स्थान पर 'सन्ध्या भाषा' लिखा था। सन्धा-भाषा या शास्त्री महोदय ने सन्ध्या-भाषा की रहस्यमय सांकेतिकता को देख कर अनुमान यह लगाया था कि सन्ध्या के अर्थ हैं 'आलो-आन्धारी-भाषा' या धूपछाँही शैली जिसके वाह्य अर्थ कुछ और ही तथा आन्तरिक अर्थ कुछ और। डा० विनयतोष भट्टाचार्य ने भी इस शैली का नाम 'सन्ध्या भाषा' ही स्वीकार किया है और अंग्रेजी अनुवाद 'लैंग्वेज आफ़ ट्वाइलाइट' किया है।²

किन्तु पण्डित विद्युशेखर शास्त्री ने अपने एक अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण लेख

शैली-पत्र

में बहुत से प्रमाणां द्वारा यह सिद्ध किया है कि 'सन्धा' भाषा की प्रतिलिपि 'सन्ध्या' के रूप में लिपिकारों के भ्रमवश हुई है। वास्तविक शब्द 'सन्ध्या' नहीं 'सन्धा' है, 'सन्धा' के अर्थ हैं अभिसन्धि अथवा अभिप्राय-युक्त भाषा। अतः यह अभिप्रायिका-शैली या नेयार्थ-वचन है जिसका लक्ष्य है वाह्य अर्थों के वजाय किसी दूसरे निहित अभिप्राय की अभिव्यक्ति करना।³ डा० बागची ने भी इस मत का समर्थन करते हुए ह्वेञ्ज तन्त्र की अप्रकाशित पाण्डुलिपि में इसका रूप 'सन्धा-भाषा' ही बताया है, 'सन्ध्या' नहीं। इसके चीनी पर्याय का भी अर्थ उन्होंने औपचारिक या औपायिक बताया है।⁴ तिब्बती अनुवादों से तुलना करने के उपरान्त भी वे इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि इसका शुद्ध रूप 'सन्धा' ही है और इसका अर्थ अभिसन्धियुक्त शैली है।⁵

डा० दासगुप्त ने एक दूसरा सुझाव दिया है। वे यह कहते हैं कि चूँकि अधिकांश तान्त्रिक पाण्डुलिपियों में 'सन्धा' के वजाय 'सन्ध्या' रूप ही मिलता है तो सम्भव है यह लिपिकारों की त्रुटि न हो, इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि कालान्तर में इसका 'आलो-आन्धारी-भाषा' वाला अर्थ भी गौण रूप से स्वीकृत कर लिया गया हो।⁶ किन्तु यह केवल अनुमान ही है। जहाँ तक बौद्ध तन्त्रों की पाण्डुलिपियों, उनके लिपिकारों, यहाँ तक कि उनके रचयिताओं का सम्बन्ध है, यह सर्वविदित है कि भाषा और व्याकरण के कड़े नियमों के प्रति उन्होंने बड़ा ही विद्रोही रुख अपनाया था और वे उन लोगों की हँसी उड़ाते थे जो संस्कृत के नियमों का अत्यन्त कठोरता से पालन करते थे। उन्होंने स्पष्ट घोषित किया था कि अपशब्द, वृत्तिभंग, वर्णस्वर लोपादि ह्रस्व का दीर्घ करना और दीर्घ का ह्रस्व करना आदि तन्त्र के उपदेशकों के लिये वैध है।⁷ इस दृष्टि से वे सन्धा को सरलता से सन्ध्या लिख सकते थे उसके लिये इसके गौण रूप या गौण अर्थ की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पुनश्च हम देख चुके हैं कि सरहपा ने भी इसे 'गहण गुहिर भास' कहा है। सिद्ध लोग रूपकों में बात करने के प्रेमी थे। यदि इसका गौण अर्थ भी आलो-आन्धारी-भाषा होता तो वे उसको काव्य में अवश्य प्रयुक्त करते, 'गहण गुहिर भास' वाले अर्थ को प्रधानता न देते। टीकाओं में भी स्थान स्थान पर 'सन्ध्या' और अभिसन्धि का समानार्थक प्रयोग मिलता है और उससे भी इसी मत की पुष्टि होती है कि इसका अर्थ अभिसन्धि या अभिप्राययुक्त भाषा है। विरुपा की चर्या में स्पष्टतः 'अभिसन्धि' का प्रयोग है और उसका तात्पर्य सन्धा या सन्ध्या ही है।⁸ बागची

का कथन है कि तिब्बती रूपान्तरों में सन्ध्या और अभिसन्धि के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है जिसका अर्थ 'अभिप्रायात्मक भाषा' है।^{१०}

(1) इस प्रकार की प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग सिद्धों का अपना आविष्कार नहीं है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में ही इस प्रकार की प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग होता था।^{१०} मीमांसकों ने शब्दों के इन्हीं निहित, प्रच्छन्न अभिप्रायार्थों के आधार पर अपने सिद्धान्तों का विकास किया था। तन्त्रों में व्यापक रूप से यह शैली प्रचलित थी।^{११} बौद्ध परम्परा में भी यह शैली पहले ही समाविष्ट हो चुकी थी। सद्धर्म पुराणरीक में हमें कई स्थानों पर सन्धाभाषा का उल्लेख मिलता है। औपम्य-परिवर्त नामक तृतीय परिवर्त के दो श्लोकों में तथागत से प्रार्थना की गई है कि 'हे महावीर ! हम महर्षियों द्वारा प्रयुक्त इस सन्धाभाषा को आदरपूर्वक ग्रहण करते हैं... हम भी लोक में अनुत्तर बुद्ध बनें, ऐसे बुद्ध बोधिसत्व जो सन्धाभाषा में अनुत्तर बोधि का उपदेश देते हैं।'^{१२} कर्न ने इस प्रसंग में सन्धाभाषा का अनुवाद रहस्यमयी वाली 'मिस्टीरियस स्पीच' किया है।^{१३} इसके पहले ही दूसरे परिवर्त में की एक टिप्पणी में कर्न ने सन्धाभाषा को (ब्यूनीफ का प्रमाण देते हुए) वह शैली बताया है जिसकी प्रकृति मन्त्रणा की प्रकृति है अर्थात् गम्भीर रहस्यों का उद्घाटन कर सही मार्ग का प्रदर्शन करने वाली भाषा।^{१४} ह्येनसाँग ने भी इसका अनुवाद 'गुह्य अभिप्राय वाली भाषा' इस प्रकार किया है।^{१५}

(2) इस प्रकार इस भाषा की प्रकृति मन्त्र-प्रकृति थी। मन्त्र-सिद्धान्त में प्रत्येक शब्द और अक्षर का एक गुह्य, दिव्य या परम अर्थ होता था। शब्दों की उसी द्वायार्थक प्रकृति का परिचय सन्धाभाषा में भी मिलता है। महायान में इस सन्धा शैली का प्रयोग उपाय-कौशल पारमिता के अन्तर्गत बताया गया था। उपाय-कौशल पारमिता का बौद्ध तन्त्रों के काव्यरूपों के विकास से क्या सम्बन्ध रहा है इस पर हम विचार कर चुके हैं। प्रारम्भ में उपाय-कौशल के अर्थ थे, बौद्ध सम्प्रदाय में अदीक्षित लोक साधारण को बौद्ध धर्म के भेदों से अवगत करा कर उन्हें बोधिसत्व यान में दीक्षित करना। इस कार्य के लिए बोधिसत्वों को सन्धाशैली के प्रयोग का आदेश मिला था।^{१६} इसके द्वारा वे अशिक्षितों को भी बौद्ध मत में दीक्षित कर सकते थे। इसके लिये भगवान तथागत का यह भी आदेश था कि औपम्य द्वारा अर्थात् अप्रस्तुतों तथा प्रतीकों

शैली-पक्ष

द्वारा नियोजित औपम्य-कथा, या रूपकों द्वारा ज्ञान को सरलता से रक्खा जा सकता है क्योंकि उससे सुविज्ञ जन तत्व को तत्क्षण ग्रहण कर लेते हैं।^{१७}

तन्त्रों तक आते आते इनमें से बहुत से अप्रस्तुत रूढ़ होकर सर्वमान्य प्रतीक हो गये और बौद्ध तन्त्र ग्रन्थों में अक्सर साधना शैली में प्रयुक्त इन प्रतीकों के गुह्यार्थों की व्याख्या मिलती है। गुह्य समाज-तंत्र में लगातार इन गुह्य-प्रतीकों का प्रयोग है। हेवन्न तन्त्र के चीनी अनुवाद के आधार पर डा० वागची ने इनमें से कुछ प्रतीकों का अर्थ निश्चित किया है। हेवन्न तन्त्र के १३वें अध्याय का नाम ही 'हेवन्न सर्वतन्त्र निदान सन्धाभाषा नाम पटल' है। इसमें सन्धाभाषा को योगियों की महाभाषा कहा गया है जिसमें समय (पद्धति) के संकेतों का विस्तार है।^{१८} इन्हीं प्रतीकों का प्रयोग कर सिद्धों ने ऊपर से लौकिक (शृङ्गार-परक) लगने वाले पदों में प्रज्ञोपायात्मक कमल-कुलिश योग के गम्भीर अर्थों के संकेत समाविष्ट कर दिये थे। टीकाकार ने इन्हीं प्रतीकों के गुह्य अर्थ ढूँढ कर इनके मर्मार्थों का प्रकाशन किया। किस प्रकार इनके इन पदों में हठयोग तथा मुद्रा-मैथुन सम्बन्धी संकेत मिलते हैं इसके लिये कुछ पदों की प्रतीक-योजना पर एक दृष्टि डालनी आवश्यक है। यह समस्त प्रतीकात्मक योजना प्रज्ञोपायात्मक या नायक-नायिका परक है। नायक के लिये सिद्धों ने वीर, बंगाली, कपाली, शबर, हरिण आदि प्रतीक रक्खे हैं जिनके पीछे योगपरक अर्थ हैं।

जहाँ तक वीर का प्रश्न है उसकी व्याख्या दोहाकोष में इस प्रकार मिलती है कि चित्त-वज्र-प्रज्ञोपाय योग से जो महाराग द्वारा विराग का दमन करता है उसे वीर कहते हैं।^{१९} यह वीर सुरत वीर है क्योंकि चर्यापदों के कुछ प्रतीक वह मकरन्द पान करता है और महासुख चक्र में रमणी महामुद्रा नैरात्मारूपी नायिका का उत्साहपूर्वक उपभोग करता है।^{२०} इसी को गुण्डुरीपा कुन्दुरु वीर कहते हैं और उसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार कहता है कि योगाक्षर सुख लाभ कर जो क्लेशादि का मर्दन करे उसे कुन्दुरु वीर कहते हैं। योगाक्षर सुख वह दो इन्द्रियों की समापत्ति से लाभ करता है। ये दो इन्द्रियाँ कमल और कुलिश या भृग और लिंग है।^{२१} इसी नायक को अद्वैतज्ञान प्राप्ति के उपरान्त बंगाली कहा जाता है और तब वह चण्डाली का स्वामी होता है। भुसुकु अपने चर्यापद में इसीलिये अपने को

दंगाली कहते हैं और अपनी गृहिणी के रूप में चण्डाली को ग्रहण करते हैं।^{२२} कपाली के प्रतीकार्थ पर हम काण्डपा की कापालिक साधनाओं के सिलसिले में विचार कर चुके हैं। शबरी के प्रति उन्मुख होने के ही कारण साधक को शबर भी कहा गया है। शबरी नैरात्मा का ही प्रतीक है जैसा हम अभी देखेंगे। नायक तथा नायिका की हरिण तथा हरिणी रूप में^{२३} कल्पना इसलिये हुई है कि विषय के प्रति मन बहुत शीघ्र आसक्त हो जाता है^{२४} जैसे हरिण संगीत के प्रति। उसी की प्रेयसी का प्रतीक हरिणा मान लिया गया है।

नायिका पक्ष पर विचार करने से हम देखते हैं कि चण्डाली, शबरी, सहज-सुन्दरी, वधू, गृहिणी, योगिनी, नैरामणि-योगिनी, डोम्बी, मातंगी, कमलिनी, पद्मिनी आदि संकेतों का प्रयोग किया गया है। इनमें से 'चण्डाली' पर हम विचार कर चुके हैं।^{२५} मणि मूल में सम्पुटीकरण के उपरान्त चण्डाग्नि प्रज्वलित कर साधक अबधूतिका के द्वारा उरो ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। इसी चण्डाग्नि को चण्डाली, तथा कभी-कभी इसे ग्रहण करने के कारण अबधूतिका को भी चण्डाली कहा जाता है। कभी-कभी महामुद्रा नैरात्मा को भी इसी प्रतीक द्वारा व्यक्त किया गया है।

सहस्रार चक्र में मेरुशिखर पर वास करने से नायिका, नैरात्मा को शबरी भी कहा गया है। शबरी जाति की स्त्रियाँ मध्यप्रदेश के ऊँचे पर्वतों और विन्ध्य के शिखरों पर रहती हैं। नैरात्मा की उपमा ऐसी ही ऊँचे मेरुशिखर पर रहने वाली शबरी से देते हुए और उसी का प्रेमी होने के कारण अपने को शबर कहते हुए शबरपा प्रणय निवेदन करते हैं—'एक ऊँचा, बहुत ऊँचा पर्वत शिखर है जिस पर एक शबरी बालिका रहती है। मोर के पंखों से सजी हुई, अंगों पर घुंघचियों की मालाओं से शृङ्गार किये हुए। मैं उन्मत्त शबर प्रेमी हूँ। सांसारिक सुखों से मैं विरक्त हो गया हूँ, मेरा मन तो उसी सहज सुन्दरी पर आसक्त है। उस पर्वत पर वृक्षों के घने कुंज हैं जिनकी शाखाएँ आकाश को छू लेती हैं। शबरी बालिका कानों में वज्र-कुण्डल धारण किये हुए अकेली वन में विचरण करती फिरती है। और मैं हूँ शबर, नाग सा उन्मत्त और आवेशयुक्त। मैं त्रिधातु (काय-वाक्-चित्त अथवा रूप-काम और धर्म) को पलंग डाल कर महासुख शय्या का प्रबन्ध करता हूँ और उसके बाद प्रेयसी नैरात्मा को ग्रहण कर उस पर प्रणय-रात्रि बिताऊँगा'...इस प्रकार हम देखते हैं कि शबरी वास्तव में नैरात्मा या सहज-सुन्दरी का ही दूसरा नाम है और मेरुशिखर की वासिनी

शैली-पत्र

होने के कारण शवरी का प्रतीक प्रयुक्त हुआ है और बाद में उसे सांग रूपक बनाने का प्रयास किया गया है। उसी शवरी के कारण साधक का नाम भी शवर रक्खा गया है।^{२६}

इसी प्रकार नायिका श्रवधूती को वधू के रूप में कई स्थानों पर चित्रित किया गया है क्योंकि साधक ललना रसना को त्याग कर उसी को ग्रहण करता है। इसी वधू से परिणय करने के लिये कृष्णपाद बारात सजा कर जाते हैं जिसमें पटह, मादल सभी प्रकार के वाजे हैं और दहेज में उन्हें अतुत्तर धर्म प्राप्त होता है।^{२७} इसीलिये वे इस नैरात्मा को गृहणी भी कहते हैं। दोहों में बराबर धरिणी का उल्लेख मिलता है जिसमें विलास हुए बिना सिद्धि नहीं मिलती।^{२८} उस तरुणी गृहणी के निरन्तर स्नेह के बिना इस जन्म में बोधि प्राप्त नहीं हो सकती।^{२९} परमार्थ का बोध उन्हीं को होता है जिन्होंने इस गृहणी में अपना मन डुबो दिया है,^{३०} जो इस गृहणी से पानी और नमक की तरह घुलमिल कर एक हो गये हैं।^{३१} यह गृहणी ही महासुद्रा और चण्डाली है।^{३२}

योगी की गृहणी होने के कारण नायिका को योगिनी भी कहा गया है। गुण्डुरीपा कहते हैं कि 'ओ योगिनी, तीनों नाड़ियों को दबा कर मुझे एक भरपूर आलिंगन दो।'^{३३} इस कमल-कुलिश योग में समय बीतता जाय^{३४} और हमें ज्ञान न हो। ओ योगिनी, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकूँगा। मैं तुम्हारे होठ चूम कर कमल-रस पीऊँगा।'^{३५}

योगिनी को कहीं-कहीं नैरात्म-योगिनी भी कहा गया है। शवरपा इसी को नैरामणि भी कहते हैं।^{३६}

यह योगिनी ज्ञानरूप है। कुछ विद्वानों का कथन है कि ज्ञानी को तिव्वती में द्रव्य कहते हैं जिससे डोम या डोम्बी बना जिसके अर्थ ज्ञानवती होते हैं।^{३७} इसी अर्थ में डोम्बी को वायु तत्व से संलग्न माना गया है अर्थात् प्राण तथा अपान वायु के निरोध से सम्बद्ध।^{३८} डोम्बीपा अपनी चर्या में डोम्बी को गंगा-यमुना के बीच से पार कराने वाली श्रवधूतिका बताते हैं।^{३९} कृष्णाचार्यपा इसी को डोम्बी वधू बताते हुए उसके साथ विवाह समारोह रचाते हैं और इसी को काम-चण्डाली की सजा भी देते हैं।^{४०} काण्डवा की एक चर्या महत्वपूर्ण है जिसमें कि उन्होंने इस डोम्बी बालिका से कापालिक के रूप में प्रणय भिक्षा माँगी है। उस चर्या में काण्डवा कहते हैं—'हे डोम्बी, नगरी के बाहर तुम्हारी कुटिया है, अस्पृश्य होने के कारण ब्राह्मण का लड़का

उसे छू छू कर ही वापस लौट जाता है। ओ डोम्बी, मैं कारह हूँ, निपट निघृण कापालिक योगी, मैं तुम्हारे साथ समागम करूँगा...तुम डोम्बी हो, मैं कपाली हूँ, तुम्हारे ही कारण मैंने अस्थियों की माला धारण की है...'^{४१}

टीका के अनुसार इसमें डोम्बी परिशुद्धावधूती को कहा गया है। ब्राह्मण लड़का से उन योगियों की ओर संकेत है जो अबौद्ध होने के कारण प्रज्ञोपायात्मक ज्ञान से रहित हैं अतः सिद्धि को केवल बाहर से छू पाते हैं। कारह कापालिक हैं अतः वे इस नैरात्म-योगिनी को पराभूत कर सकते हैं। कापालिक के अर्थ हैं चर्याधर अर्थात् चर्याओं में निष्णात। कापालिक शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार टीका में बताई गई है 'कम् महासुखम् पालयति इति कपाली।' अर्थात् 'क' महासुख के बीज को जो पालता है, वह कापालिक है। इसीलिये डोम्बी के साधक को कापालिक कहते हैं।^{४२}

कुक्कुरीपा ने इसी नायिका को अभिसारिका के रूप में चित्रित किया है।^{४३} 'कच्छपी को दुहने से भाजन छलक उठा है, दूध भाजन में समा नहीं पाता। वृद्ध की झमली घड़ियाल खा रहा है। ओ तरुणी वधू, तेरे घर में ही आँगन है। तेरे मलिन वस्त्र आधी रात के समय चोर चुरा ले गया है। सास को नींद आ गई है, बहू जाग रही है। तेरे जो वस्त्र चोरी चले गये उन्हें अब किससे माँगोगी। दिन में वधू काग से भी डरती है किन्तु रात होते ही वह अभिसार के लिये कामरूप तक चली जाती है। ऐसी चर्या कुक्कुरीपा गा रहे हैं। करोड़ों में से कोई एक ही इसे समझ पायेगा।'

उपर्युक्त चर्या में प्रतीकों के द्वारा हठयोग का वर्णन है। कच्छपी, जिसके लिये चर्यापद में टुलि शब्द का प्रयोग है, के अर्थ हैं द्वयाकार जिसमें लीन हो जाय ऐसा महासुख कमल। उसको दुहने के अर्थ हैं अवधूती मार्ग से उसका रस पान करना। भाजन के अर्थ हैं वज्रमणि पीठ। चर्या में 'पिटा' का प्रयोग है अर्थात् पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि महासुख कमल से भरने वाला रस वज्र मणि पीठ में भी नहीं समा रहा है। यह वज्रमणि पीठ सम्भवतः साधना के प्रारम्भिक अवस्था से सम्बद्ध है क्योंकि टीका में इसके साथ 'बालयोगी' का उल्लेख है। सेकोद्देश टीका में साधकों की चार श्रेणियाँ बताई गई हैं, बाल प्रौढ़, वृद्ध और प्रजापति। बालयोगी प्रारम्भिक अवस्था में होता है अतः उसका अधिकार महामुद्रा के पयोधरों तक ही होता है। इस प्रसंग में ही कच्छपी के स्त्री का वर्णन है।^{४४}

शैली-पत्र

इन उल्लेखों से फिर इस पंक्ति का मर्मार्थ यह निकला कि महानुदकमल की साधना से साधक को जिस रस की प्राप्ति होती है वह बालयोगी के वश की बात नहीं क्योंकि बालयोगी केवल प्रारम्भिक साधक होता है। अतः पहले उसे बोधिचित्त की साधना करनी चाहिये।

इसलिए दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि वृत्त की इमली कुम्भीर खाता है। संधा शैली में कुम्भीर के अर्थ हैं कुम्भक योग में निष्णात योगी। अर्थात् श्वास निरोध करने वाला साधक। वही इमली अर्थात् बोधिचित्त का भक्षण कर सकता है, अर्थात् उसी के द्वारा इमली की भाँति टेढ़ा मेढ़ा, भव-सम्बृत बोधिचित्त निस्वभावीकृत हो सकता है।

अगली पंक्तियों में वधू को सम्बोधित किया गया है जिसके लिये 'विआती' शब्द का प्रयोग है। विआती सम्भवतः विशति (विशति-मात्रता) का अपभ्रंश रूप है।^{४५} किन्तु टीकाकार ने यहाँ यह सम्बोधन माना है। उस वधू को सम्बोधित कर कवि कहता है कि हे वधू! तेरे गृह के समीप ही आँगन है। गृह का अर्थ वज्रजाप द्वारा प्राप्त विरमानन्दरूपी गृह है। उसमें आँगन है। आँगन का अर्थ टीकाकार ने नहीं दिया किन्तु आँगन जिसमें ऊपर से छाजन नहीं होती, उसकी हम सम्बृत्त सत्य के विपरीत विवृत या पारमार्थिक सत्य के अर्थ में व्याख्या कर सकते हैं। टीका के अन्त में भी काणहपा के दोहे का जो उद्धरण दिया है उसमें इस परमार्थ और निरंजन का उल्लेख है। अतः विरमानन्द रूपी गृह में परमार्थ रूपी आँगन है।

उस आँगन में से सहजानन्दरूपी चोर ने मलिन वस्त्र अर्थात् 'प्रवेश-वातादि दोष' चुरा लिये हैं। उनका अपहरण कर लिया है। आधी रात में अपहरण किया है। आधी रात के अर्थ हैं प्रज्ञाज्ञानाभिदेक का समय जिसे अर्द्धरात्रि भी कहते हैं।^{४६} उस आँगन में सास सो गई है। अर्थात् श्वास निरुद्ध होकर योगनिद्रा में लीन हो गई है किन्तु वधू अर्थात् परिशुद्धावधूती निरन्तर जाग्रत है। क्योंकि कहा गया है कि संयमी सदा जागता रहता है।^{४७}

वह वधू चोर को ढूँढ़ने का व्यर्थ प्रयास कर रही है क्योंकि चोर तो सहजानन्द है और सहजानन्द का स्वरूप कोई विरला ही जान सकता है। उसको पकड़ना ग्रहण करना अत्यंत कठिन है। दिन में वह वधू काग से भी डरती है, अर्थात् जब प्रज्ञाज्ञान उसे नहीं प्राप्त होता, अर्द्धरात्रि नहीं होती, दिन होता है तब वह भव-बुद्धि से चारों ओर काल-सम्बृत (काग) वस्तुओं को देखती है और

अपने ही चित्त की विवृति (संसार) से भय खाती है ।^{१८} किन्तु रात होने पर अर्थात् प्रज्ञाज्ञान में दुःख दिवाकर के अस्त हो जाने पर वही अश्रुधूती समागम के लिये कामरूप जाती है । कामरूप^{१९} के अर्थ हैं महासुख चक्र ।

इस प्रकार प्रतीकों के माध्यम से यह कहा गया है कि योग का मार्ग बहुत गूढ़ है और प्रारम्भिक साधक महासुख कमल की साधना को नहीं समझ सकते । उसके लिये पहले कुम्भक योग द्वारा बोधिचित्त को निःस्वभाव (नैरात्म-स्वभाव) कर देना चाहिये । अश्रुधूती पहले मलिन वस्त्रों, क्लेश-वासनादि से आवृत रहती है किन्तु जब वज्रजापादि के द्वारा वह विरमानन्दरूपी गृह में प्रतिष्ठित होकर परमार्थरूपी आँगन का ज्ञान प्राप्त कर लेती है तब वह निद्रा (अज्ञान) खो देती है और श्वास निरोध के बाद जाग्रत हो जाती है । उसके दोषादि अपहृत हो जाते हैं, उसमें उपाय की, साहस की प्रतिष्ठा हो जाती है और वही वधू जो दिन में काग से भी डरती थी रात को अकले अभिसार के लिये कामरूप पीठ को प्रस्थान करती है । महासुख कमल में प्रवेश करता है । यह रहस्यमयी चर्या है जिसे कुक्कुरीपा ने गाया है जिसे कोटि कोटि योगियों में से कोई एक ही समझ सकता है ।^{२०}

इसी नायिका का गंगा-यमुना की नौका-वाहिका मातंगी के रूप में वर्णन [डोम्बी^{२१} की चर्या में मिलता है :—

‘गंगा और यमुना इन दोनों के बीचोबीच से एक नौका बह रही है । उसमें एक मातंगी बैठी है जो लीलाभाव सहज भाव से योगियों को पार उतार देती है । खेती चलो, ओ डोम्बी, खेती चलो, पथ में देर हो रही है । सद्गुरु-पाद के उपदेश से हम पंचजिनपुर (पंच तथागतों का देश) में शीघ्र पहुँच जायेंगे । पाँच पतवार इस नाव को खे रहे हैं । पाल बँधे हुए हैं । गगन-शून्य-पात्र से नौका में भर आने वाले जल को मैं उलीच रहा हूँ । सूर्य और चन्द्र ये दोनों दो चक्र हैं, सृष्टि और संसार के पालों को फैलाने और उतारने के । वाम और दक्षिण इन दोनों कूलों से बच कर स्वच्छन्द मार्ग पर चलती चलो । यह डोम्बी कौड़ी लेकर पार नहीं उतारती, स्वेच्छा से श्रम करती है । जिन्होंने यह यान ग्रहण नहीं किया और रथ पर चढ़े हैं वे (अन्य सम्प्रदाय के योगी) पार नहीं उतर पाते ।’

इस चर्या का अर्थ अपेक्षाकृत स्पष्ट है । गंगा तथा यमुना, ललना तथा रसना की वाचक हैं । वाम-दक्षिण और सूर्य-चन्द्र से भी इन्हीं नावियों का बोध

शैली-पत्र

होता है। मातंगी है डोम्बी नैरात्मा जो प्रमत्त है, यह नौका जो सहज पथ से वह रही है, सहजयान^{५२} है। यह भवसागर से लोगों को पार करा देती है। पाँच डोंडों का अर्थ यहाँ चतुर्विधशून्य सम्बन्धी पंचक्रमोपदेश है। इस प्रकार ललना और रसना को परित्याग कर मध्यमार्ग अवधूती को ग्रहण करना ही हटयोग साधना में सहज-पद्धति या मध्यम-मार्ग है जिससे महामुद्रा सिद्ध होती है।

यही नायिका पद्मिनी है क्योंकि मृणाल बन कर वह कमल रस को प्रवाहित कर रही है। आधीरात कमल खिला है। वत्तीस योगिनियाँ उसके दलों पर क्रीड़ा कर रही हैं। अवधूती मार्ग से चित्तरूपी चन्द्र प्रवेश करता है। वह सहज ज्ञान की अभिव्यक्ति कर रहा है क्योंकि सद्गुरु के वचन रत्नों से प्रभावित है। चलते चलते वह चित्तरूपी चन्द्र निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। कमलिनी रूपी अवधूतिका मृणाल बन कर कमल रस को (महासुख को) प्रवाहित कर रही है। विरमानन्द विलक्षण है, जो इसे जानता है वही दुद्र हो जाता है। भुसुकु कहते हैं कि मैंने तो इसे मिलन कर (समागम कर) जाना है। मुझे महासुख की लीला में सहजानन्द की प्राप्ति हुई है।^{५३}

इस चर्या में आधीरात के अर्थ हैं प्रज्ञाज्ञानाभिपेक का चतुर्थ सन्ध्या समय। वत्तीस योगिनियों के अर्थ हैं कमल में लीन होने वाली वत्तीस नाड़ियाँ। चित्त को चन्द्र इसलिये कहा गया है कि वह सम्भृति से मुक्त होकर उपाय रूप हो गया है, शून्य में चन्द्र के समान विहार करता है। अवधूती का मृणाल रूप में संकेत काण्हपा ने भी किया है।^{५४} उससे आने वाला रस समस्त शरीर में विंध कर काय-वाक्-चित्त को वज्र बना देता है। यह लीला नायिका महामुद्रा के समागम से सम्पन्न होती है।

चर्यापदों तथा बौद्ध तान्त्रिक साहित्य में प्रयुक्त इन प्रतीकों के सांकेतिक अर्थ समझ लेने के उपरांत अब इस दृष्टि से इन पर विचार कर लेना आवश्यक है कि ये प्रतीक कहाँ से आये और कैसे ये बौद्ध तान्त्रिक प्रतीकों का परम्परा में किसी विशेष निश्चित अर्थ का बोध कराने लगे।
उद्गम हम पहले ही इस बात पर विचार कर चुके हैं सिद्धों की चिन्तन-परम्परा विज्ञानवादी दर्शन और योगाचार की साधनाओं से प्रभावित है। अतः विज्ञानवादी ग्रन्थों में जिन अपस्तुतों तथा उपमानों के द्वारा

तथता और विज्ञतिमात्रता का सिद्धांत समझाया गया है, उनमें से बहुत से अप्र-
स्तुत ज्यों के त्यों सिद्धों के साहित्य में मिलते हैं। उदाहरण के लिये भुसुकुपा ने
अपने पद में इस संसार के लिये मरु-मरीचिका, गन्धर्वनगरी, रज्जु में सर्प, दर्पण
में प्रतिबिम्ब, वन्ध्यासुत, खपुष्प, बालुका का तैल, शश-शृङ्ग आदि अप्रस्तुतों का
प्रयोग किया है।^{५५} ये अप्रस्तुत उस समय के अन्य वज्रयानी ग्रन्थों में भी
मिलते हैं।^{५६} ये अप्रस्तुत सिद्धों के अपने नहीं थे वरन उन्होंने इन्हें विज्ञानवाद
से लिया था। विज्ञानवादी चिन्तक अपने आत्म-ख्याति के सिद्धांत के प्रतिपादन
में इन अप्रस्तुतों का उपयोग करते थे, ऐसा शंकराचार्य के भाष्य से ज्ञात होता
है। क्योंकि विज्ञानवादी चिन्तना का खण्डन करते हुये शंकराचार्य ने विज्ञानवाद
की उन्हीं उपमाओं का उल्लेख किया है और उनकी तर्कपद्धति की असङ्गतियों
की ओर संकेत किया है।^{५७} वैसे ये उपमान उस समय केवल बौद्धों में ही नहीं
वरन अन्य सम्प्रदायों भी संसार के माया रूप का निदर्शन कराने के लिये प्रयुक्त
होते थे। किन्तु साम्प्रदायिक स्थिति ने संभवतः उन्हें विज्ञानवाद की परम्परा से
इन अप्रस्तुतों का उत्तराधिकार दिलाया होगा।

कुछ प्रतीक तथा अप्रस्तुत योगाचार की भाण साधना से इन्हें प्राप्त हुए।
हैं। इस साधना पर विचार करते हुए^{५८} हमने यह देखा था कि ये पञ्च महा-
भूतों को प्राणायाम द्वारा नासाग्र पर केन्द्रित कर अपनी चित्तवृत्तियों को अन्त-
मुखी कर लेते थे। इसके उपरांत उनके ध्यान में बहुत से चित्रात्मक प्रतीकों
का उदय होने लगता था। पावक धातु के उदय के समय शुक (ओषधितारक),
आप् धातु के उदय के समय षोडश कला-सम्पन्न-पूर्ण चन्द्र और पीले कनैर के
पुष्प, वायु के उदय के समय वर्षा के मेघ, आकाशधातु के उदय के समय
मोरपङ्क मन में प्रतिबिम्बित होने लगते थे। ये बिम्ब ही बोधिचित्त के उदय से
सम्बद्ध होकर विभिन्न प्रतीकों में परिवर्तित हो गये। सिद्धों ने इन समस्त अप्रस्तुतों
का कभी प्रतीक तथा कभी उपमान रूप में उपयोग किया है।^{५९} इसी प्रकार
महायान-सूत्रालङ्कार में बोधिचित्त समुत्पाद को पृथ्वी के समान, यान के समान,
राजा के समान, गन्धर्वों के मधुर घोष के समान बताया गया है।^{६०} चर्यापदों में
भी ये उपमान ग्रहण किये गये हैं।^{६१} कहीं पर ये बोधिचित्त के लिये है और
कहीं बोधिचित्त के प्रमुख तत्व करुणा के लिये।

योगाचार के अतिरिक्त तान्त्रिक पद्धतियों से उन्होंने बहुत से प्रतीक लिये
जिनका बाद में इन्होंने प्रज्ञोपायात्मक बौद्ध अर्थ दे दिया। इनमें से रस रसायन

शैली-पक्ष

और उससे सम्बन्धित समस्त प्रतीकों के बौद्ध अर्थों पर हम पीछे विचार कर चुके हैं।^{६२} इसी सम्बन्ध में सिद्धों ने बोल कक्कोल साधना के अन्तर्गत अन्य ओषधियों को भी प्रतीक रूप में ग्रहण किया। बल, मञ्जरा, कालिञ्जर, दुग्धरु, चउसम, कस्तूरी, कर्पूर, सिल्हा, मालती-ईन्धन, खेट, मलयज, प्रेंखण, डिण्डिम, कुन्दुरु आदि।^{६३} हेवन्न-तन्न में इन प्रतीकों का तान्त्रिक अर्थ क्रमशः मांस, मदिरा, शुभ, अशुभ, चार सम अंश, सूत्र, शुक्र, स्वयम्भू, व्यञ्जन, अगति, युगनद्ध, गति, अस्पर्श तथा द्वीन्द्रिय-समापत्ति मिलता है।^{६४} इन संकेतिक अर्थों से भी इस पद का अर्थ नहीं निकल पाता क्योंकि प्रतीक-योजना अत्यंत दुरूह हो गई है।

इसके अतिरिक्त तान्त्रिक परम्परा में उस समय जो पीठ उपपीठ आदि प्रख्यात थे उनको भी प्रतीकार्थ में ग्रहण किया गया। कामरूप, ओडियान (उड्डियान)^{६५} बङ्गाल^{६६} आदि इन सिद्धों की हठयोग साधनाओं में प्रतीक रूप में ग्रहण किये गये हैं।

चर्यापदों के कुछ प्रतीक शब्द चमत्कार पर भी आधारित हैं। कुक्कुरीपा को एक चर्या में 'कुम्भीर' प्रतीकरूप में आया है और कुम्भीर को इमली खाते हुये वर्णित किया गया है। कुम्भीर का अर्थ या शब्द-प्रतीकार्थ टीका में कुम्भक-समाधि बताया गया है।^{६७} साम्य-मूलक निस्सन्देह शब्दसाम्य के कारण यह प्रतीक ग्रहण कर कुक्कुरी प्रतीक ने शैलीगत चमत्कार का प्रदर्शन किया है। ऐसे प्रतीक उन थोड़ी सी चर्याओं में मिलते हैं जहाँ उलटवाँसी शैली व्यवहृत है। इसी प्रकार श्वास प्राणवायु के लिये सास, अवधूती के लिये वधू, आदि प्रतीक भी शब्द-साम्य के कारण ग्रहण किये गये हैं। श्लेष पर आधारित कुछ प्रतीक भी मिलते हैं। उदाहरण के लिये देखरणा की चर्या में बलद का प्रसव करना वर्णित है और बलद का प्रतिभासित अर्थ डैल है किन्तु श्लेषार्थ बल देने वाला बोधिचित्त बताया गया है।^{६८} अपने इसी श्लेषार्थ के कारण डैल बोधिचित्त का प्रतीक बन गया है।

इसी प्रकार कुछ प्रतीक समान-धर्मी अप्रस्तुत हैं। उदाहरण के लिये

सम्वृत, भव-प्रवृत्त, अज्ञानी चित्त का प्रतीक अन्धेरी रात का चूहा बताया गया है।^{१०} चूहा अन्धेरी रात में विहार करता है, चित्त अज्ञान में साधर्म्य-मूलक विहार करता है, चूहा बर्तनों में भोजन चुरा कर नष्ट करता प्रतीक है, चित्त रूपादि स्कन्धों का भक्षण कर अमृत तत्व को दूषित कर देता है। चूहा चंचल होता है, चित्त चंचल है। चूहे को गृहपति मार डालता है, योगी चित्त का हनन करता है। अतः सभी प्रकृतियाँ धर्म, स्वभाव समान होने के कारण चूहा चित्त का अप्रस्तुत उपमान हुआ और फिर प्रतीक रूप में रूढ़ हो गया। किन्तु वही चित्त जब मुक्त हुआ, बलशाली हुआ, महा-सुखचक्र-रूपी कमल में उसने प्रवेश कर लिया तब चूहा न रह कर मत्त गजेन्द्र हो गया, वह महारस का पान करने लगा।^{११} इस अवस्था में चूँकि उसने गज के धर्म अपना लिये अतः उसका प्रतीक गज हो गया। इसी प्रकार पशु जगत से एक तीसरा प्रतीक भी सिद्धों ने साधर्म्य के कारण ग्रहण किया है वह है हरिण। हरिण भोला अज्ञानी होता है। वह व्याध के जाल में सरलता से फँस जाता है। उसी प्रकार अज्ञानी होता है, काल-पाश में सरलता से उलझ जाता है। अतः भुसुकुपा उसे हरिण भी कहते हैं।^{१२}

कुछ प्रतीक चर्यागत हैं। हम पहले इस बात का संकेत कर चुके हैं कि बाह्य अनुष्ठानों में इन सिद्धों की अपनी अपनी चर्याएँ होती थीं जिनके आधार पर कभी कभी इनको चर्यागत, नाम भी दिया जाता चर्यागत प्रतीक था और उन चर्याओं से सम्बन्धित वस्तुओं और प्रक्रियाओं को ये आध्यात्मिक अर्थ दे दिया करते थे।^{१३} इस प्रकार की कई प्रतीक-शृंखलाएँ हमें चर्यापदों में मिलती हैं। उदाहरण के लिये हम दो प्रतीक-शृंखलाएँ लेंगे। एक वीणापा के वीणावादन की चर्या का आध्यात्मिक रूपक और दूसरा शान्तिपा के कपास धुनने का रूपक। इनमें से शान्तिपा के कपास धुनने के रूपक में सूक्ष्मातिसूक्ष्म ज्ञान और चित्त के गहन विशोधन को बार बार कपास धुनने के रूपक में अभिव्यक्त किया गया है और इसी प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रतीकों का प्रयोग है जिन पर हम पहले विचार कर चुके हैं।^{१४} वीणापा की चर्या में वीणा को हेरुक ज्ञान की वीणा के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस वीणा में सूर्यरूपी तुम्बी में शशिरूपी तन्त्री लगी है, अनाहत का दण्ड दोनों को सम्बद्ध करता है।-आली (स्वर) तथा काली (व्यंजन) इसके

शैली-पक्ष

प्राथमिक सरगम हैं। साधक वज्रवृत्त्य कर रहा है, सहस्राधिका योगिनी गम रही है, बुद्ध-नाटक का अभिनय हो रहा है। इस रूपक में कई प्रतीक वीणा-वादन की प्रक्रिया से लिये गये और तत्सम्बन्धी अन्य उपमान ग्रहण कर रूपक को परिपूर्ण बना दिया गया है, और वीणापा की वीणावादन चर्या को आध्यात्मिक रूप दिया गया है। जैसा हम पहले संकेत भी कर चुके हैं कि इन चर्याओं का सम्बन्ध इन सिद्धों की आजीविका से भी हो सकता है।^{७५}

बहुत से प्रतीक तथा अप्रस्तुत ऐसे हैं जो सिद्धों ने तत्कालीन जन-जीवन से ग्रहण किये थे। सिद्धों में से बहुत से लोग निम्न वर्ग से आये थे। बहुत से ब्राह्मण सिद्ध अपनी उच्चता का परित्याग कर लोक-जीवन में घुलमिल गये थे। अतः उन्होंने अपनी शैली में बहुत से अप्रस्तुत सामान्य जीवन से ग्रहण किये। प्रज्ञा को डोम्बी रूप में परिकल्पित करने के उपरान्त काण्हपा ने डोम्बी के निवास, उसका तन्त्री, उसकी डलिया, उसके नृत्य आदि को अप्रस्तुत रूप में ग्रहण कर इसके चित्र को बहुत सजीव कर दिया है। इसी प्रकार ज्ञान के सोजाने पर बहू के प्रणयाभिसार के लिये जाने की प्रक्रिया निस्सन्देह तात्कालिक सामन्ती पारिवारिक मर्यादा से ग्रहण की गई है। काण्हपा ने अपने एक चर्यापद में शतरंज के लोकप्रचलित खेल का रूपक बांधा है।^{७६} इसके अतिरिक्त, नौका, घाट, पुल, लकड़ी चौरना आदि दैनिक जीवन की सामान्य और चिरपरिचित वस्तुओं तथा प्रक्रियाओं को इन्होंने अपनी शैली के अप्रस्तुत ग्रहण किये हैं। इसका एक बहुत ही रोचक उदाहरण विरूपा की चर्या से मिलता है। विरूपा ने अपने एक पद में^{७७} अवधूती की उपमा शुण्डिनी मद्यविक्रेता नारी से दी है। इन मद्य-विक्रेयी नारियों और उनकी मद्यशालाओं का तत्कालीन लोकजीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था जिसका कुछ उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं।^{७८} स्वतः विरूपा के जीवन में एक घटना का उल्लेख पाया जाता है, जिसके अनुसार मदिरालय में विरूपा ने अपना एक चमत्कार प्रदर्शित किया था।^{७९} इसी प्रकार अपने दैनिक जीवन के प्रभावों और व्यक्तियों को अप्रस्तुत रूप में ये सिद्ध अपनी शैली में समाविष्ट कर देते थे।

इन प्रतीकों का विस्तृत अध्ययन करने पर एक रोचक तथ्य का पता लगता है। इनमें से कई प्रतीक ऐसे हैं जिनके अर्थ में समय के साथ-साथ

विकास होता चला गया है। उदाहरण के लिये हम एक प्रतीक लें शुक्र। हम देख चुके हैं कि योगाचार में शुक्र पावक-त्व के उदय प्रतीकों का के समय चित्त में विम्बरूप उदय होता था। उसके बाद वह विकास निर्मल बोधिचित्त का प्रतीक माना जाने लगा। किन्तु प्रज्ञोपायात्मक मैथुन कल्पना का विकास होने पर शुक्र का अर्थ सहसा बदल गया है और वह वीर्य के रूप में माना जाने लगा। डाकार्णव में इस शुक्र धातु का कई स्थान पर उल्लेख है।^{८०} इसी शुक्र को रज रूपी प्रज्ञा से भूषित करने का उपदेश काण्हपा ने दिया है।^{८१} इस प्रकार अब यही प्रतीक बोधिचित्त के दो धर्मों का संकेत करने लगा। जब बोधिचित्त मल से रहित अद्वय स्वभाव का हो, तब शुक्रतारक का और जब वह प्रज्ञा से मैथुन करने के लिये गतिशील हो तब शुक्र (वीर्य) धातु का। इसी प्रकार कुछ अन्य प्रतीकों में भी विकास का क्रम ढूँढा जा सकता है।

कुछ प्रतीक अन्तरावलम्बन के कारण आये थे। अन्तरावलम्बन में वे ऐसे प्रतीक तथा अप्रस्तुतों का प्रयोग रकते थे जिनके धर्म एक दूसरे पर अवलम्बित हो। उदाहरण के लिये चित्त को गजेन्द्र मानने का अन्तरावलम्बन एक कारण तो यह भी था कि करुणायुक्त बोधिचित्त मुक्त होता है किन्तु उसका एक कारण और है। सिद्धों ने महासुख चक्र तथा अन्य चक्रों के लिये 'कमल' प्रतीक निश्चित किया था। गज को परम्परा में कमल का प्रेमी माना गया है और उसकी यह प्रकृति बताई गई है कि वह कमल-सरोवर में प्रवेश कर कमल को उपभोग करता है। इसी परम्परागत सम्बन्ध के कारण, कमल पर अवलम्बित प्रतीक गज भी स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार एक प्रतीक हठयोग परम्परा से ग्रहण किया गया और उसी पर अवलम्बित दूसरे अप्रस्तुत को भी प्रतीक रूप में ग्रहण कर लिया गया। इसी प्रकार चित्त को हरिण मान लेने पर साधक का प्रतीक अहेरी मान लिया गया है।^{८२}

अलंकारिक प्रतीक-योजना की दृष्टि से सिद्धों ने दो प्रमुख रीतियाँ अपनाई हैं। पहली थी औपम्यमूलक और दूसरी थी विरोधमूलक। औपम्यमूलक योजना में प्रस्तुतों तथा ऐसे अप्रस्तुतों को एक विस्तृत रूपक औपम्यमूलक में नियोजित किया जाता था जिनमें धर्म-साम्य हो और प्रतीक-योजना जिनकी प्रकृति अन्तरावलम्बन की हो। बहुधा ऐसा होता था

शैली-पक्ष

कि एक विशेष रूढ़ प्रतीक को ग्रहण कर लेने के उपरान्त उसे सर्वांग सम्पूर्ण बनाने के लिये उसके समस्त अवयवों या अंगों के आरोप्य-माण ढूँढ़ लिये जाते थे। ऐसे सांग रूपक सिद्धों में बहुत से मिलते हैं। उदाहरण के लिये शबरपा द्वारा प्रस्तुत शबरी का रूपक सांग रूपक है। उसका रूढ़ प्रतीक तो है मेरुपर्वत, जो मेरुदण्ड का आरोप्यमाण है। उसके ऊपर वास करने वाली नैरात्मा के लिये मेरुपर्वत पर वास, करने वाली शबर बालिका प्रमुख अप्रस्तुत बन गई। उसके उपरान्त शबर बालिका के अंगों पर सजे हुए मोर पंख और गुंजमाला भी, उसके नाना रूप विकल्प और उसकी ग्रीवा (कण्ठ स्थित सम्भोगचक्र) में मन्त्र हार के आरोप्यमाण मान लिये गये। पर्वत पर उगे हुए वृद्ध अविद्या के अप्रस्तुत हो गये, उसके वज्र-कुण्डल मुद्रा के अप्रस्तुत हो गये। इस प्रकार एक प्रमुख आरोप्यमाण ग्रहण कर उसके समस्त अवयवों का भी आरोप कर दिया गया।^{१८३} इसी प्रकार काण्हपा द्वारा प्रस्तुत वरयात्रा का रूपक भी सांग रूपक है। डोम्बी को वधू रूप में परिकल्पित कर काण्हपा वर बन कर उससे विवाह करने चलते हैं। उसमें पटह, टुन्दुभि, मादल आदि समस्त अप्रस्तुतों को अंग भाव में आरोपित कर उन्होंने सुन्दर सांग रूपक प्रस्तुत किया है।^{१८४} इस रूपक अलंकार-योजना को अपनाने का एक विशेष कारण था। रूपक की मूल प्रकृति है आरोप-विषय तथा आरोप्यमाण में अभेद स्थापित करना। सिद्धों के तत्त्व दर्शन में हम यह देख चुके हैं कि वे अन्तर तथा बाह्य में अभेद मानते थे और सदैव बाह्य अनुष्ठानों से आन्तरिक साधना की प्रक्रिया तथा आन्तरिक योग से बाह्य अनुष्ठानों को अनुशासित करते थे। पार्थिव तथा अपार्थिव का वही अभेद अलंकारिक शैली में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत का अभेद बन गया था।

इसका एक साम्प्रदायिक कारण भी था। महायान में ही धर्म-प्रचार के लिये 'औपम्य' का विशेष महत्व माना गया था। सद्धर्म-पुरण्डरीक में भगवान् तथागत औपम्य-शैली में अशिक्षितों को उपदेश देने की मन्त्रणा देते हैं क्योंकि औपम्य के द्वारा अशिक्षित भी गूढ़ तात्विक रहस्यों को समझने में समर्थ हो जाते हैं।^{१८५} इसी कारण सद्धर्म-पुरण्डरीक का दूसरा परिवर्त ही 'औपम्य परिवर्त' कहा गया है। यह औपम्य ही वास्तव में प्रमुख अलंकारों की मूल प्रकृति है इसे उस समय के काव्यशास्त्री भी स्वीकार करते थे। रुद्रट ने, (जो ६ वीं शताब्दी में था) अपने निरूपित अलंकारों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया और एक पूरे वर्ग का नाम औपम्य रक्खा। १२ वीं शताब्दी में स्यूयक ने अलंकारों का

सात वर्गों में विभाजन किया और सर्वप्रमुख वर्ग औपम्य-मूलक अलंकारों का बताया।^{८६} इन औपम्यमूलक अलंकारों में, उपमा, रूपक, परिणाम, दृष्टान्त आदि की गणना होती थी।

दोहों में, जो लोक-प्रचार के लिये थे, उपमा का प्रचुर प्रयोग है। उन उपमाओं में अप्रस्तुतों के धर्म की प्रस्तुत के धर्म से समानता प्रदर्शित की गई है। सरहपा अपने एक दोहे में कहते हैं 'हे सखि यह मन तो करभ के समान है जो कि बंधने पर, भार से लदा होने पर इधर उधर भागता है और मुक्त होने पर निश्चल खड़ा हो जाता है।'^{८७} इसी प्रकार अनेक उदाहरण सफल उपमाओं के मिलते हैं।^{८८}

इस दृष्टि से चर्यापद की टीकाओं में प्रात 'उत्प्रेक्षा' शब्द पर विचार कर लेना आवश्यक है। मुनिदत्त ने प्रथम चर्यापद की टीका में ही सन्धाशैली की प्रतीक-योजना की तुलना बहिशास्त्रकारों द्वारा स्वीकृत उत्प्रेक्षा अलंकार से की है।^{८९} मुनिदत्त के समय तक उत्प्रेक्षा अलंकार एक विशिष्ट अलंकार के रूप में स्वीकृत हो चुका था किन्तु पहले 'उत्प्रेक्षा' शब्द शैली की उस प्रवृत्ति के अर्थ में व्यवहृत होता था जिनमें प्रस्तुतों का वर्णन अप्रस्तुतों के व्याज से किया जाय। इसी अर्थ में वाणभट्ट ने दक्षिण के साहित्य में उत्प्रेक्षा की प्रधानता बताई थी।^{९०} इस शैली में अप्रस्तुत-योजना की प्रधानता रहती थी। यही प्रवृत्ति सन्धा शैली की मूल प्रवृत्ति है।

सिद्धों की दूसरी प्रतीक तथा अप्रस्तुत-योजना विरोधमूलक थी। यह शैली उस समय लौकिक काव्यशास्त्र में भी प्रचलित हो रही थी। क्योंकि १२ वीं शताब्दी में रुय्यक ने विरोधमूलक अलंकारों का एक स्वतंत्र **विरोधमूलक** वर्ग बतलाया है जिसमें विरोध, विभावना, असंगति, विषम प्रतीक-योजना आदि का उल्लेख है। इसमें अप्रस्तुतों का तथा धर्मों की विरोधमूलक योजना रहती है। इस अप्रस्तुत योजना ने उलट-वांसी का रूप धारण कर लिया। इस दृष्टि से देण्डणपा की चर्या विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसमें देण्डणपा कहते हैं 'टीले पर मेरा घर है, पर कोई भी पड़ोसी नहीं है। हाड़ी में भात का दाना नहीं पर अतिथि आ रहे हैं। मंडक से सर्प भयभीत है, दुहा हुआ दूध क्या थनों में लौट जायगा? बैल ने प्रसव किया है, गाय बाँभ हो गई है। बैल तीनों समय दूध देता है। जो बुद्धिमान है वही

बुद्धिहीन है। जो चोर है, वही साह है। एक श्रृगाल सिंह से युद्ध करता है। डेरदरणा की यह चर्या विरले ही बृभू सकते हैं।^{१९१}

इसमें ऐसे प्रतीकों को योजित किया गया है जिनके धर्म विरोधी हैं किन्तु सांकेतिक अर्थों में उनकी पूर्ण संगति बैठती है। पड़ोसी का अर्थ यहाँ चन्द्र-सूर्य-रूपी ग्राह्य-ग्राहक भाव है, जिनका अस्तित्व अब नहीं रहा। हाँड़ी का अर्थ साधक की काया है जिसमें भात के अर्थ हैं संवृत्त बोधिचित्त। आमन्त्रित अतिथि स्वतः योगमार्ग में प्रवृत्त साधक है। प्रभास्वर रूपी मेंढक से विज्ञान-शृंखला रूपी सर्प भयभीत है। दुहा हुआ दुग्ध अर्थात् मूलाधार में स्थित बोधिचित्त, पुनः स्तनों में अर्थात् महासुख चक्र में समा जाता है। बलद अर्थात् सन्वृत चित्त संसार का प्रसव करता है, नैरात्मरूप गाय हो जाने पर बांभ हो जाता है। उसका तीनों समय दोहन (निःस्वभावीकरण) किया जा सकता है। जो सविकल्प चित्त का ज्ञानी है वही अज्ञानी है। जो इसी सविकल्प चित्त से विषय सुख का अपहरण करते हैं वे चोर हैं। गुरु के उपदेश से वे ही साधु हो जाते हैं। मरणादि भय से व्याकुल कायर श्रृगाल की भाँति मन ही गुरु उपदेश से ज्ञान लाभ कर शून्यता रूपी सिंह से भी युद्ध करता है। करुणा रूप में शून्यता के समकक्ष हो जाता है। इसमें श्रृगाल में वीरता, बैल में प्रसव, सर्प में मेंढक से भय आदि विरुद्ध धर्मों का आरोप है जिसकी संगति प्रतीकार्थों द्वारा बैठती है।^{१९२}

इन उलटवाँसियों का मुख्य उद्देश्य जनता को चमत्कृत करना और आकर्षित करना प्रतीत होता है। यह भी धर्म-प्रचार का ही एक ढंग था और उसी परम्परा में था जिसमें अन्य सभी शैलीगत तत्व उपाय-कौशल पारमिता के अन्तर्गत धर्म-प्रचार के साधन मान लिये गये थे। यही काव्य-पद्धति परवर्ती नाथ तथा सन्त सम्प्रदायों में भी अपनाई गई जिसके कारण आज भी उनके काव्य को शुद्ध लौकिक काव्यशास्त्र की कसौटी पर कसना कठिन प्रतीत होता है।

ग भाषा और छन्द

दोहों और चर्यापदों की भाषा को लेकर काफी विवाद रहा है और मगध, आसाम, उड़ीसा तथा बंगाल के अधिकांश विद्वानों का आग्रह रहा है कि वे सिद्धों की भाषा को अपनी प्रान्तीय भाषा का आदिरूप सिद्ध करें। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने स्पष्टतः उन्हें पुरानी बंगला का नमूना बताया था¹ और डा० विनयतोष भट्टाचार्य ने भी इसका समर्थन किया था। रायबहादुर आर्तवल्ली महन्ती ने इनकी तुलना उड़िया से कर, इसे पुरानी उड़िया बताया है।² डा० वाणीकान्त ककाती ने आसामी से इसका सम्बन्ध जोड़ा है,³ और डा० काशीप्रसाद जायसवाल तथा श्री राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की भाषा की निकटता मगही और मैथिली से सिद्ध कर उसे पुरानी हिन्दी बताया है।⁴ बाद में राहुल जी ने अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए यह भी कहा है कि अधिकांश पूर्वी भाषाएं इस भाषा को अपना पूर्व रूप कह सकती हैं।⁵

वास्तव में सिद्धों की भाषा का स्वरूप इतना सरल नहीं है कि उस पर इस प्रकार के एकांगी निर्णय दिये जा सकें। इसका सर्वप्रथम कारण यह है कि सिद्धों के दोहों और चर्यापदों तथा उसी परम्परा में आने वाले डाकारणव और साधनमाला की वज्रगीतियों में सभी स्थलों में भाषा का रूप एक सा नहीं है बिना उन भेदों को ध्यान में रखे और उनके कारणों पर विचार किये हम सिद्धों की भाषा के स्वरूप की जटिलता को हृदयंगम नहीं कर सकते।

डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने केवल 'बौद्ध गान ओ दोहा' में ही संकलि

भाषा और छन्द

दोहाकोषों और चर्यापदों में ही दो प्रकार की उपभाषाओं की और संकेत किया है, चर्यापदों की भाषा पूर्वी है जिसे वे पुरानी बंगाली कहते सिद्धों की हैं क्योंकि उसमें बहुत से क्रिया-रूप, शब्द-रूप तथा ऐसे विभिन्न भाषा-मुहाविरें हैं जिसकी परम्परा पुरानी बंगाली में चली आई है। शैलियाँ दोहाकोषों में एक ही भाषा है पश्चिमी (या शौरसेनी) अपभ्रंश, किन्तु पूर्वी भारत में लिखे जाने के कारण उसमें बहुत से पूर्वी रूप और पूर्वी मुहाविरें समाविष्ट हो गये हैं।^६ डाकार्णव के सम्पादक डा० नगेन्द्रनारायण चौधरी डाकार्णव की भाषा को भी शौरसेनी अपभ्रंश पर आधारित मानते हैं, किन्तु कहीं कहीं उस पर पूर्वी बंगाल के शब्दरूपों, उच्चारणों तथा मुहाविरों का प्रभाव मानते हैं।^७ डा० सुकुमार सेन ने साधनमाला तथा हेवज़ की वज्रगीतियों की भाषा को शौरसेनी अपभ्रंश पर आधारित माना है और चर्यापदों से उनकी भाषा को पृथक बताया है।^८ इन समस्त विद्वानों के आधार पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि केवल 'चर्या-चर्य विनिश्चय' को छोड़कर सिद्धों तथा वज्रयानी परम्परा की अधिकांश अपभ्रंश की कृतियों की भाषा शौरसेनी पर आधारित थी, किन्तु उसमें स्थान स्थान पर पूर्वी प्रभाव हैं। चर्यापदों की भाषा चटर्जी के अनुसार पश्चिमी बंगाल की स्थानीय बोली के पूर्वी रूप पर आधारित है किन्तु वह भी शौरसेनी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं है। प्रभावों के इस मिश्रण का क्या कारण था, इस पर हम बाद में विचार करेंगे किन्तु पहले उस समय शौरसेनी अपभ्रंश की परिस्थिति और पूर्वी देशों में उसके व्यवहार पर विचार करना आवश्यक है।

सिद्धों के साहित्य का रचना-काल हमने ६वीं से १३वीं शती तक निश्चित किया है। इनमें से सरहपा के दोहाकोषों की प्राचीनतम उपलब्ध प्रति ११०१ ई० की मिली है और तिल्लोपा के दोहों का प्रतिलिपि काल १३वीं शती का है। 'चर्याचर्यविनिश्चय' की प्रतिलिपि अपेक्षाकृत और भी नवीन है। इससे स्पष्ट है कि इनमें से कुछ अपने मूल रूप में मध्यकालीन भारतीय-आर्यभाषा-काल तथा आधुनिक भारतीय-आर्यभाषा-काल की सन्धिबेला की रचनाएँ हैं। उस समय की शौरसेनी अपभ्रंश तथा स्थानीय बोलियों की पृष्ठभूमि में सिद्धों की भाषा का स्वरूप निर्धारित करना बहुत कठिन नहीं है।

डा० तोमर ने अपभ्रंश भाषा के विषय में संस्कृत के साहित्य शास्त्रियों के:

मतों का परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला है कि भरत के समय तक अपभ्रंश का कोई निश्चित रूप नहीं था। किन्तु छठवीं शती में भामह भाषा सम्बन्धी और दंडी के समय तक अपभ्रंश में काव्य रचना होने लगी परिस्थिति थी, राजशेखर (८८०-९२० ई०) के समय तक अपभ्रंश काव्य राजद्वारों और विद्वन्मंडलियों में सम्मान पाने लगा था।^{१८} अपभ्रंश के किस रूप (या किन रूपों) का प्रयोग साहित्य में होता था इसके विषय में कुछ मतभेद अवश्य है किन्तु पश्चिमी वर्ग के अधिकांश वैयाकरणों ने साहित्य में प्रयुक्त अपभ्रंश का आधार शौरसेनी ही माना है और यह अनुमान किया जा सकता है कि शौरसेनी अपभ्रंश ही काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी।^{१९} डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का भी यही मत है कि ६वीं से १३वीं शती तक पूर्वी भारत में यह पश्चिमी अपभ्रंश काव्यभाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी जिसमें दोहों अथवा वज्रगीतियों की रचना हुई है। वे इसका ऐतिहासिक कारण राजपूतों का राजनीतिक प्रभुत्व बताते हुए यह कहते हैं कि उनके दरबारों में शौरसेनी भाषा और शौरसेनी काव्य को प्रश्रय मिला हुआ था और उनके चारणों की काव्य-भाषा भी यही थी, अतः गुजरात से लेकर बंगाल तक समस्त आर्यभाषा-भाषी प्रदेशों में शौरसेनी अपभ्रंश ही काव्यभाषा के रूप में मान्य हुई। किन्तु आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का भी स्वरूप उस समय गठित हो रहा था। कुछ समय तक तो पुरानी शौरसेनी अपभ्रंश ही काव्य-भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही और विभिन्न प्रदेशों की बोलियाँ कभी-कभी उस प्रदेश में रचे जाने वाले साहित्य को प्रभावित करती रहीं, बाद में वे बोलियाँ स्वतन्त्र काव्य-भाषाओं के रूप में प्रयुक्त होने लगीं।^{१९} बाद में अक्सर ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि एक ही कवि नई काव्य-भाषा में भी रचना करता है और पुरानी अपभ्रंश में भी अपना काव्य-चमत्कार दिखाने का प्रयास करता है जैसे विद्यापति।

अब प्रश्न यह उठता है कि एक ही सिद्ध की रचनाओं में दो भाषा-रूपों का प्रयोग क्यों हुआ है। इसके विषय में कई अनुमान किये जा सकते हैं। पहला अनुमान तो यही होता है कि दोहाकोषों की पुरानी भेद का कारण प्रति उपलब्ध है जब कि चर्यापद जिस रूप में मिले हैं वह काफी नया रूप है और गेय होने के कारण सम्भवतः उसपर स्थानीय प्रभाव इतना अधिक पड़ा है कि उसकी भाषा का रूप दोहाकोषों की

भाषा और छन्द

भाषा से कहीं अधिक विकसित हो गया है। यह अनुमान इस कारण और भी दृढ़ होता है कि राहुल जी ने नेपाल के मठों में गाये जाने वाले चर्यापदों में से जालन्धरीपा का एक चर्यापद ढूँढा है जिसका रूप बहुत बिगड़ गया है, भाषा बहुत विकृत है किन्तु फिर भी उस पर पुरानी अपभ्रंश का प्रभाव बहुत स्पष्ट है।^{१२} चर्यापदों में स्थान स्थान पर उपलब्ध पश्चिमी प्रभावों के कारण यह अनुमान किया जा सकता है कि इन सिद्धों की समस्त रचनाएँ शौरसेनी अपभ्रंश में हुई थीं और गेय होने के कारण चर्यापदों की भाषा बदलती गई। कई शक्ति । वाः लिपिवद्ध होने के कारण उनकी भाषा का मूलरूप वही नहीं माना जा सकता जो इस समय उपलब्ध है। अपने मूलरूप में उनमें पश्चिमी तथा पूर्वी प्रभाव किस अनुपात में थे यह कह सकना कठिन है।

किन्तु पूर्वीय वर्ग के वैयाकरणों में से क्रमदीश्वर ने एक बड़े महत्वपूर्ण नियम का उल्लेख किया है जिससे चर्यापदों और दोहों के भाषाभेद पर एक नया प्रकाश पड़ता है। क्रमदीश्वर ने, जिसका समय १२वीं शती के लगभग था छन्दों और काव्यरूपों के आधार पर अपभ्रंश के भेदों की बड़ी मनोरंजक व्याख्या की है।^{१३} उसने ब्राह्मण को रेफ युक्त बताया है, और उसमें दोहा आदि की रचना का प्रचलन बताया है, रासकादि में नागर का प्रयोग बताया है और प्राकृत-मिश्रित गाथादि में उपनागर के प्रयोग का उल्लेख किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि कुछ विशेष काव्यरूपों के साथ अपभ्रंश के विशेष रूपों का सम्बन्ध रूढ़ हो गया था। क्रमदीश्वर पूर्वीय वर्ग का था अतः सिद्धों के विषय में उसकी साक्षी को आधार बनाना अधिक उपयुक्त है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि दोहों की परम्परा पश्चिमी (शौरसेनी) परम्परा थी और दोहे लिखते समय सिद्धों ने पश्चिमी या शौरसेनी अपभ्रंश का प्रयोग किया क्योंकि वह भाषा दोहों में मँज चुकी थी, किन्तु जब उन्होंने गेय पद लिखे तो स्थानीय बोली को आधार बनाया। किन्तु चूँकि वह बोली अभी काव्य में मँजी नहीं थी अतः स्थान स्थान पर उन्होंने अभिव्यक्ति और दृष्ट्यप्रतिष्कार के लिये शौरसेनी का सहारा लिया। डा० चटर्जी का भी मुक्ताव इसी और है। वे चर्यापदों की भाषा पर शौरसेनी प्रभाव के दो कारण और बताते हैं। पहला तो यह कि चर्यापदों की भाषा मागधी अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी है किन्तु मागधी क्षेत्रों पर भी शौरसेनी अपना प्रभाव डालती रही है। दूसरा यह कि चर्यापदों को नेपाल के

उस प्रदेश में लिपिबद्ध किया गया जहाँ मैथिली का विशेष प्रभाव था और मध्यदेशीय प्रभाव की भी कमी नहीं थी। आसामी भाषा के प्रारम्भिक रूप में भी कई ऐसे मध्यदेशीय प्रभाव पाये जाते हैं जो उसे बंगाली के पूर्वरूप से अलग करते हैं।^{१०} अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि न केवल राजनीतिक वरन शैव सांस्कृतिक आधिपत्य के कारण आसाम तक शौरसेनी का बहुत व्यापक प्रभाव था जिसमें दोहा-साहित्य की पूर्वागत परम्परा थी। अतः सिद्धों ने दोहा लिखते समय पश्चिमी अपभ्रंश का प्रयोग किया किन्तु पद लिखते समय पूर्वी बोलियों को आधार बनाया।

किन्तु यदि सिद्ध-परम्परा का प्रारम्भ हम ६वीं शती में मानें तो यह प्रश्न उठता है कि उस समय स्थानीय बोलियों का रूप इतना विकसित हुआ था या नहीं कि उनमें साहित्य लिखा जा सके। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि सम्भवतः सरहपा आदि सिद्धों ने जब चर्यापदों की रचना की होगी तो उसका आधार पूर्वी अपभ्रंश होते हुए भी उसका रूप वह नहीं रहा होगा जो 'चर्याचर्यविनिश्चय' में मिलता है। इसी कारण हम इस अनुमान को भी बिल्कुल निराधार नहीं कह सकते कि गेय होने के कारण इनकी भाषा में नवीन प्रभाव आते गये हैं और यदि राखालदास बनर्जी के मतानुसार इनकी भाषा १४वीं शती की मानी जाय तो इनकी भाषा की शुद्धता और भी संदिग्ध सिद्ध होती है।

इस प्रकार काल और देश की दृष्टि से सिद्धों की भाषा पर विहंगम दृष्टि डाल लेने के उपरान्त अब यह विचार कर लेना आवश्यक है कि सिद्धों की भाषा का आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं से दोहों की भाषा क्या सम्बन्ध है। क्या उनकी भाषा को आधुनिक मगही, और आधुनिक मैथिली, बंगाली, उड़िया या आसामी की जननी कहा पूर्वी भाषाएँ जा सकता है। इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मत इस प्रकार हैं :

(क) डा० ककाती ने दोहाकोष की भाषा के कुछ शब्दरूप और व्याकरणरूप ऐसे ढूँढे हैं जो आसामी में अब भी पाये जाते हैं, कुछ ध्वनिगत विशेषताएँ, कुछ विभक्ति रूप, कुछ परसर्ग आसामी में अब भी मिलते हैं जो बंगाली या अन्य पूर्वीय भाषाओं में नहीं मिलते।^{१५}

भाषा और छन्द

(ख) डा० चटर्जी ने सरहपा के दोहाकोप में 'कट्टिउ रव' जैसे कई मुहावरों अच्छ, थक्क आदि धातुओं, जव्वे तव्वे आदि क्रिया विशेषणों तथा इसी प्रकार के अन्य शब्दों के प्रयोग की ओर संकेत करते हुए दोहाकोप की भाषा में बंगाली तत्वों का अस्तित्व माना है।^{१६}

(ग) किन्तु इस विषय में डा० शाहिदुल्ला की पुस्तक की भूमिका लिखते समय जूल ब्लाख ने स्पष्ट लिख दिया है कि पूर्वीय पांडुलिपियों में उपलब्ध होने या कुछ पूर्वीय प्रभाव मिलने के कारण इसे पूर्वीय कहा जा सकता है किन्तु इसे पूर्वी आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का उद्गम आधार नहीं माना जा सकता।^{१७}

किन्तु चर्यापदों की भाषा में स्थानीय पूर्वी आधुनिक-आर्य-भाषाओं के रूप बहुत उभर आए हैं। डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का विचार है कि नव-विकसित बंगाली भाषा का काव्यभाषा के रूप में प्रयोग करने का यह सर्वप्रथम प्रयास होने के कारण अभी इस भाषा की अपनी कोई काव्यपरम्परा नहीं है अतः इसे काव्योचित बनाने के लिये कवियों ने शौरसेनी अपभ्रंश का भी सहारा लिया है जो कई शताब्दियों से काव्यभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है।^{१८} उनका यह भी विचार है कि चर्यापदों की भाषा का गठन पश्चिमी बंगाल की तत्कालीन बोली के आधार पर हुआ है क्योंकि उसके बहुत से रूप उसमें उपलब्ध होते हैं।

दूसरी ओर उड़ीसा के रायबहादुर आर्तवल्लभ महन्ती का विचार है कि चर्यापदों की भाषा उड़िया का प्राचीन रूप है और चर्यापदों के कई वाक्यांशों का आधुनिक उड़िया रूपान्तर देकर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि लगभग १००० वर्ष बाद भी वे उसी प्रकार बोले जाते हैं।^{१९} उनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

चर्यापद

आधुनिक उड़िया

नगर बाहिर रे डोम्बि तोहोरि कुडिया नगर बाहार रे डोम्बि तोहोरि कुडिआ
छोइ छोइ जाइ सो बाह्मण नाडिआ छुई छुई जाय से बाह्मण नाडिका
आलो डोम्बि तो सम करिब म संग आली डोम्बि तो सम करिवि म संग

जाम मरण भव कइसन होइ
जीवन्ते मले नाहि विसेस

जन्म मरण भव कैसन होइ
जीवन्ते मले नाहि विशेष

यद्यपि केवल कुछ वाक्यांशों की समानता सिद्ध कर देना ही इस बात का यथेष्ट प्रमाण नहीं है कि इनकी भाषा उड़िया है। जब तक इस दिशा में पूर्ण प्रमाणों सहित कोई मत नहीं आता तब तक उसे स्वीकार करना कठिन है, किन्तु यह सम्भावना सर्वथा उपेक्षणीय भी नहीं है। एक बात अवश्य है कि इसमें अधिकांश उदाहरण काण्हापा के हैं और वे कर्णाटक देश वासी होने के कारण बंगाल की अपेक्षा उड़ीसा की भाषा से अधिक परिचित रहे हो, यह अनुमान किया जा सकता है।

अब अन्तिम प्रश्न आता है कि क्या इन सिद्धों की भाषा को पुरानी हिन्दी कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में सबसे प्रबल आग्रह श्री राहुल सांकु-है।^{२०} किन्तु अपने त्यायन का है जिन्होंने इसको हिन्दी की पुरानी सम्पत्ति माना मत का प्रतिपादन करने में उन्होंने यथेष्ट वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं।

सर्वप्रथम उन्होंने चर्यापदों की भाषा की पूर्वी प्रकृति और दोहा-पुरानी हिन्दी कोषों की भाषा की पश्चिमी प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया है। और दोहाकोष पुनश्च इन दोहाकोषों की भाषा एवम् स्वयम्भू की भाषा में केवल शैलीगत अन्तर है या मूल ढाँचा अलग है तथा पूर्वी हिन्दी का मूल रूप इन दोनों में से किसकी भाषा में प्रतिभासित होता है इस पर भी कोई विचार नहीं किया गया है। ग्रियर्सन ने अवधी के उद्भव के लिए अर्ध-मागधी अपभ्रंश की कल्पना की थी, यद्यपि डा० बाबूराम सक्सेना का मत है कि जैन अर्धमागधी से अवधी का उद्भव नहीं सिद्ध होता।

डा० तगारे ने अपभ्रंश को ३ भौगोलिक वर्गों में विभाजित करते हुये पश्चिमी तथा दक्षिणी से पृथक काण्हापा तथा सरहपा के दोहों की भाषा को पूर्वी वर्ग का माना है।^{२१} किन्तु दोहों की भाषा को शौरसेनी से पूर्णतया पृथक मानने के पक्ष में न जूल ब्लाख हैं और न डा० सुनीतिकुमार चटर्जी। अपने तुलनात्मक अध्ययन में अधिकांश स्थलों पर डा० तगारे ने पूर्वी और पश्चिमी दोहों की समानता ही दिखाई है, उनका अंतर उन्हीं पूर्वी प्रभावों के कारण है जिसे लगभग सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से दोहाकोषों की भाषा

भाषा और छन्द

अवधी की जननी हो या न हो किन्तु पूर्वी प्रभावां और पश्चिमी मूल ढाँच के कारण वह पूर्वी हिन्दी के निकट अवश्य मानी जायगी।

अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि के कुछ तद्भव शब्दों के पुराने रूप और चर्यापदों तथा दोहों में उनके प्रयोग पर राहुल जी ने हिन्दी-काव्यधारा के परिशिष्ट में विचार किया है तथा डा० शाहिदुल्ला ने अपनी पुस्तक की भूमिका में दोहों के व्याकरण पर विस्तृत विचार किया है, अतः उसके विस्तार में न जाकर हम दोहाकोष और चर्यापदों के छन्दों पर विचार करेंगे। भाषा की दृष्टि से ही नहीं वरन छन्दों की दृष्टि से भी दोहाकोष और चर्यापद दो पृथक शैलियों का अनुसरण करते प्रतीत होते हैं।

दोहाकोष का मुख्य छन्द दोहा है। विभिन्न सम्प्रदायों में धर्मप्रचार का साहित्य दोहों में लिखा जाता रहा है जैसा कि बौद्ध और जैन दोहों से ज्ञात होता है। स्वतः सरहपा ने दोहा छन्द की महिमा की ओर दोहाकोष के संकेत किया है। 'एउ एउ दोहाच्छन्दे कहवि ए किम्पि छन्द गोप्प'।^{२२} प्राकृत अपभ्रंश साहित्य में दोहा छन्द की परम्परा सम्भवतः सबसे प्राचीन और सबसे अधिक व्यापक है। सबसे प्राचीन प्राकृत दोहा विक्रमोर्वशीय के चतुर्थ अंक में मिलता है और यदि इसे कालिदास की रचना न मानकर प्रक्षिप्त मानें तो भी वह सरलता से षवीं शती तक माना जा सकता है। दसवीं और ग्यारहवीं शती में यह बहुत प्रचलित छन्द हो गया था किन्तु उस समय भी यह पश्चिमी अपभ्रंश की कृतियों में ही प्राप्त होता है। बौद्ध अनुश्रुतियों में भी यही उल्लेख मिलता है कि सरहपा ने अपनी दोहा^{२३} वज्रगीतियों की रचना महाराष्ट्र में महामुद्रा साधना के बाद की थी जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि उन्होंने यह परम्परा पश्चिमी प्रदेशों से ग्रहण की होगी। बारहवीं शती में हेमचन्द्र ने 'छन्दोनुशासन' में एक संस्कृत दोहे का भी उद्धरण देकर यह बताया है कि यह छन्द कभी कभी संस्कृत में भी व्यवहृत होता था। दोहे का छन्द-रूप सम्भवतः १४ वीं शती में स्थिर हुआ जब 'प्राकृत पैंगलम्' में १३, ११ मात्राओं का क्रम निर्देशित हुआ और लघु गुरु अक्षरों के आधार पर उसके २३ भेद बताये गये। जिस समय सिद्धों ने दोहा छन्द अपनाया उस समय उसका स्वरूप स्थिर नहीं हुआ था। बौद्ध परम्परा में कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि दोहों की गेयता भी सिद्ध होती है। ऐसे दोहों को 'वज्रगीति' कहते थे। साधन-

माला में बुद्धकपाल की साधना में हमें ४ दोहों की एक वज्रगीति प्राप्त होती है।^{२४} हेवज्रतन्त्र में भी दो वज्रगीतियाँ प्राप्त होती हैं जिनमें से प्रथम ४ दोहों की है और द्वितीय ५ दोहों की। दूसरी वज्रगीति को 'महासमय गीतिका' कहा गया है और उसके ५ दोहे ध्यानी बुद्धों की ५ भार्याओं के प्रति हैं। इन सभी गीतिकाओं को वज्रयानी साधनाओं के समय गाने और कभी कभी उन पर नृत्य करने का भी विधान मिलता है।^{२५} किन्तु वज्रगीतियों से पृथक्, दोहाकोषों की गेयता का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

डा० सुकुमार सेन ने वज्रगीतियों की छन्द-योजना १३ + १२ मात्राओं की बताई है। किन्तु इसकी अनियमितताओं की ओर उन्होंने संकेत नहीं किया है। उदाहरण के लिये यदि हम हेवज्रतन्त्र की वज्रगीति का छन्द विश्लेषण करें तो प्रथम दो दोहों के तीन दल १३ + १२ मात्राओं के हैं।

उठ्ठ भराणो करणमन् । तपुक्खसि महुँ परिताहिं ॥
महासुह जोए काम महुँ । इच्छ तहि सुण्ण समाहिं ॥
तोम्हा विहुणे भरमि हउं । उट्ठेहि तुहुँ हेवज्ज ॥

किन्तु चौथी पंक्ति केवल २२ मात्राओं की है :

छड्ढहि सुण्ण सहावता । सवरि सिम्भउ कज्ज ॥

वस्तुतः अपभ्रंश काव्य प्रधानतया गेय परम्परा का काव्य है अतएव उसमें सुनिश्चित मात्रा गणना के स्थान पर गेयता के अनुकूल शब्द-योजना मिलती है। बहुत से साहित्यक छंदों का गेय रूप व्यवहृत होता था जो छंद विशेष की 'देशी' कहलाता है। उद्धृत पंक्तियाँ इस प्रकार दोहे की 'देशी' कही जा सकती हैं। गेयता अथवा पाठ अशुद्धि के कारण यह अनियमितताएँ हैं या इनका और कोई कारण है इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। केवल अनुमान ही किये जा सकते हैं। इन्हीं अनुमानों के आधार पर डा० सेन के मत का हम तिरस्कार भी नहीं कर सकते, क्योंकि १३ + १२ मात्राओं के दोहे की भी परम्परा चली आ रही थी। यह हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन से ज्ञात होता है। उन्होंने उपदोहक के लक्षण में १३ + १२ के क्रम का निर्देशन किया है यद्यपि जो उदाहरण दिया है वह १३ + ११ मात्रा का ही है। दोहक में १४ + १२ मात्राएँ रहती थीं। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि तीनों प्रकार के दोहों की परम्पराएँ पहले से चली आ रही थीं और १४वीं शती में 'प्राकृत पैंगलम्' में

भाषा और छन्द

केवल १३ + ११ के क्रम को मान्यता दी गई और अन्य दोनों रूप मुला दिये गये ।^{२७}

कुरुकुल्ला की एक साधना में एक दोहा देकर यह कहा गया है कि 'इमम् गाथां च स्मरेत्' यहाँ पर का गाथा से गाथा छन्द का अर्थ न लेकर उससे दोहे का ही अर्थ लिया जाना चाहिये । वैसे तो कुछ विद्वानों का यह भी अनुमान है कि घत्ता (दोहा) गाथा का ही रूपान्तर है किन्तु वैसे भी गाथा शब्द किसी भी छन्द के लिये प्रयुक्त किया जाता था । यहाँ पर जिस छन्द के लिये गाथा कहा गया है वह वास्तव में दोहा ही है और उसमें अन्त में एक लघु के साथ १३ + ११ की मात्रा योजना है :

आइ ए अन्त ए मञ्जु एउ । एउ भव एउ शिष्वाए ॥

एहु सो परम महासुह । एउ पर एउ अप्पारा ॥

साधनमाला में सम्भवतः पाठ की अशुद्धि के कारण प्रथम चरण में एक मात्रा कम और तृतीय चरण में एक मात्रा अधिक मिलती है, किन्तु इसी दोहे का शुद्ध रूप सरह के दोहाकोष में मिलता है जिसको यहाँ उद्धृत किया गया है ।^{२८} गाथा के कुछ अन्य उदाहरण डा० शाहिदुल्ला ने दिये हैं । इसके अतिरिक्त सोरटे भी कई स्थानों पर मिलते हैं । सोरटे में दोहे की उल्टी मात्रिक योजना होती है अर्थात् ११ + १३

सोरठा खेतु पीठ उपपीठ । एत्थु भमइ परिट्टुओ

देहा सरसिअ तित्थ । मइ सुह अरण ए दिट्टुओ ।

दोहे के परिवार के अन्य छन्द उल्लाला, द्विपदी, महानुभाव तथा मरहट्टा मिलते हैं जिनका विश्लेषण डा० शाहिदुल्ला ने विस्तारपूर्वक किया है, जिनके उदाहरण निम्नांकित हैं :

उल्लाला (१५ + १३) (३ + ४, ३ + ६, ४, ३) प्राकृत पैंगलम् के अनुसार उल्लाला का उदाहरण डा० शाहिदुल्ला ने सरइपा के दोहाकोष में से दिया है :

‘दुक्ख दिवाअर अत्थ बिजाइ उट्टइ तरावह सुक्क’,^{३०}

किन्तु वागची ने इसका संशोधित पाठ इस प्रकार दिया है :

‘दुक्ख दिवाअर अत्थ गउ ऊवह तरावह सुक्क’ जिसके अनुसार वह भी १३ + ११ मात्रा का दोहा सिद्ध होता है ।

द्विपदी (६ + २० + २)

भवइ काएह । दुल्लख्ख दुखवाह को मरणे परिभा ॥ वइ ॥^{३१}

महानुभाव (१२ + १२)

एत्थु से सुरसरि जमुणा । एत्थु से गंगगा साअरु ॥

एत्थ पत्राग वणारसि । एत्थु से चन्द दिवाअरु ॥^{३२}

मरहट्टा (६,५ + ४, ५१)

वरवइ खज्जइ सहउँ रज्जइ किज्जइ राअ विराअ

णिअ पास वइट्टी चित्ते भट्टी जोइणि महु पडिहाइ ॥^{३३}

इन दोहों के बीच में १६ मात्राओं के समचतुष्पदी छन्द प्रयुक्त हुए हैं । समचतुष्पदी छन्द दोहों के या गाथा आदि के साथ समस्त अपभ्रंश साहित्य में व्यवहृत होते थे । इसके १० भेदों और परवर्ती चारण साहित्य में उनके प्रचुर प्रयोग का उल्लेख डा० तोमर ने अपने अमुद्रित प्रबन्ध में किया है ।^{३४} डा० शाहिदुल्ला ने इनमें से पादाकुलक और अडिल्ला के उदाहरण दोहाकोषों में से दिये हैं ।

पादाकुलक (४ + ४ + ४ + ४)

एक्कु ण किज्जइ तन्त ण मन्त

णिअ धरिणी लइ केलि करन्त

णिअ धरें धरिणी जाव ण मज्जइ

ताव कि पाँच वरण विहरिज्जइ ।^{३५}

अडिल्ला (अन्त में ॥)

परिणडअ सअल सत्थ बक्खाणइ

देहहि बुद्ध वसन्त ण जाणइ

इन्हीं चतुष्पदियों से हिन्दी चौपाई का विकास माना जाता है ।

अपभ्रंश साहित्य में कड़वक का रूप सर्वप्रचलित था । हैमचन्द्र ने चार पद्धतियों के साथ एक धत्ता की योजना से कड़वक का पूरा होना बताया है । कड़वकों के समूह को सन्धि कहते थे । इस दृष्टि से सिद्धों के दोहाकोषों में कोई भी सर्वप्रचलित नियम नहीं मिलता । तिलोपा के दोहाकोष में एक कड़वक में समचतुष्पदियों के १२ चरण हैं और तब एक दोहा है, दूसरे कड़वक में चार ही चरण हैं और तीसरे में ४२ चरणों के उपरान्त एक दोहा आता है । इसी प्रकार सरहवा और काएहपा में भी इस विषय में किसी निश्चित नियम का पालन नहीं मिलता ।

भाषा और छन्द

चर्यापदों के छन्द भी मात्रिक हैं जिनमें 'पादाकुलक' की ही प्रधानता है। डा० सुनीतिकुमार का मत है कि भाषा की दृष्टि से पूर्वी प्रभाव होते हुए भी बंगाल तथा पूर्वी मगध का लोक प्रचलित छन्द 'पयार' चर्यापदों के छन्द (१५ मात्रा) इन चर्यापदों में नहीं प्रयुक्त हुआ है जिससे यह आभासित होता है कि या तो पयार का उस समय विकास ही नहीं हुआ था, या वह केवल लोकगीतों में प्रयुक्त होता था किन्तु सिद्धों ने पूर्वागत अपभ्रंश छन्द परम्परा का निर्वाह करते हुए उसे ग्रहण नहीं किया था।^{३६} कुछ विद्वानों का मत यह है कि पादाकुलक से ही 'पयार' छन्द विकसित हुआ। डा० सुकुमार सेन का भी यही मत है कि चर्यापदों के छन्दों से ही बंगाली छन्द पयार और त्रिपदी विकसित हुए हैं।^{३७}

पादाकुलक

जो मण ॥ गोअर ॥ अःला ॥ जाला ॥

आगम ॥ पोथी ॥ इघा ॥ माला ॥ (चर्यापद ४०)

लगभग १० चर्यापदों में २८ मात्राओं की छन्द योजना है :

रउतु भणइ कत ॥ सुसक भणइ कत ॥ सअला अइस सहावा ॥
(२८ मात्रा)

अइस सहावें ॥ जइ जग वृभति ॥ तुरइ वासना तोरा ॥

(२८ मात्रा) (पद ४१)।

सअरु सभ्वैअण ॥ सरुअरु निअरें ॥ अलक्ख लक्ख ए जा इ ॥

(८ + ८ + १० + १) पद १५ ।

इसी प्रकार के छन्दों को डा० सेन बंगाली त्रिपदी (८ + ८ + १०) का पूर्व रूप बताते हैं ।

कुछ पदों में प्रारम्भिक दो पंक्तियों के बाद टेक की पंक्ति दी गई है, जैसे पद १६ और ३६ । यह परम्परा बाद में जयदेव, चंडीदास, विद्यापति के पदों में और भी विकसित हुई ।

इन पदों की गेयता के सम्बन्ध में डा० वेलंकर का मत अत्यन्त महत्वपूर्ण है । उनका विचार है कि संस्कृत वर्णवृत्तों से अपभ्रंश के इन मात्रावृत्तों का मुख्य अंतर यही है कि इनके मूल में एक नये प्रकार का संगीत है जिसे वे ताल-वृत्त तथा ताल-संगीत का नाम देते हैं और उसका उद्भव लोकजीवन से मानते हैं । आगे चल कर हम देखेंगे कि संगीत के ग्रन्थों में भी इस समय देशी संगीत को

मान्यता दी गई है। डा० वेलंकर का मत है कि पहले ये छन्द गेय थे और ताल वृत्तों पर आधारित थे किन्तु जब सामान्य लोगों के बजाय शास्त्रीय अभिरुचि वाले विद्वानों ने इन छन्दों को अपनाया तो उन्हें ह्रस्व और दीर्घ मात्रावृत्तों में बाँध दिया जो कि लोक-साधारण के लिये सम्भव नहीं था क्योंकि लोक-साधारण उच्चारण के नियमों का अनुशासन इस सीमा तक नहीं मान सकते हैं।^{3७}

पदों का प्रमुख छन्द पादाकुलक ही क्यों है इसके विषय में भी डा० वेलंकर का अनुमान है कि चतुष्पदियों का पूरा कड़वक गाया जाता था और घत्ता (विश्राम) या दोहे पर गायक रुक जाता था और दोहे को वह लययुक्त शैली में बिना गाये हुये बोलता था। यह दोहा और चौपाई की शैली लम्बे वर्णनात्मक काव्यों में प्रयुक्त होती थी। बाद में उन्हीं पादाकुलकों को रागों में बाँधकर पद गाये जाने लगे। किन्तु दोहे भी वज्रगीति के रूप में गेय थे इसकी ओर हम पहले ही संकेत कर चुके हैं।

सम्भवतः चर्यापदों में से प्रत्येक पद के साथ उसके राग का नाम दिया है जो उनके तिब्बती रूपान्तरों के साथ भी मिलता है। ये राग संख्या में कुल १८ हैं, अरु, कामोद, गउड़ा, गुंजरी, गुज्जरी, देशाख, चर्यापदों के देवक्री, धनसी, पटमंजरी, बंगाल-भैरवी, मल्लारी, मालशी राग (श्री ?), मालशी गबूड़ा, रामक्री, बलाड्डि, बराडी, शबरी।

भारतीय संगीत के विकास से सम्बन्धित सामग्री इतनी कम है कि इन रागों के तत्कालीन रूप के विषय में हमें कुछ सूचनाएँ नहीं मिलती हैं। संगीत-रत्नाकर (१२१० ई० के लगभग) संगीत-शास्त्र का पुराना प्रामाणिक ग्रन्थ है। उसके द्वितीय अध्याय 'राग विवेक' में हमें इनमें से कामोद, बंगाल, बराटी, गुज्जरी आदि कुछ रागों का उल्लेख मिलता है। चतुर कल्लिनाथ की टीका से यह भी आभास मिलता है कि ये राग वास्तव में विभिन्न प्रान्तों और जातियों में प्रचलित थे।^{3८} किन्तु सिद्धों ने इन्हें लोकजीवन से लिया था इसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। संगीत-रत्नाकर से भी अधिक पुराना एक ग्रन्थ नारद का संगीत-मकरन्द मिलता है। उसमें चर्यापदों में उल्लिखित बहुत से रागों का नाम है—धनखी (धन्नाखी), गुंजरी, बंगाल, पटमंजरी, भैरवी, मल्हार (मल्लारी)। इन रागों को प्रातःकाल गाने का विधान है। शबरी

भाषा और छन्द

(सावेरी ?) मध्यान्ह में गायी जाती थी। इसी प्रकार रामक्री (रामकृती) गौड़, बराटी, देवक्री (देवक्रिया), घनाश्री, कामोद आदि का विभाजन स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक रागों में भी किया गया है।^{३९} यदि यह ग्रन्थ संगीत-रत्नकर से भी पुराना है, जैसा इसके तथा संगीत-रत्नाकर दोनों के सम्पादक श्री तेलंग का विचार है तो यह निस्सन्देह सिद्धों के समय में ही लिखा गया है और इसे प्रामाणिक मानकर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सिद्धों के पदों के राग शास्त्रीय पद्धति से पृथक नहीं थे।

किन्तु इस और संकेत कर देना भी आवश्यक है कि भारतीय संगीत की जो परम्परा आज उत्तर-भारत में प्रचलित है, शास्त्रीय पद्धति में उसका संगठन प्राकृत-अपभ्रंश-काल में ही हुआ है और विभिन्न जातियों और प्रान्तों के लोक-संगीत को अपना कर उन्हें स्वरग्रामों के एक नियम में आवद्ध कर दिया गया है। पूर्वागत वैदिक संगीत-पद्धति को मार्ग या गन्धर्व प्रणाली का नाम देकर उसे देवोचित संगीत कह कर नये मानवोचित देशी संगीत को प्रमुखता दी गई। उसका 'देशी' नाम संगीतशास्त्र के सभी ग्रन्थों में मिलता है।^{४०} इस प्रकार उपलब्ध सामग्री के आधार पर हम अधिक से अधिक यही कह सकते हैं कि सिद्धों के इन पदों के राग मूलतया लोक-संगीत से लिये गये थे किन्तु उस समय तक शास्त्रीय-पद्धति में स्वीकृत होकर नियमानुशासित हो गये थे। किन्तु दक्षिणी और उत्तरी संगीत-पद्धति की भाँति उस समय कोई पृथक पूर्वी या पश्चिमी संगीत-पद्धति थी या नहीं इसके विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है।



पंचम अध्याय
परवर्ती प्रभाव

क
सिद्धों की
साम्प्रदायिक स्थिति

सिद्ध साहित्य के परवर्ती प्रभाव की प्रकृति का तटस्थ मूल्यांकन करने के लिये यह पुनः स्मरण कर लेना आवश्यक है कि सिद्धों की चिन्तना में अधिकांश तत्व ऐसे हैं जो लगभग उस समय की सभी तान्त्रिक पद्धतियों साम्प्रदायिक में पाये जाते हैं। अक्सर तान्त्रिक पद्धतियों के मूल ढाँचे की स्थिति इस व्यापक एकता को जाने बिना इस प्रकार के निर्याय दिये जाते रहे हैं कि अमुक तत्व अमुक सम्प्रदाय की देन है, जब कि वही तत्व लगभग उसी रूप में दूसरे समकालीन सम्प्रदायों में पाया जाता रहा है। उदाहरण के लिये यह कहना कि जाति-पाँति का खंडन बौद्धों ने किया, चूँकि वे हिन्दू नहीं थे यह भ्रमात्मक है। यह प्रवृत्ति उस समय तान्त्रिक प्रभाव से सर्वव्यापक थी।^१ यही नहीं, वाह्य अनुष्ठानों के प्रति सिद्धों की जो तीव्र आलोचना मिलती है, वह भी उस समय की व्यापक प्रवृत्ति थी। तन्त्रों में साधना की उच्चतम अवस्था में पहुँच कर अनुष्ठानों और वाह्याचारों का निषेध किया जाता था।^२ इसके साथ ही साथ अपने से इतर सम्प्रदायों के वाह्याचारों का तीव्र खंडन भी प्रचलित था।^३

अपने साहित्य के आधार पर इनकी साम्प्रदायिक स्थिति इस प्रकार प्रतीत होती है :—

(क) वे तान्त्रिक बौद्ध थे ।

(ख) बौद्ध होने के नाते वे अन्य सम्प्रदायों की कटु आलोचना करते थे किन्तु बौद्ध परम्परा (विशेषतः योगाचार) में अपनी जड़ें गहरी से गहरी जमाये रखने का विशेष प्रयास करते थे ।^५ इस नाते वे प्रत्येक नई साधना की बौद्ध व्याख्या ढूँढ़ निकालते थे ।

(ग) तान्त्रिक होने के नाते वे उन बौद्ध सम्प्रदायों की भी आलोचना करते थे जो तान्त्रिक नहीं थे ।

(घ) सहज-पद्धति के विशेष उन्नायक होने के नाते वे तन्त्रों में भी तान्त्रिक अनुष्ठान आदि को आदि-कर्म के रूप में स्वीकार करते थे पर उच्चतर साधना के उपरान्त उन्हें अनावश्यक मानते थे ।^५

तारानाथ की कथाओं में हमें बराबर इस बात का उल्लेख मिलता है कि उस समय कितनी गहरी साम्प्रदायिक प्रतिद्वंद्विता थी और इसके लिये बौद्ध विद्वान् वेदादि ग्रन्थों का गहरा अध्ययन कर अपने प्रति-बौद्धेतर पक्षियों का खंडन करते थे । ये सिद्ध कबीर की भाँति 'मसि सम्प्रदायों का कागद छूओ नहि' के अनुयायी नहीं थे । इनमें अधिकांश खंडन विद्वान् पंडित थे और शास्त्रागमों के ज्ञाता थे ।^६ सरह ने मध्यदेश में जाकर त्रिपिटकों का अध्ययन किया था । बहुत दिनों तक वे नालन्दा के आचार्य रहे । सरह के शिष्य नागार्जुन ने उनके आदेश से वेदादि ग्रंथों का अध्ययन किया और महायान के शत्रुओं से शास्त्रार्थ किया ।^७ यही कारण था कि सिद्धियों द्वारा तो दूसरे सम्प्रदायों और उनके सिद्धों को वे पराजित करते ही थे,^८ तर्कों द्वारा भी वे कड़ी प्रत्यालोचनाएं करते थे । विशेषतः सरहपा के दोहाकोष की अद्वयवज्र ने जो टीका की है वह वास्तव में बौद्ध तान्त्रिक सिद्धों और पंडितों की सूक्ष्मग्राही प्रतिभा का परिचय देती है ।^९ अद्वयवज्र की व्याख्या के अनुसार सरहपा ने अपने दोहों में छः सम्प्रदायों की आलोचना की है । इन सम्प्रदायों को अद्वयवज्र ने षड्-दर्शन

सिद्धों की साम्प्रदायिक स्थिति

कह कर पुकारा है जो न्याय, दर्शन, नीमाँसादि छः दर्शनों से भिन्न हैं। वे छः दर्शन हैं ब्रह्म, ईश्वर, अर्हन्त, बौद्ध, लोकायत तथा सांख्य।^{१०}

ब्रह्म, अर्थात् सम्भवतः वेदान्तियों की आलोचना करते हुए सरह ने कहा है कि उनकी समस्त जीवन-पद्धति वर्णाश्रम धर्म पर आधारित है। वर्ण चार बताये जाते हैं। जिनमें वे ब्राह्मणों को श्रेष्ठ पद देते हैं। ब्रह्म-सम्प्रदाय किन्तु ब्राह्मण भी भेद नहीं जानते।^{११} अद्वयवज्र टीका में बड़े गहन प्रमाणों से जातिभेद को असंगत सिद्ध करते हैं और चूँकि वेदों में जातिभेद का प्रमाण है अतः वेद भी स्वयम्भू नहीं रहे। इन समस्त तर्कों में अद्वयवज्र शून्यवादियों द्वारा ग्रहीत तर्क प्रणाली 'प्रतीय समुत्पाद' का आश्रय लेते हैं।^{१२} सरहपा इन ब्राह्मणों के कर्मकांड की आलोचना करते हैं। वे मिट्टी, जल, और कुश लेकर संकल्प के मंत्रों का पाठ, घर में अग्निहोत्र करने, होम के कडुए धुँएँ से आँखों को कष्ट देने आदि के विरुद्ध हैं।^{१३} सरहपा ब्राह्मणों के आश्रमधर्म के विरुद्ध हैं और वानप्रस्थ तथा सन्यास में जो भगवा वस्त्र और दंडी रूप धारण करते हैं उसे भी सरह निरर्थक समझते हैं।^{१४} क्योंकि वे धर्म और अधर्म का अन्तर नहीं समझते और अपने मिथ्या वचनों से संसार को लक्ष्यभ्रष्ट कर देते हैं।^{१५}

वेदान्तियों के उपरान्त वे साकार उपासक ईश्वरवादियों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि वे भी नाना प्रकार के पाखंडों में फँसे रहते हैं। कभी घर में बैठकर पूजा-दीप जलाते हैं, कभी कोने में बैठ कर घंटा ईश्वर-सम्प्रदाय बजाते हैं कभी आसनबद्ध होकर आँख बन्द कर ध्यान करते हैं। इनके पुरोहित भी लालची होते हैं। दक्षिणा के प्रेमी होते हैं और रंडियों मुंडियों का सा भ्रामक वेश बनाये होते हैं। (क्या यह मन्दिरों में देवदासी आदि का उल्लेख है?)^{१६} अद्वयवज्र इसी की टीका करते हुए प्रतीयसमुत्पाद के सिद्धान्त से अबौद्ध देवताओं के अस्तित्व को मिथ्या सिद्ध कर उनकी उपासना को मिथ्याचार सिद्ध करते हैं।^{१७}

जैन क्षपणकों के बाह्याचारों की निन्दा करते हुए सरहपा ने कहा है कि

वे दीर्घ नख और मलिन वेश धारण करते हैं किन्तु यदि केवल नम्र होने से मुक्ति मिलती तो कुत्तों और श्रृगालों को मुक्ति मिल जाती ।
 क्षपणक जैन क्योंकि वस्त्र तो वे भी नहीं धारण करते । यदि केवल लोम-उत्पादन से मुक्ति मिलती तो युवती को भी मिल जाती क्यों कि उसका नितम्ब रोम-विहीन होता है । यदि मोरछल हाथ में लेने से मोक्ष मिलता तो हाथी, घोड़ों की पूँछ में मोरपंख बँधता ही है । वे भी उच्छिष्ट भोजन करते ही हैं । वास्तव में इस तरह तत्व-रहित साधना से मोक्ष नहीं मिलता ।^{१८} इसी प्रकार लोकायत और सांख्य मतों का भी खंडन उपलब्ध है ।^{१९}

किन्तु हम पहले बता चुके हैं कि वे बौद्ध होते हुए भी महायान तथा हीनयान के उन सम्प्रदायों के कटु आलोचक हैं जो प्रज्ञोपायात्मक नहीं हैं । वे दशशिखापदी भिक्षु, कोटिशिखापदी भिक्षु, और दश-महायान वर्षोपन्नः स्थविर आदि हीनायनी बौद्धों को तत्वज्ञान से रहित बताते हैं । वे सबके सब श्रावकयानी होते हैं ।^{२०}
 किन्तु वे ही लोग यदि महायान का भी आश्रय लेते हैं तो परमार्थ उनसे नहीं सध पाता ।^{२१} क्योंकि वे शास्त्रागम, सूत्र, व्याख्यान, मन्त्र, तन्त्र या ध्येय, धारण, जप और ध्यान में तत्व की खोज करते हैं ।^{२२} पर वास्तव में तत्व तो सहज में है जो शास्त्र, पुराण से परे है,^{२३} उस सहज की प्राप्ति तो केवल सहज-पद्धति को भली भाँति जानने वाला गुरु करा सकता है ।^{२४} इस प्रकार समस्त प्रचलित सम्प्रदायों और साधना पद्धतियों का खंडन कर सिद्धों ने सहज पद्धति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है ।

अपना साम्प्रदायिक गठन अक्षुरण रखने के लिये और अपनी परम्परा से सर्वथा विच्छिन्न न होने के लिये सिद्धों ने एक और मार्ग अपनाया है । जीवित और क्रियाशील धर्मसाधकों की भाँति सिद्धगण लगभग उन अन्य संप्रदायों सभी साधनाओं पद्धतियों और सिद्धान्तों को अपनाते गये हैं का प्रभाव जो तान्त्रिक मतों में आ गये हैं । किन्तु उन्होंने सभी की बौद्ध व्याख्याएं ढूँढ़ ली है और उन्हें योगाचार की परम्पराओं से सूत्रबद्ध कर दिया है । इसके कई उदाहरण हम देख चुके हैं । पाशुपत मत के ज्ञानरहित जीव का पशु-स्वभाव,^{२५} त्रिकवाद का स्पन्द सम्वृत

सिद्धों की सम्प्रदायिक स्थिति

मन,^{२६} भारतीय चिन्तना पद्धति में पूर्वागत रस रसायन की कल्पना तथा उससे अमर शरीर की प्राप्ति जिसे रसेश्वर सिद्धों ने भी ग्रहण किया था,^{२७} तथा अग्रणीत अन्य तान्त्रिक कल्पनाएं और हठयोग की साधनाएँ सिद्धों ने ग्रहण की किन्तु उन्हें बौद्ध व्याख्याएं दे दीं और योगाचार में पहले से विद्यमान साधनाओं से सम्बद्ध कर दिया। चक्रों की संख्याएं, बीजान्तर, नाड़ियों के नाम, चंडामि आदि की कल्पना—इन सबों पर सिद्धों ने अपनी प्रज्ञावायामक छाप भी लगा दी। कई स्थानों पर दूसरे सम्प्रदायों के सिद्धान्त और धारणाएं ग्रहण करने के बाद उनमें कहीं-कहीं सिद्धों ने ऐसा संशोधन किया कि उससे सिद्धों की श्रेष्ठता बनी रहे।

उदाहरण के लिये हठयोग की साधना में चार आनन्दों का विवरण हम पढ़ चुके हैं। स्पष्टतः ब्रह्मानन्द का ही दूसरा रूप विरमानन्द है। हिन्दू योग दर्शन में जो ब्रह्मानन्द सर्वोत्कृष्ट बताया गया है उसे सिद्धों ने अपना तो लिया किन्तु उसके भी ऊपर सहजानन्द की स्थापना कर अपने सम्प्रदाय को श्रेष्ठतर सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार हठयोग में परम्परा से बालयोगी श्रेष्ठयोगी को कहा जाता रहा है। वह जो सभी वासनाओं और आसक्तियों से मुक्त निर्लेप हो। शिव की कल्पना भी इसलिये बालयोगी रूप में की गई है। किन्तु सिद्धों ने बालयोगी को प्राथमिक अवस्था का योगी, इस अर्थ में कहीं-कहीं प्रयुक्त किया है।^{२८} सेकोद्देश टीका में तो योगी की चार अवस्थाएं बताई गई हैं बाल, प्रौढ़, वृद्ध और प्रजापति। इनमें बाल सबसे निम्न अवस्था है।^{२९} इससे यह प्रमाणित होता है कि विभिन्न पद्धतियों को ग्रहण करते हुए भी उन्होंने अपनी साम्प्रदायिक विशिष्टता को सुरक्षित रख छोड़ा था और उसके प्रति वे सदैव जागरूक रहते थे।

जिन भारतीय तान्त्रिक पद्धतियों और प्रवृत्तियों को सिद्धों ने ग्रहण किया उनके अतिरिक्त सिद्धों की वज्रयानी साधनाओं में एक और दिशा से नई पद्धतियों और तत्वों का प्रवेश हुआ है जिस पर विचार कर लेना बहुत आवश्यक है। वह है तिब्बत तथा मध्य-एशिया। तिब्बत का इतिहास ७वीं शती से प्रारम्भ होता है जब गम्पो नामक शासक ने प्रथम बार तिब्बती जनता को संगठित कर विदेशी शक्तियों से मोर्चा लिया। उसके पहले

तिब्बत में कोई नियमित शासन व्यवस्था नहीं थी। गम्पो की शक्ति और वैभव से प्रभावित होकर नेपाल के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह गम्पो से कर दिया। नेपाल की राजकुमारी बौद्ध थी और उसने भारत से प्रख्यात वज्रयानी आचार्य पद्मसम्भव को आमन्त्रित किया कि वे तिब्बत आकर यहाँ की जनता को बौद्ध धर्म में दीक्षित करें। पद्मसम्भव ने वहाँ जाकर बौद्ध तन्त्रों का प्रचार किया।³⁰

जिन लोगों में पद्मसम्भव ने जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया उनकी मनोभूमि तिब्बत के आदिम असंस्कृत लोक धर्म बोन पा द्वारा प्रभावित थी। बोन पा ऐसा धर्म था जिसमें वनदेवी, देवतागण, उनके चमत्कार, उनकी पूजा के लिये किये जाने वाले क्रूर निर्मम अनुष्ठान, नरबलि, प्रेततृण आदि प्रचलित थे। इसीलिये उन लोगों ने वज्रयान के वाह्य अनुष्ठानों और चमत्कार पूर्ण सिद्धियों को विशेष मान्यता दी, उसके दार्शनिक पक्ष की अवहेलना की।³¹

उनमें जो किंवदन्तियाँ प्रचलित हुईं उनमें भी वज्रयानी सिद्धाचार्यों के चमत्कारों की अतिरंजित कथाओं का ही बाहुल्य था।³² इस प्रकार धीरे धीरे तिब्बत में वज्रयान का ऐसा रूप विकसित हुआ जो केवल वाह्य अनुष्ठानपरक था और जिसमें लौकिक सिद्धियों और चमत्कारों को ही महत्व दिया गया था।

किन्तु इसका प्रभाव केवल एक ही पक्ष पर नहीं पड़ा। ये तिब्बती-साधनाएँ और देवी देवता भारतीय वज्रयान में भी समाविष्ट हो गये। यह परम्परा पद्मसम्भव के ही समय से प्रारम्भ हो गयी थी। तिब्बती जनता से निकटता स्थापित करने के लिये पद्मसम्भव ने कुछ बोनपा के देवी देवताओं को वज्रयान में स्थान दे दिया और उनके अनुरूप साधनाएँ भी विहित कर दीं।³³ समय समय पर ये देवी देवता तथा इनकी साधनाएँ तिब्बत से भारतीय परम्परा में होती-अविष्ट होती रहीं। कभी कभी साम्प्रदायिक ग्रन्थों में उन विशेष सिद्धों का भी उल्लेख मिलता है जिन्होंने किसी विशेष पद्धति को तिब्बत से भारत में समाविष्ट किया।³⁴

देवियों और योगनियों का एक विशेष वर्ग लामा तथा डाकिनी आदि का था जो सिद्धों की साधनाओं में प्रविष्ट हो चुका था। लामा का सम्बन्ध बागची ने तिब्बती देवी 'ल्हामो' से सिद्ध किया है जिसका स्वरूप बहुत लामा और भयंकर और शोषिताहारी है।³⁵ इसी प्रकार डाकिनी भी तिब्बत में पारंगत स्त्रियों को कहते थे क्योंकि 'डाक' का अर्थ तिब्बती में प्रज्ञा होता है।³⁶ बागची ने इन्हें 'दासा' देश की

सिद्धों की साम्प्रदायिक स्थिति

स्त्रियाँ कहा है।^{३७} यद्यपि यह केवल अनुमान ही है। डाकिनी का उल्लेख दोहों में मिलता है जहाँ उन्हें देवी कह कर ज्ञानवती स्त्रियों के रूप में सम्बोधित किया गया है।^{३८} इसी प्रकार ल्हाकिनी, शाकिनी, राकिनी आदि का भी अभिप्राय (बागची के अनुसार) तिब्बत तथा मध्य एशिया की जातियों की उन स्त्रियों से है जो तन्त्र साधनाओं में महामुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती थीं।^{३९} इन गुह्याचारों तथा वाद में श्मशान साधनाओं आदि के कारण जनता में इन डाइनों (डाकिनी) आदि की प्रसिद्धि (या कुख्याति) दूसरे ही रूप में फैल गई। किन्तु हिन्दू साधनाओं में भी योग और तन्त्र की अधिष्ठाती देवियों के रूप में इनका बहुत पहले प्रवेश हो गया था^{४०} और काफी दिनों तक चलता रहा।^{४१} तारानाथ की कथाओं में विभिन्न सिद्धों के साथ इनके सम्बन्धों का उल्लेख मिलता है।^{४२}

इस प्रकार विपत्तियों और विदेशों से इन सिद्धों के सम्बन्धों पर विचार कर लेने के उपरान्त एक और दृष्टि से इन सिद्धों की साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार कर लेना बहुत आवश्यक है। क्या इन सिद्धों की एक क्या इनमें कई अटूट परम्परा थी या इन सिद्धों में कई सम्प्रदाय थे। या सम्प्रदाय थे? अधिकांश सिद्ध एक एक सम्प्रदाय का प्रवर्तक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कभी कभी किसी एक विशेष सिद्ध की कृतियों में किसी एक विशेष पक्ष का इतना प्रबल समर्थन मिलता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका एक अलग सम्प्रदाय है जो अमुक तत्व को ही प्रधान मानता है। इस स्थिति में हम उसे सिद्धों से अलग करके देखने लगते हैं। यह स्थिति विशेषतया सरहपा और काणहपा के साथ अवश्य प्रतिभासित होती है। सरहपा ने अनुष्ठानों के बहिष्कार पर जितना जोर दिया उस पर हम विचार कर चुके हैं किन्तु फिर सरहपा तान्त्रिक थे, इस बौद्ध तान्त्रिक सम्प्रदाय के विरोधी नहीं थे।

किन्तु फिर भी इन सिद्धों में विविधता थी इसमें कोई संदेह नहीं और यह विविधता तान्त्रिक सम्प्रदायों के लिये कोई नवीन या अस्वाभाविक बात भी नहीं है। तन्त्रों में कई आम्नाय हुआ करते थे और उन आम्नायों के अन्तर से एक ही देवता की साधना में भेद पड़ जाया करता था। साधनमाला में भी अक्सर ऐसे भेदों का

उल्लेख मिलता है। देवी वज्रशृङ्खला की आम्नाय भेद से दो दो साधनाएँ मिलती हैं।^{४३} इनमें से अधिकांश गुरुओं का अपना एक विशिष्ट आम्नाय होता था इसीलिये इन गुरुओं को 'साम्नाय' कहा गया है।^{४४} इसीलिये कुछ विद्वानों का यह भी अनुमान है कि तिब्बती अनुश्रुतियों में जिन गुरु शिष्य परम्पराओं का उल्लेख है वे एक एक आम्नाय का बोध कराते हैं। इस दृष्टि से जो अनुमान लगाए गये हैं उनमें से एक अनुमान थोड़ा विचारणीय है।

तिब्बती अनुश्रुतियों में सरहपा (राहुलभद्र) को कहीं कहीं कालिदास का समकालीन माना गया है और कालिदास को विदिशा के शुंग राजा भागभद्र का समकालीन माना गया है।^{४५} इस आधार पर डाक्टर सरकार डा० सरकार सिद्धों के तीन सम्प्रदाय मानते हैं। प्रथम सरहपा द्वारा का मत प्रवर्तित सम्प्रदाय जो कि ईसा की प्रथम शताब्दी से ही आरम्भ होता है क्योंकि तिब्बती प्रमाणों के आधार पर वे सरहपा को शून्यवादी आचार्य नागार्जुन का समकालीन मानते हैं। डाक्टर सरकार का मत है कि तान्त्रिक साधनाओं का प्रथम प्रवर्तन नागार्जुन ने किया था और सरहपा ने उसका विरोध किया। दूसरा सम्प्रदाय काण्हपा तथा जालन्धरी का था और तीसरा तिल्ली (तिलोपा) और नारोपा का था जत्र कालचक्रयान का प्रवेश हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से वे इन तीनों सम्प्रदायों को क्रमशः विक्रमादित्य वंश, वंगाल के चन्द्रवंश, तथा पालवंश का समकालीन मानते हैं।^{४६}

ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय धर्मसाधनाओं और आचार्यों के विषय में ये तिब्बती अनुश्रुतियाँ कितनी भ्रामक और अविश्वसनीय हैं इस पर हम प्रथम अध्याय में ही विचार कर चुके हैं। सरहपा को तान्त्रिक साधनाओं का विरोधी तो हम मान ही नहीं सकते क्योंकि उसने बराबर योगिनी-साधना और तान्त्रिक अनुष्ठानों का प्रचार किया है। उसका भी साम्प्रदायिक मूल्यांकन हम विस्तार से कर चुके हैं। साधनमाला में प्रातः उसके द्वारा प्रवर्तित लोकेश्वर साधना पर भी हम विचार कर चुके हैं। अतः डाक्टर सरकार द्वारा प्रवर्तित इस मत को और अधिक पुष्ट प्रमाणों के बिना स्वीकार कर सकना कठिन है।

किन्तु तिब्बती अनुश्रुतियों से एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य का पता लगता

सिद्धों की साम्प्रदायिक स्थिति

है जो इनकी साम्प्रदायिक स्थिति पर यथेष्ट प्रकाश डालता है। इन सिद्धों के विषय में कहीं-कहीं यह उल्लेख मिलता है कि एक ही सिद्ध विभिन्न कालों में विभिन्न रूप में प्रगट होता रहा है। उदाहरण तिव्वती के लिये तारानाय का कथन है कि विरूपा पहले नालन्दा के सांकेतिक अर्थ आचार्य थे, उस समय उन्होंने कई चमत्कार दिखाये और फिर सोमनाथ चले गये। कुछ समय उपरान्त वे सम्राट रामपाल के समय में सिरो नाम से प्रगट हुए और उन्होंने न्लेच्छों को हराया फिर गौड़ देश में ताजिक शासकों को पराजित करने चले गये। फिर तीसरी बार उन्होंने चीन देश में जन्म लिया।^{४७} कहीं-कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि एक ही काल में एक ही आचार्य दो रूप धारण कर दो विभिन्न प्रान्तों में निवास करते थे। जालन्धरी पा अपने एक रूप में जालन्धर में ज्वालामुखी के निकट रहते थे, और दूसरा रूप धारण कर हाड़ीपा के रूप में पूर्वी भारत में रहते थे।^{४८} इन कल्पनाओं से किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को ढूँढ़ निकालना असम्भव है। हाँ इनसे एक सांकेतिक अर्थ यह अवश्य ग्रहण किया जा सकता है कि ये सिद्ध अपने-अपने आम्नाय के प्रतीक व्यक्तित्व मान लिये गये थे। विरूपा के कई बार कई देशों में विभिन्न नामों से प्रगट होने के अर्थ हैं कि उनका आम्नाय कई व्यक्तियों ने कई बार प्रचारित किया और उन सबों को विरूपा की धर्मकाया का नव रूप मान लिया गया। सम्भवतः इसी प्रकार जालन्धरीपा का ही आम्नाय हाड़ीपा ने पूर्वी भारत में प्रचलित किया हो और इसीलिये उन्हें जालन्धरीपा का अवतार मान लिया गया हो। अब भी इसी प्रकार तिव्वत में प्रत्येक दलाई लामा को पुराने लामा का ही अवतार मानने की परम्परा प्रचलित है। यदि हम तिव्वती अनुश्रुतियों और इसी प्रकार अधिकांश साम्प्रदायिक अनुश्रुतियों का यही आम्नायपरक साम्प्रदायिक अर्थ ले लें तो कई समस्याएँ सुलभ जाती हैं। बाद में मत्स्येन्द्रनाथ और लुईपा को एक ही व्यक्तित्व मानने का आग्रह या मत्स्येन्द्रनाथ के विषय में प्रचलित अग्रणीत अनुश्रुतियों का भी हम यही सांकेतिक अर्थ ले सकते हैं। बाद में हम इस पर विस्तार से विचार करेंगे।

इस समय इतना यथेष्ट होगा कि हम यह भली भाँति समझ लें कि बाद में जो शैव तथा बौद्ध अनुश्रुतियों में एक दूसरे के आचार्यों की गणना होती

है और उनके सहयोग तथा विरोधों की अग्रणीत कथाएँ मिलती हैं^{५०} उससे कोई स्पष्ट ऐतिहासिक तथ्य ढूँढ़ निकालना तो वज्रयान और असम्भव है, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि बौद्ध शैवमत तान्त्रिक परम्परा का शैवों से बहुत घनिष्ठ और निकटता का परिचय रहा है। वास्तविकता यह रही है कि शैव साधनाओं ने धीरे-धीरे बौद्ध परम्परा में प्रवेश किया है और बौद्ध साधनाओं को ग्रहण करते-करते अन्त में उन्हें पूर्णतया आत्मसात कर लिया है।

वज्रयानी ग्रन्थों में हमें स्थान-स्थान पर बुद्ध के द्वयाकार विवर्जित शान्त, निस्संग रूप की संज्ञा शिव मिलती है।^{५१} इतना ही नहीं, वज्रयान में तो अकनिष्ठ नामक स्वर्ग में एक विशिष्ट माहेश्वर भवन को ही स्थान मिल गया था जिसमें बोधिचित्त को वास दिया जाता था।^{५२} कालचक्रयान में भगवान् आदिबुद्ध को काल (महाकाल) की संज्ञा प्रदान की गई थी।^{५३} विरुपाक्ष ने महाकाल की एक साधना भी प्रवर्तित की थी।^{५४} अत्रलोकितेश्वर को महेश्वर संज्ञा देकर उनके साथ हलाहल की कल्पना भी संयुक्त कर दी गई थी।^{५५}

इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि नेपाल, आसाम आदि में शैव सम्प्रदाय का बहुत गहरा प्रभाव था और वह हिमालय की तराई में होते-होते काश्मीर तक फैला था। काश्मीर से कामरूप तक हिमालय की तराई शैवों से प्रभावित थी और शैव तथा शाक्त सम्प्रदाय प्रमुखतया तान्त्रिक होने के नाते बौद्धों के अधिक निकट थे।

दूसरा कारण यह हो सकता है कि शैवों तथा बौद्धों ने मिल कर वैष्णवों के विरुद्ध एक संयुक्त शिविर सा स्थापित कर रखा था। वैष्णवों ने वैदिक परम्परा का आश्रय ग्रहण किया था। उनका विद्रोह बड़ा ही अप्रत्यक्ष, मधुर और नम्रता-युक्त था। शैवों में उद्धतता और विरोध का स्वर अधिक था। सम्भव है कि वैष्णवों के प्रति दोनों की कटुता ने एक दूसरे को अधिक समीप ला दिया हो। जहाँ शैवों के व शाक्तों के साम्प्रदायिक ग्रन्थों में वैष्णवों की बहुत तीखी आलोचना मिलती है^{५६} वहाँ बौद्धों के कौल-सिद्धान्त, सहज-सिद्धि, डाकिनी आदि की अप्रत्यक्ष स्वीकृति भी मिलती है।^{५७}

किन्तु फिर भी इससे यह भ्रम न होना चाहिये कि बाद के बौद्ध तान्त्रिकों ने शैव मत ग्रहण कर लिया था। उन्होंने केवल पद्धतियाँ अपनाई थीं। प्रभाव ग्रहण किये थे किन्तु अपनी साम्प्रदायिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिये

सिद्धों की साम्प्रदायिक स्थिति

उन्होंने उनकी बौद्ध व्याख्याएँ ढूँढ़ ली थीं। कपाल, शिव, डमरू इन सब को बौद्ध अर्थ दे दिये थे। शैव देवताओं के आधार पर अपने देवताओं का रूप परिकल्पित कर लिया था किन्तु उन सबों को वज्रसत्व से उद्भूत मान कर उनके किरीट पर उनके कुल के स्वामी तथागत की मूर्ति का रहना अनिवार्य मान लिया था। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि बाद में जब साम्प्रदायिक विद्वेष बहुत बढ़ा तब आत्मरक्षा की दृष्टि से शैवों से अपने को पृथक और विशिष्ट सिद्ध करने के लिये उन्हें कई चमत्कार दिखाने पड़े। तारानाथ ने इस प्रकार की कई बौद्ध और शैव प्रतिद्वन्द्विताओं का उल्लेख किया है। इस प्रकार की दो किम्बदन्तियाँ विरुपा के विषय में मिलती हैं। एक बार विरुपा ने दक्षिणायन में ताली बजाकर शिव का त्रिशूल खंड खंड कर दिया था और दूसरी बार जब वह सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ के सम्मुख गये तो उन्होंने वह प्रतिमा तो नहीं खंडित की क्योंकि सोमनाथ में भी बड़ी सिद्धियाँ थी और विरुपा उसे खंडित नहीं करना चाहते थे, किन्तु विरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि सोमनाथ के ऊपर अवलोकितेश्वर दीख पड़ने लगे।^{५८}

इससे स्पष्ट है कि विरुपा शिव का आदर करते थे, और सम्भवतः उन पद्धतियों को अपना भी चुके थे। किन्तु उन्होंने उन्हें बौद्ध रूप दे दिया था और अपने महाकाल या शिव को अवलोकितेश्वर के अधीन कर दिया था। उनका एक चर्यापद^{५९} भी प्राप्त होता है जिसमें शिव का तो कोई उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु सोम या वारुणी का उल्लेख है जो कापालिकों की सोम साधना का बौद्ध संस्करण प्रतीत होता है। इसमें महामुख का सोम रूप में वर्णन है जो अवधूतिका रूपी शुंडिनी (मद्य-विक्रेता स्त्री) ललना रसना रूपी दो घड़ों में सिंहा कर बनाती है। किन्तु इसमें प्रयुक्त सभी उपमान बौद्ध परम्परा के हैं और प्रणाली भी स्पष्ट बौद्ध-परम्परा की है जैसा टीका से ज्ञात होता है।^{६०}

इन कापालिक पद्धतियों का सबसे स्पष्ट उल्लेख काण्हपा के चर्यापदों में मिलता है और सम्भवतः इसी कारण से काण्हपा को लेकर कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने काण्हपा और उनके गुरु जालन्धरी पा की गणना नाथों में की है और उन्हें शैव कापालिकों के अन्तर्गत माना है क्योंकि बौद्ध कापालिक मत का कोई उल्लेख योग्य वर्णन नहीं मिलता।^{६१} इसके पहले कि हम इस मत का परीक्षण करें, काण्हपा के उन पदों को देखना आवश्यक है जिनमें उन्होंने अपने को कापालिक कहा है। चर्याचर्याविनिश्चय में

काण्डपा के कुल १२ पद संग्रहीत हैं। ३ पदों में उनकी कापालिक साधनाओं का उल्लेख है। हमें उन उल्लेखों के सन्दर्भों का विश्लेषण कर यह देखना चाहिये कि वे बौद्ध सम्प्रदायों के अधिक निकट हैं या शैव सम्प्रदायों के।

एक पद में काण्डपा अपने को कापालिक बता कर अपनी सह-साधिका को डोम्बी बताते हैं जिसका वास नगर के बाहर है और ब्राह्मण युवक उसकी भोपड़ी को छूछू कर ही चला आता है। उससे प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि वह अस्पृश्य जाति की है। काण्ड निवृत्त नग्न कापालिक योगी चर्यापदों में हैं, वे उस डोम्बी से समागम करेंगे। यह डोम्बी एक ऐसे कापालिक कमल पर नाच रही है जिसकी ६४ पाँखुरियां हैं। फिर काण्ड उससे सहज भाव से पूछते हैं कि नगर के बाहर से वह आती है। किन्तु कौन सी वह नौका है जिस पर चढ़ कर वह आती जाती है। वे उस डोम्बी से आग्रह करते हैं कि वह अपनी तन्त्री और टोकरी बेच दें। वे भी अपने पिटारे से मुक्त हो कर उसके साथ चलेंगे। वह डोम्बी है तो काण्डपा भी कापालिक हो गये हैं। उन्होंने अस्थि की माला धारण कर ली है।^{६२}

अगले ही पद में उन्होंने कापालिक की पूरी वेशभूषा का चित्रण इस प्रकार किया है : नाड़ी शक्ति को दृढ़ करके धारण कर लिया गया है। अनहद डमरू वीर नाद गुंजरित कर रहा हैं। काण्ड ने कापालिक योगी का आचार ग्रहण किया है और वह देहरूपी नगरी में विचरण कर रहा है। आली तथा काली, दोनों (स्वर तथा व्यंजन की प्रतीक ललना रसना) उसकी कमर में घंटा और पाँव में नूपुर स्वरूप हैं। अंग में रमी हुई भस्म है। मोक्ष रूपी मुक्ताहार गले में पड़ा है। सास आदि सम्बन्धियों की हत्या कर अब वे कापालिक हो गये हैं।^{६३}

टीकाकार ने इन सभी का बौद्ध सांकेतिक अर्थ दिया है। डोम्बी की विवेचना पहले ही हम कर चुके हैं। डोम्बी की तन्त्री तथा टोकरी, अविद्यारूप और विषयाभास के प्रतीक हैं। संस्कृत धोधिचित्त ही नौका है। कापालिक के अर्थ चर्याधर हैं और उसकी व्युत्पत्ति है जो 'क' अर्थात् महासुख के पालने में समर्थ हो। कमल निर्माण-चक्र है जिसमें ६४ पाँखु-

सिद्धों की साम्प्रदायिक स्थिति

रियाँ बताई गई हैं। अनहद डमरू वास्तव में शून्यतारूपी सिंह का नाद है। शेष आभरणों का सांकेतिक अर्थ चर्या के मूल से ही स्पष्ट है।

इससे स्पष्ट है कि काण्हपा ने कापालिक पद्धति अपनाई है और उनकी बौद्ध व्याख्या देकर अपनी साम्प्रदायिक स्थिति पर आँच नहीं आने दी है। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण पंक्ति इसी पद में है जिससे उनका अन्य सम्प्रदाय से अन्तर स्पष्ट हो जाता है। जब वे यह कहते हैं कि 'छोड़ छोड़ जाइ सो ब्राह्मण नाडिआँ' तो उनका स्पष्ट आरोप अन्य सम्प्रदाय के ब्राह्मण कापालिकों पर है जो कापालिक होते हुए भी इस अवधूती मार्ग का भेद नहीं जान पाते, उसे बाहर से ही छू छू कर रह जाते हैं। टीकाकार भी इसी मत का प्रतिपादन करता है। इससे यह ज्ञात होता है कि काण्हपा ने कापालिक पद्धति अपनाते हुए भी बौद्ध श्रेष्ठता पर कहीं से भी आँच नहीं आने दी है। तारानाथ भी इसी का समर्थन करता प्रतीत होता है। तारानाथ का कहना है कि काण्हपा (कृष्णाचार्य) बहुत महान योगी थे और उनके विषय में यह भविष्यवाणी हुई थी कि वे उनके नाम में 'कृष्ण' अवश्य होगा। वे खट्वांग के उपरान्त कालचक्र का अनुसरण करेंगे। अस्थियों के आभूषण धारण करेंगे और महापात्र के रूप में एक डमरू धारण करेंगे। वाह्य रूप में उनका मेल मिलाप बौद्धेतर लोगों से रहेगा किन्तु अन्दर ही अन्दर वे बौद्ध धर्म के उत्थान के लिये बहुत काम करेंगे।^{६४} तारानाथ की यह साक्षी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि काण्हपा के वाह्य कापालिक रूप का भी आन्तरिक अभिप्राय बौद्ध ही था। कहा जा सकता है कि यह उसका साम्प्रदायिक पक्षपात हो जिसके कारण उसने काण्हपा को बौद्ध माना। इसलिये हमें चाहिये कि यह देखें कि क्या पहले से बौद्ध परम्परा में कापालिक और शवसाधनाओं का कोई उल्लेख है या नहीं।

इस दृष्टि से देखने पर हम यह पाते हैं कि वज्रयान के पहले योगाचार में ही इन पद्धतियों को अपनाया जा चुका था। योगाचार में ध्यान साधना में दश अशुभ वस्तुओं पर ध्यान की एकाग्रता केन्द्रित करने का योगाचार में आदेश मिलता है। वे दश अशुभ वस्तुएँ इस प्रकार हैं। १ शव-साधना सूजा हुआ शव, २. नीला पड़ा हुआ शव, ३. कीड़े लगा हुआ शव, ४. कटा फटा हुआ शव, ५. पक्षियों द्वारा खाया हुआ शव, ६. अंगहीन शव, ७. अंगभङ्ग शव, ८. रक्तसञ्चित शव, ९. सड़ता

हुआ शव, १० कङ्काल । इन सब वस्तुओं का ध्यान कर उन्हें नाभि में स्थित करना चाहिये ।^{६५} उसके उपरांत शरीर के प्रत्येक अङ्ग तथा अवयव का ध्यान करना चाहिये । केश, चर्म, नख, दन्त, मांस-पेशी, मज्जा, हड्डी, गुर्दा, हृदय, जिगर, तिल्ली, फेफड़े, मेदा, रक्त, पित्त, श्लेष्मा, स्वेद, चर्बी, लार, मूत्र, विष्टा, आदि ।^{६६}

उपर्युक्त उल्लेख से स्पष्ट है कि बौद्ध परम्परा में शव-साधना और कापालिक पद्धति योगाचार में ही अपना स्थान बना चुकी थी और वज्रयानी सिद्धों को इन पद्धतियों को ग्रहण करने में बौद्ध परम्परा का ही आश्रय मिला था । गुह्य-समाज तन्त्र में कपाल का कई बार उल्लेख आया है ।^{६७} और एक स्थान पर तो खघातु के मध्य में अस्थि-मांस-मज्जा आदि का ध्यान करने का आदेश है जो स्पष्टतया योगाचार की परम्परा का निर्वाह सूचित करता है । बाद में प्रज्ञोपाय गुह्य-साधना के अनुसार तन्त्र में कपाल को पद्मभाजन अथवा मुद्रा या नारी बताया गया है । यह अर्थ सन्धाभाषा में ग्रहण किया जाता है ।^{६८} इससे स्पष्ट है कि बौद्ध परम्परा में कापालिक पद्धति का अस्तित्व था ।

किन्तु कापालिक का यह वेश बौद्धयोगी धारण क्यों करे । यह तो सम्प्रदाय की मर्यादा का उलङ्घन होगा । हम पहले भी देख चुके हैं कि बौद्ध साधक को बौद्ध देवताओं का ही रूप धारण करने का आदेश था, अतः इस कापालिक वेश को मान्यता देने के लिये हेरुक की कल्पना की गई जो बौद्ध देवता थे । उनका रूप बहुत कुछ कपालयोगी शिव का रूप था । किन्तु थे वे कष्टर बौद्ध-देवता क्योंकि उनका विधान प्रज्ञोप्रायात्मक था । चन्द्रसूर्य तथा आलिकालि के समायोग से उनका वेशविन्यास संजित होता था । नरचर्म धारण करते थे । शवासीन होते थे । अस्थियों का आभरण धारण करते थे और गले में पंचकपाल धारण करते थे ।^{६९} उनके हाथ में डमरू^{७०} रहता था और वे वीर मूर्ति थे । इसी प्रकार इनका दूसरा रूप बुद्धकपाल था जो महावीर संहारकारी कहा जाता था ।^{७१} हेरुक अक्षोभ्य तथागत के कुल के थे । उनके एक हाथ में वज्र दूसरे में कपाल रहता था । इन्हीं का कुछ परिवर्तित रूप त्रैलोक्य-विजय भी था ।^{७३}

हेरुक हिन्दू परम्परा में शिव के एक गण मात्र माने गये हैं किन्तु जैसे

सिद्धों की साम्प्रदायिक स्थिति

इन्द्र से वज्र लेकर वज्रयानियों ने उसे अतुल महत्व दे दिया वैसे ही शिव की प्रतिद्वंद्विता में उनके एक गण का उद्धार कर सिद्धों ने उसे शिव से भी अधिक महत्व दे दिया क्योंकि त्रैलोक्य-विजय की मुद्रा का वर्णन देते हुए उन्हें वाम पद से महेश्वर के मस्तक और दक्षिण पद से गौरी के युगल स्तनों को कुचलते हुए प्रदर्शित किया गया है।^{७४}

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध कापालिक पद्धति एक स्वतन्त्र पद्धति के रूप में विद्यमान थी और उसकी जड़े योगाचार सम्प्रदाय में थीं। कालान्तर में उस पर शैव प्रभाव भी पड़ा, किन्तु उसने अपने को पृथक रखने की चेष्टा की। काण्हपा निस्सन्देह इसी बौद्ध कापालिक पद्धति के उच्चायक थे। इसका एक प्रमाण और मिलता है। काण्हपा का एक नाम कृष्णवज्र भी मिलता है। कृष्णवज्र का उल्लेख हमें हेरुक की साधना में मिलता है।^{७५} कृष्णवज्र धारण करने से काण्हपा को कृष्णवज्र भी कहा जाता रहा होगा। उनकी चर्चा में उल्लिखित अन्य आभरण डमरू, घन्टा, आलिकालि, चन्द्रसूर्य, कुण्डल आदि सभी का हेरुक साधना में स्पष्ट उल्लेख है।

इस प्रकार काण्हपा की भी साम्प्रदायिक स्थिति में कोई सन्देह नहीं रहता। बौद्ध कापालिक परम्परा का परिचय न होने से ही उनके बौद्ध अथवा शैव होने में सन्देह हो सकता है। योगाचार तथा बौद्ध तन्त्र की परम्परा तथा तारानाथ की साक्षी उन्हें बौद्ध ही सिद्ध करते हैं। इस प्रकार सरहपा से लेकर काण्हपा आदि प्रमुख सिद्धों की रचनाओं पर साम्प्रदायिक दृष्टि से विचार करने के उपरान्त हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि विभिन्न आम्नाओं और पद्धतियों को अपनाने पर भी अन्ततोगत्वा वे बौद्ध परम्परा का आश्रय नहीं छोड़ते और यथासम्भव सभी पद्धतियों को बौद्ध बना पहना देते हैं।

किन्तु इनके साम्प्रदायिक विकास पर दृष्टि डालते समय एक विशेष प्रवृत्ति का आभास मिलता है। प्रारम्भ में सरहपा आदि में जहाँ वाह्य प्रवृत्ति की निन्दा की गई है, वहाँ काण्हपा आदि में वाह्य अनुष्ठानों पर अधिक प्रारम्भिक तथा परवर्ती काल बल दिया गया है। उन्होंने वाह्य अनुष्ठान, विन्यास, चिन्ह आदि अपनाए हैं। सरहपा के चर्चापदों में नैरात्म-दर्शन पर अधिक बल है, काण्हपा में अनुष्ठान और गुह्यचर्चा पर। यद्यपि केवल इतने

मात्र से यह कहना कि सरहपा की चर्चा में अनुष्ठानों का सर्वथा बहिष्कार है, उतना ही भ्रामक है जितना यह कहना कि काण्वपा आदि में प्रज्ञोपाय ज्ञान की चर्चा ही नहीं थी। किन्तु यह अवश्य है कि बाद में बौद्ध तान्त्रिक साधक इन अनुष्ठानों के पीछे की दार्शनिक पृष्ठभूमि भूल रहे थे। बाद में मुनिदत्त, अद्रय वज्र तथा काण्वपा की शिष्य मेखला ने दोहों और पदों की जो टीकाएँ लिखीं और उनमें दर्शन-पद्ध पर जो इतना बल दिया वह निस्सन्देह इस बात का परिचायक है कि सम्प्रदाय के आम लोग केवल अनुष्ठान चमत्कार और मैथुन में ही प्रवृत्त हो गये थे।

इस प्रकार की परिणति लगभग सभी तान्त्रिक सम्प्रदायों में दृष्टिगोचर होती है। इस दृष्टि से द्विवेदी जी ने भारतीय धर्म साधनाओं के इस तान्त्रिक युग को मोटे तौर पर दो कालों में विभाजित किया है। पहला काल ८वीं से १०वीं शती का है जब इन सम्प्रदायों में उत्साह है उदारता है, लोकधर्म के प्रति जागरूकता है और दूसरा १० से १२ वीं शती जब एक शिथिलता आ जाती है। परम्परा-बद्धता, अनुष्ठान-बहुलता और चिन्ता-पराधीनता आ जाती है। यह टीकाओं का काल है।^{७६} सिद्ध सम्प्रदाय में भी इस विश्लेषण की छाया मिलती है। बाद के तान्त्रिक साहित्य में वह उत्साह और बल नहीं रइ गया है जो सरह के दोहों में मिलता है।

इस दृष्टि से अद्रयवज्र की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिये नहीं कि वे सरहपा के दोहों के टीकाकार हैं वरन् इसलिये कि उनमें हमें इन घोर तान्त्रिक अनुष्ठानों और बिना उनका आध्यात्मिक अर्थ समझे उन्हें अद्रयवज्र की केवल उच्छृङ्खल अनाचार रूप में ग्रहण करने के विरुद्ध प्रति-महत्वपूर्ण क्रिया मिलती है जो उन्हें माध्यमिक दर्शन और सुधारवादी स्थिति मर्यादा की ओर प्रेरित करती। वे स्वतः योगी थे, उनका दूसरा नाम अवधूतीपा था। किन्तु वे दर्शन के पद्ध का भी तिरस्कार नहीं करते थे इसीलिये उन्होंने स्थान स्थान पर माध्यमिक मत का प्रति-पादन किया है। वे उच्छृङ्खलता पर एक रोक लगाकर पारमिताओं के पालन द्वारा आत्मपरिष्कार पर बल देते थे। इसीलिये उन्होंने उन्मत्त प्रतियों को भी, आदि-कर्म के पालन का उपदेश दिया था। जो पारमिताओं का पालन नहीं करते थे और जीवन की अनित्यता की ओर संकेत कर केवल रस और महामुद्रा का

सिद्धों की सम्प्रदायिक स्थिति

उपभोग करते हैं, वे चार्वाक के अनुयायी हैं सच्चे तान्त्रिक नहीं।^{१७} इस प्रकार उन्होंने बौद्ध सम्प्रदाय से अनुशासनहीनता और भौतिक कुप्रवृत्तियों का परिहार कर उसे पुनर्गठित करने का प्रयास किया और इसके लिये बहुत से ग्रंथ लिखे।^{१८} यदि अद्रयवज्र मैत्रीगुप्त ही हैं तो तारानाथ की साक्षी से भी यह ज्ञात होता है कि तान्त्रिक गुह्यानुष्ठानों के कुल्लित अंश का विरोध करते थे। सम्भवतः बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे वैष्णव थे और इन्हीं से अनुशासन, और विनय की प्रवृत्तियाँ उनमें शेष रह गई थीं और वे अधिक सुसंस्कृत थे और परम्परा का उच्छेद कर उच्छृङ्खलता को प्रश्रय देने के विरोधी थे। उनके समकालीन रत्नाकर शान्ति, दीर्पकर आदि आचार्य भी बौद्ध तान्त्रिकों की इस बढ़ती हुई अनैतिकता के घोर विरोधी थे और पारमिताओं की नैतिक अनुशासनबद्धता की ओर लौट रहे थे। किन्तु सम्प्रदाय के सामान्य साधक निरन्तर नैतिक पतनों की ओर बढ़ रहे थे। राग की राग से विशुद्धि या शमन न होकर विकृति ही हो रही थी।

जब तक सिद्धों का अन्य साहित्य प्रकाश में नहीं आता तब तक उनके सम्प्रदाय के परिणित काल का स्पष्ट चित्र हम नहीं अंकित कर सकते किन्तु कुछ वाह्य प्रमाण ऐसे अवश्य मिलते हैं कि उनकी प्रवृत्तिमयी साधना उनके सामान्य अनुयायियों को राग, लिप्सा और द्वेष की ओर ले गई थी। नैतिक बन्धन इतने ढीले हो गये थे कि अनाचार की सीमा तक पहुँच चुके थे। इस अनाचार की चरम सीमा ओदन्तपुरी विहार में पहुँच चुकी थी।

तारानाथ का कहना कि उन्होंने तान्त्रिक पद्धतियों को लज्जाजनक सीमा तक विकृत कर दिया था। वे पतित हो गये थे। उद्भ्रान्त हो गये थे। कई स्थानों पर सिन्धु और सिंहल के भिक्षुओं ने हेरुक की मूर्ति चुराकर उसकी चाँदी बाजार में बेच दी थी और इसके दंडस्वरूप तत्कालीन शासक ने उन्हें प्रायदंड दिया था।^{१९} तारानाथ ने एक दूसरे स्थल पर यह भी संकेत किया है कि बहुत से ऐसे भिक्षु थे जो तंत्रों में भी निषिद्ध-गर्हित क्रियाओं में भाग लेने के कारण वज्रयानी परम्परा से भी बहिष्कृत कर दिये गये थे और यवनों में जाकर मिल गये थे। ऐसे एक भिक्षु का उल्लेख मिलता है जिसका नाम शुलिक था और यवनों से मिलने के बाद उसने अपना नाम भाठर रख लिया था। उसका शिष्य पैगम्बर (सम्भवतः यह पैगम्बर का तिब्बती अपभ्रंश रूप है) हुआ जो मक्के गया और ग्लेच्छों को उभार कर बौद्धों का कल्लेआम कराने लगा।^{२०}

बौद्धों के दूसरे परम शत्रु उस समय वैष्णव थे। वैष्णवों ने बौद्धों पर अत्याचार तो नहीं किया किन्तु वैष्णव दर्शन के आगे बौद्ध भिक्षु कांपा करते थे। जैसे तारानाथ ने यह भी लिखा है कि तीर्थिकों ने उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश किया और जालन्धर से मगध तक के बौद्ध मन्दिरों को जलाया।^{८१} किन्तु यह साम्प्रदायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण गढ़ी हुई कथा मालूम पड़ती है। उसका केवल यही अंश सत्य है कि वैष्णव जीवन-दर्शन वज्रयानी जीवन-दर्शन से कहीं अधिक सुलभा हुआ था। उसी समय बंगाल के पाल तथा चन्द्र वंश को अप्रदस्थ कर जो वंश स्थापित हुए उनमें एक वंश परम वैष्णव था और दूसरा शैव।

वैष्णव तथा शैव इन दोनों सम्प्रदायों की ओर से बौद्ध तान्त्रिकों का घोर विरोध हुआ और सहज-पद्धति के गुह्य-अनुष्ठानों का दोनों ने बहिष्कार किया। सिद्धों की साधना में से केवल योग पद्धति और हठयोग द्वारा सहज समाधि का अंश नाथ योगियों ने अपनाया जो शैव थे और इन शैवों ने मैथुन और नारी-संग का पूर्ण बहिष्कार किया। सहज-साधना में से अनुष्ठानों के अंश और कुत्सित गुह्य आचारों का बहिष्कार कर केवल सहज भाव के प्रेम को वैष्णवों ने अपनाया।

सिद्धों के वज्रयान के उन्मूलन में यवनों और वैष्णवों से भी अधिक उन शैव हठयोगियों का हाथ रहा है जो आदि-नाथ शिव के अनुयायी थे। गोरख-नाथ नामक एक महान धर्माचार्य ने इन कुत्सित अनुष्ठानों के विरुद्ध विद्रोह किया। गोरखनाथ में अदम्य साहस, निर्भीकता, संगठन शक्ति और वैराग्य था। उन्होंने समस्त देश का पर्यटन किया। सभी प्रान्तों में अपने केन्द्र स्थापित किये। योगियों का संगठन सैनिक आधार पर किया और तान्त्रिक साधनाओं का पूर्ण-तया मूलोच्छेदन कर दिया। इसके लिये उन्हें स्वतः अपने गुरु का भी विरोध करना पड़ा।

उनके गुरु मत्स्येन्द्र बौद्ध तथा शैव दोनों सम्प्रदायों द्वारा आदृत थे और दोनों पद्धतियों के आचार्य बताये गये हैं। इसीलिये उनके नाथ-पन्थ में वज्रयानी सिद्धों की कितनी ही प्रक्रियाएँ और शब्दावली अन्तर्भुक्त हो गई थीं जो बाद तक चलती रहीं, यद्यपि गोरख ने उनमें से तान्त्रिक अनुष्ठानों के अंश

सिद्धों की साम्प्रदायिक स्थिति

और बौद्ध साम्प्रदायिक अंश को या तो निकाल दिया या उनकी दूसरी व्याख्याएँ प्रचारित कर दीं। इन्हीं परवर्ती सम्प्रदायों की विकास-परम्परा के साथ साथ विकसित होते हुए बहुत से वज्रयानी शब्द और प्रवृत्तियाँ नई लोकभाषा हिन्दी के योगेश्वरी तथा सन्त-साहित्य तक चली आईं।

ख
परवर्ती सम्प्रदायों का
विकास

गोरखनाथ तथा उनके सम्प्रदाय के विषय में विभिन्न विद्वानों ने जो मत प्रस्तुत किए हैं वे भी प्रामाणिक सामाग्री के अभाव में अधिकतर अनुमानात्मक हैं। जहाँ तक बौद्ध सिद्ध-परम्परा और गोरखनाथ का सम्बन्ध नाथ-सम्प्रदाय है, कुछ मतों तथा किंवदन्तियों का उल्लेख कर देना आवश्यक है, यद्यपि उन्हें किसी प्रमाण के अभाव में विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। बौद्ध किंवदन्तियों में गोरखनाथ वज्रयानी साधक माने गये हैं जो बाद में शैव हो गये। तारानाथ उनका वज्रयानी नाम अनंगवज्र बताता है और म० हरप्रसाद शास्त्री ने रमणवज्र नाम का उल्लेख किया है। उनका यह भी कहना है कि नेपाल के बौद्ध लोग गोरखनाथ पर बहुत क्रुद्ध हैं और उन्हें पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी और बाद में उसका शत्रु मानते हैं।^१ सिल्वियाँ लेवी ने नेपाल के बौद्धों में प्रचलित एक दन्तकथा का उल्लेख किया है जिसके अनुसार गोरख के समस्त अनुयायी पहले बौद्ध थे बाद में यवनों के भय से बौद्ध धर्म छोड़कर ईश्वरवादी (शैव) हो गये। एक विद्वान ने तो असंग अथवा नागार्जुन और गोरखनाथ को एक ही मानने का सुभाव रक्खा है।^२

ये अधिकांश किम्बदन्तियाँ अप्रामाणिक हैं और इनके आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचना अवैज्ञानिक होगा किन्तु ये किम्बदन्तियाँ इस बात की ओर अवश्य संकेत करती हैं कि बौद्ध साधनाएँ नाथ-परम्परा से बहुत घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थीं। स्वतः बौद्ध तांत्रिक सम्प्रदाय के संस्कृत तथा अपभ्रंश साहित्य

परवर्ती सम्प्रदायों का विकास

में शैव साधनाएं और शैव प्रवृत्तियाँ प्रविष्ट हो चुकी थीं जिनकी ओर हम पीछे संकेत कर चुके हैं। दोहा तथा चर्यामदों में कई स्थलों पर सिद्धों के लिये, या गुरु के लिये या वज्रसत्व के लिए नाथ विशेषण का प्रयोग हुआ है। सरहना ने उसे नाथस्वरूप कहा है जिसका चित्त विस्फुरित हो जाय 'जत वि चित्तिहि विक्रुरइ तत्त वि णाह सरुअ ।'³ काणहपा भी उसे नाथ कहते हैं, जो मन को निश्चल कर ले 'जो णत्थु णिच्चल किअउ मण सो धम्मक्खर पास ।' ऐसे ही साधक को काणहपा वज्रधरनाथ भी कहते हैं⁴ और वह ग्रहिरणी (प्रज्ञा महामुद्रा) का स्वामी होता है। प्रज्ञोपाय-विनिश्चय-सिद्धि, साधनमाला तथा कुछ अन्य अमुद्रित कृतियों आदि में नाथों का जो उल्लेख मिला है उसके आधार पर डा० वड्ड्वाल का यह अनुमान है कि बौद्ध-परम्परा में ही वज्रनाथी सम्प्रदाय का उद्भव हो चुका था और वज्रनाथी साधक केवल नाममात्र के लिये ही बौद्ध थे और उनमें नाथ शब्द गुरु के लिये (लामा का संस्कृत पर्याय) प्रयुक्त होता था क्योंकि गुरु वज्रकायाधारी अजर और अमर माना जाता था।⁵ डा० वड्ड्वाल का मत है कि अधिकांश बौद्ध सिद्ध विचारधारा के अनुसार नाथग्रन्थी हैं किन्तु सांप्रदायिक परम्परा के अनुसार बौद्ध।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वानों के मत दो सीमाओं पर हैं। कुछ लोग गोरखनाथ और उनके सम्प्रदाय को वज्रयान की शैव शाखा मानते हैं और कुछ लोग स्वतः बौद्ध सिद्धों को प्रच्छन्न नाथग्रन्थी। इन दोनों ही मतों में अनुमान की प्रबलता अधिक है वैज्ञानिक तर्कों का आश्रय कम और इसलिये दोनों में से किसी भी मत को पूर्णतया ग्रहण नहीं किया जा सकता। अधिक से अधिक हम यह जान सकते हैं कि एक ही भूभाग में बहुत दिनों तक शैव तथा बौद्ध तन्त्र और योग साधनाएं समानान्तर रूप से चलती रहीं और कामरूप आदि कई केंद्र ऐसे भी थे जहाँ दोनों के ही तन्त्रपीठ होने के कारण दोनों पद्धतियों में पर्याप्त आदान प्रदान हो रहा था जिसकी ओर हम पीछे कई बार संकेत कर चुके हैं।

इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि गोरखनाथ नाथ-सम्प्रदाय के प्रवर्तक नहीं थे। वे उसके अत्यन्त सबल प्रचारक आचार्य तथा संगठनकर्ता थे। यह नाथ परम्परा और कनफटी साधनाओं की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है और किसी न किसी रूप में पाशुपत लाकुलीश मत से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह कहना है कि गोरखनाथ ने योगमार्ग को एक व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने शैव प्रत्यभिज्ञा दर्शन के सिद्धान्तों

के आधार पर बहुविस्तृत कायायोग के साधनों को व्यवस्थित किया, आत्मानुभूति और शैव परम्परा के सामंजस्य से चक्रों की संख्या नियत की। उन दिनों अत्यंत प्रचलित वज्रयानी साधना के पारिभाषिक शब्दों के साम्प्रदायिक अर्थ को बलपूर्वक पारमार्थिक रूप दिया और अब्राह्मण उद्गम से उद्भूत सम्पूर्ण ब्राह्मण विरोधी साधनामार्ग को इस प्रकार संस्कृत किया कि उसका रूढ़ि विरोधी रूप ज्यों का त्यों बना रहा किन्तु उसकी अशिक्षाजन्य प्रमादपूर्ण रूढ़ियाँ परिष्कृत हो गईं।^{१०}

गोरखनाथ को शैव योग परम्परा किस रूप में मिली थी और उसमें उन्होंने क्या सुधार किया था इसका कोई भी प्रामाणिक विवरण नहीं दिया जा सकता किन्तु उन्होंने बौद्ध तान्त्रिक प्रभावों का कड़ा विरोध किया था ऐसा आभास अवश्य मिलता है। डा० द्विवेदी भी उन पर ब्राह्मण प्रभाव विशेष मानते हैं।^{११} गोरखनाथ तथा उनके गुरु मत्स्येन्द्रनाथ के विषय में जो भी किम्बदनियाँ प्रचलित हैं उनसे यह आभास अवश्य मिलता है कि तान्त्रिक वाप्याचारी साधनाओं को लेकर गुरु शिष्य में कुछ मतभेद अवश्य था। मत्स्येन्द्र के नाम से शैव-कौल-तन्त्र की जिन पुस्तकों का सम्पादन डा० बागची ने किया है वे काफी प्राचीन हैं (११वीं शती) और उन्हें मत्स्येन्द्र की पद्धति के अन्तर्गत न मानने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता है। कौलज्ञान निर्णय, अकुलवीर, कुलानन्द तन्त्र तथा ज्ञानकारिका आदि कृतियों में सहज-शून्य, वज्र आदि बहुत वज्रयानी शब्दों का प्रयोग मिलता है जिनका आगे यथास्थान उल्लेख किया जायगा। इन कृतियों का प्रमुख स्वर शैव है और अकुलवीर तन्त्र में तो स्पष्टतः बौद्ध सम्प्रदाय का विरोध मिलता है।^{१२} किन्तु उसकी साधनापद्धति तान्त्रिक है और ज्ञात यह होता है कि इन्हीं तान्त्रिक अंशों का बहिष्कार कर गोरखनाथ ने अपने सम्प्रदाय का गठन किया होगा। इस आधार पर डा० द्विवेदी का यह मत समीचीन प्रतीत होता है कि गोरखनाथ की साधना का मूलस्वर शैव, संयम और शुद्धतावादी है और उन्होंने तान्त्रिक उच्छ्वलताओं का विरोध कर 'निर्दम हथौड़े से साधु और गृहस्थ दोनों की कुरीतियों को पूर्ण कर दिया।'^{१३} विरोध केवल बौद्ध तन्त्रों से ही नहीं शाक्तों और शैवों से भी था। 'योगि-सम्प्रदायाविष्कृति' की वाममार्ग तथा गोरखनाथ की कथा भी इस परम्परा की ओर अप्रत्यक्ष संकेत करती है।^{१४}

गोरखनाथ ने अपने सम्प्रदाय का संगठन करते समय बहुत से पूर्ववर्ती

परवर्ती सम्प्रदायों का विकास

सम्प्रदायों को अपने योग मार्ग में स्वीकृत कर लिया था। डा० द्विवेदी का अनुमान यह है कि उनके पहले दो प्रकार के दल विद्यमान रहे होंगे। क—ऐसे जो योगमार्गी थे किन्तु शैव या शाक्त नहीं थे, ख—वे जो शैवागमवादी थे किन्तु योगमार्गी नहीं थे। दोनों ही प्रकार के कई सम्प्रदाय जो पूर्ववर्ती थे गोरखनाथ के संगठन में सम्मिलित हो गये और उनके प्रवर्तकों को गोरखनाथ का शिष्य समझा जाने लगा।^{१२} इनमें से वाममार्गी, शाक्त, बौद्ध, अघोर आदि सम्प्रदाय भी रहे होंगे। यहाँ तक कि उनमें कुछ जैन तान्त्रिक सम्प्रदाय भी अन्तर्भुक्त हुए हैं। डा० बसन्त ने आजीवकों के कुछ सम्प्रदायों की तुलना नाथपन्थियों से की है और जैन परम्परा से नाथपन्थ का सम्बन्ध जोड़ा है।^{१३} गोरखनाथ तथा काएहपा की जो शैव कथाएँ मिलती हैं उनसे वह भी ज्ञात होता है कि किसी समय काएहपा की पद्धति के बहुत से अनुयायी बौद्ध धर्म छोड़ कर शैव नाथपन्थ में दीक्षित हो गये थे। इसी प्रकार अवधूत सम्प्रदाय ने भी किसी समय गोरखनाथ का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। दत्तात्रेय को अवधूत सम्प्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है, कुछ लोग उसका सम्बन्ध बौद्धों की धूतांग साधना से भी बताते हैं, किन्तु वह योगमार्गी था इसमें सन्देह नहीं।

इस समय गोरखनाथ के नाम पर जो भी ग्रन्थ प्रचलित हैं या उनके सम्प्रदाय में जो भी प्राचीन ग्रन्थ सर्वमान्य हैं उनमें योगमार्गी के साथ साथ कहीं कहीं तान्त्रिक प्रवृत्तियाँ भी मिल जाती हैं। गोरख-सिद्धान्त-संग्रह में षोडश-मित्यातन्त्र का उद्धरण देकर नाथों को तन्त्रों का भी प्रवर्तक मान लिया गया है।^{१५} ज्ञात यह होता है कि बाद में जो सम्प्रदाय नाथ पन्थ में सम्मिलित हुए उनमें से कई तान्त्रिक प्रवृत्तियाँ और साधनाएँ अपने साथ लेते आये। हठ-योगप्रदीपिका में महामुद्रा का जैसा उल्लेख है और वज्रोली, सहजोली आदि साधनाओं का जो वर्णन है वह स्पष्टतः वज्रयानी परम्परा से प्रभावित मालूम पड़ता है।

यह वज्रयानी तान्त्रिक प्रभाव सूफियों तक भी पहुँच रहा था। ज्ञात यह होता है कि मुसलमानी आक्रमण के समय बहुत से ऐसे सम्प्रदाय सानूहिक रूप से मुसलमान हो गये जो मूलतः तान्त्रिक साधनाओं में विश्वास करते थे। ऐसे सम्प्रदायों ने यवन हो जाने के बाद भी गुप्त रूप से तान्त्रिक साधनाएँ जारी रखीं। फ़ीरोज़शाह तुग़लक के समय तक ऐसे मुस्लिम सम्प्रदायों का उल्लेख

मिलता है जिनमें-रात्रि को तान्त्रिक चक्र की योजना होती थी और प्रत्येक साधक पत्नी, माता, भगिनी और पुत्री आदि के साथ उस भैरवी-चक्र में प्रवृत्त होता था। तुगलक ने उनका क्लेशग्राम करा दिया था। पूर्वी भारत में दीनाजपुर के कुछ शाह मदर के अनुयायी मुसलमान जोगी हैं^{१६} जिनमें सूफी, और योग-मार्ग का विचित्र सम्मिश्रण मिलता है।^{१७} पंजाब में भी ऐसे मुसलमान जोगी मिलते हैं जो मुहम्मद के चमत्कार की गाथाएँ गाते हैं यद्यपि उनकी साधना-पद्धति योगमार्गी मालूम पड़ती है।^{१८} योगमार्ग के माध्यम से बहुत से वज्रयानी शब्द और परम्पराएँ जायसी की सूफी परम्परा तक जा पहुँची हैं जिन पर हम आगे दृष्टिपात करेंगे। पूर्वी भारत में यही परम्परा बाउल साधना के रूप में विकसित हुई जिसमें सूफी-साधना, सहज-साधना और नाथ योग-साधना का सम्मिश्रण हुआ है।

नाथ-पन्थ का प्रभावक्षेत्र केवल उत्तर-पूर्वीय भारत नहीं था। वह समस्त देश में विस्तृत था और प्रत्येक प्रान्त में वह नये सम्प्रदायों के सम्पर्क में आया था जिसकी कितनी ही प्रवृत्तियाँ उसमें समाविष्ट होती गईं। दक्षिण में कुछ जोगी नाग पूजा करते हैं,^{१९} महाराष्ट्र में कुछ जोगी भैरव को पूजते हैं और गृहस्थ जीवन बिताते हैं।^{२०} मलयाली गुरुकुल जोगी कालीपूजक हैं और मैथुन साधना में विश्वास करते हैं,^{२१} पंजाब के रावल, लाकुलीश मत के पुराने अनुयायियों का शैव रूप है। सामाजिक दृष्टि से पूर्वी भारत की बहुत सी योगी जातियाँ भी गृहस्थ थीं।^{२२} द्विवेदी जी का अनुमान है कि कबीर ऐसी ही किसी यवन वयनजीवी योगी जाति में पैदा हुए थे। वज्रयानी सहज और शून्य आदि की परम्पराएँ इसी प्रकार कबीर को मिली होंगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है।

विद्वानों का अब इस विषय में विशेष मतभेद नहीं रहा कि सन्त-परम्परा निर्गुण को मान्यता देते हुए भी केवल ज्ञानाश्रयी नहीं है, उसका मूल स्वर भक्ति का स्वर है। यह एक ऐसी विशेषता है जो गोरखनाथ तथा सन्त-परम्परा उनके अनुयायियों के साहित्य में नहीं मिलती। डा० द्विवेदी स्पष्ट लिखते हैं, 'केवल एक वस्तु वे कहीं से नहीं ले सके। वह है भक्ति। वे ज्ञान के उपासक थे और लेश मात्र भावालुता को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।'^{२३} इस दृष्टि से कबीर और गोरख के स्वरों में दो ध्रुवों का अन्तर आगया था। कबीर, दादू, आदि का परिचय जिस नवीन भक्ति-साधना से

परवर्ती सम्प्रदायों का विकास

हुआ था, उसके प्रति उनमें विशेष उत्साह था, उन्होंने एक नई निष्ठा, एक नई आस्था ग्रहण की थी जिसमें ज्ञान और योग गौण थे, भावना और भजन प्रमुख थे ।

किन्तु फिर भी उन्होंने योगमार्ग का परित्याग नहीं किया था । त्वतः कबीर को भक्ति की दीक्षा जिस गुरु से मिली थी उसने योग तथा भक्ति का समन्वय करने का प्रयास किया था । रामानन्द तथा उनके गुरु राघवानन्द जी, विशिष्टा-द्वैतवादी थे किन्तु परम्पराओं से ज्ञात होता है कि दोनों ही सिद्ध योगी थे । किम्ब-दन्ती तो यहाँ तक कहती है कि रामानन्द का अल्पालु में मारक योग था । पहले वे किसी अद्वैतवादी गुरु के शिष्य थे जो उन्हें राघवानन्द को सौंप गया । राघवानन्द ने उन्हें पूर्णयोगी बना दिया और जिस समय उनका मारकयोग था, उन्हें पूर्ण समाधिस्थ हो जाने की आज्ञा दी । इस प्रकार काल उन्हें छू भी नहीं पाया ।^{२४} गुरु राघवानन्द के नाम पर सिद्धान्त-पंचमात्रा नामक जो कृति डा० बड़थवाल को मिली है उसमें भी उनकी परम्परा के किसी शिष्य ने उनके साधनामार्ग को योग और प्रेमका समन्वित रूप बताया है ।^{२५} राजा दलजीतसिंह ने भी डा० मोहनसिंह की पुस्तक के प्राक्कथन में रामानन्द पर गोरखनाथ के योगमार्ग के गहरे प्रभाव का उल्लेख किया है । राघवानन्द की शिष्य-परम्परा में १७वीं शताब्दी के किन्हीं मिहीलाल ने भी उन्हें अवधूतवेशधारी बताया है ।^{२६}

इस प्रकार कबीर को भक्ति की दीक्षा जिस गुरु से मिली, वह भी योग-मार्ग को भक्ति का विरोधी नहीं मानता था और इसलिये कबीर ने भक्ति के साथ साथ योग को भी प्रश्रय दिया और योगमार्गी परम्पराओं में जो भी वज्रयानी साधना-पद्धतियाँ, पारिभाषिक शब्द, प्रतीक और उलटवासियाँ चली आ रही थीं वे सब को तथा उनके अनुयायी सन्तों को उत्तराधिकार रूप में प्राप्त हुईं । तब तक वज्रयानी सिद्धों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव शेष रहा हो ऐसी कोई सम्भावना नहीं है । वास्तव में कबीर तथा अन्य सन्तों ने ये प्रभाव छोटे छोटे योगमार्गी सम्प्रदायों से ग्रहण किये जिनमें वज्रयानी परम्पराएँ किसी प्रकार शेष रह गई थीं, किन्तु समय के साथ साथ उनमें भी बहुत कुछ परिवर्तन और विकास हो चुका था ।

ऐसे ऐसे छोटे छोटे सम्प्रदाय पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत दोनों ही क्षेत्रों में अवशिष्ट थे और साधारण निम्न वर्ग की जनता में उन का यथेष्ट प्रभाव था । कबीर तथा अन्य सन्तों का कार्यक्षेत्र निम्न वर्ग ही था अतः उन्हें

उन्हीं सम्प्रदायों द्वारा स्वीकार शब्दावली अपनानी पड़ी होगी किन्तु सन्तों ने उन्हें अपने स्वाधीन अर्थ दे दिये । लगभग यही गोरखनाथ ने अपने समय में प्रचलित वज्रयानी सम्प्रदायों के लोकप्रिय पारिभाषिक शब्दों के साथ किया था । अतः यह प्रभाव वास्तव में इस रूप में नहीं था कि सन्तों ने वज्रयानी साहित्य पढ़ा हो या सिद्धों के वचन सन्तों के समय तक ज्यों के त्यों प्रचलित हों और उन्हींने उसमें से बहुत सा अंश अपना लिया हो । वास्तविकता तो यह है कि जिस समय कबीर ने सहज शून्य आदि का व्यवहार किया उस समय उन्हें इसका लेशमात्र आभास भी न रहा होगा कि ये शब्द उन्हीं सिद्धों के हैं जिनके विषय में स्वतः कबीर लिखते हैं 'षट्दरसन संसे पड़्या अस चउरासी सिध'।^{२७} भक्ति के आगे सिद्ध और सिद्धों के प्रति कबीर तथा परवर्ती सन्तों ने एक घोर उपेक्षा का भाव आ गया था, यहाँ तक कि पलट्टदास भक्ति के मार्ग में केवल सन्तों का ही गुजर बताते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि :

सिध चौरासी, नाथ नौ बीचै सबै भुलान

बीचै सबै भुलान भक्ति की मारग छूटी

हीरा दिहिन है डारि लिहिन हैं कौड़ी फूटी ।^{२८}...

इसी प्रकार एक ओर सन्त लोग चौरासी सिद्धों और नौ नाथों की उपेक्षा कर रहे थे किन्तु दूसरी ओर उन्हीं सिद्धों द्वारा प्रयुक्त और नाथों द्वारा नई व्याख्या से समन्वित पारिभाषिक शब्दों द्वारा योग प्रवृत्तियों को ग्रहण कर उसको एक नया अर्थ देने का प्रयास कर रहे थे ।

किन्तु इन शब्दों का इतिहास सर्वथा एकांगी रह जायगा यदि हम केवल हिन्दी की नाथ और सन्त-परम्परा तक ही अपने अध्ययन को सीमित रखेंगे ।

उस समय पूर्वी और पश्चिमी भारत में कई ऐसे छोटे छोटे पूर्वी भारत के सम्प्रदाय १२ वीं शती से १६ वीं शती तक जीवित थे जिनमें अन्य सम्प्रदाय सहज, शून्य, निरंजन आदि शब्दों को ग्रहण कर योग

तथा भक्ति का समन्वय किया गया था । ये सम्प्रदाय तथा इनका साहित्य समय समय पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी के नाथ तथा सन्त साहित्य को प्रभावित करता रहा है । अभी तक इन सम्प्रदायों का विस्तृत विवरण नहीं मिल पाया है किन्तु पूर्वी भारत के धर्म-, सम्प्रदाय और पंचसखा सम्प्रदाय के विषय में जो कुछ ज्ञात हुआ है वह हिन्दी सन्त-साहित्य में प्रयुक्त कई वज्रयानी

परवर्ती सम्प्रदायों का विकास

पारिभाषिक शब्दों के इतिहास पर सर्वथा नवीन प्रकाश डालता है। इनमें से धर्म सम्प्रदाय की परम्परा तो १२ वीं शती तक मिल जाती है, किन्तु उड़ीसा का पंचसखा सम्प्रदाय अपेक्षाकृत नवीन है, और उसके प्रवर्तकों का समय १६ वीं शती माना जाता है।^{२९} इन पाँच वैष्णव कवियों का नाम अच्युतानन्ददास, बलरामदास, जगन्नाथदास, अनन्तदास और यशोवन्तदास था। वसु महोदय द्वारा उद्धृत इनकी कविताओं में स्थान स्थान पर कृष्ण को शून्य रूप कहा गया है और शून्य के मध्य में निरंजन तथा निरंजन में स्वतः भगवान की स्थिति बताई है। वसु महोदय का यह मत है कि यह सम्प्रदाय प्रच्छन्न बौद्ध सम्प्रदाय है क्योंकि प्रतापशर नाम उड़ीसा राजा बौद्धों का विरोधी था और उनपर अत्याचार करता था। उसी समय प्राणभय से बहुत से बौद्धों ने वैष्णव दीक्षा लेकर प्राण बचाये। किन्तु डा० दासगुप्त तथा डा० द्विवेदी इस से पूर्णतया सहमत नहीं हैं। डा० दासगुप्त का कथना है कि पंचसखा तथा धर्मसम्प्रदायों में कुछ बौद्ध प्रवृत्तियों और हिन्दू प्रवृत्तियों का मेल अवश्य हुआ है किन्तु वे बौद्ध-धर्म के उस रूप से आई थीं जो शुद्ध बौद्ध रूप न होकर तान्त्रिक बौद्ध धर्म था और हिन्दू तन्त्रों से बहुत भिन्न नहीं था।^{३०} डा० द्विवेदी का भी मत इसी पक्ष में है कि इन सम्प्रदायों को प्रच्छन्न न कह कर केवल यह कहा जाना चाहिये कि इन्होंने बहुत से ऐसे शब्दों को ग्रहण कर लिया था 'जिनका बौद्ध साधना से सुन्दर सम्बन्ध था।'^{३१} आगे चल कर इस सम्प्रदाय में सृष्टिकथा का जो रूप मिलता है (महादेवदास की धर्मगीता में) वह यह बताता है कि धर्म-सम्प्रदाय की सृष्टिकथाओं को इस सम्प्रदाय में भी मान्यता मिल गई।

धर्म-सम्प्रदाय पञ्चसखाओं के वैष्णव सम्प्रदाय से अधिक पुराना और अधिक महत्वपूर्ण है। पश्चिमी बङ्गाल, उड़ीसा, छोटा नागपुर से रीवा तक किसी समय धर्म देवता की पूजा प्रचलित थी और बङ्गाल के वीर-धर्म सम्प्रदाय भूम जिले तथा उड़ीसा के कुछ भागों में अब भी यह सम्प्रदाय जीवित है यद्यपि उसका रूप बहुत कुछ वैष्णव या शैव हो गया है। यह सम्प्रदाय किसानों, डोम, वागड़ी, मछुवे, बढई तथा इसी प्रकार की निम्न जातियों में प्रचलित था। डा० दासगुप्त का मत है कि इस सम्प्रदाय से बौद्ध प्रभावों की परम्परा का सन्ध है। सहजयानी महासुद्रा साधना या वज्रयोग का कोई भी विशेष प्रभाव इस सम्प्रदाय के साहित्य में नहीं उपलब्ध होता, किन्तु

क्रिया-संग्रह आदि वज्रयानी ग्रन्थों में उपलब्ध तान्त्रिक अनुष्ठान-पद्धतियों से धर्म सम्प्रदाय के पुराने ग्रन्थों की विषय-वस्तु बहुत मिलती जुलती है।³² उनका यह भी कहना है कि धर्म ठाकुर की अर्द्धांगिनी शीतलादेवी वास्तव में बौद्ध देवी हारीति ही हैं जो वेश और नाम बदल कर धर्म सम्प्रदाय में स्वीकृत कर ली गई हैं।³³ यह धर्म ठाकुर वास्तव में बौद्धों के बुद्ध, धर्म-और सङ्घ में से लिया गया धर्म है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत था। डा० बसु तो धर्म पूजा में प्रयुक्त शंख को भी सङ्घ का ही प्रतीक मानते हैं।³⁴ किन्तु उपरोक्त मतों का कोई विशेष प्रामाणिक आधार न होने के कारण डा० दासगुप्त इसे अस्वीकार करते हैं। वास्तव में इस धर्म सम्प्रदाय का संयोजन १२ वीं शती के लगभग रमाई परिडत के द्वारा किया गया है और उसमें उस समय जनता में व्याप्त अनुष्ठानों, विश्वासों और देवी देवताओं को एक नियमित शृङ्खलाबद्धता देकर धर्म ठाकुर के पूजा विधान में सम्मिलित कर लिया गया है। यह धर्म संज्ञा भी वास्तव में सन्थाल मुंडा औराव आदि आस्ट्रो-एशियायी जातियों में प्रचलित एक शब्द का संस्कृत रूपान्तर है। वह शब्द है 'दुलि' जिसका अर्थ कछुआ होता है। यह शब्द उत्तरकालीन संस्कृत भाषा में भी ग्रहण कर लिया गया है और चर्यापदों में भी एक स्थान पर कछुए के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। 'दुलि दुहि पिटा धरणि न जात्र' (चर्यापद २)। टीकाकार यहाँ दुलि का सांकेतिक अर्थ महासुख चक्र वतता है जिसमें द्रयाकार लीन हो जाते हैं। स्वार्थक प्रत्यय श्रोम जोड़कर इसका रूप दुलोम, दुरोम, डुरोम आदि हो जाता है।³⁵ यह डुरोम या कच्छप आरोवों और सन्थाल आदि जातियों का सर्वमान्य देवता था और यह ज्ञात होता है कि बाद में इसे संस्कृत के धर्म शब्द के कच्छप रूप में और कभी कच्छप को धर्म के वाहन के रूप में परिकल्पित किया जाता रहा।³⁶ महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री आदि विद्वान जो आदिवासियों की इस कच्छप पूजा और दुलि शब्द के इतिहास से अवगत नहीं थे वे धर्म ठाकुर के कच्छपरूप को बौद्ध स्तूप का ही रूपान्तर मानते रहे। किन्तु उन्होंने ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख किया जिनसे ज्ञात होता है कि बङ्गाल के पुरोहित धर्म ठाकुर को धीरे धीरे शैव या वैष्णव देवता का रूप देते रहे।³⁷ लगभग कुछ ऐसा ही इतिहास पुरी के जगन्नाथ का है जो मूलतया बौद्ध देवता थे या धर्म ठाकुर के ही बौद्ध रूपान्तर मात्र थे। धर्म-पूजा-विधान तथा गोविन्द-विजय आदि कृतियों में इसका उल्लेख मिलता है।³⁸

परवर्ती सम्प्रदायों का विकास

कवीरपन्थ के साहित्य में भी हमें यह कथा एक दूसरे रूप में मिलती है। धर्म-पूजा-विधान में कहा गया है कि बौद्ध जगन्नाथ ही ब्रह्माल में धर्म ठाकुर का रूप धारण करेंगे। कवीर-पन्थी ग्रंथ लक्ष्मणबोध में यह कवीर पन्थ कथा इस प्रकार मिलती है।

और धर्म

सम्प्रदाय

श्रीकृष्ण वचन

... ..

तब बोले अस गोविन्दराई । पेइ एक तुम वेगि बढाई ।
मट्टी धरो पेइ के माई । सो पेइ तुम देहु बढाई ।
पेइ सोइ उड़ीसा जाई । बौद्धावतार की मांड मडाई ।
ठाकुर कहा सो बलभदर कीना । एक पेइ बनाय कर लीना ।

... ..

अब कलियुग बैठेगा सोई । बौद्ध थापना हमरो होई ।
जगन्नाथ मम नाम है सोई । हमरी थापना यही विधि होई ।^{३९}

जयदेव के ही समय से बुद्ध को अवतारों में गिन लिया गया था और जगन्नाथ को कृष्ण का बौद्धावतार माना जाता था। कवीर-पन्थ में सतगुरु कवीर का महत्व बढ़ाने के लिये कुछ अन्य कथाएँ भी जोड़ दी गईं और लक्ष्मणबोध में निरंजनगोष्ठी का हवाला देते हुए कहा गया है कि निरंजन ने कवीर से प्रार्थना की कि जब मेरा जगन्नाथ का अवतार होगा तब समुद्र मेरे मन्दिर को तोड़ेगा और आप उसे बचायें। सतगुरु कवीर ने उसे आश्वासन दिया और कई बार मन्दिर टूट जाने पर वे गये और समुद्र की ओर मुख कर बैठ गये। समुद्र ब्राह्मण के वेश में आया और बोला 'महाराज, मैं तो जगन्नाथ के मन्दिर को तोड़ने आया था। आप सम्मुख बैठे हैं तो सामर्थ्यविहीन हूँ।' इसी प्रसंग में एक तथ्य और महत्वपूर्ण है। उस बौद्ध-वैष्णव मन्दिर का पंडा जब पूजन के हेतु आया तब कवीर का वेश यवन साधु का वेश था अतः वह मन में हिचका। तब कवीर ने ऐसा चमत्कार किया कि समस्त मन्दिर में कवीर की ही यवन वेश-धारी मूर्तियाँ दिखाई देने लगीं। अन्त में कवीर ने उस इन्द्रजाल का निवारण किया और आदेश दिया कि आज से इस मन्दिर में जात-पांत, छुआछूत आदि का कोई विचार नहीं होगा।^{४०} इस कथा में कवीर का महत्व बढ़ाने के लिये

इसको यह रूप दिया गया है किन्तु इससे स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव किस रूप में उड़ीसा क्षेत्र में शेष रह गया था। हिन्दू-सुस्लिम एकता की उपरोक्त भावना भी कबीरपन्थी कथा से पुरानी है क्योंकि धर्मपूजा विधान में जगन्नाथ के मन्दिर में साम्प्रदायिक भेदभाव भुलाने का आदेश मिलता है। यह भी ज्ञात होता है कि किसी समय धर्म-सम्प्रदाय का उच्चवर्गीय हिन्दुओं^{४१} ने विरोध किया था और मुसलमानों ने उसको प्रश्रय दिया था।

कबीरपन्थ में धर्म सम्प्रदाय से एक वस्तु और आई है, वह है सृष्टि प्रक्रिया और उसमें निरंजन का स्थान। निरंजन की प्रजापति ब्रह्मा के समानान्तर कल्पना कर निरंजन और माया के सहगमन से समस्त सृष्टि के उद्भव की कथा धर्म-संप्रदाय के शून्य-पुराण और परवर्ती मंगल ग्रन्थों में, उड़ीसा-वैष्णव साहित्य, बंगाल के नाथ-साहित्य में और कबीरपन्थ के साहित्य में थोड़े बहुत रूपान्तर से लगभग एक सी मिलती है। कुछ विद्वानों ने इस सृष्टि कथा का मूल स्रोत बौद्ध ग्रन्थों तथा हिन्दू पुराणों में ढूँढने का असफल प्रयास किया है। किन्तु शरच्चन्द्रराय द्वारा संगृहीत^{४२} ग्रंथों में प्रचलित सृष्टिकथा इन कथाओं की मूल प्रेरणा प्रतीत होती है। कूर्म और अंड का इन कथाओं में जो महत्वपूर्ण स्थान है, वह भी आदिवासियों की आदिम लोककथाओं का प्रभाव मालूम पड़ता है। डा० दासगुप्त ने पूर्वी भारत के इन छोटे-छोटे सम्प्रदायों की साहित्यिक परम्परा में इन सृष्टिकथाओं के विभिन्न रूपों की समीक्षा की है^{४३} और उनमें निहित बौद्ध परम्पराओं का भी संकेत किया है। कबीरपन्थ में इस परम्परा ने जो रूप धारण किया उसपर डा० द्विवेदी ने 'कबीर' में कुछ प्रकाश डाला है।^{४४} यहाँ उसके विस्तार में न जाकर शून्य अथवा सहज का इस सृष्टि-प्रक्रिया में क्या स्थान है, इसका उल्लेख हम आगे करेंगे। जहाँ तक निरंजन का प्रश्न है डा० द्विवेदी ने कबीर-पन्थ के विकास के साथ निरंजन की स्थिति में परिवर्तनों की ओर संकेत किया है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि इस दृष्टि से सन्तों की साहित्य परम्परा में पश्चिमी क्षेत्रों में निरंजन का महत्व सदैव अक्षुण्ण रहा किन्तु पूर्वी परम्परा में साम्प्रदायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण घटता चला गया। निरंजन शब्द का प्रयोग दोहाकोष में जिन अर्थों में हुआ है इसका विवेचन हम तीसरे अध्याय में कर चुके हैं, किन्तु यह संकेत कर देना आवश्यक है कि निरंजन बौद्धों को अपेक्षा शैवों की परम्परा से अधिक घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, वैसे यह लगभग समस्त योगनागरीय सम्प्रदायों की सम्मिलित सम्पत्ति हो गया था चाहे वे

परवर्ती सम्प्रदायों का विकास

बौद्ध संप्रदाय हों, जैन हों अथवा शैव हों। पाहुड़दोहों में वज्रयानी दोहों की ही भाँति 'सुराण निरंजणु' को साधक की सर्वोच्च स्थिति माना गया है और इन्हीं कारणों से हम निरंजन का वज्रयानी साधना से उतना घनिष्ट सम्बन्ध नहीं मान सकते जितना शून्य, सहज, खसम आदि शब्दों का।

समय की दृष्टि से इन पूर्वी भारत के सम्प्रदायों का अधिकांश साहित्य कवीर के बाद का साहित्य है किन्तु रमाई पंडित कवीर के पूर्ववर्ती थे (१२वीं शती) और शून्य पुराणों में जो विभिन्न पद्धतियों का संकलन इन सम्प्रदायों का लोकभाषा साहित्य है, उनमें बहुत सा अंश कवीर से भी पूर्व का हो सकता है। डा० दासगुप्त इस सारी सामग्री की परीक्षा कर इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि शून्यपुराण के कुछ अंश १२वीं शती तक के हो सकते हैं, यद्यपि उनका उपलब्ध रूप बहुत बदला हुआ है, किन्तु धर्म-पूजा-विधान को वे बहुत बाद की कृति मानते हैं। उसके बाद 'धर्ममंगल' आदि मंगल-साहित्य की परम्परा चली है जिसका अनिवार्य प्रभाव हिन्दी के सन्त-साहित्य पर पड़ा है। सत्य तो यह है कि इनमें सारे सम्प्रदायों को वास्तव में एक सूत्र में बाँधने वाली शक्ति लोक-भाषा है। हम हिन्दी, ब्रंगाली, उड़िया आदि के साहित्यों के बीच विचार और चिन्तन के क्षेत्र में अन्तर-रेखाएँ नहीं खींच सकते। भाषा और व्याकरण का जो भी अन्तर रहा हो किन्तु एक सी शैली, एक सा स्वर, एक सी चिन्तन-पद्धति और एक ही पारिभाषिक शब्दावली लोकभाषाओं के समस्त धार्मिक साहित्यों में फैल जाती थी, और प्रदेशों की सीमाएँ उसमें बहुत थोड़े से अन्तर उत्पन्न कर पाती थीं। वास्तव में बौद्ध सिद्धों के उपलब्ध तथा नाथ-योगियों के अनुलब्ध लोकभाषा के धार्मिक साहित्य से परवर्ती सम्प्रदायों के लोकभाषा के साहित्य की परंपरा अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस सम्बन्ध में डा० द्विवेदी का यह भी मत विचारणीय है कि मध्यदेश में बौद्धों तथा नाथों के प्राचीन लोकभाषा साहित्य के न उपलब्ध होने का कारण यह है कि अपभ्रंश काल के उत्तरार्द्ध में मध्य देश के रूढ़िपूजक चिन्तकों और मनीषियों ने इन सम्प्रदायों की लोक-प्रवृत्तियों और लोकभाषा की वृत्तियों को विशेष प्रश्रय नहीं दिया था।

वास्तव में हिन्दी में नाथ-योगियों का जो भी साहित्य मिलता है वह अपने वर्तमान रूप में बहुत नया है। उसकी अधिकांश पांडुलिपियाँ १७वीं

तथा १८वीं शताब्दी के इधर की ही हैं। स्वतः डा० बड़थवाल ने इसे स्वीकार किया है।^{४५} इसलिये भाषा आदि की दृष्टि से ये सर्वथा अविश्वसनीय हैं और ये बानियां गोरखनाथ की ही हैं, केवल समय के साथ इनमें परिवर्तन हो गया है, इस पर भी विश्वास करने का कोई आधार नहीं है। कुछ बानियों को तो स्वतः डा० बड़थवाल ने गोरख-कृत नहीं माना है, शेष के विषय में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। किन्तु इन नाथपन्थी बानियों में बहुत पुराने प्रभाव शेष रह गये हैं इसमें सन्देह नहीं। नाथपन्थी ने यथासम्भव अपने साहित्य में साधना-पद्धति का वह रूप सुरक्षित रक्खा है जो सन्तों और सिद्धों के बीच एक सेतु माना जा सकता है। डा० बड़थवाल ने 'योग-प्रवाह' में जिन आचार्यों की असुद्धित बानियों का उल्लेख किया है, उनमें कभी कभी और प्राचीन परम्पराएँ मिल जाती हैं। इसीलिये आगे प्रभाव-परम्परा का विवेचन करते समय अक्सर सन्तों के पहले नाथों के उद्धरण दिये गये हैं क्योंकि सन्तों में वज्रयानी शब्दों के अर्थ और साधनाओं के रूप अधिक स्वच्छन्दता से रूपान्तरित हो रहे थे जब कि नाथपन्थी बानियों में उसके अधिक प्राचीन रूप सुरक्षित बच रहे थे। इस अध्याय के अगले अंशों के उद्धरणों से इसके यथेष्ट प्रमाण मिलेंगे।

नाथों के ही समान अभी प्रारम्भिक सन्तों के साहित्य के पाठ का ठीक ठीक निरूपण नहीं हो पाया है। जहां तक कबीर का प्रश्न है डा० रामकुमार वर्मा का 'सन्त कबीर' इस दिशा में स्तुत्य प्रयास है। उसके अतिरिक्त बीजक और कबीर-ग्रन्थावली में संगृहीत दोहे और पद अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय हैं। बीजकों में से विचारदास के बीजक का उपयोग किया गया है क्योंकि वह कबीर-चौरा की पुरानी प्रतियों पर आधारित बताया जाता है और सम्प्रदाय में भी अधिक मान्य है। नानक के नाम से जो प्राणसंगली प्रचलित है उसका भी उपयोग आगे किया गया है, यद्यपि यह संकेत कर देना आवश्यक है कि उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। वेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित अधिकांश सन्त साहित्य अवैज्ञानिक ढंग से सम्पादित हुआ है। किन्तु नाथों अथवा सन्तों के नाम पर प्रचलित कोई भी रचना हमारे लिये उपयोगी है क्योंकि उसमें हमें सम्प्रदाय में प्रचलित चिन्तनधाराएँ मिलती हैं और कभी कभी सम्प्रदायों में मान्य अप्रामाणिक कृतियां जो सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रचलित कर दी जाती हैं इन वज्रयानी शब्दों और साधनाओं के विकास पर अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। आगे हम देखेंगे कि शून्य, सहज आदि शब्दों का जैसा

परवर्ती सम्प्रदायों का विकास

विचित्र रूपांतर 'अनुराग-सागर' तथा 'बोधि-सागर' में संगृहीत छोटी छोटी कवीर-पन्थी कृतियों में मिलता है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

इन समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत हम इस परिष्कार पर पहुँचते हैं कि नाथ तथा संतों के हिन्दी साहित्य में सिद्धों की साम्प्रदायिक और साहित्यिक परम्परा के अवशिष्ट तत्व कई अन्य परंपराओं में रूप बदलते हुए आये हैं । इस प्रकार यह प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं रहा है, वरन् उन रूपों में अपने को अभिव्यक्त किया है :—

क—कभी कभी वज्रयानी तान्त्रिक प्रवृत्तियाँ शेष रह गई हैं यद्यपि उन्होंने शैव अथवा वैष्णव रूप धारण कर लिया है और वही शब्दावली अपना ली है ।

ख—कभी कभी साधनाओं की शब्दावली वज्रयानी ही रही है, किन्तु अर्थ बदलते गये हैं ।

ग—सबसे बड़ा प्रभाव शैली पर रहा है और उपमान-शृंखला, रूपक-परंपरा, प्रतीक, काव्यरूप और छन्द-योजना में आश्चर्यजनक साम्य मिलता है जिससे प्रतीत होता है कि वज्रयानी सिद्ध, नाथ और संतों में एक विशेष काव्यशैली रूढ़ हो चुकी थी ।

सन्तों में, विशेषतया कवीर में वज्रयानी परंपरा से गृहीत शब्दावली को अपनी व्याख्याएँ देने की प्रवृत्ति अत्यन्त बलवती रही है और समय समय पर समकालीन सम्प्रदायों के प्रभाव से इन शब्दों के प्रयोग में नये विकास होते रहे हैं । अगले अंश में इन्हीं शब्दों के अर्थ-विकास पर हम विचार करेंगे ।

ग
वज्रयानी
शब्दों की परम्परा

शून्य

सिद्धों के समस्त तत्त्वज्ञान की मूलभित्ति विज्ञानवाद की शून्य कल्पना थी (शून्यवाद की नहीं) जिसमें शून्य को तथ्यता-रूप माना गया था। बौद्ध सिद्धों ने अपनी प्रज्ञोपाय योग-प्रणाली में इसी शून्य को नैरात्मा बालिका, प्रज्ञा या महामुद्रा रूप में ग्रहण किया और साथ ही महासुख चक्र में इस शून्यता की स्थिति मानी।

इसी शून्य तथा इससे सम्बद्ध अन्य कल्पनाओं को ग्रहण करने के कारण नाथ तथा सन्त साधकों का सिद्धों से स्पष्ट सम्बन्ध परिलक्षित होता है। किन्तु प्रमुख अन्तर सिद्धों के शून्य तथा परवर्ती सम्प्रदायों के शून्य अबौद्ध परम्पराओं में यह है कि बौद्ध 'शून्य' की भाँति परवर्ती शून्य प्रतीत्य-समुत्पाद की तर्क-प्रणाली द्वारा प्रतिपादित तत्त्वज्ञान न रहकर परमतत्व के अन्य नामों की भाँति यह भी एक नाममात्र था जिसकी व्याख्या और विवेचना प्रत्येक सम्प्रदाय के चिन्तक अपने अपने ढंग से करते थे। वास्तव में बहुत पहले से शून्य अबौद्ध परम्पराओं में परमतत्व की एक संज्ञा के रूप में परिकल्पित कर लिया गया था। महाभारत में भीष्म ने विष्णु के सहस्र नामों का उपदेश देते हुए उनका एक नाम 'शून्य' भी बताया था और उस नाम की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने कहा था 'सर्व विशेष

चञ्जयानी शब्दों की परम्परा

रहित्वात् शून्यवत् शून्यः'^१ अर्थात् समस्त विशेषणों, गुणों, तथा प्रकृतियों से रहित होने के कारण वे शून्यवत् हैं। हम पहले ही इस बात की ओर संकेत कर चुके हैं कि प्रतीत्यसमुत्पाद की तर्क प्रणाली का सबसे बड़ा अन्तर्विरोध यह है कि वह स्वतः अपना अभाव या परमतत्व बुद्ध की भी शून्यता सिद्ध कर देती है, इसीलिये नागार्जुन को तथागत को प्रत्येक ज्ञान से परे बताना पड़ा और विज्ञान-वादी आचार्यों को भी माध्यमक सम्प्रदाय की शून्य-कल्पना में संशोधन करना पड़ा। अबौद्ध परम्पराओं में भी इसीलिये शून्य को प्रतीत्यसमुत्पाद की तर्क शृङ्खला से विच्छिन्न कर ग्रहण किया गया। किन्तु नागार्जुन के वाद से ही शून्य की कल्पना बौद्ध प्रभाव के कारण इतनी व्यापक हो गई कि बौद्धों के ही समानान्तर विकसित होने वाले कई सम्प्रदायों में शून्य परमतत्व के वाचक रूप में स्वीकार कर लिया गया यद्यपि उसकी व्याख्या प्रत्येक सम्प्रदाय ने अपने पृथक् ढंग से की। (यद्यपि उनकी शब्दावली बहुत कुछ बौद्ध ढंग की ही थी।) इसी प्रकार का एक दोहा जैन मुनि रामसिंह का भी मिलता है।

सुरण ए होइ सुरण दीसइ सुरण च तिहवणे सुरण ।

अवहरइ पाव पुरणं सुरणं सहावेण गओ अप्पा ॥^२

किन्तु इसके पूर्व ही उन्होंने परम तत्व की प्राप्ति के लिये १२ अनुप्रेक्षाओं की साधना से परमतत्व की प्राप्ति बताई है और उस परमतत्व को शिवपुरी संज्ञा दी है, इससे यह ज्ञात होता है जैन साधना तथा जैन तत्व-दर्शन में ही उन्होंने कुछ अजैन शब्द अपना लिये हैं और उन्हें जैन तत्व-दर्शन में अन्तर्भुक्त कर लिया है।

नाथ-सम्प्रदाय में भी शून्य इसी रूप में ग्रहण किया गया। उसे परमतत्व के रूप में स्वीकृत किया गया किन्तु उसकी व्याख्या में नाथ-परम्परा ने संशोधन कर दिया। शून्यवादियों तथा विज्ञानवादियों ने परम नाथ-साहित्य में तत्व की जो व्याख्याएँ की थीं, उनसे नाथ साहित्य में उपलब्ध शून्य व्याख्या की तुलना करने से यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है।

शून्यवादी व्याख्या :—'शून्यमिति न वक्तव्यमशून्यमिति वा भवेत् । उभयम् नोभयम् चैव प्रज्ञप्दर्थं तु कथ्यते ।'^३ विज्ञानवादी व्याख्या : 'न सन्न चासन्न तथा न चान्यथा, न जायते व्येति न चावहीयते । न वर्धते नापि विशुध्यते पुनर्विशुध्यते तत्परमार्थं लक्षणम्'...^४ नाथ-साहित्य में उपलब्ध व्याख्या:

‘बसती न सुन्यम् सुन्यम् न बसती अगम अगोचर ऐसा । गगन सिधर महि बालक बोले, ताका नाँव धरहुगे कैसा ।’^५

उपरोक्त पंक्तियों में ‘बसती’ तथा ‘न बसती’ वास्तव में द्वितीय श्लोक वे ‘न सन्’ तथा ‘न च असन्’ और ‘न सुन्यम्’ तथा ‘सुन्यम्’ प्रथम श्लोक वे शून्य तथा अशून्य की प्रतिध्वनि मात्र हैं । इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का ‘ताक नाँव धरहुगे कैसा’ भी ‘प्रज्ञप्त्यर्थं तु कथ्यते’ का ही रूपान्तर है । किन्तु एक सर्वथ नया भाव है, ‘गगन सिधर महि बालक बोलै’ शून्य को इस रूप में पूर्ववर्ती किर्स भी बौद्ध सम्प्रदाय ने चित्रित नहीं किया है । यह नाथ-साहित्य का अपन संशोधन है । किन्तु यह निरर्थक संशोधन नहीं है । वास्तव में इसके पीछे हठ योगी परम्परा की एक महत्वपूर्ण दार्शनिक चिन्तना वर्तमान है ।

‘गगन सिधर महि बालक बोले’ कह कर शून्य का सम्बन्ध शब्द या नाद तत्व से जोड़ दिया गया है । वास्तव में शिव और शक्ति की कल्पना नाद और विन्दु के रूप में हठयोगी तथा तान्त्रिक सम्प्रदायों में बहुत पहले से थी जिनने नाद तत्व या शब्द ब्रह्म को समस्त सृष्टि का मूल कारण माना गया था । भर्तृ हर्षि ने वाक्यपदीय में शब्द-ब्रह्म की विवर्त प्रक्रिया द्वारा इस संसार की उत्पत्ति बताया थी ।^६ सिद्धों के समकालीन बौद्ध आचार्य शान्तिरक्षित ने शब्द-ब्रह्म की कल्पना को स्वीकार किया था और अपने तत्व-संग्रह में नाश और उत्पाद का कारण शब्दमय ब्रह्म को बताया था ।^७ इस प्रकार परमतत्व रूप में नाद और शून्य कं कल्पनाएँ बहुत पहले से ही समीप आ रही थीं और नाथ-सम्प्रदाय में शून्य कं शब्द या परम नाद का पर्याय मान लिया गया । हठयोग-प्रदीपिका में इसी नाद की चार अवस्थाओं को ४ शून्यों की वज्रयानी कल्पना से सम्बद्ध कर दिया गया जिस पर हम बाद में विचार करेंगे । यही नाद पूर्णता का द्योतक है अतः हठयोग प्रदीपिका में शून्य तथा पूर्ण भी एक ही अर्थ में व्यवहृत हुए हैं ।

अन्तः शून्यो बहिः शून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे

अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णः कुम्भ इवार्णवे ।^८

और इसी द्वितीय पंक्ति की प्रतिध्वनि हमें कबीर तथा जायसी की निम्न पंक्तियों में भी मिलती हैं ।

कबीर : फूटा कुम्भ जल जलहिं समाना यहू तत कथौ गियानी ।

जायसी : सुन्न समुंद चख माँहि जल जैसी लहरै उठै

उठि उठि मिटि मिटि जाहिं मुहमद खोज न पाइए ।^९

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

इसी नाद-तत्व की अभिव्यक्ति के लिये नाथ योगी सिंगी धारण करते थे और उसे बजाते थे क्योंकि वह सिंहनाद का प्रतीक थी। चर्चापदों के टीकाकार मुनिदत्त गोरख द्वारा प्रवर्तित इस परम्परा से परिचित थे क्योंकि एक स्थान पर सिद्धों द्वारा कथित शून्यता के कलकल नाद को उन्होंने अपनी टीका में शून्यता सिंहनाद कहा है।^{१०} और उससे समस्त शत्रुओं को व्रत बताया है तथा इसके लिये किसी पूर्ववर्ती श्लोक का प्रमाण दिया है। इससे स्पष्ट है कि बहुत पहले से ही शून्य तथा नाद की कल्पनाएँ निकट आ चुकी थीं। शून्यता-सिंहनाद की ही भाँति नाथों की वाणी में भी हमें शून्य की गर्जना का उल्लेख मिलता है और उसे ही अनहद नाद की ध्वनि कहा गया है—'मुनि गरजत वाजन्त नाद आलेप लेखंत ते निज प्रवांशी।'^{११}

यह नाद या शब्द सृष्टि का मूलकारण तथा परम तत्व, परम ज्ञान, परम स्वभाव था अतः इस शून्य का भी वर्णन इसी रूप में नाथ-सम्प्रदाय में किया गया है। उसे माता पिता तथा सर्वत्व बताया गया है।

मुनि ज माई मुनि ज बाप। मुनि निरंजन आपै आप ॥

मुनि के परिचै भया सथोर। निहचल जोगी गहिर गंभीर ॥^{१२}

इस परम तत्व के ज्ञान को दुर्लभ बताया गया है।

घटि घटि सुखां ग्यान न होइ। बनि बनि चंद्रन रूख न कोइ।^{१३}

अन्य स्थलों पर भी शून्य का अस्तित्व निरन्तर बताया गया है।^{१४} मन का स्वरूप शून्य बताया गया है।^{१५} और शून्य में ही मन का वास बताया गया है।^{१६}

सिद्धों के शून्य-तत्व की विवेचना करते हुए हमने यह देखा था कि उन्होंने इस शून्य को द्वय की कल्पनाओं से मुक्त अद्वय-तत्व माना था। इसे अभाव तथा भाव दोनों ही परित्याग कर मध्यम तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता था। नाथ साहित्य में भी इसका यही रूप है।

अमरा निरमल पाप न पुंनि। सत रज विवरजित मुंनि।^{१७}

उपरोक्त चरणों में प्रथम तो तिलोपा की 'शिग्मल सहजे पापण पुण्ण' की प्रतिध्वनि है किन्तु दूसरा चरण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि शून्य के द्वय-विवर्जित स्वरूप को स्वीकार करते हुए भी उस बौद्ध व्यवस्था के अनुसार भाव अथवा अभाव की द्वयता से परे न बता कर सत और रज से परे बताया गया है जो हिन्दू प्रभाव का द्योतक है।

परम तत्व के अतिरिक्त शून्य का व्यवहार नाथ-साहित्य में सहस्रार चक्र में स्थित ब्रह्मरन्ध्र के रूप में भी हुआ है—

गगन मंडल में सुनि द्वार । विजली चमकै घोर अन्धकार ।^{१८}

इस गगन मण्डल को शून्य मण्डल के रूप में परिकल्पित किया गया है जहाँ अमृत भरता है—

सुनि मण्डल तहाँ नीभर भरिया । चंद सुरज ले उनमनि धरिया ।^{१९}

इस गगन मण्डल तक पहुँचने का पथ शून्य द्वार है जिसे सिद्धों की परम्परा का अनुसरण करते हुए मध्यम पथ भी कहा गया है—

मधि निरन्तर कीजै वास । निहचल मनुवा थिर होइ सास ।^{२०}

और इसे अध तथा ऊर्ध्व के मध्य में स्थित शून्य-मार्ग कहा गया है ।

अरध उरध बिच धरी उठाई । मधि सुनि में बैठा जाई ।^{२१}

तथा इसी मध्य-शून्य में प्राण-पुरुष का वास बताया गया है । 'मध्ये प्राण पुरिस का बासा ।'^{२२} गोरक्ष-पद्धति में भी शून्य को महेश का वासस्थान बताया गया है । 'शून्यं प्रविशति गगने यत्र देवो महेशः'^{२३}

इस प्रकार हम देखते हैं कि नाथ साहित्य में शून्य शब्द का व्यवहार तीन प्रसंगों में हुआ है ।

क. परम तत्व नाद, परम ज्ञान, परम स्वभाव ।

ख. ब्रह्मरन्ध्र, दशमद्वार अथवा मध्यपथ तथा सहस्रार चक्र, गगन मण्डल ।

ग. शिव-लोक ।

परवर्ती सन्त तथा सूफी सम्प्रदायों में हमें इन्हीं तीनों परम्पराओं का विकास मिलता है और इन्हीं तीनों प्रसंगों में शून्य का प्रयोग सन्त साहित्य हुआ है । सन्त परम्परा में हम शून्य का विकास इन्हीं रूपों में शून्य में पाते हैं ।

१. परम तत्व नाद तथा परम ज्ञान के रूप में ।

२. ब्रह्मरन्ध्र तथा सहस्रार चक्र के रूप में ।

३. परम लोक के रूप में ।

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

जहाँ तक परम तत्व के रूप में शून्य के विकास का सम्बन्ध है कम से कम नानक के ग्रन्थों में शून्य तथा शब्द को एक ही माना गया है उसी से समस्त सृष्टि और भूतों तथा देवताओं की उत्पत्ति मानी गई है।

मुन्न शब्द ते उटै भंकार । मुन्न शब्द ते ओ अंकार
मुन्न शब्द ते पवनु विचार । मुन्न शब्द ते अग्नीचार ।^{२४}
उलटै मनु जवि मुनि समावै । नानक शब्दे शब्दि निलावै ।^{२५}
मुन्न ते सम्भू आदि गुरु रक्षण । नानक कहै उदासी लक्षण ।
मुन्न ते सम्भू होवे आदि । मुन्न ते नीलु अनीलु अनादि ।
मुन्न लेख लिखिआ नीसानु । मुन्न ते सहज कला परवानु ।
मुन्न ते कीता धरती आसमानु ।^{२६}

इस आदि-तत्व के रूप में कबीर ने भी शून्य का वर्णन किया है यद्यपि उन्होंने शब्द और शून्य की एकता की ओर इतना स्पष्ट संकेत नहीं किया है। उन्होंने शून्य से संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए दो रूपकों का आश्रय लिया है जो हमें चर्यापदों में भी मिल जाते हैं। पहला है तरुवर का रूपक और दूसरा है समुद्र का रूपक।

- क. सहज सुनि इकु विरवा उपजि धरती जलहर सोखिआ
कहि कबीर हउ ताका सेवक जिनि इहु विरवा देखिआ ।^{२७}
- ख. उदक समुंद सलिल की साखिआ नदी तरंग समावहिगे
सुंनहि सुनु मिलिआ समदरसी पवन रूप होइ जावहिगे ।^{२८}

ये दोनों रूपक सिद्धों द्वारा प्रयुक्त हुए हैं और तत्व दर्शन के अन्तर्गत संसार की विवेचना करते हुए हम इस संसार रूपी वृक्ष और उसका उच्छेदन करने वाली वज्रकुठार का वर्णन कर चुके हैं। शून्य से उत्पन्न होने वाले भवसागर या भवनदी का भी वर्णन हम कर चुके हैं जिसमें पार उतरने के लिये साधक को सहजयान रूपी नौका का आश्रय लेना पड़ता है।

कबीर के तथा नानक के अतिरिक्त अन्य सन्तों के साहित्य में आदि तत्व के अर्थ में शून्य का प्रयोग कम मिलता है किन्तु बहुत बाद तक शून्य सन्त-सम्प्रदाय में आदि-तत्व के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। कबीरपंथियों के 'पंचमुद्रा' नामक ग्रन्थ में समस्त तत्वों की उत्पत्ति शून्य से मानी गई है और अन्त में सभी का विलयन शून्य में माना गया है।

त्रायें रूप अकाश उपजाई, फिर अकाश पुन ताको खाई
 आकाश शून्य ते उतपत जानौ, बहुरि शून्य में जाय समानौ ।^{२९}
 किन्तु इसके पूर्वापार प्रसंग को देखने से यह ज्ञात होता है कि यहाँ
 शून्य और शब्द के एकत्व को भुला दिया गया है और शून्य को केवल एक
 आकाश तत्व का प्रतीक मान कर उसी तत्व को प्रथम तथा अन्तिम तत्व मान
 लिया गया है। इस प्रकार वास्तव में शून्य की परम-तत्व, परिकल्पना में हास
 हो गया है। बाद में परम-तत्व का पद शून्य से छिनता हुआ प्रतीत होता है
 और 'भवतारण-बोध' में सृष्टि के आदि में शून्य का भी अनस्तित्व बताया
 गया है—^{३०}

नहिं तत्र शून्य सुमेर न भारा । कूर्म न शेष धरे अबतारा ।
 क्योंकि यदि शून्य शब्द है तो शब्द भी बाद में तिरस्कृत हुआ और मायाजनित
 बताया गया ।

शब्द कहौ तो शब्दहि नहीं । शब्द होय माया के छाहीं ।^{३१}

जहाँ तक परम-ज्ञानरूप और स्वभावरूप में शून्य की स्वीकृति का प्रश्न
 है। कबीर ने उसका रूप अद्वैत ज्ञान की भाँति माना है और
परम ज्ञान उसके लिये उपमा भी वही कुम्भ की प्रयुक्त की है जो हठयोग-
 प्रदीपिका में शून्य को पूर्णता ज्ञान के रूप में चित्रित करते
 हुए की गई है ।

माइआ फाँस बन्ध नहि फारै अस मन सुनि न लूकै
 आषा पटु निरवाण न चीन्हिआ इन विधि अभिउ न चूकै
 जिउ प्रतिबिम्ब विम्ब कउ मिलिहै उदक कुम्भु विगराना
 कहु कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तउ मन सुनि समाना...^{३२}

यहाँ पर यह स्पष्ट है कि सन्त शून्यज्ञान के सम्बन्ध में प्रतीयसमुत्पाद
 से परिचित नहीं थे और शून्यता-ज्ञान उन्हें अद्वैत-ज्ञान के रूप में प्राप्त हुआ
 था क्योंकि सन्तों तक आने के पूर्व वह शैव सम्प्रदायों द्वारा स्वीकृत किया जा
 चुका था। इसीलिये वह यहाँ अद्वयज्ञान की अपेक्षा अभेद ज्ञान के रूप में
 चित्रित किया गया है ।

किन्तु सिद्ध जिस प्रकार शून्य में द्वयता का निषेध करते थे वह परम्परा

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

भी नाथ सम्प्रदाय में होती हुई सन्तों में अवशिष्ट थी यद्यपि उसका न तो उतना तार्किक विवेचन ही मिलता है, न उतना स्पष्ट निरूपण। स्वतः कबीर ने शून्य में जीवन तथा मरण का निषेध किया है—‘जीवत मरै मरै पुनि जीवै ऐसे सुनि समाइया।’³³ अन्य सन्तों में भी यह भावना मिलती है जिसमें द्वयता का निषेध कर शून्य की स्थिति को अद्वय की मध्य स्थिति बताई गई है।

रैदास : पहले ज्ञान का किया चांदना पाछे दिया बुझाइ
सुन्न सहज में दोऊ त्यागे राम न कहूँ सुखदाइ³⁴

दादू : मरै न जीवै सहज सों पूरा पद निर्वाण
द्वैपप रहिता सहज सों सुख दुख एक समाण
सहज रूप मन का भया जब द्वै द्वै मिटी तरङ्ग
सहज सुनि मन राखिए इन दून्युँ के मांहि
लै समाधि रस पीजिये, तहाँ काल भय नाहिं।³⁵

गुजाल : सुन्न अमुन्न में डोर बन्धाना, उड़े हंस चढ़ि करत पयाना
मेटल सुन्न मिलल परगासा, जनम जनम कै पूजल आसा।³⁶

उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कुछ द्वयताएँ जिनका निषेध किया गया है जैसे जीवन-मरण, शून्य-अशून्य, सुख-दुख ये सिद्ध परम्परा से ही चली आई हैं किन्तु सन्तों के सम्मुख न तो इनका अर्थ ही स्पष्ट है और न वह प्रतीत्यसमुत्पाद की निषेधात्मक प्रणाली ही है जिससे इन द्वयताओं का निषेध कर विज्ञानवाद में ‘अद्वयोहि परमार्थ’ की व्याख्या दी गई थी। सुन्दरदास ने तो इस अद्वय को दूसरी ही परिभाषाओं में चित्रित किया है।

पाप न पुन्य, न स्थूल न सूत्य, न बोलै न मौन न सोवै न जागे।
एक न दोइ, न पुर्ष न जोइ, कहै कहाँ कोइ, न पीछे न आगे।

... ..

तत्व अतत्व कछो नहिं जात खु शून्य असून्य उरै न परै है।
ज्योति अज्योति न जान सकै कोउ, आदि न अन्त, जिवै न मरै है।³⁷

और इससे स्पष्ट है कि शून्य अशून्य आदि की द्वयताओं आदि का निषेध करते हुए भी उनकी शैली हिन्दू-परम्परा, विशेषतः उपनिषदों की नेति

प्रणाली का अनुसरण कर रही है और अन्त में जहाँ उन्होने इस परम-तत्व की द्रयताओं का निषेध करते करते अन्त में मौन को ही उसकी व्याख्या माना है तो उपनिषदों के 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह',^{3८} की छाया मिलती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि सुन्दरदास ने परम-तत्व के अद्रय निरूपण में सिद्धों और नाथों की परम्परा को तो ग्रहण किया है किन्तु उसका प्रतिपादन उन्होंने प्रत्यन्त अपने उपनिषद तथा वेदान्त ज्ञान से किया है। सुन्दरदास सन्त परम्परा में सबसे अधिक सुशिक्षित थे भी।^{3९}

हिन्दी का सूफ़ी साहित्य अभी तक बहुत कम प्रकाश में आया है किन्तु जायसी की कृतियों में शून्य का जो उल्लेख मिलता है वह सन्तों के शून्य तत्व तथा परम ज्ञान के लक्षणों से शब्दशः मिलता जुलता है। इतना ही नहीं, सन्तों की तुलना में जायसी की विवेचन शैली अधिक सुलभी हुई है और वे परम तत्व के रूप में शून्य की भारतीय कल्पना से बहुत परिचित हैं।

उन्होंने शून्य को परम तत्व के रूप में परिकल्पित किया जो पाप पुण्य आदि द्रयताओं से विनिर्मुक्त सूक्ष्मतम तत्व है, स्वर और शब्द से भी परे है। समस्त स्थूल तत्वों की उत्पत्ति उसी से बताई गई है।

हता जो सुन्न म सुन्न, नाव न ठाँव न सुर सबद
तहाँ पाप नहीं पुन्न, मुहमद आपुहि आप मँह
आपु अलख पहिले हुत जहाँ, नाँव न ठाँव न मूरति तहाँ
पूर पुरान पाप नहीं पुन्नू। गुपुत ते गुपुत सुन्न ते सुन्नू ४०

आदि किएउ आदेस, सुन्नहिं ते अस्थूल भए
आपु करै सब भेस, मुहमद चादर ओट जेउं। ४१

हेरत दिष्टि उघरि तस आई। निरखि सुन्न मह सुन्न समाई।
सुन्न समुँद चख माँहि जल जैसी लहरैँ उठहिं
उठि उठि मिटि जाहिं मुहमद खोज न पाइए। ४२

इहे जगत कै पुनि यह जप तप सत साधना
जानि परै जेहि सुन्न मुहमद सोई सिध भा। ४३

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

भा भल सोइ जो सुन्नहि जानै । सुन्नहि ते सव जग पहिचाने ।
सुन्नहि ते है सुन्न उपाती । सुन्नहि ते उपजे बहु भाँती ।
सुन्नहि माँझ इन्द्र बरम्हंडा । सुन्नहि ते टीके नवखरडा ।
सुन्नहि ते उपजे सव कोई । पुनि विनाइ सव सुन्नहि होई ।
सुन्नम सुन्नम सव उतराई । सुन्नहि महं सव रहै समाई ।^{४४}

उपरोक्त उद्धरणों में 'सुन्न म सुन्न' तथा 'सुन्नम सुन्नम' विचारणीय है । परमार्थ का विवेचन करते हुये पूर्ववर्ती परम्पराओं में 'शून्यमशून्यम्' शून्यम् तथा अशून्यम् दोनों का निषेध किया गया था । 'सुन्नम सुन्न' तथा 'सुन्नम सुन्नम' उसी 'शून्यमशून्यम्' के परवर्ती अवशेष प्रतीत होते हैं, यद्यपि शून्य तथा अशून्य दोनों के निषेध के रहस्य से जायसी अग्ररिचित हैं अतः उन्होंने उसे शून्य के ही अर्थ में प्रयुक्त किया है, शून्य व अशून्य के युग्म के अर्थ में नहीं ।

पहले ही हम इस बात का संकेत कर चुके हैं कि शैव हठयोग परम्परा में काया में ही मण्डल के रूप में या द्वार के रूप में शून्य की स्थिति मान ली गई थी । इस दृष्टि से कई स्थान शून्य से विशेषतः सम्बद्ध शून्य मण्डल माने गये थे । एक तो भ्रूमध्य में त्रिकुटी में शिव का स्थान या शून्य का स्थान माना गया था ।

आकाशे यत्र शब्दः स्यात्तदाज्ञाचक्रमुच्यते
तत्रात्मानम् शिवम् ध्यात्वा योगी मुक्तिं मवाप्नुयात् ।^{४५}

भ्रुवोर्मध्ये शिवस्थानम् योगीतत्र विलीयते ।^{४६}

इला तथा पिंगला के मध्य में सुपुम्ना को तथा ब्रह्मरन्ध्र को भी शून्य-नाल, तथा शून्य द्वार के रूप में परिकल्पित किया गया था और इसी को मध्य-पथ भी कहा गया था ।^{४७} ब्रह्मरन्ध्र को पार करने के उपरान्त कमल के मध्य में भी शून्यमण्डल परिकल्पित किया गया था जिसके विषय में नाथ परंपरा पर विचार करते समय हम संकेत कर चुके हैं । सन्तों को इन स्थानों का परिचय है ऐसा अक्सर प्रतीत होता है । दरिया साहब त्रिकुटी के मध्य में गगन मण्डल बताते हैं ।

ताके कहिये ज्ञान गंभीरा, त्रिकुटी मद्ध जो परखे हीरा
ताके जोग यह जगत बखाना, जाके गगन मंडल अस्थाना ।^{४८}
तुलसी साहज भी त्रिकुटी में शून्य की ज्योति का वर्णन करते हैं :
सुखमनि सुन्न जोति त्रिकुटी में तुलसि दरद दिल दगन मिटा ।^{४९}

ज्ञात यह होता है कि त्रिकुटी में शून्य को इसीलिये स्थान दिया गया कि वे परमतत्व को बौद्ध शून्य से भी ऊँचा सिद्ध करना चाहते थे। इसीलिये समाधि का स्थान सन्तों ने भँवर गुफा में माना जो त्रिकुटी से भी ऊपर स्थित है। भँवर गुफा का धनी सूर्य है जो अधिक बलशाली है।^{५०} किन्तु फिर पलटू साहिब ब्रह्मरन्ध्र रूपी गुफा का उल्लेख करते हैं जहाँ से अमृत भरता है 'गगन गुफा के बीच पियाला प्रेम का चाखे ।'^{५१} तथा ब्रह्म रन्ध्र के पार गगन लोक के रूप में भी शून्य का विस्तार बताते हैं जो सहस्रदल कमल के मध्य में है 'कमल मध्य कस शून्य रहाऊ ।'^{५२}

चर्यामदों से तुलना करने पर हम यह पाते हैं कि सिद्धों की साधना में त्रिकुटी का विशेष महत्व नहीं था। महासुख कमल में अवश्य उन्होंने भगवती प्रज्ञा अथवा नैरात्मा का वास माना था और इस मध्यम पथ को वे प्रज्ञा तथा उपाय के अद्वय का सहज-पथ अथवा अवधूती पथ मानते थे। रन्ध्र को वे दशम द्वार अथवा वैरोचन द्वार कहने थे। किन्तु बाद में सन्तों ने इस शून्य-गुफा, शून्य-मण्डल और त्रिकुटी, ब्रह्मरन्ध्र तथा सहस्रदल कमल की कल्पनाओं को इतना शुलामिला दिया है कि ऐसा लगता है कि वे इनकी वास्तविक स्थितियों को भूल गये हैं और केवल परम्परा निर्वाह के लिये शून्य मण्डल, शून्य-गुफा आदि का उल्लेख मात्र कर देते हैं। यह स्थिति न सिद्धों में है, न नाथों में, उनके सम्मुख काया में स्थित इन शून्य मण्डल या गुफादिक की स्थिति बहुत स्पष्ट है।

किन्तु यदि स्थिति के सम्बन्ध की उल्लेख पर हम ध्यान न दें तो हम यह देखेंगे कि आदितत्व या परमज्ञान के रूप में सन्तों ने शून्य का जितना प्रयोग किया उससे कई गुना अधिक उन्होंने हठयोग के सन्दर्भ में गुफा, महल, मण्डप या कूप आदि में शून्य का वर्णन किया है।

कबीर : सुनि गुफा माहि आसणु बैसणु कलप विवरजित पन्था ।^{५३}

दाडू : सुन्न सरोवर हंस मन मोती आप अनन्त
दाडू चुगि चुगि चंच भरि यों जन जीवै सन्त ।

चञ्जयानी शब्दों की परम्परा

सुन्न सरोवर मीन मन नीर निरंजन देव
दादू यहू रस त्रिलसिधे ऐसा अलख अभेव ।
सुन्न सरोवर मन भँवर तहाँ कँवल करतार
दादू परिमल पीजिए सनमुख सिरजनहार ।^{५४}

नानक : सुन्नि सरोवर सुरति समानी । नानक चूकी आवन जानी ।^{५५}

गुलाल : सुन्न सरोवर घाट फूल इक वाइआ ।^{५६}

पलटू : उलटा कूवा गगन में तिस में जरै चिराग ।^{५७}

सुन्न सागर भरा सत्त के नाम से तेहि के बीच में सुरत हल्ली ।^{५८}

अन्य : सवहिं शून्य मंह ध्यान लगाये, स्वाति सनेह सीप ज्यों लाये ।
तवहिं निरंजन जतन विचारा, शून्य गुफा ते शब्द उचारा ।
रंसांशु शब्द उठा बहु बारा, माया अन्नर माया संचारा ।
दोउ अन्नर कहं सम के राखा, रामनाम सबहिन अभिलाखा ।^{५९}

इसके अतिरिक्त सन्तों ने सहस्रार के मध्य शून्य स्थान को महल, मण्डप, शिखर, नगर, हाट आदि के रूप में इस प्रकार वर्णित किया है ।

कबीर : अरध उरध मुख लागो कासु, सुंन मंडल, महि करि परगासु
उहाँ सूरज नाही चंद, आदि निरंजन करे अनन्द ।^{६०}

सुन्न मंडल में घर किया, बाजे सबद रसाल ।

रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल ।^{६१}

धूँ घट का पट खोल रे ।

सुन्न महल में दियना बरिले, आसा से मत डोल रे ।^{६२}

मीरा : त्रिकुटी महल बना है भरोखा तहाँ से भाँकी लगाऊँ री ।

सुन्न महल में सुरत जमाऊँ सुख की सेज । बिछाऊँ री ।^{६३}

मल्लूकदास : सुन्न महल की जुगती ब्रतावे केहि विधि कीजे सेवा ।^{६४}

सुन्न महल में महल हमारा निरगुन सेज बिछाई ।^{६५}

भीखा : कायागढ़ के गगन भवन में धुधुकि धुधुकि धुन नाम सुनाई ।^{६६}

सुन्न शिखर पर माँडो छायो, इंगला पिंगला चौक पुरायो

दुलहिन नाम सेवकरि पाई, नाद बिंद बहुतै भौजई ।^{६७}

गुलाल : सुन्न नगर में आसन पाई जगमग जोति जगावै ।^{६८}

शून्य शिखर सरोज फूलो बंक नालहि जाव ।^{६९}

ताके कहिये ज्ञान गंभीरा, त्रिकुटी मद्ध जो परखे हीरा
ताके जोग यह जगत बखाना, जाके गगन मंडल अस्थाना ।^{४८}
तुलसी साहब भी त्रिकुटी में शून्य की ज्योति का वर्णन करते हैं :

सुखमनि सुन्न जोति त्रिकुटी में तुलसि दरद दिल दृगन मिटा ।^{४९}

ज्ञात यह होता है कि त्रिकुटी में शून्य को इसीलिये स्थान दिया गया कि वे परमतत्व को बौद्ध शून्य से भी ऊँचा सिद्ध करना चाहते थे। इसीलिये समाधि का स्थान सन्तों ने भँवर गुफा में माना जो त्रिकुटी से भी ऊपर स्थित है। भँवर गुफा का धनी सूर्य है जो अधिक बलशाली है।^{५०} किन्तु फिर पलटू साहब ब्रह्मरन्ध्र रूपी गुफा का उल्लेख करते हैं जहाँ से अमृत भरता है 'गगन गुफा के बीच पियाला प्रेम का चाखे ।'^{५१} तथा ब्रह्म रन्ध्र के पार गगन लोक के रूप में भी शून्य का विस्तार बताते हैं जो सहस्रदल कमल के मध्य में है 'कमल मध्य कस शून्य रहाऊ ।'^{५२}

चर्यामदों से तुलना करने पर हम यह पाते हैं कि सिद्धों की साधना में त्रिकुटी का विशेष महत्व नहीं था। महासुख कमल में अवश्य उन्होंने भगवती प्रज्ञा अथवा नैरात्मा का वास माना था और इस मध्यम पथ को वे प्रज्ञा तथा उपाय के अद्वय का सहज-पथ अथवा अवधूती पथ मानते थे। रन्ध्र को वे दशम द्वार अथवा वैरोचन द्वार कहने थे। किन्तु बाद में सन्तों ने इस शून्य-गुफा, शून्य-मण्डल और त्रिकुटी, ब्रह्मरन्ध्र तथा सहस्रदल कमल की कल्पनाओं को इतना झुलामिला दिया है कि ऐसा लगता है कि वे इनकी वास्तविक स्थितियों को भूल गये हैं और केवल परम्परा निर्वाह के लिये शून्य मण्डल, शून्य-गुफा आदि का उल्लेख मात्र कर देते हैं। यह स्थिति न सिद्धों में है, न नाथों में, उनके सम्मुख काया में स्थित इन शून्य मण्डल या गुफादिक की स्थिति बहुत स्पष्ट है।

किन्तु यदि स्थिति के सम्बन्ध की उलभन पर हम ध्यान न दें तो हम यह देखेंगे कि आदितत्व या परमज्ञान के रूप में सन्तों ने शून्य का जितना प्रयोग किया उससे कई गुना अधिक उन्होंने हठयोग के सन्दर्भ में गुफा, महल, मण्डप या कूप आदि में शून्य का वर्णन किया है।

कबोर : सुनि गुफा महि आसणु बैसणु कलप बिबरजित पन्था ।^{५३}

दादू : सुन्न सरोवर हंस मन मीती आप अनन्त

दादू चुगि चुगि चंच भरि यों जन जीवै सन्त ।

चञ्जयानी शब्दों की परम्परा

सुन्न सरोवर मीन मन नीर निरंजन देव
दादू यहू रस बिलसिये ऐसा अलख अभेव ।
सुन्न सरोवर मन भँवर तहाँ कैवल करतार
दादू परिमल पीजिए सनमुख सिरजनहार ।^{५४}

नानक : सुन्नि सरोवर सुरति समानी । नानक चूकी आवन जानी ।^{५५}

गुलाल : सुन्न सरोवर घाट फूल इक वाइत्रा ।^{५६}

पलटू : उलटा कूवा गगन में तिस में जरै चिराग ।^{५७}

सुन्न सागर भरा सत्त के नाम से तेहि के बीच में सुरत हल्ती ।^{५८}

अन्य : सवहिं शून्य मंह ध्यान लगाये, स्वाति सनेह सीप ज्यों लाये ।
तवहिं निरंजन जतन विचारा, शून्य गुफा ते शब्द उचारा ।
रंसांशु शब्द उठा बहु बारा, माया अन्नर माया संचारा ।
दोउ अन्नर कहं सम के राखा, रामनाम सचहिन अभिलाखा ।^{५९}

इसके अतिरिक्त सन्तों ने सहस्रार के मध्य शून्य स्थान को महल, मण्डप, शिखर, नगर, हाट आदि के रूप में इस प्रकार वर्णित किया है ।

कबीर : अरध उरध मुख लागो कासु, सुंन मंडल, महि करि परगासु
उहाँ सूरज नाहीं चंद्र, आदि निरंजन करे अनन्द ।^{६०}
सुन्न मंडल में घर किया, बाजे सबद रसाल ।
रोम रोम दीपक भया, प्रगटे दीन दयाल ।^{६१}
धूँघट का पट खोल रे ।

सुन्न महल में दियना बरिले, आसा से मत डोल रे ।^{६२}

मीरा : त्रिकुटी महल बना है भरोखा तहाँ से भाँकी लगाऊँ री ।
सुन्न महल में सुरत जमाऊँ सुख की सेज विछाऊँ री ।^{६३}

मल्लूकदास : सुन्न महल की जुगती ब्रतावे केहि विधि कीजै सेवा ।^{६४}
सुन्न महल में महल हमारा निरगुन सेज विछाई ।^{६५}

भीखा : कायागढ़ के गगन भवन में धुधुकि धुधुकि धुन नाम सुनाई ।^{६६}
सुन्न शिखर पर माँडो छायो, इंगला पिंगला चौक पुरायो
दुलाहिन नाम सेवकरि पाई, नाद बिंद बहुतै भौजाई ।^{६७}

गुलाल : सुन्न नगर में आसन पाई जगमग जोति जगावै ।^{६८}
शून्य शिखर सरोज फूलो बंक नालहि जाव ।^{६९}

चहुँ दिसि ते घन घेरि घटा आई सुन्न भवन डरपावन ।^{१०}
 सुन्न सिखर पर माँडो छावो सहज के रूप लगाई ।^{११}
 चहुँ ओरि घन घोरि घटा आयो सुन्न भवन मन भावन ।^{१२}
 सुन्न सिखर चढ़ि जाइव हो बाजत अनहद तार ।^{१३}
 सुन्न भवन में मण्डप निगमे सिव अस्थान ।^{१४}
 सुन्न सहर भङ्गभोर सुरति दहराया ।^{१५}

अन्य : सुन्न मंडल में वैसि साँच सो सुरति लगावे । (हरिदास)^{१६}

सुन्न महल अस्थान है जहं इस्थिर डेरा । (गरीबदास)^{१७}

इसके अतिरिक्त दो एक स्थानों में शून्य को बाघम्बर^{१८} ध्वजा^{१९} थाल^{२०} आदि उपमानों से चित्रित किया गया है जहाँ उसका अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है ।

इन उद्धरणों के अतिरिक्त अन्य भी कितने ही स्थलों पर सन्तों ने शून्य महल, गुफा आदि का उल्लेख किया है जिनमें इन्हीं भावनाओं तथा रूपकों को दोहराया गया है । इनका निरीक्षण करने से हम यह देखते हैं कि यद्यपि इनमें से कई अप्रस्तुत तो नये हैं किन्तु शून्य का सरोवर गुफा आदि के रूप में सिद्धों द्वारा भी चित्रण हो चुका है जिनमें से सरोवर का रूपक (दोहा ३) गुफा का रूपक (दोहा १४) शिखर का रूपक (दोहा २५) काणहपा के दोहाकोष में स्पष्ट मिलता है । नगर का भी रूपक चर्यापदों में पद संख्या १४ मिलता है किन्तु वह शून्य न होकर 'जिनपुर' है । इसी प्रकार मण्डप तथा विवाह आदि का रूपक भी १६वें चर्यापद में मिलता है जिसमें काणहपा पालकी पर चढ़ कर परिशुद्धा वधू से विवाह करते हैं किन्तु इस नगर और मण्डप की कल्पना आदि के साथ शून्य का विशेषण सन्तों ने जोड़ा है । बाघम्बर, ध्वजा, थाल आदि को उन्होंने इसलिये शून्य कहा है कि परम स्वभाव के या शून्य स्वभाव के हैं, किन्तु इस शून्य स्वभाव के अर्थ बौद्धों की सर्व-धर्म-शून्यता नहीं है ।

इन रूपकों में जो गौण उपमान हैं उनका भी अपना विशेष अर्थ है, और लगभग उन सभी को सन्तों ने अपनी पूर्व परम्परा से ग्रहण किया है । वे हैं कमल, दीपक ज्योति, नीर और मेघ । काणहपा ने अपने दोहों में 'पोखर' में 'कुसुमिअर अरविदण' तथा 'वरगिरिकन्दर' में 'विमल सलिले' तथा 'गअण नीर' की स्थिति मानी है ।^{२१} ज्योति के रूप में प्रभास्वर शून्य की ज्योति तथा

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

चण्डाग्नि की ज्योति भी सिद्धों ने चर्यापदों में बराबर वर्णित की है। हम उसका चौथे अध्याय में विस्तृत विवेचन कर चुके हैं। जहाँ तक मेघ का सम्बन्ध है हम देख चुके हैं कि चर्यापदों में करुणा का एक अप्रस्तुत मेघ भी है। किन्तु गुलाल के दोनों उद्धरणों में मेघ करुणा के अप्रस्तुत होकर नहीं आये हैं। वे केवल भौतिक प्रकृति-गत उद्दीमन विभाव मात्र हैं। मेघ का करुणा वाला अर्थ सन्तों को सम्भवतः ज्ञात ही नहीं था क्योंकि प्रज्ञोपाय की मैथुन कल्पना से वे अपरिचित थे। शून्य सरोवर में, शून्य सागर या शून्य महल आदि में जिस सुरति की ओर संकेत है वह भी सिद्धों द्वारा वर्णित सुरत-विलास का अर्थ नहीं देती। उस पर हम आगे विचार करेंगे।

सन्तों ने शून्य के साथ मण्डल का प्रयोग किया है और यह मण्डल शब्द महत्व रखता है। हम पहले देख चुके हैं कि तन्त्रों में 'मण्डल' अनुष्ठानों का एक आवश्यक अंग था और गुह्य साधनाओं में मण्डल चक्र के अनुष्ठानों से ही साधक को दीक्षा दी जाती थी। बाद में यह भी माना जाने लगा था कि उत्तम मण्डल स्वतः तथागत और उनकी शक्ति का युगनद्ध मण्डल है। अनुत्तर साधना में यह भी मान लिया गया था कि सहज अथवा अनुत्तर की उपलब्धि के उपरान्त साधक बाह्य मण्डल कर्मों से विमुक्त होकर स्वतः अपनी काया में शून्य तथा वज्र का युगनद्ध सम्पन्न कर घर में ही मण्डल स्थापित करता है।

जिम जल माभ चन्द सहि णउ सो सा सुणमीच्छ

णाउ सो मण्डल चक्क सुण्ण सहावे स्वच्छ ।^२

यह मण्डल-कर्म पवन के निरोध से सम्पन्न होता था। जब सन्त शून्य-मण्डल अथवा गगन-मण्डल की बात करते हैं तो वे उसी परम्परा का अनुष्ठान करते हैं, यद्यपि वे उसके पुराने अर्थों का तिरस्कार कर चुके हैं और शायद इस मण्डल शब्द की तान्त्रिक परम्परा को विस्मृत भी कर चुके हैं।

एक महत्वपूर्ण तथ्य इन उद्धरणों में और मिलता है। सिद्धों की योग-पद्धति में बीज रूप में 'एवं' को ग्रहण करने का आदेश मिलता है। यह एवं किस प्रकार शून्य और करुणा के युगनद्ध का द्योतक है इस पर शून्य की हिन्दू हम प्रकाश डाल चुके हैं। किन्तु सन्तों ने शून्य गुफा में दीक्षा र्रासु 'रा' तथा 'म' माया का द्योतक के उदय की ओर संकेत किया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने शून्य को अप-

नाते हुए भी उसे हिन्दू परम्परा से अलग करके नहीं माना था। वे बौद्ध परम्परा से उसे अलग कर परिशोधित कर चुके थे और उसे निर्गुण राम की साधना में अंतर्भूक्त कर चुके थे। इसीलिये कहीं कहीं उन्होंने शून्य सरोवर में राम-रसायन की स्थिति मानी है।^{८३} सिद्धों ने शून्य में वज्र की स्थिति मानी थी। किन्तु सन्त वज्र को उस रूप में विस्मृत कर चुके थे। सन्तों ने शून्य-महल में राजाराम का प्रवेश माना या शिव का वास माना। इस प्रकार उनका शून्य जो काया में मध्य-पथ के रूप में या अमृत गुफा के रूप में स्थित था, वाह्य सृष्टि-योजना में वही शून्य शिव का परम लोक मान लिया गया।

नानक—सम्भू की नगरी सुन्न ते होई। नानक जो बसे सो जोगी होई।

सम्भू की नगरी सुन्न परगासी। को जोगी बसे अतीत उदासी।^{८४}

कहँवा सिव कर आसन, कहँवा सिव कर ध्यान।

कहँवा सिव कर मगडप, कहँवा सिव कर अस्थान।

अगमे सिव कर आसन, सक्तिहिं सिव कर ध्यान।

सुन्न भवन में मगडप, निगमे सिव अस्थान।^{८५}

कवीर-ग्रन्थ के सांप्रदायिक ग्रंथों में इस परम लोक या परम नगर के रूप में शून्य की कल्पना का बहुत विकास हुआ जिसके विस्तार में अधिकतर निरर्थक कल्पनाएँ ही अधिक मिलती हैं। किन्तु एक महत्वपूर्ण तथ्य अवश्य ज्ञात होता है। जिस प्रकार परम-तत्व के रूप में शून्य बाद में तिरस्कृत हो कर केवल गौण तत्व मान लिया गया था उसी प्रकार परम-लोक के रूप में भी शून्य का बाद में तिरस्कार हुआ। निरंजन बोध में निरंजन देवता का वास शून्य में माना गया है और यह सहज शून्य, सात द्वीप, नौ खण्ड, सात पाताल और इक्कीस ब्रह्माण्डों से भी परे माना गया है।

सप्त द्वीप पृथ्वी नौ खण्डा, सप्त पाताल इक्कीस ब्रह्माण्ड।

सहज सुन्न में कीन्ह ठिकाना, काल निरंजन सबही ने माना।^{८६}

बाद में जब निरंजन पराजित होकर गौण देवता रह गया और सत्यपुरुष को सर्वोच्च पदवी दी गई तब शून्य-लोक भी परम-लोक के पद से च्युत हो गया परम-लोक और की कल्पना शून्य से भी परे की गई।

सुन्न के परे पुरुष को धामा, तहं साहज है आदि अनामा।^{८७}

किन्तु कवीर-ग्रन्थ में जहाँ पद और श्रेष्ठता की दृष्टि से शून्य की कल्पना में हास हुआ है, वहाँ उसके विषय तथा संख्या का विस्तार भी हुआ है। संख्या

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

के विस्तार पर हम अलग विचार करेंगे किन्तु जहाँ तक विषय विस्तार का संबंध है, दो एक रोचक तथ्य हमें अवश्य मिलते हैं ।

‘आगम निगम बोध’ में जहाँ नव लोकों का वर्णन है वहाँ भू लोक, भुवः लोक, स्वः लोक तथा पितृलोक के उपरान्त शून्य लोक का वर्णन मिलता है ।^{१८} उसके बाद जम्बू, शाक, क्रौंच, कुशा, शलमल्य, झरू तथा पुष्कर आदि सात द्वीपों के उपरान्त दश कोटि योजन तक कंचन भूमि का वर्णन है जिस पर लोकालोक नामक पर्वत है ।^{१९} ‘श्वास गुंजार’ में जम्बू द्वीप के निकट ही सहज-शून्य नामक लोक का वर्णन मिलता है जिसमें सहज का वास है और सहज वास्तव में काल-पुरुष का ही पर्याय है ।^{२०} इसी प्रकार शून्य डोर^{२१} तथा शून्य सुरत^{२२} का भी उल्लेख मिलता है । इसी शून्य शृंखला में शून्य का विस्तार दो पलंग (दो विश्व) के बराबर बताया गया है ।^{२३} इस पलंग का अर्थ पर्यंक है या पालंग (पलंका, एक विश्व का विस्तार), यह स्पष्ट नहीं होता । किन्तु उसका अर्थ पर्यंक प्रतीत होता है क्योंकि उसी प्रसंग में नारी या शक्ति का भी उल्लेख है । यह पर्यंक की कल्पना भी हमें शवरपा के चर्यापद में मिलती है जहाँ वे शवर बालिका से समागम के लिये वज्र पर्यंक विछाते हैं । किन्तु यहाँ पर ज्ञात होता है कि पलंग तथा पलंका की कल्पनाओं का सम्मिश्रण हो गया है ।

जहाँ तक संख्या की दृष्टि से शून्य के विकास का सम्बन्ध है, सन्त साहित्य में शून्य की स्थिति बहुत बदल गई है । हम पहले इस बात पर विचार कर चुके हैं कि वज्रयानी साहित्य में चार प्रकार के शून्य माने शून्यों के भेद गये हैं : शून्य, अतिशून्य, महाशून्य तथा सर्वशून्य । पहला संख्या तथा शून्य प्रज्ञा है, दूसरा वज्र है, तीसरा प्रज्ञोपाय युगनद्ध है तथा रंग चौथा सर्वशून्य है । इसी को कान्हपा ने अपने दोहाकोष में शून्य कमल की ४ पांखुरियों के रूप में वर्णित किया है । वास्तव में साधना-पद्धति में केवल प्रथम तीन शून्यों को पार करना पड़ता है, चतुर्थ शून्य तो उपलब्धि है जैसा शवरपा के (५०वें) चर्यापद की टीका में मुनिदत्त ने भी संकेत किया है ।

चार शून्यों की यह कल्पना हिन्दू हठयोग पद्धति में भी ग्रहण की गई

थी। किन्तु प्रज्ञा तथा उपाय की बौद्ध भावना का तिरस्कार कर उन्होंने शून्य और शब्द का एकात्म सिद्ध किया था अतः हठयोग-प्रदीपिका में शून्य, अतिशून्य तथा महाशून्य को तीन प्रकार के शब्दों का विशेषण मान लिया गया था। शून्य वह शब्द है जो हृदाकाश में उत्पन्न होता है कि जिस समय साधना की आरंभिक अवस्था होती है। इसको आरंभ अवस्था कहा गया है और इस अवस्था में ब्रह्म-ग्रन्थि का छेदन होता है। द्वितीय अवस्था घटावस्था है जिसमें विष्णु-ग्रन्थि का जालन्धरबन्ध द्वारा छेदन होता है। इस समय विशुद्धाकाश में, कण्ठ स्थान में अतिशून्य शब्द उत्पन्न होता है। तृतीय अवस्था परिचय अवस्था है जिसमें भूमध्याकाश में महाशून्य शब्द की उत्पत्ति होती है। इन समस्त अवस्थाओं को केवल एक श्री गुरुनाथ मात्र जानते हैं।^{१४}

नाथ-पन्थ की जो बानियाँ अभी तक उपलब्ध हैं उनमें इन चार शून्यों का विशेष विवरण नहीं है। केवल कुंभरी पा के विराट-पुराण में परम शून्य, अर्धशून्य, पंचमी शून्य आदि का कुछ अस्पष्ट उल्लेख है जिससे कुछ विशेष अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता है।

पर्मं शून्य च रंमत्ते जोगी ।

चोषटि दल कमल, कमल मध्ये श्री गोरखनाथ देवता ।

चतुर्दलम् कालम् च ऊर्ध्वं कं

अर्धं सून्य मध्ये खेचरी मुद्रा वसते

पंचमी निरालम्भव सून्य मध्ये उनमनी मुद्रा वसते...^{१५}

इन पंक्तियों में कई प्रकार के शून्य और विभिन्न शून्यों से विभिन्न मुद्राओं और कमलों का कुछ सम्बन्ध तो अवश्यक प्रतिभासित होता है किन्तु हठयोग-प्रदीपिका में स्वीकृत शून्य, अतिशून्य तथा महाशून्य की पद्धति से कुंभरीपाव बहुत परिचित नहीं ज्ञात होते। राग रामग्री के एक पद में सुनार का रूपक बांध कर स्वर्ण विशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए अवश्य तीन शून्यों के रहनी के उपरान्त चतुर्थ शून्य 'सहज' में समाने की साधना का उल्लेख आया है जो हठयोग-प्रदीपिका के चार शून्यों के अनुसरण में है।

अरधै सोनां उरधं सोना, मध्ये सोनं सोना

तीनि सुन्यं की रहनी जानै ता घटि पाप न पुनां

...आपे गोरख जोषण बैठा तत्र सोनां सहज समानां

सन्तां में से कुछ नै शून्य, अतिशून्य तथा महाशून्य की हठयोग-प्रदीपिका

सृजन्यानी शब्दों की परम्परा

में वर्णित पद्धति को अवश्य ग्रहण किया है। विशेषतः राधास्वामी मत के प्रवर्तक सन्त शिवदयाल स्वामी जी महाराज ने इन चार शून्यों की कल्पना से प्रभावित होकर त्रिकुटी स्थान में भँवर गुफा के तनिक नीचे दो प्रकार के शून्यों के अस्तित्व का वर्णन किया है। पहले साधक गगन मण्डल का ताला खोल कर शून्य शिखर के मन्दिर में भाँकता है। वहीं मानसरोवर की निर्मल धारा है। उसके बाद भँवर गुफा के प्रवेश स्थान पर महाशून्य का थाना है जिसे तोड़ कर साधक भँवर गुफा में प्रवेश पा सकता है।

सुन्न सिखर का मन्दिर भाँके अद्भुत रूप दिखावे।

महासुन्न का नाका तोड़े भँवर गुफा दिग जावे ॥१६

उन्हीं का अनुसरण करते हुए उनके उत्तराधिकारी हुजूर महाराज साहेब सन्त सालिगराम भी शून्य तथा महाशून्य के परे परम तत्व की स्थिति बताते हैं।

सुन्न और महासुन्न के पारा निरखा सूरज सेत स्वरूप।

सत्त पुरुष का दर्शन करके पहुँची राधास्वामी धाम अनूर ॥१७

त्रिकुटी में जिस महाशून्य की स्थिति मानी जाती थी उसे तो इन्होंने नहीं माना किन्तु दृढाकाश, विशुद्धाकाश और ब्रह्म-ग्रन्थि तथा विष्णु-ग्रन्थि आदि की कल्पनाएँ इन सन्तों ने विस्मृत कर दी हैं।

किन्तु इनके बहुत पहले दादू ने इन चारों शून्यों को एक नये रूप में स्वीकृत किया था। उन्होंने काया शून्य, आत्मशून्य, परम शून्य तथा सहज शून्य, इन चार शून्यों का वर्णन किया है जिनमें से पहले तीन सगुण तथा साकार हैं और अन्तिम शून्य निर्गुण तथा निराकार हैं।

तीनि सुन्नि साकार की चौथी निरगुण नाम

सहजै सुन्नि में रमि रह्या, जहाँ तहाँ सब ठाम ॥

काया सुन्नि पंच का बासा, आत्म सुन्नि प्राण परगासा

परम सुन्नि ब्रह्म सौं मेला, आगे दादू आप अकेला।

सहज सुन्नि सब ठौर है, सब घर सब ही माँहि

तहाँ निरंजन रमि रह्या, कइ गुण व्यापे नाहिं ॥१८

कायाशून्य, आत्मशून्य तथा परमशून्य दादू की निजी कल्पना प्रतीत होती है जिसका आधार सिद्धों की नाथ सम्प्रदाय तथा हठयोग पद्धति द्वारा पूर्वागत चतुशून्य कल्पना है। किन्तु एक महत्वपूर्ण तथ्य यह अवश्य है कि इन

चारों शून्यों के लक्षण सिद्धों के चार शून्यों से अवश्य बहुत मिलते जुलते हैं वज्रयान में प्रथम शून्य को सम्वृत इन्द्रिय-ज्ञानयुक्त माना था, दादू ने भी उसमें पंचेन्द्रियों का वास माना है। द्वितीय शून्य उसमें आलोकरूप वज्र माना गया है, यहाँ भी वह प्राण-प्रकाश से युक्त है, तृतीय शून्य प्रज्ञा तथा उपाय के युगनद्ध का द्योतक माना गया था। यहाँ भी तृतीय परम शून्य में ब्रह्म से मिलान माना गया है और उसके उपरान्त सहज-शून्य है जो परम-तत्त्व है। इस प्रकार दादू के चार शून्यों की कल्पना विचित्र ढंग से सिद्धों की कल्पना के बहुत निकट जा ठहरती है। पीछे हमने शून्य की हिन्दू दीक्षा की ओर संकेत किया है। दादू ने भी अपने चतुर्थ तथा सर्वोपरिशून्य को ब्रह्मशून्य की संज्ञा दी और उसे निरंजन ब्रह्म का ही मर्याय मान लिया।

ब्रह्म मुन्न तहँ ब्रह्म है निरंजन निराकार।

नूर तेज तहँ ज्योति है, दादू देखनहार ॥^{१९}

बाद में कबीर-पन्थ के साम्प्रदायिक साहित्य में शून्य की संख्या में कल्पनातीत वृद्धि हुई है। कबीरबानी में पहले सात की संख्या को महत्व दिया गया है और सात कमल, सात सुरति तथा सात शून्य परिकल्पित किये गये हैं, ये कुल मिलाकर २१ ब्रह्माण्ड होते हैं और वे इक्कीसों ब्रह्माण्ड निरंजन ज्ञान से भरे हुए हैं।

सात शून्य का सकल पसारा। सात शून्य ते कोई न न्यारा।

सत कमल, अरु शून्य सत, सात सुर्त स्थान।

इक्कीसों ब्रह्माण्ड में आप निरंजन ज्ञान ॥^{१००}

किन्तु इन सात शून्यों का कोई लक्षण नहीं बताया गया है और इस संख्या-वृद्धि के पीछे कोई विशेष संकेत न होकर केवल संख्या-प्रेम ज्ञात होता है क्योंकि बैकुण्ठ के विस्तार में १८ करोड़ शून्यों की शृङ्खला का वर्णन मिलता है और मुक्ति के भी आगे जो अनहद ज्योति का स्थान बताया गया वह असंख्य शून्य का विस्तार बताया गया है और तब असंख्य शून्य परिकल्पित किये गये।^{१०१} कुछ इन्हीं शून्यों की तुलना में बेशून्य भी कल्पित किये गये। अन्त में इन सबों को पूर्वोक्त सात शून्यों में ही समाहित करने का प्रयास किया गया और उसकी गणना इस प्रकार बताई गई।^{१०२}

असंख्य शून्य ४ + बेशून्य २ + शून्य १ = ७ शून्य

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

ये सात शून्य, सूर्य की किरणों के सात रंगों से समन्वित कर दिये गये और अखिल सृष्टि उन्हीं रंगों का प्रसार मान ली गई। 'सात मुन्न हैं सातौ रंगा उठत तान बहु ताना ।^{११०३} कुछ रंग थे 'शून्य स्वेत पीत सवज लाल दिखाय रंग जंगाल हो ।^{११०४}

इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे शून्य का ज्ञानपरक और तात्विक अर्थ मुला दिया गया और वह केवल एक निरर्थक पौराणिक कल्पना मात्र बन कर रह गया। रैदास ने इस शून्य चेतना द्वारा मन के शोधन शून्य का की उपदेश दिया था। 'हम मानो अखिल मुन्न मन सोध्यो तिरस्कार सब चेतन सुधि पाई ।^{११०५} किन्तु बाद में वह केवल एक रूढ़ संज्ञा मात्र रह गया। अपना समस्त तात्विक अर्थ खो बैठता और वैकुण्ठ आदि की उन कल्पनाओं का वाहक बना जिनके प्रति कबीर ने विद्रोह किया था तथा उनकी निन्दा की थी जो रामभक्ति से विहीन केवल शून्य का आश्रय लिये बैठे थे।

मनमथ मरै न जीवई जीवहिं मरन न होय ।

मुन्न सनेही राम विनु चलै अपन पा खोय ।^{११०६}

कबीर के पहले सिद्धों ने भी शून्य, केवल शून्य की निन्दा की है, किन्तु जैसा हम देख चुके हैं कि उसका कारण यह था कि वे महायान के अनुयायी थे जिसमें शून्य से भी अधिक करुणा को भी महत्व दिया गया था और जब तक चित्त करुणा से समन्वित न हो तब तक साधक प्रत्येकयान या श्रावकयान में ही गिना जाता है, महायान में नहीं। इसीलिये निष्करुण शून्य को सरहपा ने त्याग्य बताया था और कहा था कि बिना विषयों की त्रिशुद्धि के निष्करुण शून्य में विचरण करने वाला मन जहाज के काग की तरह पुनः पुनः भव में गिरता रहता है।

विसअर विसुद्धे णउ रमइ केवल सुण चरेइ

उड्डी वोहिअर काउ जिम पलुहिअर तिह वि पड़ेइ ॥^{११०७}

इस प्रकार हम देखते हैं कि शून्य को करुणा से संयुक्त करने का आग्रह कबीर में शून्य को भक्ति (रामभक्ति) से समन्वित करने के आग्रह में बदल गया।

तब तक करुणा की कल्पना और उसके प्रज्ञोपायार्थ विस्मृत किये जा चुके थे। अन्ततोगत्वा राम की भक्ति ने शून्यता ज्ञान के महत्व को आच्छादित कर लिया। भक्ति प्रमुख हो गई, शून्य गौण। इसीलिये सन्तों ने यह स्पष्ट कहा :

सुन्न सुन्न सब करै पुकारा, सुन्न न होखहि हंस उवारा।

सुन्न न धरती सुन्न न पानी, सुन्न कतहि नहि देखिय ज्ञानी।^{१०८}

क्योंकि केवल शून्य परमार्थ नहीं है, परमार्थ हरि भक्ति तो कुछ और है जिसके बिना शून्य को भी रैदास ने भ्रमात्मक बताया है।

भरम तौ लौ जानिये सुन्न की करै आस।^{१०९}

सहज-शून्य

इसी शून्य को सन्त कहीं कहीं सहज विशेषण से भी जोड़ देते हैं और हमें यह देखना है कि सहज उपाधियुक्त शून्य से उनका क्या तात्पर्य था। शून्य के चार प्रकारों पर विचार करते समय हम यह देख चुके हैं कि सिद्ध सहज-शून्य चतुर्थ शून्य को कहते थे जो परम अवस्था है, परम तत्व है जिसमें प्रज्ञा तथा उपाय का पूर्ण अद्वय हो जाता है और किसी प्रकार की द्वैत-सीमा उसे आबद्ध नहीं करती। उसी को मध्यस्थिति या मध्यमार्ग भी कहा गया था क्योंकि इस में साधक प्रज्ञा या उपाय इन दोनों में से किसी एक को नहीं ग्रहण करता दोनों का अद्वैत या युगनद्ध सम्पन्न कर लेता है। केवल मात्र शून्य से यह स्थिति अधिक ऊँची है क्योंकि इसमें वज्रयोग द्वारा प्रज्ञा तथा उपाय की द्विविधानष्ट हो जाती है।

नाथ योग-पद्धति में प्रज्ञा तथा उपाय की बौद्ध भावना का तिरस्कार किया जा चुका था किन्तु त्रिकुटी में शून्य-समाधि द्वारा मन को प्रसन्न बनाने और अमृतपान कर चित्त को दृढ़ और काया को अमर बनाने की कल्पना चली आ रही थी। गोरखबानी में कुछ पंक्तियाँ ऐसी मिलती हैं जिनमें शून्य से ऊपर सहज-शून्य की कल्पना की गई है और यह बताया गया है कि केवल मात्र शून्य में तो आवागमन (आना जाना) लगा ही रहता है किन्तु जिस शून्य में चित्त समा-कर स्थिर हो जाता है वह सहज-शून्य है।

ब्रज्यानी शब्दों की परम्परा

गोरख मछीन्द्र से पूँछते हैं—स्वामी कैसे आवै कैसे जाइ, कैसे चीया रहै
समाइ
कैसे मन तन सदा थिर रहै, सत्गुरु होइ
सो वृभवा कहै ।

तो मछीन्द्र उत्तर देते हैं—अवधू, मुंने आवै मुंने जाइ, मुंने चीया रहै
समाइ
सहज-मुंनि तन मन थिर रहै, ऐसा दिचार
मछीन्द्र कहै ।^{११०}

यद्यपि इस स्थल पर शून्य और सहज-शून्य के अन्तर को बहुत स्पष्टता से नहीं रक्खा गया है किन्तु शून्य के साथ आने जाने (आवागमन) की कल्पना तथा सहज-शून्य में तन मन की स्थिरता का उपदेश कर मछीन्द्र ने सहज-शून्य को केवल शून्य से श्रेष्ठ सिद्ध किया है, यद्यपि इसमें प्रज्ञोपाय के सहज (युगनद्ध-जनित) अद्वैत का कोई उल्लेख नहीं है ।^०

दादू की बानी में सहज-शून्य की कल्पना अधिक स्पष्ट है जिस पर हम पीछे विचार कर चुके हैं । वे तृतीय शून्य में ब्रह्म तथा जीव का मिलन मानते हैं जो प्रज्ञा तथा उपाय के मिलन की ही समानान्तर भावना है । सहज-शून्य में तत्व अकेला रह जाता है । वही परम तत्व है, मध्यमार्ग है ।

‘सहज सुन्न मन राखिये इन दून्यू के माहिं ।’^{१११} और इस पथ में चित्त को दादू ने निराधार कहा है—‘निराधार मन रहि गया आतम के आनन्द ।’^{११२} और यह निराधार विशेषण भी सिद्धों के निरालम्ब विशेषण का ही प्रतिरूप है—‘सोहिअ चित्त निरालं दिरणा ।’ इसमें आवागमन भी समाप्त हो जाता है—‘टुइ विच राम अकेला आपै आवण जाण न देई’ । जो वास्तव में सिद्धों के इस कथन की प्रतिध्वनि है—‘जेण तुटअ अवणा गवणा ।’ (चर्यापद २१)

किन्तु अन्य सन्तों के सम्मुख केवल शून्य तथा सहज-शून्य का यह भेद इतना स्पष्ट नहीं था । इसलिये उनकी बानियों में हमें दोनों प्रकार के स्थल मिलते हैं । जहाँ उन्होंने सहज और शून्य में थोड़ा अन्तर माना है, और ऐसे भी स्थल मिलते हैं जहाँ सहज-शून्य का प्रयोग सर्वोपरि शून्य के रूप में किया गया है किन्तु शून्य और सहज-शून्य की अन्तर-रेखा उतनी स्पष्ट नहीं है । इसी कारण कुछ उलझने भी पैदा होती हैं जिनकी ओर द्विवेदी जी ने संकेत किया है ।^{११३}

जहाँ तक कबीर का प्रश्न है उन्होंने अधिकतर सहज-शून्य को परम तत्त्वा परम ज्ञान के ही अर्थ में प्रयुक्त किया है—

उलटि जाति कुल दोउ बिसारी । सुन्न सहज महिं बुनत हमारी ।^{११४}
नहिं जल नहिं थल नहिं थिर पवना । को धरे नाम हुकुम को बरना ॥
नहिं कुछ होत दिवस अरु राती । ताकर कहहुं कवन कुल जाती ॥
सुन्न सहज मन सुमिरते प्रगट भइ एक जोति ॥^{११५}

यहाँ पर कबीर ने सहज शून्य को सर्वोपरि शून्य (परमतत्व) के अर्थ में प्रयुक्त किया है, यद्यपि वे शून्य के चार विभेद और प्रथम तीन शून्यों से सहज-शून्य की श्रेष्ठता के सिद्धान्त से परिचित थे, इसका कोई भी आभास नहीं मिलता। अन्य कुछ स्थलों पर गुलाल साहब का भी एक ऐसा पद मिलता है जिसमें सहज-शून्य का परमतत्व के रूप में चित्रण है।

मन सहज सुन्न चाढ़ि कर निवास
रूपरेख तँह जाँति पाँति नहिं छय अमूरति करत बास
कह गुलाल तह मारयो बानी, घर आयो मन सहजे मारि ॥^{११६}

इस पद में एक बात अवश्य ध्यान देने की है। अंतिम पंक्ति में मन को सहज-पद्धति द्वारा मारने का संकेत है और तब घर (सहज-शून्य) में आने का विवरण मिलता है। अर्थात् सहज पद्धति है, शून्य उपलब्धि। उसी पद्धति के कारण इस शून्य को सहज-शून्य कहा गया है। इसी को काण्हपा ने 'चिञ्च सहजे सूरण सम्पुरणा' (पद ४२) कहा है, किन्तु काण्हपा सहज से जो प्रज्ञोपाय अद्वैत का अर्थ लेते हैं वह सन्तों तक आते आते लुप्त हो गया है, किन्तु सहज द्वारा शून्य में समाया जाता है—यह सन्तों को याद रह गया था। यह उन्होंने अपनी गुरु परम्परा से पाया था—'जन गुलाल सतगुरु को चेला सहजहि सुन्न समावे ।'^{११७} यहाँ भी शून्य के साथ सहज शब्द का ऐसे प्रयोग किया गया है कि दोनों में एक क्षीण अन्तर ध्वनित अवश्य होता है यद्यपि उसका स्पष्ट विवेचन नहीं मिलता। एक स्थल पर यदि शून्य नगर है तो सहज उसमें स्थित घर ।^{११८} दूसरे स्थल पर उसी अद्भुत शून्य नगर में सहज को ध्वनि रूप में परिकल्पित किया गया है ।^{११९} पलटू वीतरागी उसे बताते हैं जो शून्य समाधि में ध्यानमग्न होकर सहज का ध्यान करे :—

शून्य समाधि में ध्यान को लाइ कै, सहज का ख्याल सोई वीतरागी ।^{१२०}

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

सहज शून्य का एक दूसरा रोचक प्रयोग कवीरपन्थी साहित्य में मिलता है। यह सहज शून्य परम-पद था, 'घर' माना गया था जहाँ जीव द्वैत से मुक्त होकर निरंजन रूप में पहुँचता है। किस प्रकार इस निरंजन के साथ देवता की भावना जुड़ी और कालान्तर में साम्प्रदायिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण निरंजन को नीचा सिद्ध किया गया इस पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। (द्विवेदी-कर्वर) सहज-शून्य में निरंजन मन की स्थिति मानी गई थी अतः सहज-शून्य निरंजन देव का लोक माना गया—

सहज सुत्र में कीन्ह ठिकाना, काल निरंजन सबही ने माना।^{१२१}

और बाद में तो निरंजन, कालनिरंजन होकर लोक को त्रासदायी हो गया। पल भर में सहज-शून्य लोक से जम्बू द्वीप में आकर साधकों को सहज रूप धारण कर भ्रम में डालने लगा। सहज के साथ साधकों की साधना में वायु-व्याधा डालकर चन्द्र-सूर्य के मिलन से प्राप्त होने वाले अमृत को अशुद्ध करने लगा और इस प्रकार वह सहज-शून्य जो परम तत्व था, परम पद था, धीरे धीरे वह साधना में बाधक माना जाकर तिरस्कृत कर दिया गया।

वज्र

सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक-तत्व वज्र था जो पुरुषरूप में बोध-चित्त में जाग्रत होकर नैरात्मज्ञान में लीन होने के लिए अग्रसर होता था। यह मणि, अश्म तथा अन्न के वैदिक अर्थों का परित्याग कर किस प्रकार वज्रयान में परम-तत्व का अर्थ देने लगा था और सिद्धों ने अपनी प्रज्ञोपाय साधना में किस प्रकार इसे पुरुष, पति या उपाय से समन्वित कर वज्रास्त्र योग या कुलिश-कमल योग की साधना का उपदेश दिया था, इस पर हम विस्तार में विचार कर चुके हैं। किन्तु परवर्ती सम्प्रदायों के साहित्य में यह वज्र बिल्कुल विस्मृत कर दिया नार्थों की अद्यावधि उपलब्ध ग्रन्थियों में कहीं भी वज्र का उल्लेख नहीं है। हठ-योग-प्रदीपिका में भी शून्य का वर्णन तो है किन्तु वज्र वहाँ भी भुला दिया गया है। इसका एक प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि वज्रयान में वज्र को जो प्रमुखता मिली थी, बाद के सहजान्नाय तथा कालचक्र-पद्धति में उसमें

थोड़ा हास हुआ। बाद में वज्र के साथ मुद्रामैथुन साधनाओं का जो वि सम्बन्ध रहा उसके कारण शुद्धतावादी गोरखपन्थी योगियों ने इसको विशेष अ नहीं दिया। किन्तु फिर भी एक विचित्र ढंग से यह परवर्ती साधनाओं में ब रह गया।

वज्रयानी योग की शब्दावली ब्रह्म में रन्ध्र को दशमद्वार या वैरोचन द्व कहते थे। नाथ तथा सन्त परम्परा में त्रिकुटी में शून्य-मण्डल या शून्य-मह की कल्पना की गई थी, जिस पर हम विचार कर चुके हैं। उस शून्य-मण्ड के समीप यह दशमद्वार स्थित है और उस द्वार में जो कण्ट लगे हुए हैं वज्र-कपाट हैं।

कबीर—धरे ध्यान गगन के मांहीं लाये वज्र किंवार

देखि प्रतीमा आपनी तीनिउँ भये निहाल । १२३

नानक—अउघट घाट विषम है बाट । गुरुमुख खोजे वज्र-कपाट ॥ १२४

भोखा—जड़ि ताला वज्र-कपाट को तहं बैठे आतमराम । १२५

इस दशम द्वार के कपाटों का उल्लेख गोरखबानी में भी है किन्तु इसमें 'वज्र' विशेषण नहीं है।

दसवें द्वारे देइ कपाट, गोरख षोजी और बाट । १२५

सन्तों ने कपाट के साथ वज्र विशेषण का प्रयोग तो अवश्य किया है किन्तु वे सिद्धों की वज्र-कल्पना को भूल चुके थे और वज्र के अर्थ यहाँ 'दृढ़' और अटूट ही हैं।

सूफी साहित्य में वज्र का प्रयोग कई रूपों में मिलता है। वे इस वज्र कपाट की कल्पना से तो परिचित थे ही, जैसा जायसी की निम्न पंक्तियों से प्रगट है :

पंवरी नवौं वज्र कै साजी, सहस सहस तहं बैठे पाजी

नवौ खण्ड नव पवरी औ तहं वज्र-केवार १२६

किन्तु इसके अतिरिक्त वज्राग्नि का उल्लेख भी पद्मावत में प्राप्त होता है। यह वज्राग्नि सम्भवतः नाथयोगियों की ब्रह्माग्नि तथा चर्यापदों की चण्डाग्नि की ही भाँति सुषुम्ना या अवधूत में प्रज्वलित होने वाले आलोक का ही दूसरा नाम मालूम होता है। यह वज्राग्नि पद्मावत में आकर प्रेम की विरहाग्नि

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

के रूप में परिणत हो गई और उसका सम्बन्ध हनुमान द्वारा लंका में लगाई हुई आग से भी जोड़ दिया गया—

विरह आगि वज्रागि असूक्ता, जरै न मूर बुभ्राएँ वृक्ता
तेहि के जरत उठै वज्रागी, तीनौ लोक जरै तेहि आगी
अबहुँ की घरी चिनगि तेहि छूटहि, जरि पहार पाहन सब फूटहि
देवता सबै भसम भये जाहीं, छार समेटे पाउत्र नाहीं
धरती सरग होहि सब ताता, है कोई एहिं रात्र विधाता
सुहमद चिनगी अनंग की सुनि माहि गगन डेराइ
धनि विरही औ धनि हिया जेहि सब आग समाइ ॥^{१२७}

‘मृगावती’ में सिद्धों के वज्र-चित्त से बहुत कुछ मिलता जुलता हुआ शब्द वज्र-करेजा का भी प्रयोग मिला है और प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि ‘वज्र-करेजा’ के अर्थ केवल दृढ़ हृदय नहीं वरन् ‘योग में प्रवृत्त होने वाला चित्त’ है।

कीगरी लिये वियोग बजावइ । सभही सुन वोही देपइ आवइ ।
सुन वियोग सबही एन बोला । भाइहु राग आसन हरि डोला ।

जेइरे सुनीउ से भुलीउ चित न रहीउ काहि

वज्र करेजा जाहि कर, भावयोग उर ताहि ॥^{१२९}

किन्तु इस प्रसंग में भी सिद्धों का बौद्ध अभिप्राय अर्थात् ‘करुणा या उपाय समन्वित चित्त’ न लिया जाकर केवल योग-प्रवृत्त चित्त मात्र माना गया है और इसका बौद्ध अर्थ कुतुबन के सामने स्पष्ट था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पद्मावत में एक स्थान पर आठ वज्रों का उल्लेख है।^{१३०} किन्तु गुह्य-समाज-तन्त्र के वज्र-चतुष्टय अथवा चर्यापादों के काय वाक् चित्त तथा ज्ञान वज्र से इन आठों वज्रों का कोई सम्बन्ध नहीं ज्ञात होता। एक स्थान पर जायसी ने सृष्टि के निर्माण का वर्णन करते हुए शून्यत्व के बाद वज्र-बीज का उल्लेख किया है जिससे यह ज्ञात होता है कि वज्र की बौद्ध कल्पना किसी न किसी रूप में उस समय भी जीवित अवश्य थी—

सरग न धरति न खंभमय, बरह न विमुन महेश

बजर-बीज बीरौ अस ओहि न रंग न भेस ॥^{१३१}

किन्तु चित्त के लिये वज्र के पर्याय मणि या चित्त के लिए वज्रयान के पहले से भी होता आया किन्तु वज्रयान में इसको एक विशिष्ट साम्प्रदायिक अर्थ

दिया जाने लगा था। सिद्धों की साधना में प्रज्ञोपाय योग या सहज-साधना द्वारा चित्त को मणि अथवा हीरा बनाने का आदेश मिलता है। सन्त वज्र के या मणि के उस अर्थ को तो भूल चुके थे किन्तु सहज पद्धति के साथ चित्त को मणि अथवा हीरा बनाने की प्रक्रिया उनकी परम्परा में अवशिष्ट रह गई थी और कई स्थानों पर सहज और तत्व रूपी मणि का एक साथ प्रयोग सन्तों के साहित्य में मिलता है—

कबीर—हीरै हीरा वेधि पवन मनु सहजे रहिआ समाई
सगल जोति इन हीरै वेधी सतिगुर बचन मैं पाई ।
हरि की कथा अनाहद बानी
हंसु हइ हीरा लेइ पछानी ॥

कहु कबीर हीरा अस देखिओ जग मह रहा समाई
गुपता हीरा प्रकट भईओ जब गुरु गाम दिआ दिखाई ।^{१३२}

रैदास—पीवत डाल फूल फल अम्रित, सहज भई मति हीरा ।^{१३३}

इन सन्तों ने वज्र का बौद्ध अर्थ भुला दिया था दिया था, किन्तु कुछ उल्लेख ऐसे मिलते हैं किसी न किसी रूप में वज्र-योग की पद्धति अवशिष्ट थी और कुछ ऐसे योगी थे जो अपने को वज्र-यति कहा करते थे। वे सम्भवतः गृहस्थ और विवाहित भी होते थे और वज्रयानियों की ही किसी अवशिष्ट शाखा के अन्तर्गत माने जाते थे। ऐसे ही वज्रयोगियों पर बालानाथ के नाम से प्राप्त एक बानी में बड़ा तीव्र व्यंग मिलता है—

पहिली कीए लड़का लड़की, अबही पन्थ में पैठा
बूढ़े चमड़े भसम लंगाई, वज्र-जती है बैठा ॥^{१३४}

खसम

सन्तों के साहित्य में जो शब्द सिद्ध-साहित्य से आये हैं उनमें अर्थ-विकास की दृष्टि सम्भवतः 'खसम' शब्द सबसे अधिक रोचक है, इस तथ्य की और द्विवेदी जी पहले ही संकेत कर चुके हैं ।^{१३५} सिद्धों की साधना पर विचार करते समय हम यह देख चुके हैं कि बोधिचित्त की साधना में सिद्ध मन को शून्य

चञ्जयानी शब्दों की परम्परा

या खसम स्वभाव धारण करने का अभ्यास करते थे। मन त्वतः शून्य रूप होकर शून्य में या 'ख' में मिल जाता है। सरहपा कहते हैं—

सर्वरूपत्र तर्हि खसम करिज्जइ, खसम सहावै मण्वि धरिज्जइ ॥^{१३३}
भगवती प्रज्ञा का स्वरूप भी खसम है—

मणह भञ्जवा खसम भञ्जवइ
दिवा राति सहजे रहिअइ ॥^{१३७}

गोरक्ष-यद्धति तथा हठयोग-प्रदीपिका में भी योग साधना में इसी गगनोपम अवस्था या ख-अवस्था में मन को विलीन करने का उपदेश मिलता है—

निर्मलम् गगनाकारम् मरीचिजल सन्निभम्
आत्मानम् सर्वगम् ध्यात्वा योगी मुक्तिमवाप्नुयात् ॥^{१३८}
खमध्ये कुरु चात्मानमात्ममध्ये च खं कुरु
सर्वं च खमयं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥^{१३९}

गोरखवानी में स्थान-स्थान पर गगन-शिखर या गगन-मण्डल का उल्लेख है किन्तु खसम शब्द का प्रयोग नहीं है। किन्तु सन्तों ने बराबर इस शब्द का प्रयोग किया है और वे उस खसमावस्था या शून्यावस्था में लीन होने की ओर संकेत करते हैं—

कबीर—इतु संगति नाही मरणा, हुकुम पछानि ता खसमै मिलणा^{१४०}
खसम विनु तेली को बैल भयो।

वैठत नाहिं साधु की संगति नाथे जनम गयो
खसमहिं छांड़ि विषय रंग राते पाप के बीज बयो ॥^{१४१}

किन्तु इसी शब्द का प्रयोग एक दूसरे अर्थ में सन्तों ने किया है जिसका आधार अरबी का शब्द खसम बताया जाता है जिसके अर्थ पति होते हैं। पति या स्वामी के अर्थ में सन्तों ने बराबर खसम शब्द का प्रयोग किया है—

कबीर—खाखा चाहै खोरि मनावै, खसमहिं छांड़ि दसो दिमि धावै^{१४२}

इस खसम या पति के प्रति साधक को सदैव पतिव्रता की भांति अटूट भक्ति और लगन रखनी चाहिए, इस पति के अतिरिक्त पर-पुरुषों की ओर अपना ध्यान लगाना निन्दनीय है। कबीर की तो उसमें अटल आस्था है और वे कहते

हैं कि केवल दो अक्षर सोहं का जप करते रहो, अगर सचमुच प्रभु खसम है तो वह हमें धारण करेगा। 'कहु कबीर आखर दुई भाखि। होइगा खसमु त लेइगा राखि ॥'^{१४३} इसी प्रकार पलटू साहब भी चेतावनी देते हैं—

‘खसम रहा है रूठि नहीं तू पठवै पाती।’^{१४४} और गुलाल अपने खसम के प्रति निष्ठा त्याग कर पर-पुरुष के पास जाने के लिए साधकरूपी नारी की प्रताड़ना करते हैं—

काह कहौं कछु कहत न आवै, नाहक जग बौराई हो
अपने खसम नेक नहीं जानै परपुरुष पहं जाई हो।^{१४५}

वास्तव में सन्त इसे पतिरूपी परम ज्ञान या परम तत्व के अर्थ में प्रयोग करते थे और उसके सांकेतिक अर्थ से पूर्णतया परिचित थे। जैसा निम्नांकित उदाहरणों से स्पष्ट है—

कबीर—होय भिस्त जो चित न डोलावै, खसमहिं छाड़ि के दोजक धावै

विन गुरु ज्ञाने टुं दभी खसम कही मिलि बात
जुग जुग कहवैया कहै, काहु न मानी बात ॥^{१४६}

सच्चे तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त अन्य बाह्योपचार-प्रधान सम्प्रदायों में, जो तत्त्वज्ञान है वह भूठा खसम है या उपपति है, लगवारा है, उसका परित्याग करना ही उचित है—

कबीर—एक से ब्रह्मो पन्थ चलाया। एक से हंस गोपालहिं गाया।
एक से सिम्भू पन्थ चलाया। एक से भूत प्रेत मन लाया।
एक से पूजा जैनि विचारा। एक से निहुरि निमाज गुजारा।
कोइ काहु का हटा न माना। भूठा खसम कबीरन जाना।
तनि मनि भज रहु मोरे भक्ता। सन्त कबीर सत्त है वक्ता।
आपुहि देवा आपुहि पाती। आपुहि कुल आपुहि है जाती।
सर्वभूत संसार निवासी। आपुहि खसम आपु सुखवासी।
कहइत मोहिं भइल जुग चारी। काके आगे कहौं पुकारी।
सांचहि कोइ न मानई, भूठा के संग जाय
भूठहि भूठा मिलि रहा, अहमक खेहा खाय।^{१४७}

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

यह झूठा खसम वास्तव तत्व-ज्ञान-रहित बाह्याचार मात्र है जैसा पलट्ट साहब का कथन है—

माटी देवखरि बांधि मुए की पूजा लावै
जीवत जिउ को मारि आनि कै ताहि चढ़ावै
पलट्ट जिव को मारि कै बल देवतन को देत
गरदन मारै खसम की लगवारन के देत ॥^{१४८}

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या खसम की अवस्था स्व के अतिरिक्त स्वामी या प्रभु के रूप में कल्पना सन्तों की अपनी कल्पना है जिसकी मूल प्रेरणा अरवी का खसम शब्द है, या वे किसी पूर्व परम्परा से प्रभावित हैं। सरहना ने एक स्थल पर खसम शब्द के साथ नाथ (पति) विशेषण का प्रयोग किया है और उसे अक्षय, अचिन्त्य, परमप्रभु तथा महासुखनाथ के रूप में स्मरण किया है उसे, अवाच्य तथा अचिन्त बताकर उसके दर्शन का उपदेश दिया है—

अखलह अच्येय परमं पदु खसम महासुह नाह
जो आवाअ अचित्त वि तस्स च्चक्खु करेह ॥^{१४९}

इस दोहे की संस्कृत छाया में बागची ने नाह का अर्थ “नास्ति” दिया है जिसकी पद से संगति नहीं बैठती। डा० शाहिदुल्ला ने तिब्बती रूपान्तरों से तुलना कर यह दिखाया है कि नाह नाथ का रूपान्तर होता है और नास्ति का रूपान्तर नाथि होता है।^{१५०} इसलिए यहाँ भी नाह का अर्थ नाथ ही ठीक बैठता है तथा पदु का तत्सम प्रभु भी अधिक उपयुक्त है। इस खसम को यहाँ सिद्धों ने परम-तत्व अथवा गगनोत्सवभाव या शून्य-स्वभाव का मानवीकरण कर उसे नाथ या प्रभु के रूप में भी परिकल्पित कर लिया है। अरवी शब्द खसम इस कल्पना की मूल प्रेरणा नहीं, है यद्यपि उससे इस प्रयोग को और भी बल अवश्य मिला होगा। जहाँ तक कबीर का प्रश्न है इस परमतत्व खसम का अर्थ राम था, अन्य कोई नहीं।—

आपै पावक आपै पवना, जारै खसम त राखै कवना
राम जपत तन जर की न जाय, राम नाम चितु रहआ समाय^{१५१}

किन्तु कबीरपन्थी साहित्य में बाद में स्वतः सद्गुरु कबीर को ही खसम मान लिया गया है और उनके शिष्य धर्मदास को यह कहते दिखाया गया है कि—

बाजा बाजा रहित का परा नगर में शोर
सतगुरु खसम कबीर है, नजर न आवै और ।

और मल्लूकदास से भी कहलवाया गया है कि कृष्ण, जगन्नाथ आदि सब
कबीर के अवतार हैं और कबीर ही वास्तविक खसम हैं ।^{१५२}

किन्तु स्वामी, पति और नाथराम के प्रति भक्ति और पातिव्रत्य का उपदेश
देते देते कभी कभी ये सन्त उलटवोंसियों में इसी पति की हत्या करने या इस
को खाने की ओर भी संकेत करने लगते हैं । इसका अर्थ
खसम की मृत्यु बहुत स्पष्ट न होने के कारण कुछ कठिनाई पड़ती है जिसकी
ओर द्विवेदी जी ने भी संकेत किया है ।^{१५३} ऐसा ही एक पद है—

माई मैं दूनो कुल उजियारी
बारह खसम नैहरे खायो, सोरहं खायो ससुरारी

इसी का समानान्तर भाव पलटू की दो कुण्डलियों में मिलता है जहाँ न
केवल खसम की मृत्यु का वर्णन है । वरन् खसम की मृत्यु पर गृहिणी का
उल्लास भी प्रदर्शित किया गया है—

खसम बिचारा मरि गया जोरू गावै तान
जोरू गावै तान फिरा अहि बात हमारा
भूठ सकल संसार मांग भरि सेंदुर पारा
हम पतिबरता नार खसम को जियतै मारी
वाको मूड़ौ मूड़ सरबर जो करै हमारी
दुतिया गई हैं भाग सुनौ अब राँध पगोसिन
पिया मरेआराममिला सुखमें कहां दिन दिन
पलटू ऐसे पद कहै बूझै सो निरबान
खसम बिचारा मर गया जोरू गावै तान

खसम मुवा तो भल भया सिर की गई बलाय
पलटू सोइ सुहागिनी जियतै पिय को खाय ॥^{१५४}

इन पंक्तियों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है यदि हम यहाँ खसम

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

से परमज्ञान की उपलब्धि के उपरान्त शून्य-स्वभाव धारण कर निर्वाण प्राप्त कर लेने वाले चित्त का अर्थ लें। लगभग इन्हीं शब्दों में मरण का रूपक बाँधते हुए, अपने पति की मृत्यु पर प्रसन्न होने वाली पत्नी के रूप में साधक का चित्रण अक्सर सिद्धों के दोहों में भी मिलता है और सरहपा ने इसे योगिनीचार अथवा योगिनी-मार्ग कहा है—

घरवइ खज्जइ घरिणिएहि जहिं देसहि आविआर
माइए पर तहिं कि उवरहि विसरिअ जोइणि-चार
घरवइ खज्जइ सहजें रज्जइ किज्जिअ राअ विराअ
णिय पास वइट्ठी चित्ते भट्ठी जोइणि महु पडिहाअ

एक्कु खाइ अवर अरण वि पोइइ
वाहिरें गइ भत्तारह लोइइ।^{१५५}

इसकी टीका में अद्वयवज्र ने स्पष्ट कहा है कि यह गृहपति (मन) का मरण नहीं है केवल उसको सहज स्वरूप में स्थित कर देना मात्र है। उस सहजस्वरूप में द्वैत नहीं रहता (दुतिया गई है भाग।) और चित्त निर्वाण उपलब्ध कर लेता है (इमै सोइ निखान)। चर्यापदों में भी शबरपा (पद ५०) अपनी मृत्यु का वर्णन देते हैं जिसका अर्थ शून्यता में लीन होना है और कुक्कुरीपा भी अपने पद (संख्या २०) में इसी स्थिति की ओर संकेत कर चुके हैं। इन दोनों चर्यापदों में गृहपति की मृत्यु के दार्शनिक संकेतों पर हम पीछे विचार कर चुके हैं।^{१५६} कबीर भी इसी मरण की सहजमयता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं—

जिह मरनै सभु जगत तरासिआ, सो मरना गुरु सबद प्रकासिआ
मरनो मरन कहै सभु कोई, सहजे मरै अमरु होइ सोई
कहु कबीर मनि भइआ अनन्दा, गइया भरसु रहिआ परमानन्दा।^{१५७}

सहज

सहज शून्य पर विचार करते समय हम इस तथ्य की ओर संकेत कर

सुके हैं कि 'सहज' शब्द उसी अर्थ में नाथ तथासन्त योगियों द्वारा नहीं ग्रहण किया गया था, जिस अर्थ में वज्रयानी सिद्ध इसका प्रयोग करते थे ।

शैव पद्धतियों ने ११वीं शती में ही सहज शब्द को स्वीकार कर लिया था किन्तु उसके अर्थ बदल दिए थे । हम पहले ही इस तथ्य की ओर संकेत कर चुके हैं कि सहज शब्द का 'स्वाभाविक' अर्थ में प्रयोग बहुत पहले से धर्म-साधनाओं में होता आ रहा था और इस बात की पूरी सम्भावना है कि बौद्ध तथा शैव दोनों प्रकार की पद्धतियों ने इस शब्द को किसी तीसरी परम्परा से ग्रहण किया हो । मत्स्येन्द्र के योगिनीकौल-मार्ग तथा वज्रयानी सिद्धों के सहजाम्नाय की तुलना करने से यह ज्ञात होता है कि दोनों में ही सहज शब्द का प्रयोग स्वाभाविक प्रवृत्तिमूलक मार्ग के अतिरिक्त ऐसी साधना पद्धति के अर्थ में होता था जिसमें पुरुष-तत्व तथा शक्ति-तत्व का समागम किया जाय । ये दोनों तत्व बौद्ध पद्धतियों में प्रज्ञा तथा उपाय और योगिनीकौल-मार्ग में शक्ति तथा शिव के नाम से प्रख्यात थे । योगिनीकौल-मार्ग का नाथ-सम्प्रदाय से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है अतः उसमें सहज का अर्थ क्या है इस पर विचार कर लेना अनुपयुक्त न होगा । कौल-ज्ञान-निर्याय के अष्टम पटल में सहजा, कुलजा, अन्त्यजा तथा महादेवी, इन चार शक्तियों का उल्लेख है जिनमें से सहजा स्वकीया है और साधक की गृहिणी रूप में चित्रित है । किन्तु साधना में इस सहज शक्ति को शरीरस्थ कर अन्दर ही उपलब्ध करना चाहिए 'कुरुते देहमध्ये तु सा शक्तिः सहजा प्रिये' ।^{१५८} शरीर के अन्दर स्थित इस शक्ति को सिद्ध कर लेने वाला फिर अन्तर्मुख हो जाता है, निश्चल हो जाता है, धारणा, ध्येय आदि से मुक्त हो जाता है, सहज तत्व में रमण करता है और आत्म तथा पर का भेद भुला देता है ।^{१५९} उसी को अकुलवीर कहते हैं, वही सहजानन्द की प्राप्ति करता है । किन्तु यह सहजानन्द, यह सहज तत्व, यह सहज स्वरूप बौद्ध 'सहज' से अलग है क्योंकि न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, अर्हन्त, सोम-सिद्धान्तवादी सभी को शास्त्रजाल से सन्तुष्ट, विकल्प-बहुल, मिथ्यावादी बताया गया है ।^{१६०}

इस कथन में साम्प्रदायिक प्रतिद्वन्द्विता का आभास अधिक है । वास्तव में यदि प्रज्ञा तथा उपाय को शक्ति और शिव की संज्ञा दे दें तो वज्रयानी सहज और कौल ज्ञान के सहज में कोई अन्तर नहीं रहता क्योंकि इसी प्रसंग में आगे यह कहा भी गया है कि अकुलवीर साधना द्वारा जो समरस में प्रतिष्ठित हो जाता है वही ब्रह्म है, वही शिव है, वही सोम है, वही अर्हन्त है, वही बुद्ध है ।^{१६१}

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

किन्तु फिर भी योगिनीकौल-मार्ग में सहज को शैव रूप दे देने का एक परिणाम अविश्वस्य अनुमानित किया जा सकता है। वह यह कि नाथपन्थी योगियों को यह सहज-भावना शैवों से ही प्राप्त हुई होगी अतः उन्होंने इसे बौद्ध नहीं माना और सहज से वे बराबर शक्ति तथा शिव के संगम का अर्थ लेते रहे, किन्तु उसे उन्होंने देहस्थ शक्ति या देहस्थ मुद्रा खेचरी को उपलब्ध करने के अर्थ में लिया होगा।

नाथ सम्प्रदाय की वानियों में सहज का प्रयोग हमें निम्न रूपों में मिलता है : क-परम तत्व रूप में सहज। ख-परम ज्ञान, परम स्वभाव या परम त्वभाव। ग-देह के अन्दर योगिनी या शक्ति से संगम लाभ करने की योग उद्घति। घ-सहज समाधि। ङ-परम पद, परम सुख अथवा आनन्द के रूप में सहज, च-जीवन पद्धति के रूप में सहज।

क-परम तत्व के रूप में नाथ योगी पाँचों तत्वों का सहज से ही उद्भव और अन्त में सहज में ही विलयन मानते हैं :

एही राजा राम आछै सबे अंग वासा,
येही पाँचौ तत बाबू सहजि प्रकासा।
ये ही पाँचौ तत बाबू सहजि समाना।
वदंत गोरध इमि हरिपद जाना।^{१६२}

कणोरी पा और नागा अरजन (नागार्जुन) के सम्वाद में भी सहज का यही रूप मिलता है :

कणोरी का प्रश्न—कहाँ से उगै कहाँ से आयवै कहाँ थें रैन विहाई
पूछै कणोरी नागा अरजन प्यंड छाँड़ि प्राण कहाँ समाई
नागा अरजन—सहजै अरवना सहजै गवना। सहजै सहजै बहै पवना
सहजै सहजै फीरै बाई। सहजै सहजै थिरै कायी^{१६३}

गोरख-मछीन्द्र के सम्वाद में भी सहज की परमतत्व रूप में इस प्रकार की व्याख्या मिलती है :

गोरख—स्वामी राति न होती दिन कहाँ थें आया
दिन प्रसरया राति कहाँ समाया.....?
मछीन्द्र—अवधू राति न होती दिन सहजै आया
दिन प्रसरया राति सहजै समाया।^{१६४}

स्व-इस सहज को आत्मगत कर साधक को भी सहज स्वरूप धारण करना चाहिए। यह सहज रूप, सहज ज्ञान या सहज स्वभाव उन समस्त द्वयताओं से विवर्जित है, भाव, अभाव, आदि की द्विविधा इसमें नष्ट हो जाती है और अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है :

गोरख—दुबध्या भेटै कैसें रहै । सतगुरु होइ सु बूझया कहै ॥...

मछोन्द्र—दुबध्या भेटि सहज में रहै । ऐसा विचार मछिन्द्र कहै ॥^{१६५}

सहज सुभाइ मिले अविनासी ।^{१६६}

ग-शिव और शक्ति के संयोग की सहज पद्धति :

इस मैथुन के रूपक में सम्पन्न की जाने वाली योग साधना का विशेष महत्त्व है। वास्तव में सहज का तांत्रिक अर्थ यही था और वज्रयानी सिद्धों ने भी इसे इसी रूप में ग्रहण किया था। नाथ-योगियों में वज्रयानियों की भाँति नारीरूपी तरुणी मुद्रा से समागम कर महामुद्रा सिद्धि करने की प्रथा थी या नहीं, इस पर हम बाद में विचार करेंगे, किन्तु हठयोग की साधना में वे सहज पद्धति को शिव-शक्ति के मिलन या जोगी द्वारा जोगिनी से मिलन के रूपकों में रखकर पूर्ववर्ती तान्त्रिक परम्परा का निर्वाह करते थे।

ये शक्ति और शिव वास्तव में नाद और बिन्दु हैं : 'सक्ति रूपी रज आछे, सिव रूपी व्यन्द ।'^{१६७} इनमें से शक्ति का बास कुंडलिनी के रूप में एक दूसरे स्थल पर नीचे बताया गया है और शिव का बास ऊपर, 'अवधू अरधैं वसै सक्ती उरधै वसै सीव ।'^{१६८}

दूसरे स्थल पर इसी सहज समागम को जोगी तथा जोगिनी के परिणय के रूप में चित्रित किया गया है।

माहरा रे बैरागी जोगी, अहनिसि भोगी, जोगिणि संग न छाँड़ै
मानसरोवर मनसां भूलन्ति आवै गगन मंडल मठ माँड़ै रे ॥
कौण अस्थानिक तोरा सासू नैं सुसरा कौण अस्थान तोरा बासा
कौण अस्थानक तूनें जोगिणि भेंटी कहां मिला घर बासा
नाम अस्थान क मोरा सासू नैं सुसरा ब्रह्मा अस्थान क मोरा बासा
इला प्यंगुला जोगन भेंटी सुषमन मिल्या घर बासा ।^{१६९}

य पवन का निरोध कर अपनी इन्द्रियों को पूर्णतया वश में करने को सहज समाधि के रूप में चित्रित किया गया है जो सिद्धों की 'पगोपात्र

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

समाधि' (प्रज्ञोपाय समाधि) का ही परवर्ती रूप प्रतीत होता है। इसी को सहज ज्ञान के वाणिज्य के रूप में चित्रित किया गया है जिसमें गुरु गोरखनाथ सहज के व्यापारी हैं, पाँच इंद्रिय रूपी बैल और नौ रत्न रूपी गावें बेचने आये हैं। जब वे इंद्रियाँ बरीभूत होकर सहज रूपी बाजार में आ गईं तब मन उड़ियानी (उड़ियान वन्ध) की साधना करने लगा।^{१७०}

इसी समाधि को अंगीठी के रूपक से भी चित्रित किया गया है:

दिप्रणि हमारी डाँदी पाकै अगनि बलै सुलतान
ऐसे हम जोगेतर निवना प्रगद्या पद निवान
बाफ न निकसै बूद न टलकै सहज अंगीठी भरी भरी रावें
सिध समाधि योग अभ्यासी तब गुरु परचै साधै ॥^{१७१}

ऊ-इसी सहज को परम पद निर्वाण के भी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है :

१ सहज पद परम वृवान, सांभलि गोरप पद निरवान।
देत कहै हम सहज समान, सांभलि गोरप पद निरवान।^{१७२}

च-किन्तु इन सबों के अतिरिक्त सहज जीवन-पद्धति के रूप में भी सहज का प्रयोग मिलता है, वह सहज जो बाह्य अनुष्ठानों, बाह्याचारों और विधि-निषेधों तथा अतिचारों से मुक्त मध्यम सहज मार्ग का अर्थ देता है। यह अर्थ विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि सन्त परम्परा में योगपरक या मैथुनपरक अर्थ के बजाय इसी अर्थ को व्यापक रूप से ग्रहण किया गया है :

अवधू सहजै लेणा सहजै देणा सहजै प्रीति ल्यौ लाई
सहजै सहजै चलेगा रे अवधू तौ बासण करेगा समाई।^{१७३}
हबकि न बोलिवा हबकि न चलिवा धीरे धरिवा पांव
गरब न करिवा सहजै रहिवा भएत गोरख राव ॥^{१७४}

‘सहज रहिवा’ या ‘सहज रहनी’ सन्तों का विशेष आग्रह है। प्रज्ञा और उपाय के युगनद्ध के रूप में सन्त का सहज अर्थ सम्भवतः भूल चुके थे किन्तु परम तत्व का स्वभाव सहज है इसे वे अवश्य जानते थे। शिव और शक्ति के संगम के रूप में सन्तों ने इस सहज तत्व की व्याख्या की है :

स्व-इस सहज को आत्मगत कर साधक को भी सहज स्वरूप धारण करना चाहिए। यह सहज रूप, सहज ज्ञान या सहज स्वभाव उन समस्त द्रव्यताओं से विवर्जित है, भाव, अभाव, आदि की द्विविधा इसमें नष्ट हो जाती है और अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है :

गोरख—दुबध्या मेटै कैसें रहै । सतगुरु होइ सु बूझया कहै ॥...

मछोन्द्र—दुबध्या मेटि सहज में रहै । ऐसा विचार मछिन्द्र कहै ॥^{१६५}

सहज सुभाइ मिले अविनासी ।^{१६६}

ग-शिव और शक्ति के संयोग की सहज पद्धति :

इस मैथुन के रूपक में सम्पन्न की जाने वाली योग साधना का विशेष महत्त्व है। वास्तव में सहज का तांत्रिक अर्थ यही था और वज्रयानी सिद्धों ने भी इसे इसी रूप में ग्रहण किया था। नाथ-योगियों में वज्रयानियों की भाँति नारीरूपी तर्जनी मुद्रा से समागम कर महामुद्रा सिद्धि करने की प्रथा थी या नहीं, इस पर हम बाद में विचार करेंगे, किन्तु हठयोग की साधना में वे सहज पद्धति को शिव-शक्ति के मिलन या जोगी द्वारा जोगिनी से मिलन के रूपकों में रखकर पूर्ववर्ती तान्त्रिक परम्परा का निर्वाह करते थे।

ये शक्ति और शिव वास्तव में नाद और बिन्दु हैं : 'सक्ति रूपी रज आछे, सिव रूपी व्यन्द ।'^{१६७} इनमें से शक्ति का बास कुंडलिनी के रूप में एक दूसरे स्थल पर नीचे बताया गया है और शिव का बास ऊपर, 'अवधू अरधै वसै सक्ती उरधै वसै सीव ।'^{१६८}

दूसरे स्थल पर इसी सहज समागम को जोगी तथा जोगिनी के परिणय के रूप में चित्रित किया गया है।

माहरा रे बैरागी जोगी, अहनिसि भोगी, जोगिणि संग न छाँड़ै
मानसरोवर मनसां भूलान्ति आवै गगन मंडल मठ माँडै रे ॥
कौण अस्थानिक तोरा सासू नै सुसरा कौण अस्थान तोरा बासा
कौण अस्थानक तूनें जोगिणि भेंटी कहां मिला घर बासा
नाम अस्थान क मोरा सासू नै ससुरा ब्रह्मा अस्थान क मोरा बासा
इला प्यंगुला जोगन भेंटी सुपमन मिल्या घर बासा ।^{१६९}

व पवन का निरोध कर अपनी इन्द्रियों को पूर्णतया वश में करने को सहज समाधि के रूप में चित्रित किया गया है जो सिद्धों की 'पगोपात्र

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

समाधि' (प्रज्ञोपाय समाधि) का ही परवर्ती रूप प्रतीत होता है । इसी को सहज ज्ञान के वाण्ड्य के रूप में चित्रित किया गया है जिसमें गुरु गोरखनाथ सहज के व्यापारी हैं; पाँच इंद्रिय रूमी बँल और नौ रत्न रूपी गार्धें बेचने आये हैं । जब वे इंद्रियाँ वशीभूत होकर सहज रूपी वाखर में आ गईं तब मन उड़ियानी (उड्डियान बन्ध) की साधना करने लगा ।^{१७०}

इसी समाधि को अंगीठी के रूपक से भी चित्रित किया गया है:

दिप्रणि हमारी डीवी पाके अरानि बलें हलतानें
ऐसे हम जोगेसर निरानां प्रगद्वा पद निवानं
वाफ न निकसै वृंद न टलकै सहज अंगीठी भरि भरि रांघें
सिध समाधि योग अन्यासी तब गुरु परचै साधै ॥^{१७१}

इ-इसी सहज को परम पद निर्वाण के भी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है :

१ सहज पद परम नृवानं, सांभलि गोरप पद निरवानं ।
देत कहै हम सहज समानं, सांभलि गोरप पद निरवानं ।^{१७२}

च-किन्तु इन सबों के अतिरिक्त सहज जीवन-वृद्धि के रूप में भी सहज का प्रयोग मिलता है, वह सहज जो बाह्य अनुष्ठानों, बाह्याचारों और विधि-निषेधों तथा अतिचारों से मुक्त मध्यम सहज मार्ग का अर्थ देता है । यह अर्थ विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि सन्त परम्परा में योगपरक या मैथुनपरक अर्थ के बजाय इसी अर्थ को व्यापक रूप से ग्रहण किया गया है :

अवधू सहजै लेगा सहजै देगा सहजै प्रीति ल्यौ लाई
सहजै सहजै चलेगा रे अवधू तौ बासण करेगा समाई ।^{१७३}
हवकि न बोलिवा हवकि न चलिवा धीरे धरिवा पांव
गरब न करिवा सहजै रहिवा भएत गोरख राव ॥^{१७४}

‘सहज रहिवा’ या ‘सहज रहनी’ सन्तों का विशेष आग्रह है । प्रज्ञा और उपाय के युगनद्ध के रूप में सन्त का सहज अर्थ सम्भवतः भूल चुके थे किन्तु परम तत्व का स्वभाव सहज है इसे वे अवश्य जानते थे । शिव और शक्ति के संगम के रूप में सन्तों ने इस सहज तत्व की व्याख्या की है :

कबीर — सिव सकती दिसि कौण जु जोवे, पछिम दिसा उठे धूर ॥^{१७५}

केशवदास—तन मन प्रान दान दे पिय को सहज सरूपम पाई हो

दरस परस पतिव्रता पिव की सिव घर सक्ति बसाई हो ।^{१७६}

इसी सहज से वे समस्त तत्वों की उत्पत्ति मानते थे और अन्त में इसी में सबका विलयन भी। इस 'सहज' नाम को वे अक्सर सहज-शून्य अक्सर परमतत्व 'शब्द' और अक्सर परमपुरुष ब्रह्मा के लिये भी प्रयुक्त करते थे।

पीछे 'सहज' पर विचार करते समय हम यह देख चुके हैं कि सहज का प्रयोग स्वाभाविक वृत्ति के रूप में ४०० ई० से भी पहले से मिलता है और १२०० ई० तक इस अर्थ में सहज के प्रयोग की परम्परा परम तत्व मिलती है। हमने यह भी संकेत किया था कि सिद्धों ने इसी सहज को ग्रहण कर अपने प्रज्ञोपाय युगनद्ध के सिद्धांत के अनुसार इसकी नई बौद्ध तान्त्रिक व्याख्या (युगनद्धजनित) कर दी थी। शैव तन्त्र (योगिनी-कौल-मार्ग) तथा शैव योग (नाथ सम्प्रदाय) पद्धतियों में इस सहज को शिव और शक्ति या नाद और विन्दु के संगम के रूप में माना गया। सन्तों तक आते आते इसकी यह मिथुन-परक व्याख्या तिरस्कृत कर दी गई और कबीर ने अपनी स्वाधीन चिन्तना के गौरव के अनुरूप 'सहज' को विभिन्न मतवादों की संकीर्णताओं से परे उस परम तत्व के रूप में माना जो समस्त बाह्याचारों से मुक्त मनुष्य की सहज स्वाभाविक अनुभूति में प्रस्फुटित होता है और जिसकी उपलब्धि एक सहज सन्तुलित जीवन पद्धति द्वारा ही हो सकती है, विभिन्न मतवादों की संकीर्णता में उलभ कर नहीं। अपने एक 'शब्द' में संसार के पागलपन का चित्रण करते हुए वे कहते हैं कि सहज आत्म-तत्व को छोड़ कर संसार न जाने किन भ्रम छलनाओं के पीछे दौड़ रहा है।

सन्तो देखत जग बौराना

सांच कहौ तो मारन धावै भूठहिं जग पतियाना

नेमी देखा धरमी देखा प्रात करहिं असनाना

आतम मारि पधानहिं पूजहिं उनिमंह किछु न ज्ञाना

हिन्दू कहहिं मोहि राम पियारा तुरुक कहहिं रहिमाना

आपस में दोउ लरि मूये मरम न कोई जाना

क्योंकि ये सब तो बाह्याचार हैं, साम्प्रदायिक संकीर्णताएँ हैं। वास्तविक

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

तत्त्व तो इन सीमाओं में बंध ही नहीं पाता ब्रह्म तो सहज तत्त्व है, उसमें सहज द्वारा ही समाया जा सकता है :

कहाँ कहीं सुनहु' हो सन्तो ई सभ भरम भुलाना

केतिक कहीं कहा नहिं मानैं सहजै सहज समाना ।^{१७७}

और इसी कारण से रैदास बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि बिना सहज के सिद्धि नहीं हो सकती और यह सहज बाह्य-कारों के अन्यास या केवल नीरस तर्क-ज्ञान से नहीं सिद्ध होता ।

माई रे सहज बन्दौ लोइ, बिन सहज सिद्धि न होई ।

रैदास दास ह्वे करि रह्यो सहज समाई ।^{१७८}

पीछे सिद्धों के सहज पर विचार करते समय हम यह देख चुके हैं कि न केवल वज्रयान वरन् लगभग प्रत्येक पद्धति में एक परिस्थिति ऐसी मानी जाती थी जिसके उपरान्त बाह्य अनुष्ठान, नैतिक मर्यादा आदि का बन्धन टूट जाता था और फिर साधक केवल चित्तगत साधना ही करता था । जत्र सिद्धों ने यह कहा था 'मणह भग्रवा खसम भग्रवइ, दिवा रात्ति सहजे रादिअइ' तो उनका भी संकेत इसी और था किन्तु चित्तवृत्ति को इस तरह नियोजित करने में योग की साधनाई सहायक मानी जाती थी क्योंकि उनसे चित्तवृत्तियों का निरोध होता है । इस प्रकार सहज उस योग-पद्धति का भी बाधक हो गया था जो उस सहज वृत्ति के नियोजन में सहायक होती हैं । नाथ योगियों ने भी उस सहज योग-पद्धति का शैव रूप अपनाया था ।

सन्त भी इस सहज-योग से अपरिचित नहीं थे और सहज को स्वाभाविक वृत्ति मानते हुए भी वे योग साधनाओं को इस सहज साधना का आवश्यक अंग मानते थे । उनकी इस योग साधना में प्रज्ञा तथा उपाय के संगम की भावना तो तिरस्कृत हो गई थी किन्तु वे अपनी पद्धति को, उसके अन्तर्गत जप, ध्यान, समाधि आदि को सहज जप, सहज ध्यान तथा सहज समाधि ही कहते थे । इस प्रकार सहज की भावना को सन्तों ने उसके स्वाभाविक मानवीय अर्थ में लेते हुए भी परम्परा से चला आने वाला उसका योग-परक अर्थ भी सर्वथा भुला नहीं दिया था ।

सन्त साहित्य का अध्ययन करने से उसमें भी हमें सहज का प्रयोग लगभग

उन्हीं ६ रूपों में मिलता है, जिनमें वह नाथों की बानी में प्रयुक्त हुआ है। उनमें से प्रत्येक पर हम पृथक विचार करेंगे।

क-सहज तत्व

जो आदि तत्व है जिसमें से सब उत्पन्न हुआ जिसमें सब समा जाता है :

कबीर—सहज की अकथ कथा है निरारी

तुलि नहिं चढ़ै न जाइ मुकाती हलुकी लगै न भारी
 अरध उरध दोऊ तह नाहीं राति दिवसु तह नाही ।
 जलु नहिं पवनु पावकु पुनु नाही सतिगुरु तहा स साही
 अगम अगोचरु रहै निरन्तरि गुरु किरपा ते लहीअै
 कहु कबीर हउ भइआ दिवाना मुसि मनुआ सहजि समाना
 जो किछु होआ सु तेरा भाणा, जो इव बूभै सु सहजि समाना^{१७९}

दादू ज्ञान गहै गुरुदेव का दादू सहजि समाइ

 सोना पारस परसतां सहज समाना सोइ

 पिंजर पिंड शरीर का सुवटा सहजि समाइ
 रमिता सेती रमि रहै विमल विमल जस गाइ ॥

 काटै करम सहज सुँ बांधै सहजै रहै समाई ॥^{१८०}

सिद्धों और नाथों के बाद सन्तों ने सहज की परमतत्व वाली भावना में एक नया अध्याय जोड़ा है। सन्त परम्परा निर्गुणवादी होते हुए भी सगुण भक्तिवाद के बहुत निकट थी और उसकी भाव-साधना तो भक्ति ही की थी, योग की या तन्त्र की नहीं। इसलिए सन्त परमतत्व को एक वैयक्तिक ईश्वर के रूप में मानते थे जो स्वतः इच्छामय है, भक्तों पर कृपालु है, अनुरागी है। बौद्ध सिद्धों ने भी तथागत की तीन कायाओं में चौथी सहजकाया की कल्पना जोड़ कर इस परम्परा का सूत्रपात कर दिया था किन्तु उनकी भाव-साधना में जीव स्वतः बुद्ध बन जाता है अतः सहजरूपी तथागत का उतना महत्व उनकी साधना-पद्धति में नहीं था जितना सहजरूपी राम का महत्व सन्त-परम्परा में विकसित हुआ। इस

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

सहजतत्व का राम रूप में उल्लेख हमें नाथों की ग्रन्थों में भी एक स्थान पर मिलता है 'एही राजा राम आछै सर्वे अंग वासा, एही पांचौ तत दादु सहज प्रकासा'।^{१८१} किंतु ये पंक्तियाँ कबीर के बहुत बाद की मालूम होती हैं और निर्गुण राम की सहज रूप में जो कल्पना सन्त-साहित्य में विकसित हुई उसी से प्रभावित प्रतीत होती हैं क्योंकि कबीर ने स्पष्ट कहा था कि जिस सहज-समाधि से उन्मुनी मुद्रा जाग्रत होती है, उसी से रघुराई भी मिलते हैं : 'सहज समाधी उन्मुनि जागै, सहज मिलै रघुराई'^{१८२} और उनके ये 'रघुराई' अपने भक्तों को जो सुहाग देते हैं वह भी 'सहज सुहाग' है 'कहत कबीर मैं कछु नहि कीन्हा, सहज सुहाग पिया मोहि दीन्हा'।^{१८३} और इसी 'सहज सुहाग' को पाकर सन्त केशवदास अपने प्रिय का सहज स्वरूप धारण कर लेते हैं 'म्हारे हरिजू सुं जुरल सगाई हो । तन मन प्रान दान दै पिय को सहज सरूपम पाई हो ।'^{१८४} दादू की धानियों में हमें सहज के प्रसंग में राम का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है :

राम सबद मुख लै रहै पीछे लागा जाइ
मनसा वाचा कर्मना तेहि तत सहज समाइ

.....
सहजै सुमिरण होत है रोम रोम रमि राम
चित्त चहृदया चित्त सौं यों लीजै हरि नाम^{१८५}

कबीर-पन्थ के परवर्ती ग्रन्थों में सहज की ईश्वररूप-परिकल्पना में प्रचुर विकास हुआ। राम के अतिरिक्त दूसरे प्रमुख वैष्णव देवता कृष्ण को भी सहज रूप में स्थित बताया गया। उग्र-गीता में श्रीकृष्ण सतगुरु कबीर से कहते हैं :

बहुत लोग मानुष मोहिं जानैं । दुख सुख व्यापक माही सानैं ॥
एक भाव मैं सबसों रहेऊं । जैसे अग्नि भाव सो कहेऊं ॥
सब कह लागै एक सम भाई । ऐसे रहौं मैं सहज समाई ॥^{१८६}

इस स्थल में कृष्ण का सम और सहज स्वरूप निम्नन्देश गीता में वर्णित सम स्वरूप की प्रतिध्वनि है क्योंकि यह कृति भी गीता का अनुकरण मात्र है।^{१८७}

कबीर-ग्रन्थों में इसी सहज को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है और सहज ब्रह्म के पांच तत्व बताये गये हैं जिनसे पांच ब्रह्मों की उत्पत्ति बताई गई है : स्नेही ब्रह्म, इच्छा ब्रह्म, मूल ब्रह्म, सोहं ब्रह्म और ब्रह्मांड । यह तथागत के पाँच स्कन्धों से पाँच ध्यानी बुद्धों की उत्पत्ति से बहुत कुछ मिलती जुलती हुई कल्पना है

किन्तु पाँच की संख्या के अतिरिक्त अन्य कोई समता की बात नहीं दृष्टिगोचर होती।^{१९०} इन्हीं पाँच ब्रह्मों तथा छठें ब्रह्मा सहज को सत्य पुरुष तथा निरंजन के बीच के लोकों में स्थित माना गया है और छठें ब्रह्मा से मायायुक्त ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति मानी गई।^{१९१} इसी सहज पुरुष के समानान्तर सहज श्रुति, सहज अंकुर, सहज द्वीप आदि की कल्पनाएँ भी साम्प्रदायिक ग्रन्थों में विकसित हुईं।

एक सुरति एक अंकुर कहाई, तिहि को नाम सहज श्रुति भाई^{१९०}
प्रथम पुर्ष सोहंग, दूसरे सहज सोहंग, तीसरे इच्छा सोहंग^{१९१}

इसी में और वृद्धि हुई। पहले सहज पुरुष और निरञ्जन पुरुष के बीच में पाँच पुरुष माने गये थे, 'पञ्चमुद्रा' में यह अन्तर और भी बढ़ाकर बताया गया था और सहज तथा निरञ्जन पुरुष के बीच में ६ पुरुष-प्रमाण का अन्तर माना गया और आदि पुरुष की स्थिति उसके भी आगे बताई गई।

निरञ्जन और सहज लों नौ पुर्ष प्रमान
आदि पुर्ष आगे कहों जितने सब उतपान।^{१९२}

किन्तु उसके बाद सहसा सहज का पद नीचे उतरने लगा। सहज पुरुष को ही माया शवलित निरञ्जन^{१९३} माना गया और उसी को गौण देवता कूर्मराय^{१९४} भी परिकल्पित किया गया। यह कूर्म वास्तव में 'धर्म' सम्प्रदाय का कूर्म था। 'सहज' वहीं कूर्म मान लिया गया और धर्म को उससे अलग परिकल्पित कर लिया गया। धर्मराय के हाथों कूर्म की बहुत बुरी पराजय हुई जिसमें कूर्मराय का मस्तक काटकर उनका उदर-विदारण कर दिया गया। इस प्रकार परवर्ती पन्थ की गाथाओं में सहज अपने मूल रूप से इतनी दूर जा पड़ा कि यह मूलतः सिद्धों का प्रज्ञोपाय युगनद्ध का ही सहजतत्व है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

ख-सहज ज्ञान तथा सहज स्वभाव—

इस सहज तत्व में समाहित होने के लिये मन को सहज स्वरूप का बनाना चाहिये जो केवल सहज ज्ञान द्वारा ही सम्भव है। यह ज्ञान दो पक्षों के मध्य का ज्ञान है। सिद्धों ने इसे शून्य, अशून्य, प्रज्ञा और उपाय, भाव, अभाव, भव निर्वाण आदि दो पक्षों से पृथक् मध्य का ज्ञान बताया था। कबीर भी द्वयता को भ्रम त्याग कर मध्य में चलने वाली मति को सहज ज्ञान की संज्ञा देते हैं।

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

जां तिसु भावै ता लागे भाइ, भरम भुलावा विचहु जाइ
उपजै सहज गिआन मति जागै, गुर प्रसादि अंतर लिख लागै ।^{१२५}
और जब कबीर उसमें पाप पुण्य दोनों को एक समान बताते हैं, 'पाप
पुंन दुइ एक समान, निज पारसु तजहु गुन आन'^{१२६} तो यह स्पष्टतः सिद्धों
के 'सिम्मल सहजे पाप ण पुण' की प्रतिध्वनि मालूम होती है ।

दादू ने इस सहज ज्ञान या सहज स्वभाव का अधिक विस्तृत विवेचन
दिया है जिसमें उन्होंने सहज को अपने स्वामी (प्रभु) का स्वभाव बताया है और
उसे धरती अम्बर, धूप छांह, पवन पानी, चन्द्र सूर्य, सुख दुःख, जाग्रति और
सुषुप्ति, तथा, पाप पुण्य इन द्वयताओं से विवर्जित बताया है :

तहं धरती अम्बर नाहीं, तहं धूप न दीसै छांहि
तहं पवन न चालै पाणी, तहं आपै एक विनासी
तहं चन्द न ऊगै सूर, सुख काल न बाजै वृग
तहं सुख दुख का गम नाहीं, वो तै अगम अगोचर नाहीं
तहं काल काया नहिं लागै, तहं को सोवै को जागै
तहं पाप पुण्य नहिं कोई, तहं अजख निरञ्जन सोई
तहं सहज रहै सो स्वामी, सब घटि अन्तरयामी ॥^{१२७}

यह द्वयता-विवर्जित सहज-स्वरूप स्वामी का स्वरूप है अतः मन (सिक्क)
को भी यही स्वरूप धारण करना चाहिए ।

बाबा को जन ऐसा योगी
अञ्जन छाड़ै रहै निरञ्जन सहज सदा वियांगी
छाया माया रहै विवर्जित प्यंड ब्रह्मण्ड नियारे
चन्द सूर थै अगम अगोचर सो गहि तत विचारे
पाप पुण्य लिपै नहिं कइहूँ दोई पख रहिता सोई ।^{१२८}

इस सहज-ज्ञान को निष्पक्ष ज्ञान बताते हुए मन द्वारा धारण कर लिये
जाने पर इसे सम स्वभाव के रूप में चित्रित किया गया है जिसमें शीत उष्ण,
सुख दुःख, इन दोनों को त्याग कर मध्यपथ में सम भाव धारण करने का
विधान है :

सहज रूप मन का भया जब द्वै द्वै मिटी तरङ्ग
ताता सीला! सम भया तव दादू एकै अंग

किन्तु पाँच की संख्या के अतिरिक्त अन्य कोई समता की बात नहीं दृष्टिगोचर होती।^{१९०} इन्हीं पाँच ब्रह्मों तथा छठें ब्रह्मा सहज को सत्य पुरुष तथा निरंजन के बीच के लोकों में स्थित माना गया है और छठें ब्रह्मा से मायायुक्त ब्रह्म निरंजन की उत्पत्ति मानी गई।^{१९१} इसी सहज पुरुष के समानान्तर सहज श्रुति, सहज अंकुर, सहज द्वीप आदि की कल्पनाएँ भी साम्प्रदायिक ग्रन्थों में विकसित हुईं।

एक सुरति एक अंकुर कहाई, तिहि को नाम सहज श्रुति भाई^{१९०}

प्रथम पुर्ष सोहंग, दूसरे सहज सोहंग, तीसरे इच्छा सोहंग^{१९१}

इसी में और वृद्धि हुई। पहले सहज पुरुष और निरञ्जन पुरुष के बीच में पाँच पुरुष माने गये थे, 'पञ्चमुद्रा' में यह अन्तर और भी बढ़ाकर बताया गया था और सहज तथा निरञ्जन पुरुष के बीच में ६ पुरुष-प्रमाण का अन्तर माना गया और आदि पुरुष की स्थिति उसके भी आगे बताई गई।

निरञ्जन और सहज लों नौ पुर्ष प्रमान

आदि पुर्ष आगे कहों जितने सब उतपान।^{१९२}

किन्तु उसके बाद सहसा सहज का पद नीचे उतरने लगा। सहज पुरुष को ही माया शबलित निरञ्जन^{१९३} माना गया और उसी को गौण देवता कूर्मराय^{१९४} भी परिकल्पित किया गया। यह कूर्म वास्तव में 'धर्म' सम्प्रदाय का कूर्म था। 'सहज' वहीं कूर्म मान लिया गया और धर्म को उससे अलग परिकल्पित कर लिया गया। धर्मराय के हाथों कूर्म की बहुत बुरी पराजय हुई जिसमें कूर्मराय का मस्तक काटकर उनका उदर-विदारण कर दिया गया। इस प्रकार परवर्ती पन्थ की गाथाओं में सहज अपने मूल रूप से इतनी दूर जा पड़ा कि यह मूलतः सिद्धों का प्रज्ञोपाय युगनद्ध का ही सहजतत्व है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

ख-सहज ज्ञान तथा सहज स्वभाव—

इस सहज तत्व में समाहित होने के लिये मन को सहज स्वरूप का बनाना चाहिये जो केवल सहज ज्ञान द्वारा ही सम्भव है। यह ज्ञान दो पक्षों के मध्य का ज्ञान है। सिद्धों ने इसे शून्य, अशून्य, प्रज्ञा और उपाय, भाव, अभाव, भव निर्वाण आदि दो पक्षों से पृथक् मध्य का ज्ञान बताया था। कबीर भी द्वयता को भ्रम त्याग कर मध्य में चलने वाली मति को सहज ज्ञान की संज्ञा देते हैं।

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

जां तिसु भावै ता लागे भाइ, भरम भुलावा विचहु जाइ
उपजै सहज गिआन मति जागै, गुर प्रसादि अंतर खिब लागै ।^{१२५}
और जब कबीर उसमें पाप पुण्य दोनों को एक समान बताते हैं, 'पाप
पुंन दुइ एक समान, निज पारसु तजहु गुन आन'^{१२६} तो यह स्पष्टतः सिद्धों
के 'सिम्मल सहजे पाप रा पुण्य' की प्रतिध्वनि मालूम होती है ।

दादू ने इस सहज ज्ञान या सहज स्वभाव का अधिक विस्तृत विवेचन
दिया है जिसमें उन्होंने सहज को अपने स्वामी (प्रसु) का स्वभाव बताया है और
उसे धरती अम्बर, धूप छांह, पवन पानी, चन्द्र सूर्य, सुख दुख, जाग्रति और
सुपुति, तथा, पाप पुण्य इन द्वयताओं से विवर्जित बताया है :

तहं धरती अम्बर नाहीं, तहं धूप न दीसै छांही
तहं पवन न चालै पाणी, तहं आपै एक विनाणी
तहं चन्द न ऊगै सूर, सुख काल न बाजै तुरा
तहं सुख दुख का गम नाहीं, वो तै अगम अगोचर नाहीं
तहं काल काया नहिं लागै, तहं को सोवै को जागै
तहं पाप पुण्य नहिं कोई, तहं अन्नख निरञ्जन सोई
तहं सहज रहै सो स्वामी, सब घटि अन्तरायामी ॥^{१२७}

यह द्वयता-विवर्जित सहज-स्वरूप स्वामी का स्वरूप है अतः मन (सेवक)
को भी यही स्वरूप धारण करना चाहिए ।

बाबा को जन ऐसा योगी
अञ्जन छाड़ै रहै निरञ्जन सहज सदा विद्यांगी
छाया माया रहै विवर्जित प्यंड ब्रह्मण्ड नियारे
चन्द सूर थै अगम अगोचर सो गहि तत विचारे
पाप पुण्य लिपै नहिं कइहूँ दोई पख रहिता सोई ।^{१२८}

इस सहज-ज्ञान को निष्पन्न ज्ञान बताते हुए मन द्वारा धारण कर लिये
जाने पर इसे सम स्वभाव के रूप में चित्रित किया गया है जिसमें शीत उष्ण,
सुख दुख, इन दोनों को त्याग कर मध्यपथ में सम भाव धारण करने का
विधान है :

सहज रूप मन का भया जब द्वै द्वै मिटी तरङ्ग
ताता सीला सम भया तव दादू एकै अंग

मति मोटी उस साथ की द्वै पथ रहत समान
दादू आपा मेदि करि सेवा करै सुजान ।^{१९९}

नानक ने भी इसी सहज स्वभाव को सर्वोपरि स्वभाव बताया है जो साधुओं के लिये शोभनीय है । इसके लिये वे ६८ हाटों में से एक सहज हाट की कल्पना करते हैं जिसमें मन सहज स्वभाव में स्थित रहता है ।

सहज हाटि मन कीआ निवासु । सहज सुभाव मनि कीआ प्रगासु ।
सहज सुभाय कौ जै जैकारा । सहज नाथु हरि लगै पिआरा ।
जो कछु करै सो सहज सुभाय । सहज सहज हरि के गुन गाय ।
सहज सुभाय का इही विचारू । सहज सुभाय मन होइ उदारू ।^{२००}

इस सहज स्वभाव में जिन दो पदों का त्याग बताया गया है उनमें से लगभग सभी सिद्धों के पदों में मिलते हैं ।

सुख-दुख = सअर समाहिअर काहि करिअइ, सुख दुखे तैं निचित मरिअइ ।
(चर्यापद १)

रवि-शशि = चान्द सुज वेणि पखा फाल । (चर्यापद ४)

पाप-पुण्य = पाप पुण्य वेणि तोड़िअर सिकल मोड़िअर खम्भा ठारणा ।
(चर्यापद १६)

जन्म-मरण = जाम मरण भव कइरण होइ । (चर्यापद २२)

आवागमन = मोह विसुक्का जइ मरणा, तवैं टुटइ अवरणा गमरणा ।
(चर्यापद ४६)

छाया-माया

तथा काया = छाआ मात्रा काअर समाणा, वेणि पाखैं सोइ विणाणा । (चर्यापद ४६)

इस प्रसंग में एक अन्य शब्द पर भी ध्यान देना आवश्यक है । चर्यापद में विणाणा तथा दादू के पद में विनानी (ताहँ पवन न चालै पाणी, तहँ आपै एक विनारी) का इसी प्रसंग में प्रयोग हुआ है । यह विनारण वास्तव में 'विज्ञान' का अपभ्रंश रूप है और 'विज्ञान' वास्तव में बौद्ध विज्ञानवादी चिन्तना के तथता-ज्ञान से आया है । उसी तथता विज्ञान या विज्ञप्ति मात्रता तत्व को शून्य अशून्य, आदि से विवर्जित बताया गया था जिसपर हम विचार कर चुके हैं । अतः तत्व-ज्ञानी को विज्ञानी (विणाणी) कहते थे । यह विणाणी शब्द तत्वज्ञानी के अर्थ में बराबर प्रयुक्त होता रहा यद्यपि तत्वज्ञान का बौद्ध रूप यथावत् नहीं स्वीकार किया गया । नाथपन्थी जानियों में भी यह विनाणी शब्द इसी अर्थ में मिलता है :

वज्रयान्ती शब्दों की परम्परा

गगन सिपर महि शब्द प्रकास्या, तहं वृमै अलप विनांणी ॥^{२०३}

अलप विनांणी दोइ दीपक रचिलै.....

चन्द सूर दोउ निज धरि राष्या ऐसा अलप विनांणी ॥^{२०३}

इस प्रकार इन द्वयताओं का परित्याग कर मध्य तत्व के रूप में यह सहज ज्ञान और सहज स्वभाव निस्सन्देह सिद्ध परम्परा से ही आया है, यद्यपि धीरे धीरे उसका तान्त्रिक अभिप्राय तिरोहित होता गया और सन्त लोग उसे गीता के सम स्वभाव के अर्थ में प्रयुक्त करने लगे। यह सन्तों की अपनी मौलिक उद्भावना थी या वैष्णव प्रभाव, इस पर हम आगे विचार करेंगे, किन्तु कहीं-कहीं सन्तों ने वास्तव में इस दो पद का त्याग कर मध्यवर्ती सहज स्वभाव अपनाने की सर्वथा मौलिक व्याख्या दी है। वे हिन्दू और सुसलमान इन दोनों पदों के मध्य में अपनी सहज स्थिति बताते हैं। वही निष्पन्न सन्त स्वभाव है :

हिन्दू तुरुक न होइवा साहिव सेती कान

पट दरसन के संग न जाइवा निरप कहिवा राम ॥

करणी हिन्दू तुरुक की अपणी-अपणी टौर।

दुहुँ विच मारग साध का सन्तों की रह और ॥^{२०३}

इस सहज-स्वभाव को सन्तों ने भक्तिभावना के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है जो उनका अपना प्रयोग है क्योंकि बौद्ध तथा नाथ योगी दोनों ही इस भावना से अपरिचित थे। कबीर ने अपने मन को सहज स्वभाव में स्थित बताया है क्योंकि राम ने उन्हें अपना करके मान लिया है :

अब मोहिं रामु अपुना करि जानिआ

सहज सुभाउ मेरा मनु मानिआ ॥^{२०४}

इस भक्तिभाव की आनन्दमयी आत्मवेली से दादू का भी गगन गृह आच्छादित है :

वेली आनंद प्रेम समाइ

सहजै मगन रामरस सींचै दिन दिन वधती जाइ

सतगुरु सहजै वाही वेलि सहजि गगन पर छाया

सहजै सहजै कूपल मेलहै जासो अबधू राया

आतम वेली सहजै फूलै सदा फूल फल होई

कायावाड़ी सहजै निपजै, जासो चिरला कोई ।

मन हठ बेली सूकरा लागी सहजै जुगि जुगि जीवै

दादू बेलि अमर फल लागै सहजि सदा रस पीवै । २०५

इस प्रकार यह सिद्धों के प्रज्ञोपाय अद्रैत का सहज स्वभाव अन्त में भक्त स्वभाव में परिणत हुआ जिसमें राम के प्रति अनन्य भक्ति रखते हुए स्वयम् को उन्हीं को अर्पित कर सारी द्विविधा से मुक्त होना ही सहज स्वभाव माना गया है ।

ग-सहज, साधना पद्धति के रूप में—

इस सहज स्वभाव की सिद्धि हठयोग द्वारा की जाती थी । सिद्धों में यह हठयोग महामुद्रा के मैथुन से सम्बद्ध था किन्तु नाथयोगियों में प्रमुखतः यह शिव और शक्ति के देहस्थ योग के रूप में स्वीकृत हुआ । सन्तों में हमें इस पद्धति के लिये बराबर सहज-योग नाम का प्रयोग मिलता है यद्यपि उसके दो अर्थ हैं । कहीं कहीं वह हठयोग की साधनाओं के लिये प्रयुक्त हुआ है, कहीं कहीं शुद्ध भावयोग के अर्थ में ।

हठयोग के अर्थ में :

दादू—पंच बाइ ते सहज समावै, ससहरि के घर आणै सूर
सीतल सदा मिलै सुखदाई, अनहद सबद बजावै तूर
बंकनालि सदा रस पीवै तव यह मनवां कहीं न जाइ
बिगसैं कंवल प्रेम जव उपजै ब्रह्मा जीव की करै सहाइ । २०६

एता कीजै आप थैं तन मन उनसुनि लाइ ।

पंच समाधीं राखिये, दूजा सहज सुभाइ ।

सहज जोग सुख मैं रहै दादू निर्गण जाणि ।

गंगा उलटी फेरि करि जसुणा माहैं आणि ॥ २०७

भीखा—जोग जुक्ति कै हिंडोलन गुरु सहज लखावत

चाँदै राखि सूर पौदावल षपवन डोरि पै धावल ।

अर्थ उर्थ मुख पावल पुलकि पुलकि छवि भावल । २०८

वाह्याचार मुक्त भावयोग के अर्थ में :

कबीर—तन को जोगी सब करै, मन को बिरला कोय

सहजै सब सिधि पाइये जो मन जोगी होय

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

सहज सहज सब कोइ कहैं सहज न चीन्है कोय
जा सहजै साहज मिले सहज कहावै सोय ॥
सहज मिलैं सो दूध सम मांगा मिले जो पानि
कह कवीर वह रक्त समजामैं हँचा तानि ॥२०९

किस प्रकार यह वाह्याचारमुक्त भावयोग कवीर तथा अन्य सन्तों द्वारा भक्ति का पर्यायवाची मान लिया गया था, इसकी और संकेत किया जा चुका है।

घ-सहज-समाधि

हठयोग तथा भावयोग के समानान्तर ही सहज-समाधि का प्रयोग भी सन्तों में योग-समाधि तथा भाव-समाधि दोनों अर्थों में मिलता है। हठयोग की समाधि के अर्थ में नाथयोगी परम्परा की उन्मुनी, प्रयुक्त हुई है। यह उन्मुनी-अवस्था हठयोग-प्रदीपिका में शून्य और अशून्य से परे अमनस्क (अमनसिकार) की ही अवस्था बताई गई है और टीका में इसे जल में मिले हुए लवण की भाँति आत्मस्थ रूप बताया गया है।^{२१०} नाथपन्थी ग्रन्थों में भी इसी को तत्त्वसार बताया गया है, 'मन पवना लैं उनमनि धरिना ते जोगी ततसार'।^{२११} सन्तों ने भी इसी उन्मन समाधि को सहज-समाधि बताया है :

कबीर—तन महि होती कोटि उपाधि । उलाटि भई सुख सहज समाधि
सहज समाधी उनमुनि जागै सहज मिलैं हरि राई।^{२१२}
सहज सुन्न में रहै समाना सहज समाधि लगावै^{२१३}
उनमुनि रहै ब्रह्मा कौ चीन्है परम तत्त को ध्यावै ॥^{२१४}

पल्लू—फूटि गया असमान सबद की धमक में
लगी गगन में आग सुरति की चमक में
सेसनाग और कमठ लगे सब काँपने
सहज समाधि कि दसा खबरि नहिँ आपने।^{२१५}

इस सहज-समाधि की योग साधना में गंगा यमुना के बीच की सुषुम्ना को सहज पथ या सहज हाट माना गया है : 'गंग जमुन उस अन्तरै सहज सुन्नि ल्यौ घाट'^{२१६} जो अवधूतिका को गंगा जमुना के बीच बहने वाली नौका मानने वाली सिद्ध कल्पना के बहुत निकट है।

वास्तव में यही सहज समाधि या उन्मुनी अवस्था भावात्मक स्तर पर सहज-वृत्ति बन जाती है जो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप होती है

जिस पर हम आगे उनमुनि रहनी, या सहज-रहनी के अन्तर्गत विचार करेंगे। वह भाव-समाधि और भी सूक्ष्म है क्योंकि वही अन्तिम साध्य है और हठयोग की सहज-समाधि से परे की वस्तु है :

जोग ना जुगत ना प्रानायाम ना सुल्ल में ध्यान न घरत ध्यानी
नाहि कछु ज्ञान है नाहिं बैराग है जाय ना सकै तह पवन पानी
इडा ना पिंगला नाहि कछु साधना सुरत ना सवद ना उठत वानी
भिल्लमिली जोते न नाहि है उनमुनी चांद न सूर ना ब्रह्म-ज्ञानी
सहज समाधि के परे की बात है दास पलटू कोई सन्त जानी ।^{२१७}

छ-परम पद

सन्तों का यह परम पद भी सहज निर्वाण है :

मरै न जीवै सहज सो पूरा पद निर्वाण ।^{२१८}

परम पद के रूप में सहज का जो अग्रम अग्रोचर रूप वर्णित किया है वह सिद्धों के वर्णन से शब्द शब्द मिलता है :

कबीर—जिहि वन सीह न संचरे, पंषि उडै नहिं जाइ

रैनि दिवस का गम नहीं तहं कबीर रखा ल्यौ लाइ^{२१९}

दादू—चल दादू तहं जाइये जहं चन्द सूर नहिं जाइ

राति दिवस का गम नहीं सहजै रखा समाइ ।^{२२०}

सरहपा—जाहि मण पवण ण संचरइ रवि ससि नाह पवेस

तहि बढ चित्त विसाम करु सरहें कहिअ उएस ।^{२२१}

परम पद निर्वाण तथा नाथ और सन्त साहित्य में उसके वर्णन पर हम आगे विचार करेंगे।

सिद्धों के सम्बन्ध में सहज-पद्धति पर विचार करते समय हम यह देख चुके हैं कि एक परिस्थिति ऐसी आती है जब मन्त्र, तन्त्र, जप, होम, मंडल-कर्म आदि वाह्य-अनुष्ठानों से साधक मुक्त हो जाता है और केवल सहज रहनी अपने मन को एक रूप विशेष रूप में नियोजित कर दिन रात या सहज सहज रूप में रहता है। इसको काणहण ने 'एक्कु ण किज्जइ जीवन-पद्धति तन्त ण मन्त' और तिलोपा ने 'मणह भअवा खसम भअवइ, दिवारात्ति सहजे रहिअइ' के रूप में प्रस्तुत किया है। किन्तु इस स्थिति तक पहुँचने के लिये कुछ विशेष साधनाओं का विधान था। तन्त्र पद्धति

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

के अनुसार महासुद्रा सिद्ध कर लेने के उपरान्त यह सहज जीवन-वृद्धि वांछनीय समझी जाती थी और शुद्ध हठयोगी साधनानें यह स्थिति उन्नती अत्ररथा के उपरान्त आती थी ।

सन्त महासुद्रा साधना तो मूल लुके थे किन्तु उन्नती समाधि की साधना वे अवश्य करते थे और उसके उपरान्त सहज-स्वभाव धारण करने का उपदेश देते थे । उनका यह सहज-स्वभाव और उसका निरक्षण तन्त्र तथा योग के अतिरिक्त एक तीसरी पद्धति से प्रभावित था, वह थी वैष्णवी पद्धति । भक्ति मार्ग में शरणागति और आत्मार्पण की भावना ही प्रधान थी, अतः उनमें उन सभी कर्मों को सहज माना गया था जो अनासक्त भाव से किये जायें, जिनके फल तथा कुफल में कर्ता की मति सम हो, वह मुख दुख आदि के मोह में प्रवृत्त न होवे । वे कर्म भौतिक होते हैं, सांसारिक हांते हैं किन्तु अनासक्त बुद्धि से किए जाने पर साधक को नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त कराते हैं । इसी प्रसंग में गीता में कहा गया था :

यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम् येन सर्वमिदम् ततम्
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम् विन्दति मानवः ॥
सहजं कर्म कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निमिवावृतः ॥
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितारमा विगतस्पृहः
नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्यासेनाधिगच्छति ॥२२२

गीता में यह भी बताया गया था कि यदि वैसे चित्त प्रभु में स्थिर नहीं रहता तो यह स्थिति अभ्यास योग से भी आ सकती है :

अथ चित्तम् समाधातुम् न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुम् धनंजय ॥२२३

इसी अभ्यास योग को तन्त्रों में महासुद्रा साधना और योग में सहज योग उन्मुनी समाधि के रूप में सिद्धों नाथों और सन्तों ने ग्रहण किया था । किन्तु वैष्णव चिन्ताधारा में एक और मार्ग बताया गया था, वह यह कि अपने समस्त कर्म कृष्ण को अर्पित कर दिए जायें 'तदर्विताखिलाचारः सन् कामक्रोधाभिमानादिकम् तस्मिन्नेव करणीयम् ।'^{२२४} ऐसा व्यक्ति जो कुछ चोलता है वही हरिनाम है, जितनी दूर चलता है, वही तीर्थ है, जो कुछ करता है वही पूजा है । इसमें किसी योग, किसी तन्त्र, किसी जप तप की आवश्यकता नहीं केवल मन भगवान के प्रति अर्पित रहना चाहिए ।

कवीर योगाभ्यास द्वारा सिद्ध होने वाली सहज-रहनी की तुलना में इस वैष्णव सहज जीवन-पद्धति से कहीं अधिक प्रभावित थे जैसा उनके इस पद से ज्ञात होता है :

भाधो सहज समाधि भली

गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली
जहं जहं डोलों सो परिकरमा, जो कुछ करों सो सेवा
जब सोबों तब करों डंडवत, पूजों और न देवा
कहाँ सो नाम, सुनों सो सुमिरन, खाव पियों सो पूजा
गिरह उजाड़ एक सम लेखों, भाव मिटावौ दूजा

इस सहज भावयोग में किसी प्रकार के वाह्य दिखावे के अनुष्ठान अथवा आचारों की आवश्यकता नहीं है :

आंख न मूँदौ कान न रूंधौ तनिक कष्ट नहि धारौ
खुले नैन पहिचानौ हंसि हंसि सुन्दर रूप निहारौ ।

योग की उनसुनी समाधि भी इस भक्ति भाव में अन्तर्मुख हो जाती है :

कह कवीर यह उनसुनि रहनी सो परगटि करि गाई

सुख दुख से कोई परे परम पद तेहि पद रहा समाई ॥^{२२५}

और वास्तव में वह पद विष्णु का पद था, राम का पद था जिसने अपने वामनावतार में तीन पगों से वसुधा नाप ली थी । समस्त भारतीय संस्कृति पर वैष्णवता लता-वितान की भांति आच्छादित हो गई थी । कवीर का समस्त तत्व चिन्तन जिसकी जड़ें सिद्धों से आने वाली परम्परा में थी वह सहज-चिन्तन रूपी बेलड़ी वास्तव में राम का गुणगान बन गया था, राम के गुण की बेलड़ी बन गई थी :

राम गुन बेलड़ी रे अरधू, गोरषपाथि जांणी ।

नाति सरूप न छाया जिसके बिरध कौ बिन पाणी ॥

सहज बेलि जब फूलण लागी डाली कूपल मेल्ही ।

काटत बेली कूपले मेल्हीं सींचताड़ी कुमिलांणी ॥

कहै कवीर तैं बिरला जोगी, सहज निरन्तर जाणी ॥^{२२६}

इस पद में यह उल्लेख आया है कि सहज रूपी बेल से गोरष के अनुयायी भी अपरिचित नहीं थे । गोरखबानी में वर्णित हुए 'सहज' की विवेचना हम कर चुके हैं और यह भी संकेत कर चुके हैं कि कुछ स्थलों पर तान्त्रिक अथवा योग साधनाओं वाले तात्पर्य से सर्वथा विनिर्मुक्त शुद्ध सहज जीवन-पद्धति

वज्रयानी शब्दों की परम्परा

के रूप में भी गोरखपन्थी सहज को मान्यता देते थे। फिर कबीर ने क्या विशेषता है जो उनको वैष्णव सहज-चिन्तन के अधिक निकट कहा गया है ?

वास्तव में गोरख की साधना-पद्धति में पुरुष के ३२ लक्षण बताए गए हैं जिन्हें आठ परीक्षाओं में विभाजित किया गया है। उनमें से सहज परीक्षा के अन्तर्गत बृहत, शीतल, सुखद और स्वभाव ये चार लक्षण बताये गये हैं, १२९ गोरखबानी में 'बत्तीस लक्षण' में इसे अष्टांग और पारछया बताया गया है और सहज में उपर्युक्त चार लक्षणों को 'सुमती, सुहृदी, शीतल और सुपदाई' बताया गया है। ध्यान, धारणा, समाधि आदि 'मुनि पारछया' के अन्तर्गत हैं और सहज उनसे मुक्त है। २२०

किन्तु कबीर ने इसमें एक तत्व और जोड़ा था—भक्ति और प्रभु के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, समस्त कर्मों को कृष्णार्पित कर फलाफल से निरपेक्षता और नाथयोगियों का इस तत्व से परिचय नहीं हुआ था, या उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया था।

किन्तु एक बात की ओर कबीर ने संकेत किया था कि सहज सहज तो सभी कहते हैं किन्तु जानता कोई भी नहीं। सहज वही है जिससे नाथ मिले और साहब तभी मिलता है जब साधक अपने को पूर्णतया अर्पित कर दे। किन्तु कालान्तर में सन्त परम्परा के बहुत से साधक ऐसे हुए जो सहज के इस गम्भीर अर्थ को भूल गये और वे सहज-पद्धति का अर्थ वह पद्धति समझने लगे जिसमें कुछ भी न करना पड़े। और इसका परिणाम हुआ कि वह उदात्त सहज-चिन्तन जिसने गीता से लेकर, सिद्धों और नाथ परम्परा में होते हुए कबीर तक को अनुप्रेरित किया था, जिसने तन्त्र, योग, और भक्ति तीनों की पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त किया था, वही 'सहज' भिन्ना से भरपेट भोजन कर केवल पलंग पर लेटे रहने का वाचक हो गया और जीवन मस्ताने (लगभग १८०० ई०) ने कहा :

जब दो खात दारि पैसा भर कैसी फरकत चोटी है।

सहज सुभाय रहत निसिब सर रहत पलंग पर लोटी है ॥ २२९

इस प्रकार यह सहज-चिन्तन और जीवन-पद्धति अन्ततोगत्वा इस स्तर तक उतर आई और उसका सारा महत्व समाप्त हो गया।

घ
साधना-पद्धति की वज्रयानी
प्रवृत्तियां और शब्दावली

गुरु

इस साधना में प्रवृत्त होने के पूर्व गुरु कर लेना आवश्यक है क्योंकि मध्यकालीन योग तथा तन्त्र साधनाओं में यह सर्वमान्य धारणा थी कि कभी भी निगुरे को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। बाद में जिन सम्प्रदायों में योग तथा तंत्र की गुह्य साधनाओं का परित्याग भी कर दिया गया है, उनमें गुरु का यह महत्व परम्परागत रूढ़ि सा बन गया है। कबीर तथा अन्य सभी परवर्ती सन्तों ने गुरु का यह महत्व बराबर स्वीकार किया है। किन्तु गोरखपन्थी बानियों तथा सन्तों की बानियों में इस विषय में एक विशेष अन्तर है। नाथपन्थी बानियों का गुरु योगशास्त्र का ज्ञाता है।¹ सन्तों का गुरु वैष्णव है, और शब्द सुरति के साथ साथ वह हरिभक्ति का भी मधुर उपदेश देता है।² गुरु के विषय में श्रद्धा उस समय इतनी प्रचलित थी अतः सन्तों ने या नाथपन्थियों ने यह वज्रयानी सिद्धों से ही प्रभावित होकर ग्रहण की इसका कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, नाथपन्थियों में कई स्थलों पर ऐसा ज्ञात होता है कि शिष्य गोरखनाथ अपने गुरु मछीन्द्रनाथ को उपदेश दे रहे हैं।³ यह परम्परा विरुद्ध सी बात लगती है किन्तु इसके मूल में सम्भवतः उस घटना की स्मृति है जिसमें कहा जाता है कि गोरखनाथ ने योगिनियों के जाल से मछीन्द्र को मुक्त कराकर तान्त्रिक अनुष्ठानों का बहिष्कार किया था।

सन्तों की बानियों में 'गुरुदेव के अंग' को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

है। यह उनके अतुल्य महत्व का परिचायक है। जहाँ तक गुरु के लक्षण, शिष्य के लक्षण आदि आदि ग्रंथों का प्रश्न है वे तान्त्रिक ग्रन्थों की अतुल्य-परम्परा का आभास देते हैं यद्यपि इन सन्तों का गुरु न तान्त्रिक गुरु है और न वज्रयानी। वह निस्तन्देह ऐसा गुरु है जिसने शब्द-तुरत-योग और भक्तियोग इन दोनों को समन्वित साधना की है क्योंकि उसने शिष्य को भी दोनों ही पद्धतियों का उपदेश दिया है :

योग—दौ लागी साहर जलदा पंकी दँटे आह
दाथी देह न पालवे सतगुरु गया लगाय ।^५
भक्ति—सतगुरु हनसुं रीक्ति करि एक कह्या परसंग
वरता वादल प्रेम का भीजि गया सब अंग ।^६

भक्ति और योगमार्ग का यह पूर्ण एकात्म राघवानन्द तथा रामानन्द की गुरु परम्परा की ओर संकेत करता है क्योंकि उनके मार्ग में अवधूतों की योग पद्धति तथा वैष्णव भक्ति इन दोनों का समन्वय हो गया था ।^७

इस प्रकार गुरु के महत्व की परम्परा संतों ने वज्रयानी सिद्धों से नहीं ली थी किन्तु गुरु-वचन के लिये वाण का उपमान तथा वज्र विशेषण अवश्य सिद्धों तथा सन्तों में समान रूप में मिलते हैं। चर्यापदों में गुरु-वचनों को वाण या वज्रकुठार बताया गया है जिस पर हम पीछे विचार कर चुके हैं। सन्तों में भी यह उपमान प्रयुक्त हुआ है :

गुरु कै वाणि वजर कल छेदी प्रगटिया पटु परगासा
सकति अपेर जेवड़ी भ्रमु चूका निहचलु सिव धरि वासा ॥^९
सतगुरु मारयां बाणि भरि धरि करि सूधी मूठि
अंगि उवाडैं लागिया गइ दवा सुं फूटि ॥^८

अद्वयवज्र ने अपने प्रेमपंचक में सदगुरु को दूती बताया है जो बधू प्रज्ञा तथा वर उपाय की मध्यस्थता कर दोनों का मिलन सम्पन्न करा देता है। सन्तों में ज्ञानबधू तथा साधकरूपी वर का मध्यस्थ गुरु को माना गया है :

सन्तन किया त्रियाह दुलहिनी ज्ञान की ।
सतगुरु दिया कराय बेटी जजमान की ।^९

अनाड़ी गुरु के निषेध का एक दोहा तो सरहपा, कबीर, दादू तथा अनन्य कितने ही सन्तों में बिल्कुल समान रूप में मिलता है :

सरहपा—जाव ए अप्पा जाणिजइ ताव ए सिस्स करेइ
अंधे अन्ध कढ़ावइ तिम वेरण वि कूप पड़ेइ ।^{१०}

कबीर—जाका गुरु भी अन्धला चेला खरा निरन्ध
अन्धे अन्धा ठेलिया दून्युं कूप पड़न्त ।^{११}

दादू—अन्धे अन्धा मिलि चले दादू बाधि कतार
कूप पड़े हम देखता अंधे अंधा लार ।^{१२}

देह

वज्रयानी सिद्धों के साधना केन्द्रों पर विचार करते समय हमने यह देखा था कि तन्त्रपीठों में जालन्धर, कामरूप, ओडियान तथा श्रीहृद्ग्रमुख तन्त्रपीठ

देहस्थ
सिद्ध पीठ

माने जाते थे । इस बाह्य तन्त्रपीठों की स्थिति काया में भी मानी गई थी और बौद्ध हठयोग साधना में इन तन्त्रपीठों की स्थिति काया के अन्दर भी बताई गई है । चर्यापदों में केवल उड्डीयान तथा कामरूप का उल्लेख मिलता है ।

कुक्कुरीपा की चर्या में अर्द्धरात्रि को प्रज्ञाज्ञानाभिषेक के समय अवधूती रूपी बधू अभिसार के लिये कामरूप जाती है जिसकी व्याख्या टीकाकार ने 'महासुखचक्रस्थान' में, की है ।^{१३} चौथे चर्यापद में भी मणिमूल (मणिमूल, मूलस्थान) से उद्बुद्ध होकर वज्रचित्त के उड्डीयान या उर्ध्व महासुखस्थान में समाहित होने की साधना का वर्णन है ।^{१४}

शैव पद्धतियों में भी ये तन्त्रपीठ काया में स्थित माने गये थे और उनके नाम पर उड्डीयानबन्ध, मूलबद्ध आदि प्रक्रियाएँ प्रचलित थीं, यद्यपि स्थिति आदि में सम्भवतः थोड़ा सा अन्तर था । सिद्ध-सिद्धान्त-संग्रह में त्रिधावर्त, भगमंडलादि की आकृति वाले ब्रह्मचक्र (मूलाधार चक्र) में कामरूप पीठ की स्थिति बताई गई है । उड्डीयान पीठ की स्थिति स्वाधिष्ठान चक्र में मानी गई है ।^{१५} हठयोग-प्रदीपिका में उड्डीयान बन्ध के द्वारा सुषुम्ना को जाग्रत करने का विधान मिलता है और उसी प्रसंग में प्राण को महाखग भी कहा गया है ।^{१६} इसी प्रकार मूलबन्ध और कंठस्थान से सम्बद्ध जालन्धरबन्ध का भी उल्लेख हठयोग-प्रदीपिका में मिलता है ।^{१७}

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

गोरखबानी में भी उड्डियान, श्रीहट्ट (सुरहट्ट), मुलतान (मूलस्थान) कामरूप (कांवरू) आदि का उल्लेख मिलता है। एक पद में पाँच इन्द्रिय रूपी बैल तथा नौ रन्ध्रों की शायों को बाखर में लाकर सहज स्वभाव द्वारा मन के उड्डियान गमन का उल्लेख है :

सहज गोरपनाथ वाण्णज कराई, पंचवलद नौ गाई
महज सुभावै वापर ल्याई, मोरे मन उड्डियानी आई ॥
सुरहट्ट घाट आन्हे वण्णजारा, मुनि हमारा पसारा ।
लेण न जाणौ देण न जाणौ एद्वा वण्णज हमारा ॥^{१८}

इसी प्रकार मूलस्थान (मुलतान) में प्राणायाम द्वारा ब्रह्माग्नि के प्रचलित होने का वर्णन मिलता है :

दिपण्ण हमारी डीव्री पाकै अग्नि वलै मुलतानं
ऐसे हम जोगेसर निपनां, प्रगट्ठ्या पद निर्वानं ॥^{१९}

श्रीहट्ट के बीच में कामरूप, (अर्थात् सम्भवतः भगमण्डलाकार मूलाधार के मध्य में कामरूप पीठ) को प्राणायाम द्वारा धिजित करने का संकेत इन पंक्तियों में मिलता है :

उलट्टि वन्त्र धरे धिपर आसन करे कोट्टि सन छूटता धाव नाहीं
सिलहट्ट मध्ये कांवरू जीतले निर्मल धुनि गगन माहीं ॥^{२०}

श्रीहट्ट आदि की स्थिति का विशेष विवरण नहीं मिलता किन्तु कामरूप को स्थिति अवरुध्द बदल गई है। बौद्ध साधना में कामरूप सर्वोच्च महामुखचक्र माना गया है किन्तु सिद्ध-सिद्धान्त-संग्रह में वह प्रथम चक्र, मूलाधार में स्थित कर दिया गया है। ज्ञात होता है कि इस सम्बन्ध में विभिन्न शैव पद्धतियों की विभिन्न धारणाएँ थीं। बौद्ध पद्धतियों में भी परस्पर मतभेद था जिसपर हम पहले विचार कर चुके हैं।

सरहपा ने हट्टयोग साधना के प्रसंग में इसी शरीर में गंगा तथा जमुना और प्रयाग तथा वाराणसी तीर्थों की स्थिति बताई थी जिस पर हम पीछे विचार कर चुके हैं। वास्तव में तत्व-प्राप्ति देह में ही होने के कारण देह का महत्व देह का अतुल महत्व उन परवर्ती सम्प्रदायों में भी माना गया जो योग से सम्बन्धित थे।

सन्तों ने भी देह में ही समस्त तीर्थों और देवताओं की स्थिति का उल्लेख किया है :

काया माहँ सागर सात । काया माहँ अविगत नाथ ॥
 काया माहँ नदिया नीर । काया माहँ गहिण गंभीर ॥
 काया माहँ सरवर पाणी । काया माहँ बसै विनाणी ॥
 काया माहँ नीर निवान । काया माहँ हंस सुजान ॥
 काया माहँ गङ्गा तरङ्ग । काया माहँ जमना सङ्ग ॥
 काया माहँ सुरसती । काया माहँ द्वारामती ॥
 काया माहँ कासी थान । काया माहँ करै सनान ॥
 काया माहँ पूजा पाती । काया माहँ तीरथ जाती ॥
 काया माहँ मुनियर मेला । काया माहँ आप अक्रेला ॥^{२१}

इस प्रसङ्ग में यह संकेत कर देना आवश्यक है कि सिद्धों की देह में स्थित प्रयाग, वाराणसी आदि की कल्पना भी हिन्दू परम्परा का प्रभाव प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने किसी बौद्ध तीर्थ का रूपक नहीं ग्रहण किया है। प्रयाग, वाराणसी हिन्दुओं के ही तीर्थ थे, बौद्धों के नहीं। गङ्गा यमुना भी हिन्दुओं में आदृत हैं बौद्धों में नहीं। सन्तों ने सम्भवतः उसी अबौद्ध परम्परा से प्रभावित होकर देह में ६८ हाटों की कल्पना की है। यह '६८ हाट' वास्तव में हिन्दुओं के ६८ तीर्थों का देहस्थ रूप था।

जीउ बटाऊ जन्म हाट । काया बस्ती अठसठ हाट ।^{२२}

किन्तु जहाँ इन हाटों का विस्तृत विवरण दिया गया है वहाँ हठयोग के चक्रों-नाड़ियों आदि का संकेत मिलता है। नानक ने प्रथम हाट का नाम अनन्त, द्वितीय का नाभि-कमल, तृतीय का भण्डार, चौथे का उद्यम-उदन्त, पाँचवे का बंक्रनाल रक्खा है और इसी तरह समस्त हाटों का नाम और वर्णन हठयोग से सम्बद्ध है। अन्त में वेणी या सङ्गम हाट का उल्लेख है जहाँ इडा पिंगला और सुषुम्ना का पूर्ण मिलन हो जाता है और मन सहज ही अड़सठ तीर्थों का पुण्य फल पा लेता है।

बेनी हाट जत्रै मनु जाय । मनु तहिं बेनी कर्म कमाय
 बेनी सङ्गम जब मनु जाता । तत्र अड़सठ सहजे ही न्हाता ।^{२३}

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

सिद्धों ने जहाँ वाह्यतीर्थों का निषेध किया है वहाँ शरीर को ही जिनपुर माना है। उसी में ध्यानी बुद्धों का वास माना है। यह परम्परा जैनों ने भी अपनाई थी देह रूपी देवालय में शक्तियों सहित जो देव वास करता है, वह शिव कौन है ?

देहा देवलि जो वसइ सत्तिहिं सहियउ देउ
को तहिं जोइय सत्तिसिउ सिग्वु गवेसहिं भेउ ॥^{२४}

उसी शिव और शक्ति के कारण यह देह देवालय है, तीर्थों से भी अधिक पवित्र है। उस शिव और शक्ति का वास नाथ योगियों और सन्तों ने भी देह में माना था। उसके लिये उन्होंने देह को 'अरध' तथा 'उरध' में विभाजित किया था। 'अरध उरध' विभाजन, उनमें शिव और शक्ति का वास तथा वज्रयानी परम्परा द्वारा मान्य बुद्ध का देह में वास, इनके विकास-क्रम पर हम अब विचार करेंगे।

अरध उरध ये श्वास गति की दो सीमाएँ हैं। जहाँ से श्वास निरोध कर विन्दु को स्थिर किया जाता है, और वह स्थल जहाँ तक उस विन्दु को पहुँचाया जाता है। प्रथम स्थल है मूलस्थान या मूलाधार देह में चक्र और अन्तिम स्थान है सहस्रार चक्र। इन्हीं दोनों को अरध उरध अर्ध और ऊर्ध्व भी कहा जाता था। बाद में चार चक्रों के स्थान पर षट-चक्र-पद्धति ग्रहण की गई किन्तु प्रथम और अन्तिम चक्र वहीं माना गया और इसी कारण अर्ध और ऊर्ध्व की कल्पना नाथ और संत परम्परा में यथावत् चली आई, केवल उसको बौद्ध के वज्राय शैव रूप में ग्रहण किया गया।

वज्रयानी दोहों में इस अर्ध और ऊर्ध्व का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। सरहपा ने कहा है कि जो अर्ध और ऊर्ध्व का भेद न जानकर दोनों का युगनद्ध नहीं सम्पन्न करते वे दोनों के बीच में भ्रम में पड़कर नष्ट हो जाते हैं।

अधउध मज्जे सञ्जल मूञ्च णासी^{२५}

इसी अर्ध को आलोक से उद्घाटित कर, चण्डामि प्रज्ज्वलित कर ध्यान स्थित होने का उपदेश तिलोपा ने दिया है :

अध उधाड्यि आलोअणै ज्झाणै होइ रे थित्ति ॥^{२६}

योगिनी-कौल-मार्ग की पद्धति में भी 'अध-ऊर्ध्व' में हंस के रमण क उल्लेख मिलता है।^{२७} अध में विन्दु जाग्रत कर उर्ध्व की ओर विन्दु को धेरित करने के कारण ही साधक को ऊर्ध्व रेतस् कहा जाता था।

गोरखबानी में इस अध और ऊर्ध्व के कई उल्लेख मिलते हैं। एक स्थान पर अध और ऊर्ध्व के मध्य में शून्य का वास (त्रिकुटी) का उल्लेख है: 'अरध उरध बिच धरी उठाई, मधि मुनि में बैठा जाई।'^{२८} यहाँ पर अरध शब्द वास्तव में उरध की तुलना में अध का ही रूपान्तर है :

दूसरे स्थल पर तो पूर्वोक्त योगिनी-कौल-पद्धति के हंस रमण वाली पंक्ति की छाया ही मिलती है :

यो० कौ० अधोर्ध्व रमते हंसो द्वादशान्ते लयं पुनः ॥

गोरखबानी अरधन्त कवल उरधंत मध्ये प्राण पुरिस का बासा
द्वादस हंसा उलटि चलैगा, तब ही जोति प्रकासा ॥^{२९}

एक अन्य स्थल पर अरध और उरध के मध्य में पवन को कुम्भक द्वारा स्थिर कर ब्रह्मरन्ध्र को उद्घाटित करने का विधान है :

अरधै उरधै लाइलै कूंची, थिर होवै मन तहाँ थाकीले पवनां
दसवां द्वार चीन्हिले छूटै आवागवनां ॥^{३०}

सन्त परम्परा में भी इस अरध उरध की कुम्भक साधना का उल्लेख मिलता है :

अरध उरध मुखि लागौ कासु
सुन मंडल महि करु परगासु ॥
उहां सूरज नाही चन्द
आदि निरंजनु करै अनन्द ॥^{३१}
धधा अरधहि उरध निवेरा
अरधहि उरधह मांभि बसेरा

अरधह छाडि उरध जउ आवा
तउ अरधहि उरध मिलिआ सुख पावा ॥^{३२}

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

चौपड़ माहीं चौहटे अरध-उरध बाजार
 कहैं कबीरा रामजन खेलौ संत विचार ॥
 पासा पकड्या प्रेम का सारी किया सरीर
 सतगुरु दांव बताइया खेलै दास कबीर ॥^{३३}

इनमें से अन्तिम उद्धरण का एक विशेष महत्व है क्योंकि उसमें कबीर ने कुम्भक प्राणायाम के साथ साथ अरध-उरध साधना में प्रेम वा भक्ति का तत्क भी जोड़ दिया है जो उनके परम वैष्णव स्वभाव के सर्वथा अनुरूप है ।

किन्तु शैव परम्परा में इस अर्ध और ऊर्ध्व की कल्पना में एक संशोधन हो गया था जिस पर दृष्टिपात करना आवश्यक है : प्रज्ञोपाय योग में प्रज्ञा का वास नैरात्मा के रूप में महासुखचक्र में माना गया था और काया में प्रज्ञा- उपाय अथवा वज्र का स्थान नीचे मस्तिष्क में । शैव परम्परा उपाय या शिव- में यह क्रम उलट गया । मूलाधार (अरध) में शक्ति कुंड- शक्ति लिनी रूप में स्थित बताई गई और ऊर्ध्व में शिव का वास मानकर उसे कैलाश कहा जाने लगा । मछिन्द्र-गोरख-बोध में शिव और शक्ति के वास का स्पष्ट उल्लेख आता है :

गोरख— स्वामी कहां बसै सकती कहां बसै सीव
 कहां बसै पवना कहां बसै जीव
 कहां होई इनका परचा लहै ।
 सतगुरु होइ सु बूझ्या कहै ॥

मछिन्द्र— अरधू अरधै बसै सकती, उरधैं बसै सीव
 भीतरी बसै पवना अंतरी बसै जीव
 निरन्तर इनका परचा लहै । ऐसा विचार मछिन्द्र कहै ।^{३४}

इसी शक्ति और शिव का उल्लेख सन्तों ने भी किया है :

कबीर— सिव सकती दिशि कोण जु जोवै पछिम दिश उटै धूरि ^{३५}
 पलटू— चलै न सिव कै जोर जाय जव सकती लीन्हा
 फिर सकती ना रही मिली जव सिव में जाई
 सिव भी फिर ना रहे सक्ति के सीव कहाई ॥^{३६}

केशवदास अरध उरध के मध्य निरन्तर सुखमन चौक पुराई हो
रवि ससि कुंभक अमृत भरिया गगन मंडल मठ लाई हो
साध सन्त मिल कियो बसीठी, सतगुरु लगन लगाई हो
दरस परस पतिव्रता पिव की, सिव घर सक्ति बसाई हो ३७

जायसी ने भी तन में अरध और उरध में बसने वाले शक्ति और शिव का उल्लेख किया है और सिंघल जाने के पूर्व अपने मन में या चित्त में इस शक्ति और शिव को एकात्म कर लेने का निर्देश किया है :

गजपति यह मन सकती सीऊ । पै जहि पेम कहां तेहि जीऊ ॥

जौ पहिलैं सिर पै पगु धरई । मुए केर मीचहु का करई ॥

सुख संकलपि दुख सांवर लीन्हैउ । तौ पयान सिंघल कह कीन्हैउ ॥^{३८}

यहाँ पर कबीर की ही भाँति जायसी ने शिव और शक्ति के अद्वैत की साधना में कुंभक प्राणायाम के बजाय प्रेम को महत्व दिया है। इस प्रकार अरध और उरध को शैव रूप दे देने के उपरान्त उसकी साधना में हठयोग के साथ साथ भावयोग की पद्धति स्वीकार कर उसे भक्ति की सहायक साधना मान लिया गया और प्रेम को प्रमुख स्थान दिया गया। किन्तु इसी शक्ति और शिव के संयोग से सहज-तत्व की उत्पत्ति होती है इससे कबीर भी भली भाँति अवगत मालूम पड़ते हैं :

काटि सकति सिव सहज प्रकासिओ एकै एक समाना ना

कहि कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मनु माना नां ॥^{३९}

वज्रशानी सिद्धों ने बुद्ध को चारों चक्रों में प्रतिष्ठित कर साम्प्रदायिक प्रतिद्वन्दिता के कारण हरि, हर, ब्रह्मा को बहुत गौण स्थान देकर तीन अत्यन्त शुद्ध नाड़ियों का अधिष्ठाता माना था। धामपाद के मानव देह में चर्यापद में हरि, हर और ब्रह्मा इन तीन नाड़ियों का उल्लेख हिन्दू देवता मिलता है :

दाढ़इ हरिहर ब्राह्मण नाड़ा । दाढ़इ नवगुण शासन पाड़ा ॥^{४०}

टीका में मुनिदत्त ने सन्ध्यावचन के अनुसार मूत्रनाड़ी को हरि, शुक्र नाड़ी को हर और विट नाड़ी को ब्रह्मा बताया है। चंडाग्नि के प्रज्वलित होने से ये तीनों नाड़ियाँ जल कर राख हो जाती हैं और केवल उपाय तथा प्रज्ञा, बुद्ध

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियां और शब्द:वली

तथा उनकी शक्ति शेष रहते हैं। इस कल्पना के पीछे साम्प्रदायिक प्रतिद्वन्द्विता का स्पष्ट आभास प्रतीत होता है।

लगता यह है कि परवर्ती हिन्दू परम्परा ने बुद्ध को गौण स्थान देकर इसका प्रतिशोध लिया है, यद्यपि फिर भी उन्होंने बुद्ध को उस प्रकार अपमानित नहीं किया जैसा बौद्धों ने हिन्दू देवताओं को किया। ये तीनों हिन्दू देवता काया में स्थित माने गये और सच्चा सतगुरु वह बताया गया जो राम ने इसी देह में मिलन करा दे :

साचा सतगुरु राम मिलावे, सब कुछ काया माहिं दिखावै
काया माहिं तीन्यू देव। काया माहैं अलख अभेद ॥^{४९}

राम का यह महत्व परवर्ती नाथ योगी भी स्वीकार करने लगे थे :

एही राजा राम आछै सर्वे अंग बासा
एही पांचौ तत बाबू सहज प्रकासा ॥^{४२}

बंगाल के नाथ योगियों में काया में स्थित देवताओं में बुद्ध का लोप हो गया है और धीरे धीरे शैव देवताओं के अतिरिक्त वैष्णव देवताओं का महत्व बढ़ता हुआ दृष्टिगोचर होता है :

मानव देहेर खबर जान रे मन
देह रे उत्तर दक्खिन पूर्व पश्चिम कोथाय वृन्दावन ।^{४३}
... ..

चूड़ते चूड़ामणि ब्रह्ममूल स्थिति, पाट मध्ये महाविष्णु केरछे वसति ।
चक्खेते कालाचार सदाइ करे ध्यान, करेते चैतन्य गोसामी ह्येछे सावधान ।^{४४}

उपरोक्त पद में देह को आठ मुकामों में विभाजित किया गया है और शिव तथा शक्ति को भग और लिंग में स्थित माना है किन्तु वैष्णव देवताओं और आचार्यों को अधिक महत्व दिया गया है। इस प्रकार काया वासी देवताओं में भी धीरे धीरे बौद्ध परम्परा शैव परम्परा द्वारा पराजित होकर वैष्णव परंपरा में विलीन हो जाती है वैष्णव देवता सर्वप्रमुख हो जाते हैं।

चक्र तथा नाडियों

नाथ-योग-पद्धति तथा सन्तों की योग-साधना इस दृष्टि से सर्वथा हिन्दू

थी कि उसमें चक्रों की संख्या, नाम तथा रूप आदि हिन्दू पद्धति के अनुसार थे ।
हिन्दू योग परंपरा के षट्-चक्र, उनके नाम, उनकी स्थिति
चार चक्र उनके कमल दलों की संख्या आदि की तुलना हम पहले
ही बौद्धों के चार चक्रों से कर चुके हैं (अध्याय ३ ग) ।
किन्तु बौद्धों की काया में चार चक्र मानने वाली परंपरा भी किसी न किसी रूप
में जीवित अवश्य थी, क्योंकि जायसी काया में चार बसैरों के अतिरिक्त चार
चक्रों का भी उल्लेख करते हैं ।

चारिहुँ चक्र फिरै मन खोजत, दंड न रहै न थिर मार ।

होइ के भसम संग धावौं, जहाँ सो प्रान अधार ।^{४५}

यह कहा जा सकता है कि यहाँ चार की संख्या का व्यवहार सूफियों की
साधना की चार अवस्थाओं के लिये किया गया है ।^{४६} किन्तु इस पूरे प्रसंग में
योग-साधना का ही रूपक है, सूफियों की प्रेम साधना का नहीं । यहाँ पर इन
चार चक्रों का अर्थ समझने के लिये हमें सूफी योग साधना में स्वीकृत चक्र-
प्रणाली पर भी एक दृष्टि डालनी होगी । सूफियों के नक़्शबन्दी सम्प्रदाय के
शेख अहमद (११०० ई०) ने मनुष्य के शरीर में नाभि से गर्दन तक ६
अवस्थान बताये हैं । नफ़्स जो नाभि के नीचे है, क़ल्ब जो छाती की बायीं ओर
है, रूह जो छाती में बाईं ओर है, सिर जो छाती के बीचोबीच है, ख़फी जिसका
स्थान ललाट में है और अस्फ़ा जो मस्तिष्क में है । हिन्दुओं की षट्चक्र परम्परा
से इसकी तुलना करने पर हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं में मूलाधार चक्र मेरु
के मूल में स्थित है, जबकि सूफियों के प्रथम चक्र की स्थिति नाभि के पास है,
जहाँ हिन्दुओं का तीसरा चक्र मणिपूर स्थित है । हिन्दू परम्परा में हृदय के
समीप केवल एक चक्र है अनाहत, जब कि सूफी परम्परा में ३ चक्रों की स्थिति
हृदय में ही है । कंठ के समीपवर्ती विशुद्धाख्य चक्र का सूफियों की इस परम्परा
ने कोई उल्लेख नहीं किया ।^{४७}

बौद्ध परम्परा से नक़्शबन्दी सम्प्रदाय के चक्रों की तुलना करने पर हम
अधिक समानता पाते हैं । बौद्ध परम्परा में भी प्रथम चक्र नाभि के पास स्थित
बताया गया है जो भगवान तथागत की निर्माण-काया का वासस्थान है । ह्वेञ्ज-
तंत्र की कुछ पांडुलिपियों में प्रथम चक्र की स्थिति उपस्थ मूल में भी बताई गई है
किन्तु नाभि वाली परम्परा सर्वमान्य थी । इस दृष्टि से सूफियों का प्रथम चक्र
नफ़्स, वज्रयानियों के प्रथम चक्र नाभि-कमल का ही रूपान्तर प्रतीत होता है ।

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

उसके उपरान्त तीन चक्र हृदय प्रदेश में ही स्थित हैं। हृदय प्रदेश को इतना महत्व हिन्दू परम्परा में कभी नहीं दिया गया किन्तु योगाचार की परम्परा में अन्तिम चक्र 'मनोवत्यु' हृदय प्रदेश में ही माना गया था और नाभि से लेकर हृदय तक ही समस्त चक्रों की स्थिति मानी गई थी।^{४८} वज्रयानी परम्परा में में अन्तिम चक्र मस्तिष्क में माना गया किन्तु मन का महत्व भी कम नहीं हुआ क्योंकि वे आत्मा के वजाय चित्त को ही अधिक महत्व देते थे। मन का वही महत्व सूफी परम्परा में हृदय प्रदेश के तीन चक्रों के रूप में अवशिष्ट रह गया। त्रिफली भ्रू मध्य में स्थित सम्भोग चक्र या आज्ञा चक्र का ही रूपांतर प्रतीत होता है। सेकोद्देश टीका में नारोपा ने सम्भोग की स्थिति ललाट में ही मानी है।^{४९} अन्तिम चक्र हिन्दू वज्रयानी तथा सूफी तीनों परम्पराओं में मस्तिष्क में माना गया है। यदि हम कल्ब, रूह और सिर को एक ही चक्र के तीन दल समझ लें तो सूक्तियों में स्तर की दृष्टि से चार ही खंड माने जायेंगे। नाभि-(नफ्फ) हृदय-(रूह, कल्ब, सिर) ललाट-(त्रिफली), मस्तिष्क-(अस्फा)। चार चक्रों की इसी योजना से जायसी परिचित रहे होंगे सिद्धों की प्रत्यक्ष चार चक्रों की योजना से नहीं। किन्तु इस सूफी परम्परा पर बौद्ध प्रभाव का आभास का अनुमान किया जा सकता है। जहाँ तक नाथ योगियों और सन्तों का प्रश्न है वे पट्चक्र प्रणाली से परिचित थे, चार चक्रों को उन्होंने कहीं मान्यता नहीं दी।

चक्रों ही के समान नाड़ियों के सम्बन्ध में भी नाथ साहित्य और सन्त साहित्य में हिन्दू योग परम्परा का आश्रय लेकर बौद्ध नामों का तिरस्कार किया गया है। किन्तु जहाँ चक्र योजना में हिन्दू तथा बौद्ध परम्परा में न नाड़ियाँ केवल नाम वरन् संख्या और स्थिति में भी अन्तर है, वहाँ नाड़ियों के सम्बन्ध में इतना अन्तर नहीं है। वे ही नाड़ियाँ हैं, उनकी लगभग वैसी ही स्थिति है केवल उनका नाम दूसरा है।

बौद्ध सिद्धों ने तीन नाड़ियाँ, ललना रसना तथा श्रवधूती मानी थीं। हिन्दू हठयोग परम्परा में इन्हीं नाड़ियों को इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाम दिये गये हैं। इनकी स्थिति इनके लिये प्रयुक्त उपमान तथा इनसे सम्बद्ध शंखिनी नाड़ी तथा दशमद्वार का विवरण हम पहले ही दे चुके हैं।^{५०} दोनों की तुलना इस प्रकार है :

ललना (हिन्दू नाम इडा), उपमान गंगा, चंद्र, प्रज्ञा, शक्ति, (स्थिति वाम)
रसना (हिन्दू नाम पिंगला), उपमान यमुना, सूर्य, उपाय, शिव, (स्थिति दक्षिण)

इन दोनों के मध्य में अवधूती या सुषुम्णा है जो सरस्वती है, संगम है, श्रौघट घाट है, ब्रह्माग्नि या चंडाम्नि-वाहिनी है। अवधूती को ब्रह्म-चक्र से शंखिनी नामक एक नाड़ी सम्बद्ध करती है जिसे बंकनाल कहते हैं। इसी बंकनाल से होकर अमृत भरता है और जिस रन्ध्र से अमृत आता है उसे दशम द्वार कहते हैं। दशम द्वार का वर्णन चर्चापदों में भी आता है 'दशमि दुआरेते चिन्ह देखा-इआ'।^{५१} इन्हीं नाड़ियों में पवन निरुद्ध कर सुषुम्णा में श्वास संचालन द्वारा दशम द्वार उद्घाटित कर अमृत पीने की साधना नाथों तथा सन्तों की योग साधना रही है जिस पर हम आगे विचार करेंगे। इन नाड़ियों का उल्लेख नाथ और सन्त साहित्य में विभिन्न रूपकों के साथ आया है।

गोरखबानी अहंकार तूटिवा निराकार फूटिवा सोषीला गंग जमन का पानी
चंद सूरज दोउ सनमुषि राषीला कहो हो अवधू तहाँ की सहिनायी^{५२}
कबीर जह किछु अहा तहा किछु नाही पंच ततु तह नाही
इडा पिंगला सुखमन बदे ए अवगत जाही।^{५३}
उलटी गंग जमुन मिलावइ, बिनु जल संगम मन महिं न्हावउ।^{५४}
नानक इडा पिंगला सुष्मन सूभी। तत्र मन सहज कथा सब बूभी
सुख का हाट सुष्मना कीन्हा। नानक तहिं सुख डेरा लीना
बेनी हाट जवै मनु जाय। मन तहिं बेनी कर्म नहाय।^{५५}
रैदास ऐसा ध्यान धरौं बरौं बनवारी, मन पवन दै सुखमन नारी।^{५६}
जायसी गही पिंगला सुखमन नारी, सुन्न समाधि लागिगौ तारी।^{५७}
भीखा इंगल पिंगला बुतैं सुन्न भेटानो, सुखमन भयो उँजियार।^{५८}

इनका संगम त्रिकुटी में माना जाता था और इस त्रिकुटी संधि से ही शून्य-समाधि का विशेष सम्बन्ध नाथ तथा सन्त परम्परा में माना गया था, इसकी और हम पीछे शून्य पर विचार करते समय संकेत कर आये हैं। प्राणायाम द्वारा पवन निरुद्ध कर, पंच तत्वों को चित्त में ही स्थित कर ये नाथ योगी तथा सन्त हठयोग की साधना करते थे।

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

पंचतत्व-धारणा

• सिद्धों की साधना-पद्धति का विवेचन करते समय यह संकेत किया जा चुका है कि पंच महाभूतों को ध्यान की एकाग्रता द्वारा अन्तस्थ कर चित्त में ही उनका उदय सम्पन्न करना एक प्रमुख अभ्यास रहा है जो योगाचार के समय में ही स्वीकृत किया जा चुका था। गोरख ने इस भावना को हिन्दू परम्परा से ग्रहण किया था। गोरख पद्धति में इस साधना का स्पष्ट विधान मिलता है।

हृदये पंचभूतानां धारणा च पृथक् पृथक्
मनसो निश्चलत्वेन धारणा समभीयते ॥^{५०}

यदि हम धातुओं के उदय होने के क्रम की तुलनात्मक समीक्षा करें तो हम देखेंगे कि बौद्धसिद्धों की क्रम योजना योगाचार से भिन्न है और गोरख की पद्धति के अधिक निकट है। योगाचार में पहले तेज, फिर आप्, फिर वायु, फिर गगन और अन्त में पृथ्वी, का उदय बताया गया है। कासहया के टीकाकार ने पहले पृथ्वी, फिर आप्, फिर तेज, तब वायु और अन्त में गगन का उदय बताया है।^{५०} गोरखपद्धति में भी बिल्कुल यही क्रम है किन्तु बीजाक्षरों और देवताओं का वर्णन उसे सर्वथा हिन्दू पद्धति सिद्ध करता है। ज्ञात यह होता है कि कासहया और उनका टीकाकार भी पूर्वगत हिन्दू योगपरम्परा के अधिक निकट थे और उसी क्रम को ग्रहण कर उन्होंने उसे प्रज्ञोपायात्मक बौद्ध व्याख्या दे दी थी।

गोरखबानी में इसी पंचतत्व की अन्तस्थ साधना का उल्लेख मिलता है

देखे ये तत सून्य आकास, पंच तत्त मैं महापुरिस कै बास ।

पंच तत्त लै उनमनि रहै, अछया होइ तौ जोगेन्द्र कहै ।

पंच तत्त का करो बिचार, बाहर भीतर येककार

भिछया माँगै नग्री द्वार, माया मोहू तजै जंजार ॥^{५१}

इनकी उत्पत्ति का क्रम भी गोरखबानी में इस प्रकार बताया गया है।

अविगत उत्पनां ऊं ! ओं उतपदिते आकास । आकास उतपनी बाई । बाई उतपन्यां तेज । तेज उतपन्यां तोया । तोया उतपनी मिट्टी ।

और चित्त में इनके उदित होने के क्रम में पूर्ण विपर्यय हो जाता है ।
‘मट्टी ग्रासन्त तोया । तोया ग्रासन्त तेज । तेज ग्रासन्त बाई । बाई ग्रासन्त

आकास । आकास प्रासन्त ओं । ओं प्रासन्त ते अविगत । अविगत गति रहते
आवते न जावते ॥^{६३}

दोहाकोष में पृथ्वी की इन्द्रिय नासिका, आप् की इन्द्रिय रसना, तेज की
इन्द्रिय चक्षु, वायु की इन्द्रिय त्वचा और आकाश की इन्द्रिय श्रोत्र बताई गई
है ।^{६३} गोरखवानी में आकाश का यह ब्रह्मांड और द्वार श्रुति, वायु का यह
नाभि और द्वार नासिका, तेज का द्वार चक्षु, आप् का द्वार लिंग, पृथ्वी का द्वार
गुदा बताये गये हैं ।^{६४} इसमें दोनों पद्धतियों में थोड़ा विभेद है ।

गोरखवानी में इन पंचतत्वों की भार्याओं का उल्लेख मिलता है जो
सम्भवतः बौद्ध तन्त्रों के पांच स्कन्ध, उनके देवता पांच ध्यानी बुद्ध और उनकी
भार्याओं की कल्पना से थोड़ा बहुत अवश्य प्रभावित है :

“स्वामीजी पृथी की कौण भारिज्या, बाय की कौण भारिज्या, आप् की
कौण भारिज्या, तेज की कौण भारिज्या, आकाश की कौण भारिज्या ।

अवधू पृथी की भारिज्या आसा धनवंती । आप् की भारिज्या मनसा चोरेटी ।
तेज की भारिज्या कल्पना चांडाली । वायु की भारिज्या चिन्ता डाकिणी । आकास
की भारिज्या संक्या सीलवन्ती ।^{६५}”

इनमें केवल आशा और शंका के साथ जो विशेषण हैं वे प्रशंसात्मक
हैं, किन्तु चोरटी, चांडाली और डाकिनी अपयश प्रदान करने के लिये प्रयुक्त
हुए हैं । इसी डाकिनी या डाइन का कबीर ने ‘माया’ राक्षसी के रूप में चित्रण
किया है जिस पर हम आगे विचार करेंगे । जहाँ तक पंचतत्व-धारणा की पद्धति
का सम्बन्ध है सन्तों में इसका विस्तृत रूप भुला दिया गया है किन्तु देह में इन
पंच महाभूतों के उदय की ओर संकेत मिलते अवश्य हैं ।

दादू—काया माहँ सिरजनहार, काया माहँ ओंकार
काया माहँ है आकास, काया माहँ धरती पाण
काया माहँ पवन प्रकास, काया माहँ नीर निवास ॥^{६६}

नानक—पंच तत्तु लै इहु धरि थाप । जो किछु कीनो सु आपे आपि
अपु तेजु बाय पृथ्वी आकासा । पंच मिलै जड़ि जोति प्रगासा ।
सोह आदि निरंजन सोई । नानक अवरु न दूजा कोई ।^{६७}

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

पवन निरोध

बौद्ध हठयोग की साधना में पवन के निरोध द्वारा चित्त के निरोध का विधान था। इसके कई प्रमाण दोहों में मिलते हैं :

सरहपा—अग्निमिल लोअण चित्त णिरोहे, पवण निरुहइ तिरिगुरुवोहें

पवण वहइ सो णिच्चलु जडवें, जोइ काल करइ रे तव्वें ॥^{३०}

काण्हपा—जो रात्थु णिच्चल किअउ मण सो धम्मक्खर पाख

पवणह वड्ढइ तक्खणे त्रिसअा होन्ति निराम ॥^{३१}

पवन के निरोध द्वारा चित्त का निरोध हठयोग की सामान्य पद्धति थी जो सभी हठयोगी सम्प्रदायों में समान रूप से स्वीकृत थी। हठयोग-प्रदीपिका में भी हमें इस आशय के श्लोक मिलते हैं :

पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते

मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते

मनो यत्र विलीयते पवनस्तत्र लीयते

पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते ॥^{३०}

नाथों की बानी में भी मन को पवन से और पवन को मन से बाँधने का उल्लेख मिलता है :

मन बांधूंगा पवन स्यूं, पवन बांधूंगा मन स्यूं

तत्र बोलैगा कोवत स्यूं ॥^{३१}

चंडाग्नि

वज्रयोग में पवन-निरोध के उपरान्त अवधूती मार्ग में चंडाग्नि के प्रज्वलित होने की प्रक्रिया का उल्लेख हम कर चुके हैं। यही चंडाग्नि समस्त क्लेश वासनाओं को भस्म कर देती है (अध्याय ३ ग)। शैव पद्धति में इसी चंडाग्नि को ब्रह्माग्नि कहा गया है : 'अभिअन्तरि ब्रह्मा अग्नि परजालै' ॥^{३२} नाथपन्थी बानियों तथा सन्तों में कहीं भी इसका चंडाग्नि नाम नहीं मिलता किन्तु इसका वर्णन दोनों में मिलता है :

तिबोपा—अछ उवाड्यि आलोअणे उक्खणे होइ रे थित्ति ॥^{३३}

गोरखबानी—मन मुछावै लावै ताली। गगन तिरर मैं होइ उजाली ॥^{३४}

धामपा—कमल कुलिश माफे भमई लेली, समताजोएँ जलिल चण्डाली

नउ खर जाला धूम न दिसइ, मेरुसिखर लइ गअण पइसइ ॥^{३५}

गोरखबानी—अकुच कुचीया बिगसा पोहा, सिंधि परजली उठी ल
कहै गोरपनाथ धुवा प्राण, ऐसे पिंड का परचा ज

इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये नव इन्द्रिय-द्वारों द्वारा बन्द कर केवल दसवें द्वार ब्रह्मरन्ध्र अथवा वैरोचन द्वार को) उद्घाटित करना पड़ता है 'नव दरवाजा देवै ताली, दस उजाली ।'^{७७} यद्यपि इसका नाम ब्रह्माग्नि है किन्तु वज्र-साधना से और इसका बौद्ध रूप सर्वथा मुला नहीं दिया गया । जायसी ने इ है जिसकी और हम संकेत कर चुके हैं । गोरखबानी में भी इस करने के लिए वज्र कछोट्टा और वज्रासन साधने का उल्लेख मिलत

अहनिसि अगनि पाप कूं पाइ, संधे संधे पवन लुकाइ
बजर कछोट्टा आसण करें, गेग व्याधि पुध्या सव हैं
इसी को कहीं कहीं दीपक की सी ज्योति भी बताया गया थ
काणहपा—जइ तसु घोरान्धारे मण दिवही किज्जइ ॥^{७९}

दीपक रूप में भी इसका उल्लेख नाथपन्थी ग्रानियों में मि
जोगी अरण्ये घर दिवला दीपै । ता जोगी की काया काल

...

...

...

..

दीपक एक अपंडित वाती । तहां जोगेश्वर थपना
अगम अगोचर सकल ब्रह्मंड । ता दीपक कै चरण न
सिधा न नैन दीस नहिं हाथ । दीपग देख्या जती गोरख
ता दीपक कै डाल न मूल । ता दीपक कै कली न
ता दीपक कै रङ्ग न रूप । ता दीपक कै छाँह न
ता दीपक कै विद्या न बाद । ता दीपक कै सबद न
और यह वह दीपक है जो शून्य से उद्भूत हुआ है और
समा जायगा ।

ता दीपक कै मोह न माया । सो दीपक सूनें सून समाय
सन्तों में अन्तर्ज्योति, देहस्थ अग्नि की इस कल्पना से वज्र ।
उतना सम्बन्ध भी टूट चुका है, जितना गोरखपन्थ में रह गया थ
उल्लेख बराबर आता है ।

लावौ बाबा आगि जलावौ धरा रे, का कारनि मन बंधे

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियां और शब्दावली

कवीर खिथा जलि कोइला भई, खापरु फूटिम फूटि
जोगी बपुडा खेलिओ आसनि रही विभूति ॥^{८३}
कवीर ऐसा को नहीं मन्दर देइ जराइ
पांचौं लरिके मारि कै रहै नाम लिउ लाइ ।^{८४}
कवीर कोठी काठ की दह दिसि लागी आगि
परिडत परिडत जलि सुए मूरख उवरे भागि ॥^{८५}

किन्तु वज्र और शून्य की परस्परता से इसका सम्बन्ध दृष्ट कर राम और रामभक्ति से जुड़ रहा था। अन्त में तो यह अग्नि राम के विरह की अग्नि बन गई जिसके लिए कवीर ने लिखा :—

विरह जलाई मैं जलों जलती जलहरि जाउँ
मो देख्यां जलहरि जलै संतौ कहाँ बुभाउँ
हौं विरहा की लाकड़ी समभि समभि धूँवाउ
छूटि परौं जो विरह ते तो सारी जलि जाउँ ।^{८६}

वज्रजप अथवा सहजजप

सिद्धों की साधना पद्धति पर विचार करते समय हमने यह देखा था कि वे अपनी योगपद्धति में श्वास निरुद्ध कर चंडाग्नि प्रज्वलित करने के उपरांत वज्रजाप का विधान करते थे। यह जप 'एवं' बीज का होता था जिसके दोनों अक्षर उपाय तथा प्रज्ञा के बीजाधार थे। इसका उच्चारण किया जाय इसकी आवश्यकता नहीं किन्तु इसे ध्यान में ग्रहण कर लेना चाहिए और तब हठयोग साधना करने से प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ स्वतः यह शब्द निस्तृत होता रहता है। इसी को वज्रजाप कहते थे और इससे वज्रयोग की साधना सम्पन्न होती थी।

इस वज्रजाप की विशेषता यह थी कि यह तांत्रिक पद्धति के अनुसार होने के कारण तांत्रिक बीजार्थ और योगपद्धति से समन्वित था। उसके पहले की भागवत तथा महायानी साधनाओं में भी जाप का विधान था किन्तु वह नाम-स्मरण तथा गुणकथन के रूप में था और कृष्णअथवा प्रभुतारत्न बुद्ध आदि के जप से गीता में तथा महायानी ग्रन्थों में निर्वाण की प्राप्ति बताई गई थी। बाद में वैष्णव तन्त्रों में भी बीजाक्षरों की कल्पना मिलती है। पांचरात्र में प्रत्येक अक्षर

गोरखबानी—अकुच कुचीया बिगसा पोहा, सिधि परजली उठी लगिया धुवा
कहै गोरषनाथ धुवा प्राण, ऐसे पिंड का परचा जायौ प्राण ॥^{७६}

इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये नव इन्द्रिय-द्वारों को पवन बन्ध द्वारा बन्द कर केवल दसवें द्वार ब्रह्मरन्ध्र अथवा वैरोचन द्वार को (अवधूती मार्ग को) उद्घाटित करना पड़ता है 'नव दरवाजा देवै ताली, दसवाँ मधे होइ उजाली ॥'^{७७} यद्यपि इसका नाम ब्रह्माग्नि है किन्तु वज्र-साधना से इसका सम्बन्ध और इसका बौद्ध रूप सर्वथा भुला नहीं दिया गया। जायसी ने इसे वज्राग्नि कहा है जिसकी ओर हम संकेत कर चुके हैं। गोरखबानी में भी इसको प्रज्वलित करने के लिए वज्र कछोटो और वज्रासन साधने का उल्लेख मिलता है।

अहनिसि अगनि पाप कूं षाई, संधै संधै पवन लुकाइ

वजर कछोटो आसण करें, रोग व्याधि पुध्या सब हरै ॥^{७८}

इसी को कहीं कहीं दीपक की सी ज्योति भी बताया गया था :

काण्हपा—जइ तसु धोरान्धारे मण दिवहो किज्जइ ॥^{७९}

दीपक रूप में भी इसका उल्लेख नाथपन्थी बानियों में मिलता है।

जोगी अपणो घर दिवला दीपै। ता जोगी की काया काल न छीपै ॥^{८०}

...

...

...

...

दीपक एक अषंडित वाती। तहां जोगेश्वर थपना थापी।

अगम अगोचर सकल ब्रह्मंड। ता दीपक कै चरण न षंड।

सिषा न नैन दीस नहिं हाथ। दीपग देख्या जती गोरखनाथ।

ता दीपक कै डाल न मूल। ता दीपक कै कली न फूल।

ता दीपक कै रङ्ग न रूप। ता दीपक कै छाँह न धूप।

ता दीपक कै विद्या न बादं। ता दीपक कै सबद न स्वादं।

और यह वह दीपक है जो शून्य से उद्भूत हुआ है और शून्य में ही समा जायगा।

ता दीपक कै मोह न माया। सो दीपक सूनै सून समाया ॥^{८१}

सन्तों में अन्तर्ज्योति, देहस्थ अग्नि की इस कल्पना से वज्र और शून्य का उतना सम्बन्ध भी टूट चुका है, जितना गोरखपन्थ में रह गया था किन्तु इसका उल्लेख बराबर आता है।

लावौ बावा आगि जलावौ धरा रे, का कारनि मन बंधे परा रे ८२

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

कबीर खिंथा जलि कोइला भई, खापरु फूटिम फूटि
जोगी बपुड़ा खेलिओ आसनि रही विभूति ॥^{८३}
कबीर ऐसा को नहीं मन्दर देइ जराइ
पांचौं लरिके मारि कै रहै नाम लिउ लाइ ।^{८४}
कबीर कोठी काठ की दह दिसि लागी आगि
परिडत परिडत जलि मुए मूरख उवरे भागि ॥^{८५}

किन्तु वज्र और शून्य की परस्परता से इसका सम्बन्ध टूट कर राम और रामभक्ति से जुड़ रहा था। अन्त में तो यह अग्नि राम के विरह की अग्नि बन गई जिसके लिए कबीर ने लिखा :—

विरह जलाई मैं जलों जलती जलहरि जाउँ
मो देख्यां जलहरि जलै संतौ कहाँ दुभाउँ
हौं विरहा की लाकड़ी समभि समभि धूँवाउ
छूटि परौं जो विरह ते तो सारी जलि जाउँ ।^{८६}

वज्रजप अथवा सहजजप

सिद्धों की साधना पद्धति पर विचार करते समय हमने यह देखा था कि वे अपनी योगपद्धति में श्वास निरुद्ध कर चंडाम्नि प्रज्वलित करने के उपरांत वज्रजप का विधान करते थे। यह जप 'एवं' बीज का होता था जिसके दोनों अक्षर उपाय तथा प्रज्ञा के बीजाधार थे। इसका उच्चारण किया जाय इसकी आवश्यकता नहीं किन्तु इसे ध्यान में ग्रहण कर लेना चाहिए और तब हठयोग साधना करने से प्रत्येक श्वास प्रस्वास के साथ स्वतः यह शब्द निःसृत होता रहता है। इसी को वज्रजप कहते थे और इससे वज्रयोग की साधना सम्पन्न होती थी।

इस वज्रजप की विशेषता यह थी कि यह तांत्रिक पद्धति के अनुसार होने के कारण तांत्रिक बीजार्थ और योगपद्धति से समन्वित था। उसके पहले की भागवत तथा महायानी साधनाओं में भी जप का विधान था किन्तु वह नाम-स्मरण तथा गुणकथन के रूप में था और कृष्ण अथवा प्रभुतारत्न बुद्ध आदि के जप से गीता में तथा महायानी ग्रन्थों में निर्वाण की प्राप्ति बताई गई थी। बाद में वैष्णव तन्त्रों में भी बीजाक्षरों की कल्पना मिलती है। पांचरात्र में प्रत्येक अक्षर

के तीन रूप परिकल्पित किये गये हैं जिनमें से परम रूप, वैष्णव रूप होता है। इस प्रकार तीन प्रकार के जप विधान मिलते हैं :

क—शुद्ध भावना से नामस्मरण के रूप में

ख—तन्त्रान्तर्गत बीजाक्षरों के रूप में

ग—बीजाक्षरों को योगपद्धति से समन्वित करने के उपरान्त

स्वतः साध्य-जप ।

सिद्धों में अन्तिम दोनों पद्धतियों का प्रचलन था ।

नाथ सम्प्रदाय ने योगप्रधान साधना-पद्धति अपनाई थी अतः उस जप का वह रूप स्वीकृत हुआ जो श्वास निरोध के साथ सम्पन्न होता था । इनाथ योग में अजपा जाप कहा जाता था, वज्र जाप नहीं । किन्तु यह अजपा जाप शून्य में मन को केन्द्रित करने का साधन अवश्य माना जाता था :

अजपा जपै, सुनि मन धरै, पांचौं इन्द्री निग्रह करै

ब्रह्मा अग्नि मै होमै काया, तास महादेव बंदै पाया ।^{८७}

यह अजपा-जाप योग-साधना में प्राथमिक महत्व की वस्तु माना जाता था और इसके जप से अतीव अनुपम ज्ञान की प्राप्ति होती थी । यह जप एक क्षरी, द्वयक्षरी, त्रयक्षरी तथा चतुरक्षरी हुआ करता था ।

जप के विषय में गोरखबानी के एक पद से यह ज्ञात होता है कि बौद्ध सिद्धों के वज्रजाप की परम्परा का प्रभाव तो गोरख के अजपा जप पर अवश्य अवशिष्ट है किन्तु उसमें कई नये तत्व जुड़ गये हैं । इसमें जप जपने के साथ साथ जपमाली को भी पहचानने का प्रयास करने का आदेश दिया गया है ('एवं' बीज को जपते समय भी इस बात का आदेश किया गया था कि 'ए तथा 'वं' वास्तव में प्रज्ञा तथा उपाय हैं और इनका सही सही तान्त्रिक अभली भाँति समझ लेना चाहिये ।) जप तो सभी करते हैं, पर गोरख कहते हैं कि इस अग्रम जप के वास्तविक अर्थ को बहुत कम लोग पहचानते हैं ।^{८८}

गोरखपन्थ के जप की एक विशेषता यह है कि 'एवं' की भाँति केवल द्वयक्षरी जप का विधान न कर उन्होंने एकाक्षरी, द्वयक्षरी, त्रयक्षरी और चतुरक्षरी जपों का विधान किया है । एकाक्षरी में वाणी के दो रूप इस पद में बताये गये हैं । लौकिक तथा अलौकिक । अलौकिक वाणी को शून्य की संज्ञा दी गई वह वाणी एकाक्षरी है । वही एकाक्षरी वाणी अजपा जप का मन्त्र बन जाती है

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

इस एकाक्षरी वाणी की ओर सरहया ने संकेत करते हुए कहा है :

अक्खर मॅक्क एत्थ मइ जाण्णु, ताहर खाम जाण्णमि ए सइउ ॥^{९५}

एकाक्षर तत्व रूप में समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है 'अक्खर वाढा सञ्जु जगु'। इस एकाक्षर को नाथपन्थी अनन्त का प्रतीक मानते थे और उसी में चित्त को विलीन कर देने का उपदेश देते थे।

सिद्धों ने जिस एवं को बीज रूप में ग्रहण करने का आदेश दिया था वह द्वयक्षरी था और उसमें बुद्ध अपनी शक्ति या उपाय अपनी प्रज्ञा के साथ विराजमान थे। नाथयोगी भी द्वयक्षरी मन्त्र में दोनों पक्षों की विद्यमानता स्वीकार करते थे, 'द्वै अपिरी दोउ पप उधारीला'.. और उसी से शिव-शक्ति-संगम के कारण सृष्टि की उत्पत्ति मानते थे। त्रयक्षरी त्रिकुटी से सम्बद्ध था और त्रिकुटी में गगनमंडल, शून्यसमाधि वज्रकपाट आदि वज्रयानी प्रभावों पर हम पीछे विस्तार से विचार कर चुके हैं। चतुरक्षरी मन्त्र भी वज्रयानी प्रभाव से मुक्त नहीं है। चतुरक्षरी मन्त्र चार प्रकार की वाणियों का प्रतीक बताया गया है 'चारि पार्ष्णिं चारि वांण्णिं।' इन चार वाणियों के जो नाम बताये गये हैं वे परम्परागत परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी न होकर नये नाम हैं, सहज, संजम, सुभाइ और अतीत। इनमें से सर्वप्रथम नाम वज्रयानी परम्परा का द्योतक है और इससे प्रतीत होता है कि चतुरक्षरी जप में भी सहज अक्षर को श्रेष्ठतम स्थान दिया गया था।

परवर्ती साधनापद्धति के जप अंग पर सहजाम्नाय का प्रभाव और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम सन्त-साहित्य का निरीक्षण करते हैं, क्योंकि वहाँ इस जप को सहज जप की संज्ञा ही दी गई है। यह सहज जप नाथपन्थी योगियों के अजपा जप का ही दूसरा नाम है :

जाप अजपा हो सहज धुन परखि गुरुगम धारिये
मनपवन थिर कर शब्द निरखे कर्म मनमथ मारिये ॥^{९६}

इस सहज जप को कबीर ने शब्द-सुरत-मेला कहा है :

सहजे ही धुन होत है हरदम घर के मांछि
सुरत सबद मेला भया मुख की हाजत नाहिं ॥^{९७}

वास्तव में यह सहजजप वज्रजाप की ही भाँति केवल अन्तर्मुख जप है। इसका उच्चारण नहीं होता। पवन निरोध के साथ साथ यह ध्वनि मन ही मन में उठती रहती है। इसमें मन की ही माला रहती है :

दादू मन माला तहं फेरिये जहं दिवस न परसै रात
तहां गुरु बाना दिया सहजै जपिये तात ।
सुरति सदा सनमुख रहै, जहाँ जहाँ लौलीन
सहज रूप सुमिरन करै, निहकर्मि दादू दीन ॥^{१२}

इस प्रकार यह सहजजप योगपरम्परा में विहित बीजाक्षरों का श्वास निरुद्ध जप है। बौद्ध परम्परा का प्रभाव इस पर स्पष्ट है किन्तु वज्रयानी परम्परा में एक सुधार किया गया है। बीजाक्षर बदल दिये गये हैं। ए तथा वं जो बुद्ध तथा उनकी शक्ति के वाचक थे उनके स्थान पर 'सोहम्' के जप का विधान किया गया। कबीर ने इस जाप के द्वारा पुण्य और पाप दोनों के निराकरण का उपदेश दिया है :

सोहं सो जाको है जाप, जा कल लिपत पुंन होइ न अरु पाप ।^{१३}

दयावाई इसी संकार और हंकार को अन्तर में प्रकाश विकीर्ण करने वाला बताती हैं :

‘दया’ ‘संकार’ ‘हंकार’ अक्षर को जो जप करत
अन्तर द्वै उजियार, तिमिर अविद्या सब हरत
नाभि नासिका माहिं गाजै सोहं शब्द धुनि
यामें संखै नाहिं दया सुमिरि भव तरत मुनि ॥^{१४}

इसका विधान इस प्रकार है कि पद्मासन में बैठकर अन्तर्दृष्टि साध कर श्वास में श्रुति जाग्रत कर अजपा का जाप करे। यह जप बिना जिह्वा, बिन माला, बिना मन के केवल अन्तर स्मरण है। इस अजपा सोहं जप से त्रिविध ताप मिट जाते हैं। इसी को दादू ने सहज धुन की डोर बताया है ‘दादू डोरी सहज की यों आर्यौं घर घेरि ।’^{१५} यही सोहं शब्द बाद में शब्द-ज्योति के रूप में बदल कर शून्य के अन्धकार में प्रकाशित होने लगता है और यही परमतत्व तथा आत्मतत्व के अभेद का वाचक बन जाता है :

पारब्रह्म भगवान अंस हमरै कहवाये,
हमहों सोहं सब्द ज्योति ह्वै सुन्न में आये ॥^{१६}

बाद के साम्प्रदायिक ग्रन्थों में इस सोहम् के भी कई रूप परिकल्पित किये गये और उनका अनावश्यक विस्तार किया गया जैसे शून्य आदि का हुआ था। सूफ़ी परम्परा में भी सोहम् का उल्लेख है ।^{१७}

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियां और शब्दावली

सोहम् के इन रूपों को नये नाम दिये गये और हरेक के लिये एक पुरुष तथा एक लोक की कल्पना कर ली गई। ये रूप इस प्रकार थे—सोहंग, वोहंग कोहंग तथा जोहंग।^{१८}

किन्तु इस अजपा जप के रूप पर एक और प्रभाव पड़ रहा था, वह था वैष्णव प्रभाव। वैष्णव सम्प्रदायों में राम, या हरि आदि का जप और स्मरण का विधान किया गया था और उससे गोलोक की प्राप्ति बताई गई थी। तन्त्रों में इन अक्षरों के तान्त्रिक अर्थ भी माने गये थे। कबीर ने वैष्णव प्रभाव को परम अक्षर माना। कहीं कहीं तो वे राम को 'सोहं' से भी अधिक महत्व देने प्रतीत होते हैं :

कबीर पढ़िना दूरि करि, पुस्तक देख बहाइ

वांवन आपिर सोधि करि, रसै ममँचितलाइ।^{१९}

इसमें न केवल कबीर ने 'सोहं' के स्थान पर 'राम' की प्रतिष्ठा की है, वरन् योग पद्धति के व्रजाय वैष्णवों के नाम-जप की भावाकुलता की अभिव्यक्ति अधिक है। दादू में भावनायुक्त हरि अथवा राम का वह जप भी योग के अजपा या सहज जप की स्वास निरोध पद्धति से समन्वित कर दिया गया है :

राम सवद मुख ले रहै, पीछे लगा जाइ

मनसा, वाचा, कर्मणा तेहि तत सहज समाइ

अन्तरगति हरि हरि करै, तब मुख की हाजत नाहिं

सहजै धुनि लागी रहै, दादू मन ही माहिं

सहजै सुमिरण होत है रोम रोम राम

चित्त चहुँट्या चित्त सों यौ लीजै हरि नाम॥^{१००}

इस प्रकार सन्तों के इस सहज जप में ३ तत्वों का सम्मिश्रण हो गया है :

क—जप की वह योग पद्धति जो सिद्धों के वज्रजप तथा नाथों में अजपा जप कहलाती थी।

ख—उसकी संज्ञा सहज जप है।

ग—उसमें 'एवं' का तिरस्कार कर सोहं को ग्रहण किया गया और भक्ति के प्रभाव से राम नाम को उससे भी श्रेष्ठ मान कर योग-पद्धति के साथ साथ भाव-साधना को भी स्थान मिला और सहज के अर्थ अजपा जप के साथ 'आत्म-स्मरण' भी हो गये जिसमें बाह्य जप की अपेक्षा अन्तः-स्मरण का अधिक महत्व होता है

निरक्षर पद्धति की दृष्टि से इस पर थोड़ा सा और विचार कर लेना आवश्यक है। बीजाक्षरों को महत्व देते हुए भी वज्रयानी सिद्धों ने जप का अन्तिम रूप वह बताया था जहाँ जप की परिणति 'निरक्षर' में होती है। वह शून्य स्थिति होती है। इसके लिये सरहपा ने कहा है यि जिस एक अक्षर में सकल सृष्टि आबद्ध है उसका जप तब करना चाहिये जब तक वह निरक्षर न हो जाय :

ताव से अक्षर धोलिआ जाव गिराक्षर होइ ॥^{१०१}

नाथ-योग-पद्धति में भी शब्द के अतिरिक्त निःशब्द का महत्व प्रतिपादित किया गया है। शब्द ताला है, किन्तु निःशब्द उसकी कुंजी है :

गोरष—स्वामी कौण सो कुँची कौण सो ताला

कौण सो बूढ़ा कौण सो बाला ।

सछिन्द्र—अवधू निहसबद कुँची, सबद ताला

अचेत बूढ़ा चेतनि बाला ।^{१०२}

कबीर भी जप की अन्तिम परिणति निःशब्द मौन ही मानते थे। 'जाप मरै, अजपा मरै, अनहद हू मरि जाइ ।'^{१०३} परवर्ती साम्प्रदायिक ग्रंथों में इसी 'निरक्षर' को शब्द का विदेह रूप बताया गया है जिसमें त्रिना रसना का जाप होता है और इसी को सूक्ष्म सहज पन्थ कहा गया है :

सार शब्द सु विदेह स्वरूपा, निःअच्छर वहि रूप अनूपा ॥

त्रिन रसना के जाप समाई, तासों काल रहै मुरभाई ॥

सुच्छम सहज पन्थ है पूरा, ता पर चढ़ो रहै जन सूरा ॥^{१०४}

और जो इस निरक्षर का भेद नहीं जानता वह सार शब्द नहीं पहचानता :

जो निरक्षर भेद न जानै, कैसे सार शब्द पहचानै ।^{१०५}

बीजाक्षरों के जप की इसी अन्तिम 'निरक्षर' में परिणति को सुरति का निरति में समाना कहा गया है :

सुरति समाणी निरति में अजपा माहँ जाप

लेख समांना अलेख में यूँ आपा माहँ आप ॥^{१०६}

अब हम सुरति और निरति पर विचार करते हुए उसकी वज्रयानी परम्परा का विश्लेषण करेंगे ।

सुरति

सुरति और निरति ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका सन्तों की साधना में अत्यधिक महत्व है, किन्तु उनके उद्भव और अर्थ का ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाया है। इस विषय में विद्वानों के कई मत हैं। सुरति का उद्भव खोत से बताया गया है और खोत का अर्थ चित्त प्रवाह किया गया है।^{१०७} चित्त प्रवाह हमें विज्ञानवाद की याद दिलाता है किन्तु जैसा आगे हम देखेंगे चित्त प्रवाह के अर्थ में सुरति का प्रयोग नाथ योगियों अथवा सन्तों ने लगभग नहीं के बराबर किया है। हिन्दी में सुरति के कई अर्थ होते हैं (प्रेम-क्रीड़ा, स्मृति)। यह श्रुति का भी अपभ्रंश माना जा सकता है। सन्तों में सुरति शब्द का प्रयोग जितने विविध प्रसंगों में हुआ उससे बड़शवाल जी की यह स्थापना उचित नहीं जान पड़ती कि इसका अर्थ केवल स्मृति है।^{१०८}

वज्रयानी दोहों में इस शब्द का प्रयोग मिलता है और वहाँ इसके अर्थ भी स्पष्ट हैं, उसमें कोई सन्देह नहीं रहता। सरहपा इसे प्रज्ञोपाय या कमल-कुलिश योग का ही पर्याय मानते हैं :

कमल कुलिश वेवि मज्झ ठिउ जो सो सुरअ विलास
को त रमइ णहि तिहुअणो हि कस्स ण पूरइ आस ।^{१०९}

और काहपा उसी को सुरत वीर मानते हैं जो एवकार बीज लेकर मधुकर रूप में कुसुमित अरविन्द (महासुख चक्र) तक जाता है और मकरन्द पान करता है :

एवंकार विअ लइअ कुसुमिअ अरविन्दए
महुअर रूपं सुरअ वीर जिंघइ मअरन्दए ॥^{११०}

इस प्रकार सिद्धों ने इस शब्द का प्रयोग निस्सन्देह 'प्रेम-क्रीड़ा' के अर्थ में किया था, श्रुति या स्मृति के अर्थ में नहीं।

नाथ सम्प्रदाय का एक बहुत पुराना नाम शब्द-सुरति-योग बताया जाता है। अमरौघ-शासन में भी इसे सहज समाधि प्राप्त करने का वह मार्ग बताया गया है जिसमें शब्द (नाद या श्रुति) की साधना की जाय।^{१११} ज्ञात यह होता है इस सुरति शब्द के मैथुन-परक अर्थ का गोरख ने बहिष्कार किया होगा और इसके नाद-परक अर्थ प्रचलित किये होंगे। गोरखवानी में सुरति और निरति का जो उल्लेख आया है उससे कहीं भी मैथुन के अर्थ का आभास नहीं

मिलता। मछिन्द्र गोरखबोध में सुरति का गुरु शब्द और शब्द का गुरु परिचय (साक्षात्कार) बताया गया है।^{११२} इसी परिचय को ही सम्भवतः निरालम्ब अनुभव की अवस्था कहा गया है और निरति की संज्ञा दी गई है। क्योंकि आगे शब्द सुरति और निरति की व्याख्या मछिन्द्र ने इस प्रकार की है :

गोरष—स्वामी कौण सो सबद कौण सो सुरति
कौण सो बंध कौण सो निरति
दुबध्या मेटे कैसे रहै। सतगुर होइ सो ब्रूम्या कहै।

मछिन्द्र—अवधू सबद अनाहद सुरति सो चित्त,
निरति निरालंब लागै बंध
दुबध्या मेटि सहज में रहै। ऐसा विचार मछिन्द्र कहै।^{११३}

इन पंक्तियों से शब्द-सुरत-योग का रूप स्पष्ट हो जाता है। सुरति शब्द की वह अवस्था है जब वह चित्त में स्थित रहता है और साधना की अवस्था में रहता है। शब्द अनाहद नाद है जो विशुद्धाख्य तथा आज्ञा चक्र में सुन पड़ता है। किन्तु निरति उससे भी ऊपर की अवस्था है जिसमें निरालंब स्थिति आती है। वही सहज है।

हठयोग-प्रदीपिका में भी विष्णु के परम पद में अनाहद नाद की स्थिति बताई गई है और उसके उपरान्त परब्रह्म निराकार परमेश्वर है जहाँ शब्द भी निःशब्द हो जाता है, यही कल्पना 'निरति' के मूल में प्रतीत होती है। इस प्रकार नाद से प्रवर्तित चित्त अन्त में नाद में लीन हो जाता है और तब न नाद रहता है न विन्दु।^{११४} इसी को 'एकोदेव निरालम्ब'^{११५} कहा गया है जो निरति का पर्याय बताया गया है।

इस प्रकार नाथ योग में शब्द अनाहद नाद हैं, सुरति वह शब्द है, जो साधना में चित्त को प्रवर्तित करता है और निरति वह निरालंब अवस्था है जो चित्त के शब्द या नाद में लीन हो जाने पर आती है। इसीलिये मछिन्द्र सुरति को साधक और शब्द को सिद्धि कहते हैं :

अवधू सुरति सो साधक सबद सो सिधि,
आप सो माया पर सो रिधि।

दुइ को मेटि निरति में रहै। ऐसा विचार मछिन्द्र कहै^{११६}

इसीलिये साधना में लीन चित्त को सदा सुरति की ओर उन्मुख रखने

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

का आदेश दिया गया था, क्योंकि सुरति ही भवजाल से चित्त फिराकर सार से साक्षात्कार कराती है :

अवधू सुरति सुधि बोलै, सुरति सुधि चलै
सुरति सुधि बैठे सुरति सुधि मिलै

... ..

सुरति सो फिर्या मिल्या सोइ सारं ॥^{११७}

इस प्रकार नाथ साधना पद्धति में सुरति का अर्थ बिल्कुल बदल गया था यद्यपि पूर्वागत प्रभाव इतना अदृश्य था कि वज्रयानी सिद्ध कमल और कुलिश के मिलन को सुरति कहते थे और उससे सहज को सिद्धि मानते थे। इन्होंने अन्तिम निरालम्ब अवस्था के लिये सहज का नाम तो ग्रहण किया किन्तु सुरति को दो तत्वों का युगनद्ध न मान कर एक तत्व माना जिसका मिलन शब्द से होता है। उस सुरति के अर्थ भी बदल दिये गये।

सन्तों ने सुरति का प्रयोग निस्सन्देह नाथ योगियों के शब्द-सुरति-योग के अर्थ में किया है, सिद्धों के कमल-कुलिश सुरत-दिलाल के अर्थ में नहीं। यह सुरति डेकुली की भाँति है जिसके सहारे मन बार बार प्रेम रस का पान करता है।

सुरति दीकुली लै चल्या, मन नित दोलनहार
कंबल कुवा मैं प्रेम रस पीवै बारम्बार ॥
सुरति समांणी निरति मैं निरति रही निरवार
सुरति निरति परचा भया तव खूले स्वयं दुवार ॥^{११८}

एक अन्य स्थान पर कबीर श्रोता के लिये सुरता शब्द का प्रयोग करते हैं 'कथता, बकता, सुरता सोइ'^{११९} और दूसरे स्थान पर वे श्रुति के लिये सुरति और स्मृति के लिये समृति शब्द का प्रयोग करते हैं।^{१२०} कबीरयानी में भी सहज सुरति के लिये सहज श्रुति शब्द का प्रयोग मिलता है।^{१२१} इससे स्पष्ट है कि मुख्यतया यह शब्द श्रुति (नाद) के लिये प्रयुक्त हुआ है। किन्तु इस के प्रयोग में वैष्णवों के 'स्मरण' का प्रभाव बहुत परिलक्षित होता है, सिद्धों का रति क्रीड़ा का अर्थ बहुत कम।

सिद्धों के प्रेम या रति, क्रीड़ा या ममता के अर्थ में मीरा के एक पद की एक पंक्ति में सुरति का प्रयोग मिलता है।

त्रिकुटी महल बना है झरोखा, वहाँ से झाँकी लगाऊँ री
सुन्न महल में सुरत जमाऊँ, सुख की सेज बिछाऊँ री।^{१२२}

इस पद में सुरत का अर्थ सुन्न महल में उठने वाली सहज ध्वनि या नाद भी लिया जा सकता है किन्तु इस रूपक में प्रयुक्त अन्य उपमानों के साथ इसका अर्थ रति क्रीड़ा ही अधिक संगत प्रतीत होता है। कबीर ने एक स्थान पर इसे वासना के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है 'विषया अजहुँ सुरति सुख आसा, कैसे होई है राजा राम निवासा ।^{१२३}

सुरति सम्बन्धी कुछ अन्य प्रयोग भी दृष्टव्य हैं। पलटू ने सुरति को प्रेमिका (शक्ति) और शब्द को पति (शिव) माना है।

सुरति सुहागिनि उलटि कै मिली सबद में जाय
मिली सबद में जाय कन्त को बसि में कीन्हा
चलै न शिव कै जोर जाय जव सक्ती लौन्हा
फिरि सक्ती ना रही मिली जव सिव में जाई
सिव भी फिर ना रहे, सक्ति से सीव कहाई
अपने मन कै फेर और ना दूजा कोई
सक्ती सिव है एक नाम कहने को दोई
पलटू सक्ती सीव का भेद गया अलगाय
सुरति सुहागिनि उलटि कै मिली सबद में जाय ।^{१२४}

किन्तु शिव और शक्ति मिलन तथा शब्द सुरति योग के अतिरिक्ति पलटू सुरति के नाम स्मरण वाले अर्थ से भी अपरिचित नहीं हैं।

‘पलटू सुरति कमान भर नाम निसाना मार ।^{१२५}

एक तीसरे स्थल पर पलटू इसी सुरति को कच्छप वृत्ति की साधना का माध्यम मानते हैं और इसे अनासक्ति का पर्याय भी बताते हैं।^{१२६} इस प्रकार सुरति का अर्थ सिद्धों वाले अर्थ से बहुत भिन्न हो गया और इस सुरति के लिये ऐसे ऐसे उपमान प्रयुक्त हुए जो कल्पनातीत थे। गुलाल साहब एक स्थान पर इस सुरति सुहागिन का रसोई बनाना चित्रित करते हैं 'सुरति सुहागिन करै रसोई नाना भाँति बनाय ।^{१२७} दूसरे स्थान पर प्रणामी छत्रसाल इसे तन रूपी कुञ्जी का ताला मानते हैं। 'तन की कुञ्जी सुरति का ताला प्रेम के लगे किवार ।^{१२८} और आत्मबोध में इसे उस सुई की उपमा दी गई है जो श्वास और उश्वास की गुदड़ी सीतां है।^{१२९} ज्ञात यह होता है कि बाद में सन्तों के सम्मुख सुरति का नाथ-योगपरक अर्थ भी बहुत स्पष्ट नहीं था अतः बहुत से स्थानों में इसका

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियां और शब्दावली

प्रयोग निरर्थक है जैसा हम 'तन की कुञ्जी और सुरति के ताले' वाले रूपक में पाते हैं।

शून्य सहज आदि की भाँति सुरति का भी विस्तार परवर्ती साधनात्मिक ग्रन्थों में मिलता है। श्वास-गुंजार में शब्द पुरुष की दो शक्तियों के रूप में सुरति तथा निरति का वर्णन मिलता है।^{१३०} ज्ञान-स्थिति-बोध में ऊर्ध्व कमल को सुरति कमल बताया गया है।^{१३१} कबीरबानी में ४ प्रकार की सुरति का वर्णन है और शब्द सुरति उनसे भी परे पाँचवी सुरति बताई गई है।^{१३२} आगे सहजांकुर में सात अन्य सुरतियों का उल्लेख मिलता है जो सृष्टितत्व से सम्बद्ध हैं।^{१३३} आगे इनका और भी विकास होता है और सात के बाद आठवीं सुरति का वर्णन आता है। सद्गुरु कबीर सहज सुरति को धारण कर सहज द्वीप पर स्थित होते हैं और फिर इच्छा सुरति और नूल सुरति और नवतम सुरति की शृंखला ग्रहण कर त्रैलोक्यविजयी होते हैं।^{१३४} इस प्रकार इस सुरति और वज्रयानी सुरति-विलास का अन्त में केवल इतना सम्बन्ध शेष रह जाता है कि इसमें भी सर्वप्रथम सुरति में सहज उड़ा हुआ है।

उलटी साधना

नाथ योगियों की प्रमुख साधना श्वास निरुद्ध कर अरध को उलट कर उरध में ले जाना, नाद को पलट कर सुरति को निरति में लीन करना, गंगा को उलट कर जमुना में मिलाना अथवा सूर्य को उलट कर चन्द्र में मिलाना था। इस साधना को वे उलटी साधना कहते थे :

उलटंत नाद, पलटंत व्यंद, वाई कै धरि चीन्हैसि ज्यंद
उलटंत पवन, पलटंत वांणी, अपीव पीवत जे ब्रह्मयानी ।
मीम कै मारग रोपीले भाणं, उलट्या फूल कली में आणं ।
उलटी सकति चहुँ ब्रह्मांड, नप नप पवना ले लै सरयंग ।
उलटि चंद्र राहू कूँ असै, सिंध संकेत जती गोरप कहै ।^{१३५}

संत भी इस साधना को उलटा साधना पुकारते थे :

कबीर उलटी गंग जमुन मिलावउ, विनु जल संगम मन महि न्हावउ ।^{१३६}
उलटी गंग समुद्रहि सोखै, ससिहर सूर गरासै
नवग्रहि मारि रोगिया बैटे, जल मैं व्यम्ब प्रकासै ।^{१३७}

रैदास उलटी गंग जमुन मैं लावौं, बिनही जल मंजन है पावौं ।^{१३०}
 नानक उलटा शब्दु गगनि धरु छाया । नानक शब्दै शब्दु समाया ।^{१३१}
 पलटू पच्छिउं गंगा बहै पानी है जोर का
 बीच में है इक कुंड मुरेरा तोर का
 उलटी बहै बयार नाव मुरकाय दै
 अरे हाँ, पलटू उतरे येहि के पार तो सूधी जाय दै ।^{१४०}

इस उलटा साधना के अर्थ वास्तव में यह है कि जिस शक्ति के विमर्श से यह समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है उसी शक्ति को उलटकर नाद में समाहित करना, सूर्य को उलट कर चन्द्र में लीन करना ही उलटा साधना है। सिद्धों में इस शब्द का प्रयोग नहीं है किन्तु सूर्य को उलटकर चन्द्र में लीन करने का रूपक अवश्य मिलता है जिस पर हम आगे विचार करेंगे।

इस उलटा साधना का एक अर्थ और है। लगभग सभी तान्त्रिक पद्धतियों में वामाचार प्रचलित था। जिसके दो अर्थ थे, वामायुक्त साधना या उलटी (वाम) साधना। वास्तव में यह 'उलटा साधना' उसी वाम-साधना का देशी रूपान्तर है। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। बाउलों में भी साधना को इसी नाम से पुकारा जाता था और 'उलटा' तथा 'वाम' दोनों शब्दों का समान रूप से प्रयोग हुआ है।^{१४१} सिद्धों में वामाचार की नारी मैथुन साधना पद्धति स्वीकृत थी। नाथ योगियों ने नारी-मैथुन-साधना का बहिष्कार किया किन्तु वज्रोली, अमरोली, सहजोली आदि कुछ मुद्राएं उनमें भी प्रचलित थीं जिनमें वीर्य के क्षरण के बजाय उलटे नारी रज को भी साधक लिंगद्वार से अपनी काया में खींच लेता था। इस प्रकार वामा (नारी) सम्बन्धी अर्थ भी सर्वथा विलुप्त नहीं हुआ था किन्तु प्रमुखता हठयोग पद्धति को मिल गई थी जिसमें उलटा साधना के अर्थ थे श्वासनिरोध द्वारा गंगा को उलट कर जमुना में मिलाना और चन्द्र और सूर्य का मिलन सम्पन्न कराना। सन्तों तक आते आते मैथुन साधना सर्वथा विस्मृत कर दी गई और हठयोग की पद्धति ही अवशेष रही।

गंगा-यमुना-संगम

हम पहले इस ओर संकेत कर चुके हैं कि बौद्ध तथा हिन्दू दोनों ही प्रकार की हठयोग परम्पराओं में इड़ा पिंगला और सुषुम्णा या ललना रसना

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियां और शब्दावली

तथा श्रवधूती को गंगा यमुना तथा सरस्वती की उपमा दी गई है। उसी के साथ साथ इडा को शक्ति और पिंगला को शिव माना गया है। इडा को वाम तथा पिंगला को दक्षिण और सुषुम्णा को पश्चिम दिशा में स्थित माना गया है। अतः गंगा यमुना का मिलन वास्तव में शक्ति तथा शिव का मिलन है।

बाह्य प्रकृति में यमुना गंगा में मिली है किन्तु हठयोग में गंगा (इडा : शक्ति) यमुना (या पिंगला : शिव) से मिलने के लिये अग्रसर होती है, इसी-लिये यह उलटी साधना है। हठयोग-प्रदीपिका में मूलस्थान में उड्डियान बन्ध द्वारा गंगा तथा यमुना को बन्द कर पश्चिम पथ सुषुम्णा में प्राण को प्रवाहित करने का विधान है।^{१४२} इडा तथा पिंगला शक्ति तथा शिव का प्रतीक होने के कारण अर्ध तथा ऊर्ध्व भी कही गई हैं :

अर्ध उरध की गंगा जमुना मूल कंवल कौ घाट
पट चक्र की गागरी त्रिवेणी संगम वाट ॥^{१४३}

यहाँ कवीर ने मूलाधार चक्र को घाट माना है (सुषुम्णा की उपमा भी कभी-कभी घाट से दी जाती है)

तिरवेनी के घाट नाव को आनि कै, सुखमनि घाट थहाय चलावौ जानिकै
असी संगम के बीच पहारी फोरि कै, गुन को खेंचु सिताव काम है जोर कै
सुन्न समाधि के बीच ध्यान को लावना, सुखमनि के रे घाट पवन ले आवना^{१४४}

यह कल्पना चर्यापदों की गंगा यमुना के मध्यवर्ती मार्ग से बहने वाली सहजयान नौका तथा उसकी मातंगी प्रज्ञा से बहुत मिलती जुलती है। उसमें भी वाम तथा दक्षिण दोनों मार्गों को छोड़कर मध्यपथ से प्राणों को ले चलने की साधना का निधान है :

गंगा जउना मांभेरे बहइ नाई
ताहि बुड़ली मातंगी पोइया लीले पार कराइ ।

.....

वाम दाहिन दुइ माग न चेवइ बाहु चरडा ।^{१४५}

टीकाकार मुनिदत्त नौका को सहजयान कहते हैं और दादू इसी को सहजयोग कहते हैं तथा इससे निर्वाण की प्राप्ति भी बताते हैं :

सहज जोग सुख में रहै दादू निर्गुण जाणि ।
गंगा उलटी फेरि करि जउना मांहे आणि ॥

परमात्म सो आत्मा ज्यों जल उदक समान ।

तन मन पानी लौण ज्यों पावै पद निर्वाण ॥ १४६

अन्तिम पंक्ति का प्रथम चरण भी काण्हपा के 'जिम लोण बिलिज्जइ पःणीएहि' की याद दिलाता है ।

इस प्रकार इस गंगा-यमुना संगम की कल्पना में यथेष्ट आदान प्रदान हुआ है और इसी कारण उसके सहज तथा निर्वाण की शब्दावली जुड़ी रह गई यद्यपि उसका अर्थ वह नहीं रह गया । बाद में यही योग-साधना वैष्णव भक्ति भावना में अंतर्भुक्त हो गई और गंगा को विष्णुपद से निकलने वाली गंगा मान कर इसी योग को विष्णु ध्यान की पूर्व भूमिका मात्र मान लिया गया :

विष्णु ध्यान संनान करि रे, बाहरि अंग न धोइ रे...

निहकर्म नदी ग्यान जल, सुंनि मंडल माहि रे

औधूतजोगी आतमां, काई पेरीं संगम न्हाहि रे

इला प्यंगुला सुषमना पछिम गंगा बालि रे

कहै कबीर कुसमल भुइँ काई माहि लौ अंग पषालि रे ॥ १४७

बाद में तो प्राण तथा अपान का संधिस्थल यह सुखमन घाट बृन्दावन का वह घाट बताया गया जहाँ कृष्ण की लीला संपन्न हुई थी—'अरे हाँ पलदू, उहि गोकुल के घाट कन्हैयालाल है ।' १४८

चंद्र-सूर्य-संगम

चर्यापदों में चन्द्र और सूर्य प्रज्ञा तथा उपाय के प्रतीक माने गये हैं और और उनका भी सम्बन्ध ललना तथा रसना से है किन्तु दोनों का मेल कराने की अपेक्षा दोनों की द्वयता का परित्याग कर सहज-अद्वय अवस्था प्राप्त करने पर अधिक आग्रह है :

गुँडुरीपा चांद सुज्ज बेशि पखा फाल ।

काण्हपा रवि शशि कुंडल किउ आभरणे ।

धीयापा सुज्ज लाउ ससि लागेलि तान्ती ।

सरहपा नाद न विन्दु न रवि शशि मंडल । १४९

इन उद्धरणों में चन्द्र तथा सूर्य के मिलन को एक स्थान पर वीणा के

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

रूपक और दूसरे स्थान पर कुंडलों के रूपक में प्रस्तुत किया गया है। परवर्ती साहित्य में हमें ये दोनों रूपक मिलते हैं :

वीणा का रूपक—चंद्र सूर दोड तंब्रा करिहूँ चित चेतन की डांडी ।
सुपमन तन्ती बाजण लागी इह विधि तृपणा ग्वांडी ।^{१५०}
(कवीर)

कुंडल का रूपक—चन्द्र सूर नी मुंद्रा कीन्हीं धरणि नरम जल मेला
नादी व्यंदी सींगी आकासी अलख गुरू नां चेला ।^{१५१}
(गोरखवानी)

चंद्र सूर्य दोनों का निषेध—कहा बुझाइ अबधू राइ गगन न धरनी
चंद्र न सूर दिवस नाहि रैनी ।^{१५२}
गोरखवानी

दादू—तहं चंद्र न ऊगै सूर, मुख काल न बाँचै तुरा
तहं सुख दुख का गम नाहीं;
धौ तौ अगम अगोचर माहीं ।^{१५३}

किन्तु दोनों के निषेध की प्रणाली वास्तव में दोनों के मिलन के उपरान्त उनकी द्वयता की विनाश-प्रक्रिया ही थी। सोम को या चन्द्र को प्रमुखता मिलने में शैव परम्परा की विशेष प्रेरणा बताई जाती है। कापालिकों को सोमवादी भी कहा जाता था और सोम का अर्थ वे स + उमा (शक्ति तथा शिव का संगम) बताते थे, साथ ही सोम वारुणी या अमृतरूप में भी परिकल्पित किया गया था। नाथ योग में मूलाधार में स्थित रवि-रूपी कुंडलिनी शक्ति को जाग्रत कर ऊर्ध्व में स्थित चन्द्ररूपी शिव में लीन कर दोनों के अद्वैत के उपरान्त बरसने वाले अमृत का दशमद्वार द्वारा पान करने की साधना-पद्धति नाथ योगियों की प्रमुख साधना-पद्धति बन गई।

वे कहते थे कि मूलाधार में शक्तिरूपी सूर्य स्थित है जिसकी १२ कलाएँ हैं। वह अमृत सोखता रहता है और उससे शक्ति का, जीवन का ह्रास होता है। ऊर्ध्व में १६ कलाओं वाला चंद्र स्थित है जिससे अमृत भरता है। १६ कलाओं के होते हुए भी चन्द्रमा शक्तिहीन रहता है और जब उसे सूर्य की ४ कलाएँ प्राप्त हो जाती हैं तब शिव और शक्ति या चन्द्र और सूर्य सम हो जाते हैं।

शक्ति रूपी रज आछै सिव रूपी व्यंद, बारह कला रवि आछै सोलह कला चंद्र
चारि कला रवि की जौ ससि घर आवै, तो सिव सक्ति सम होवै अन्त कोई न
पावै । १५४

नाड़ियों में से इड़ा चन्द्र रूप है और षोडश कला वाली है, पिंगला
द्वादश कला वाली रवि नाड़ी है, सुषुम्ना में असंख्यों कला वाले तत्व का वास है :

षोडस नाड़ी चन्द्र प्रकास्या द्वादस नाड़ी भानं
सहस्र नाड़ी प्राण का मेला जहा असंघ कला सिव थानं
अवधू ईड़ा मारग चन्द्र भयीजै प्यंगुला मारग भानं

सुधमणा मारग वाणी बोलिये त्रिय मूल अस्थानं ॥ १५५

बारह कला देवी, सोलह कला देवं । सुधमनां नारी बांधिवा भेवं ॥ १५६

सूर्य की बारह कलाएँ इस प्रकार बताई गई हैं :

चिंता, तरंग, दम्भ, माया, परिग्रह, प्रपंच, हेतु, बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ,
दृष्टि । चंद्र की षोडश कलाएँ निम्नांकित हैं :

शांति, निवृत्ति, क्षमा, निर्मलता, निश्चलता, ज्ञान,

स्वरूप, पद, निर्वाण, निर्विषता, निरंजन, आहार, निद्रा, मैथुन,

वायु, अमृत । १५७

जब तक कि पवन निरुद्ध नहीं होता तब तक चन्द्रमा के अमृत को सूर्य
सोखता रहता है । पवन निरुद्ध होते ही कालाग्नि सूर्य निरुद्ध हो जाता है,
ब्रह्माग्नि प्रज्वलित होती है, दशमद्वार खुल जाता है और योगी अमृत पान
करता है ।

चालत चंदवा खिसि खिसि परै, बैठै ब्रह्मा अगनि परजलै । १५८

चन्द सूर दोउ गगन विलूधा भईला घोर अधारं

पंच बाहक जब यंद्री पौढ्या प्रगठ्या पौलि पगारं ॥ १५९

चन्द सूर दोउ समि करि राण्या आपैं आप जु मिलिया । १६०

गोरखबानी में एक स्थान पर चन्द्र सूर्य उपमानों को गंगा यमुना से
सम्बद्ध कर एक तीसरे ही रूपक का अंग बना दिया गया है :

चंदा गोटा टीका करि लै सूर करि लै बाटी

मूनी राजा लूगा धोवै गंग जमुन की घाटी ॥ १६१

सन्त साहित्य में यद्यपि इस साधना का इतना विस्तृत विवरण तो नहीं
मिलता, किन्तु फिर भी इसका संकेत बराबर है :

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

कबीर जहं धरनि बरसै गगन भीजै चंद्र सुरज मेल
दोउ मिलि तहं बुरन लागे करै हंसा केलि ॥^{१३२}

नानक शशि धरि सूर समाने भाइ, हरि दर्शन की सोभी पाइ ।
शिव शक्ती धरि अवतरे रक्त बिन्दु आकारु
चंद्र सुरज टुइ साखीआ करि निर्मल ज्योति उज्यारु ॥^{१३३}

जायसी ने भी पद्मिनी और रत्नसेन क प्रणय और विवाह में लगातार
इन्हीं उपमानों द्वारा योग साधना के संकेत रखे हैं :

देव पूजि जब आइउं काली । सपन एक निसि देखैंउ आली ।
जनि ससि उदौ पुरुब दिसि कीन्हा । और रवि उदौ पछिब दिसि लीन्हा ।
पुनि चलि सुरज चांद पहं आवा । चांद सुरज दुहु होइ मेरावा ।^{१३५}
पारस रूप चांद देखराई । देखत सुरज गएउ मुरछाई ।
सोरह करा दिष्टि ससि कीन्हीं । सहसौ करा मुरज के लीन्हीं ।
भा रवि अस्त तराइन हंसे । मुरज न रहा चांद परगसे ।
जोगी आदि न भोगी होई । खाइ कुरकुटा गा परि सोई ।^{१३६}

इन उद्धरणों में दो बातें विचारणीय हैं । प्रथम, कलाओं के सम्बन्ध में
में जायसी का ज्ञान अधूरा है क्योंकि वे सूर्य की बरह कला के बजाय सहस्र कला
बताते हैं । दिशाओं के सम्बन्ध में जहाँ उन्होंने रवि का उदय पश्चिम और
चन्द्र का उदय पूर्व में बताया है वहाँ केवल काव्यगत चमत्कार मात्र नहीं है
क्योंकि दिशाओं की लगभग यही योजना नानक में भी मिलती है, 'पूरब पच्छिम
यदि दक्षिण जाय, रवि शशि दोउ एकत्र मिलाय ।'^{१३७}

चन्द्र-सूर्य-संगम के बाद की अवस्था के लिए शैव योग वाले नाम तो
परिचायवस्था (परचा) या अनुभव (अनभै) आदि थे किन्तु कुछ बौद्ध नाम भी
इससे सम्बद्ध रह गए थे वे थे सहज अवस्था, शून्य समाधि अथवा निर्वाण पद ।
इन सबों में द्वयताओं का निषेध किया गया था और वहाँ सूर्य चन्द्र, रात दिन
पवन आदि का भी प्रवेश निषिद्ध माना गया था । योग की अन्तिम अवस्था का
परम पद रूप में यही वर्णन गीता में भी मिलता है और तभी से प्रत्येक योग
परम्परा इसका वर्णन देती आई है :

गीता न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥^{१३८}

- सरहपा** जहि मण पवण ण संचरइ रवि ससि णाह पवेस
तहि बढ चित्त विशाम करु सरहे कहिअ उऐस ।^{१६९}
- गोरखबानी** कहा बुभै अवंधू राइ गगन न धरनी
चंद न सूर दिवस नहिं रैनी ॥^{१७०}
- कबीर** जिहि बन सीह न संचरै पषि उडै नहिं जाइ
रैनि दिवस का गम नहीं, तह कबीर रहा ल्यौ लाइ ॥^{१७१}
- दादू** चल दादू तहं जाइये जंह चन्द सूर नहिं जाइ
राति दिवस का गम नहीं, सहजै रहा समाइ ।^{१७२}
धरणी आकास अगम चंद सूर नाहीं
रजनी निस दिवस नाहीं पवना नहिं जाही ।^{१७३}

इसी प्रकार सभी योग पद्धतियों में अन्तिम समाधि अवस्था इसी रूप में स्वीकृत थी। बौद्धों ने इसे चन्द्र सूर्य या प्रज्ञोपाय सहज समाधि का नाम दिया था, और शून्य समाधि भी कहते थे। इसी के साथ निर्वाण की कल्पना भी जुड़ी हुई थी। परवर्ती नाथ परम्परा में भी ये नाम चलते रहे :

सहज—जिहि घर चंद सूर नहिं ऊगै तिहि घरि होसी उजियारा
तिहाँ जो आसण पूरौ तो सहज का भरौ पियाला मेरे ज्ञानी ।

शून्य—सुनि ध्यान सोलह कला संपूरण माला ।

आपण स्यंभू श्री गोरष बाला ।

निर्वाण—त्रिकुटी धेत्र उलटि मेला ।

नृबाण तत्व ले रमौ अकेला ।^{१७४}

सहज तथा शून्य के विकास पर हम पीछे विचार कर चुके हैं। निर्वाण का विकास सन्त परम्परा में कैसे वैष्णव चिन्तना से प्रभावित होकर विष्णु के परम पद में परिवर्तित हो गया इस पर आगे विचार करेंगे, किन्तु उसके पहले वज्रयान की महामुद्रा साधना का नाथ योग में क्या रूप हो गया, इस पर विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि प्रज्ञोपाय समाधि के लिये महामुद्रा का समागम अनिवार्य माना गया था ।

मुद्रा के अर्थ

मुद्रा के सम्बन्ध में पीछे विचार करते समय हमने यह देखा था कि

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

मुद्रा का प्रयोग तीन अर्थों में होता था। क—शारीरिक अंगों की स्थिति जैसे भ्रूषर्षा मुद्रा, अभय मुद्रा आदि। ख—बाह्य चिन्ह जैसे कुंडल आदि। ग—वह नारी जो तान्त्रिक अनुष्ठानों (मैथुन तथा विन्दु रक्षा) के लिये सह-साधिका रहती है।

दोहों तथा चर्यापदों में मुद्रा शब्द का व्यवहार प्रमुखतः तीसरे अर्थ में हुआ है और महामुद्रा साधना पर हम विस्तार से विचार कर चुके हैं। किन्तु एक स्थान पर हमें कुंडलों का भी उल्लेख मिलता है। काण्वपा ने जब कापालिक रूप धारण करने का विवरण दिया है तो उन्होंने स्वर तथा वृजनों के नूपुर और सूर्य-चन्द्र-रूपी कुंडलों का भी उल्लेख किया है।^{१७५} मुनिदत्त ने इसे वज्र कापालिक का रूप बताया है। जिससे ज्ञात होता है नर-अस्थि के कुंडल धारण करने की परम्परा बौद्धों में थी और सम्भवतः इसीलिये शवरपा ने अपने पद में शवरी को कर्ण कुंडलों के रूप में वज्र कुंडल धारण किये हुए चित्रित किया है।^{१७६} नाथ योगियों में भी ये मुद्राएँ चन्द्र सूर्य की ही प्रतीक थीं। इसकी ओर हम पीछे संकेत कर चुके हैं। कर्ण-कुंडल धारण करने की परम्परा का प्रवर्तन वज्रयानी सिद्धों ने नहीं किया था। द्विवेदी जी ने कई पुरानी परम्पराओं की ओर संकेत किया है जिनसे सिद्ध होता है कि बौद्ध सिद्धों के भी पूर्व कर्ण कुंडल धारण किये जाते थे और बौद्ध वज्र कापालिक, मरुत्येन्द्र तथा गोरख इन सबों ने उस परम्परा को ग्रहण किया था।^{१७७} किन्तु ज्ञात यह होता है कि जैसे महामुद्रा के बाद वज्रयानी सिद्ध समस्त अनुष्ठानों के बन्धन से मुक्त मान लिये जाते थे, वैसे ही नाथ सम्प्रदाय में यह मुद्रा साधना की एक विशेष परिधि को पार कर लेने की चिन्ह मानी जाने लगी थी। जब तक वे चन्द्र सूर्य की समता नहीं स्थापित कर लेते थे तब तक वे मुद्रा धारण करने के योग्य नहीं समझे जाते थे और उन्हें औघड़ ही कहा जाता था।^{१७८} उन कुंडलों को कान के मध्यभाग में धारण करना भी नाड़ी छेदन से सम्बन्धित था और यह गोरखनाथ की अपनी विशेषता प्रतीत होती है क्योंकि द्विवेदी जी के अनुसार कानिया सम्प्रदाय के अनुयायी कुंडलों को कान की लोरों में भी पहनते हैं और उनमें वामारग (वाममार्गी) साधनाओं का भी अस्तित्व पाया जाता है।^{१७९}

जहां तक नारीरूप में मुद्रा को धारण करने का प्रश्न है, द्विवेदी जी

का यह अनुमान ठीक ही प्रतीत होता है कि अपने मूल रूप में नाथ सम्प्रदाय ब्रह्मचर्य का उपदेश देने वाला, नारी संग का बहिष्कार करने वाला पन्थ था किन्तु उसमें धीरे धीरे तान्त्रिक प्रवृत्तियाँ प्रविष्ट होती रही हैं और वज्रोली सहजोली आदि जिन मुद्राओं का उल्लेख गोरक्ष-पद्धति तथा हठयोगप्रदीपिका आदि ग्रंथों में मिलता है, वे कुछ ऐसे वज्रयानी सम्प्रदायों से आई हैं जो नाथ सम्प्रदाय में बाद में अन्तर्भुक्त हो गये हैं।^{१=०} मत्स्येन्द्र का योगिनी-कौल-मार्ग निस्सन्देह तान्त्रिक प्रवृत्तियों को प्रश्रय देता था और हम इसकी ओर संकेत कर चुके हैं कि कौल-मार्ग में विशुद्ध हठयोग पद्धति को कृतका और महामुद्रा साधना को सहजा पद्धति कहते थे। वे अपनी साधनाओं के लिये वज्रयोग शब्द का भी प्रयोग करते थे।^{१=१} ऐसा ज्ञात होता है कि सहजोली तथा वज्रोली मुद्राएँ ऐसी ही किसी पद्धति की देन हैं। वज्रोली तथा सहजोली मुद्राओं की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन हठयोग-प्रदीपिका में मिलता है और उसमें नारी मैथुन के समय विन्दु रक्षा अथवा चरित विन्दु को पुनः श्वास-प्रक्रिया द्वारा अन्दर खींचने की गुह्य प्रणाली का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार योगिनी नारी भी अपने रज की रक्षा करती है।^{१=२}

गोरक्ष-सिद्धांत-संग्रह में भी प्रकारांतर से इस बात को स्वीकार किया गया है। तान्त्रिक साधनाएँ इस शुद्ध हठयोग मार्ग में प्रवेश पा गई हैं। किन्तु उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई है जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि तान्त्रिक साधकों का ध्यान बाह्य अनुष्ठानों पर अधिक केन्द्रित रहता है जब कि योगी अन्तरंग की उपासना करता है। तान्त्रिक अनुष्ठान स्थूल शक्ति उपासना के माध्यम से देहस्थ शिव और शक्ति का संगम कराने में सहायक सिद्ध होता है।^{१=३}

यह परिस्थिति श्रीगुह्यसमाज-तन्त्र की पूर्व निर्दिष्ट परिस्थिति से सर्वथा विपरीत है क्योंकि वहाँ हठयोग की साधना इसलिये आवश्यक बताई गई थी कि वह महामुद्रा साधना में विन्दु रक्षा में सहायक हो सके। वहाँ गुह्याचारों को प्रमुख स्थान मिला था, हठयोग को गौण, यहाँ हठयोग का स्थान प्रमुख है, मुद्रा-मैथुन उसका गौण अंश।

गोरखबानी में भी इन वज्रोली आदि साधनाओं को वह योग बताया

साधना-पद्धति की वज्रयानो प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

गया है जो भोग का बहिष्कार नहीं करता। 'वजरी करता अमरी रापै अमरी करता बाई। भोग करता जे व्यंदा रापै, ते गोरप का गुरुभाई।'^{११५४}

इन वक्तियों में गुरुभाई शब्द का एक दूसरा संकेत भी हो सकता है। सम्भवतः इसका यह भी अर्थ हो कि मत्स्येन्द्र द्वारा स्वीकृत तान्त्रिक पद्धतियाँ अन्य सम्प्रदायों में चलती रही हों जिन्हें गोरख ने पहले अस्वीकृत किया किन्तु बाद में एक ही गुरु परम्परा से निस्त होने के नाते वे गोरखपन्थ में अन्तर्भूक्त हो गई हों। 'गुरुभाई' का नाता तो इसी ओर संकेत करता है।

किन्तु गोरखपन्थ के बहुसंख्यक साधक ब्रह्मचारी थे और किसी भी रूप में नारी संग उनके लिए विवर्जित था। इसीलिये वे नारी को माया का रूप मानते थे और जैसा हम पहले संकेत कर चुके हैं कि मत्स्येन्द्र की गोरख द्वारा मुक्ति की कथा इसका सांकेतिक प्रमाण प्रस्तुत करती है कि गोरख ने तान्त्रिक अनुष्ठानों से योगमार्ग को मुक्त कराने का प्रयास किया था। इसके संकेत वानियों में स्थान स्थान पर मिलते हैं :

कनक कामिनी त्यागै जोइ, सो जोगेस्वर निरभै होइ।^{११५५}

कदैन सोधै सुन्नरी सनकादिक के साथि
जब तक कलक लगाइसी काली हांडी हाथि^{११५६}

पासि बैठी सोभै नहीं साथि रमाई मुंडे
गोरप कहै असतरी कहा सलह कह मुंडि।^{११५७}

सन्तों ने नारी के प्रति यही दृष्टिकोण अपनाया है और तान्त्रिक सन्त साहित्य गुह्याचारों के प्रति उनमें तीव्र घृणा का परिचय मिलता है। कबीर कामिनी को नागिन, नरक, बुद्धिविवेकनाशिनी बताते हैं :

कामणि काली नागणीं तीन्यू लोक मंभारि
राम सनेही ऊवरै विषई खाए भारि
नारी सेती नेह बुधि बवेक सवही हरै
काइं गमावै देह, कारिज करेइ ना सरै
नारी कुंड नरक का, बिरला थामै बाग
कोइ साधू जन ऊवरै, सब जग मूषा लाग।^{११५८}

और नारी के प्रति इसी कामुकता की प्रवृत्ति के कारण शाक्तों के प्रति कबीर के मन में अतुलित घृणा है और उनका दृढ़ विश्वास है कि शाक्त को यमदूत जंजीरों में बाँधकर यमपुर ले जाएँगे :

साषति सण का जेवड़ा भीगां सूं कठठाइ

दोइ आधिर गुरु बाहिरा बांध्या जमपुरि जाइ ॥^{१९०}

किन्तु बाद में निर्गुण सम्प्रदाय में भी कहीं कहीं इन तान्त्रिक गुह्याचारों का प्रवेश हुआ है और अनुरागसागर में किसी ऐसी साधना का उल्लेख मिलता है जो निर्गुण सम्प्रदायों में प्रचलित होगई थी और जिसमें नारी अंग को पारस मान कर उससे संसर्ग किया जाता था ।^{१९०} बाद के कुछ सन्तों ने वज्रोली आदि को भी स्वीकृत करते हुए सहजोली को सर्वश्रेष्ठ मुद्रा बताया है ।^{१९१} इस प्रकार ये तान्त्रिक अनुष्ठान बाद में इन निर्गुण सम्प्रदायों में भी प्रविष्ट हो गये किन्तु उनका वज्रयानी सिद्धों की महामुद्रा साधना से अप्रत्यक्ष सा ही सम्बन्ध था । किन्तु सिद्धों की महामुद्रा साधना से सम्बद्ध कुछ अन्य शब्द, परिवर्तित अर्थों में, सन्त साहित्य में अवश्य व्यवहृत हुए हैं ।

एक विचित्र विपर्यय हमें 'डाइन' शब्द के प्रयोग में मिलता है । वज्रयान में डाकिनी (डाइणि) के अर्थ तान्त्रिक साधिका होते थे जो सहज ज्ञान की स्वामिनी हो । 'डाक' तिब्बती शब्द बताया जाता है जिसके अर्थ ज्ञान के होते हैं । उसी से डाकिनी वाचक अन्य शब्द बना है, ऐसा प्रतीत होता है । बाद में तान्त्रिक शब्द बीजाक्षरों के आधार पर लाकिनी, शाकिनी, राकिनी, हाकिनी, आदि शब्द बना लिये जाते हैं जिसपर हम विचार कर चुके हैं । डाकिनी उन स्त्रियों को कहते थे जो योग-साधना में स्वयम् प्रवृत्त हों यह किसी साधक को प्रवृत्त कराएँ । वज्र-तन्त्र में एक दोहे में पांच तत्वों की व्याख्या करते हुए डाइणि देवी को सम्बोधन किया गया है :

खिति जल पवण हुतासन सुणूण डाइणि देवि

सुणहु पंचमु तत्तु कहु जो ण जाणइ केवि ।^{१९२}

इस दोहे में भी डाइणि के साथ 'देवि' जुड़ने से यह प्रतीत होता है कि 'डाइणि' के साथ कोई भी अनादर की भावना नहीं सम्बद्ध हुई थी ।

तारानाथ की कथाएँ अत्यन्त अविश्वसनीय हैं किन्तु उसमें कुछ बातें

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

डाकिनी आदि के विषय में ऐसी ज्ञात होती हैं जिनपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। महासिद्ध सवरीया की दोनों मुद्राएँ लोगी और गुनी का मुद्रा-नाम डाकिनी पद्मावती और ज्ञानावती रक्खा गया था। ये डाकिनियाँ अन्ध सम्प्रदायों में भी होती थीं। सिद्ध कम्बलाम्बरपा एक बार बौद्ध डाकिनियों को छोड़कर तीर्थक डाकिनियों के प्रभाव में आ गये थे। डाकिनियों का प्रदेश किसी पश्चिम प्रान्त में था ऐसा उल्लेख भी मिलता है।^{१९३} डा० वागर्ची इन्हें दागिनी या दागिस्तान की स्त्रियाँ मानते हैं जो जादू टोने के लिये प्रख्यात थीं किन्तु प्रचुर प्रमाण के अभाव में किसी भी परिणाम पर पहुँचना सम्भव नहीं है।

ये डाकिनी स्त्रियाँ किसी विशेष प्रदेश या जाति की थीं या केवल तांत्रिक अनुष्ठानों में सिद्ध स्त्रियों को डाकिनी कहते थे यह ठीक से नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह अवश्य है कि बाद में इनके गुह्य श्मशान आदि के अनुष्ठानों के कारण जन साधारण इन्हें भय की दृष्टि से देखता था। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के प्रयोगों के कारण वे समाज में गहिँल मानी जाती थीं इसीलिये कबीर जब इस डाइन शब्द का व्यवहार करते हैं तो वे इसके बौद्ध तान्त्रिक अर्थ भूल चुके हैं। वे इसे माया का उपमान मानते हैं और शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्ध आदि को इसके पाँच पुत्र बताते हैं :

इक डाइन मेरे मन में बसे रे, नित उठि मेरे जिय कों डसै रे
या डाइन के लरिका पाँच रे, निस दिन मोहि नचावै नाच रे
कहै कबीर हूँ ताकौ दास, डाइनि के संग रहै उदास ॥^{१९४}

नाथों की बानियों में इसी प्रसंग में 'राक्षसी' का प्रयोग किया गया है और नारी (भग) को राक्षसी बताया गया है जो बिना दाँतों के संसार को खा गई :

भग राकसि लो, भग राकसि लो, त्रिणं दतां जग धाया लो
ग्यानी हुता सु ग्यांन सुप रहिया, जग लोक आपै आप गवांया लो ।^{१९५}

इसी डाकिनी की भाँति तान्त्रिक अनुष्ठानों में यक्षिणी (जाखिनी, जाकिनी) का भी उल्लेख है जो सिद्ध होने पर साधक को अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती थी। जायसी ने पद्मावत में राघव चेतन को यक्षिणी सिद्ध बताई है :

राघौ पूजा जाखिनी, दुइज देखावा सांझि ॥^{१९६}

बौद्ध तन्त्रों से प्रभावित कुछ योग पद्धतियों में शंखिनी डंकिनी या शाकिनी डाकिनी इत्यादि को विभिन्न चक्रों तथा उनके दलों पर स्थित बताया गया है। पलटू उस पद्धति से परिचित भी मालूम पड़ते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं :

सहस्र गुंजार में परमली भाल है, फिलमिली उलटि के पौन भरना ।
शंखिनी डंकिनी सोर करैगी सब, सोर सुनि उहाँ से नाहिं टरना ।

डाकिनी की ही भाँति महासुद्रा की साधना जिस स्त्री साधिका के साथ की जाती थी उसे योगिनी भी कहते थे। सिद्धों की साधना में इस योगिनी के अथवा जोइरिण का विशेष महत्व था। उस योगिनी के योगिनी गाढ़ालिंगन में वे सहज की साधना करते थे :

जोइरिण गाढ़ालिंगणहि वज्रिल लहु उपसरण

तत्तपत्रामित्र तेहि खरो ह्यगो दिवअण णदिणण ॥सरहपा।^{१९७}

गुंडुरीपा भी इसी योगिनी से एक भरपूर आलिङ्गन की कामना करते हैं :

तिअड्डा चापि जोइरिण दे अंकवाली

कमल कुलिश घांट करहु विअली ॥^{१९८}

योगिनी-कौल-मार्ग में भी योगिनी की पूजा का विधान था :

क्षीर हंडादि मृष्टन्तु घृतपूर्णसुशोभनम्

पार्श्वे तु पूजयेत् सिद्धां योगिनीं गुरुमेवच ॥^{१९९}

ये योगिनियाँ ६४ प्रकार की होती हैं।^{२००} योगिनीकौल मार्ग में दो पद्धतियाँ थीं, कृतका तथा सहजा। कुंडली की साधना को कृतका कहते थे और सहजा (योगिनी) के साथ समरसता में स्थित रहने की पद्धति को सहजा कहते थे।^{२०१} कृतका साधना में योगिनी अवधूती को कहते थे और सहजा में एक वास्तविक नारी का अनुभाव होता है। हम पहले देख चुके हैं कि नाथ पन्थ में ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ दोनों प्रकार के योगी थे। अतः योगिनी के भी दोनों अर्थ लिये जा सकते हैं—नाड़ी (अवधूती या सुषुम्ना) तथा नारी महासुद्रा। नाड़ी के अर्थ में चर्यापदों में योगिनी शब्द का प्रयोग है जहाँ बत्तीस नाड़ियों को बत्तीस योगिनी बताया गया है—‘अधराति भर कमल विकसित, वतिस जोइरिणी सु अंग उल्हसित।’^{२०२} गोरखबानी में इन्हीं नव नाड़ियों की कल्पना नौ सौ योगिनियों के रूप में की गई है जो नाथ योगी की वन्दना गाती हैं :

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

नौ सौ जोगणी चलित्रा साथं । बुरिज बहतरि गाइया नाथं ।^{२०३}

गोरखवानी में एक स्थान पर महामुद्रा रूपी महायोगिनी का उल्लेख है 'महामुद्रा अजब नथी महं जोगणी स्यंभू बोलिये ।'^{२०४} जायसी में भी एक स्थान पर योगी के साथ जोगिनी बनने का उल्लेख है 'अब को हमहि करिहि भोगिनी । हमहूँ साथ होइव जोगिनी ।'^{२०५} किन्तु दूसरे स्थल पर इडा पिङ्गला को योगिनी के रूप में परिकल्पित किया गया है । उन्हीं को योगी की पत्नी मानकर सास ससुर और गृह आदि का वर्णन कर पूरा रूपक प्रस्तुत किया गया है :

माहरा रे बैरागी जोगी, अहनिसि भोगी जोगिणि संग न छाँड़ै ।

मानसरोवर मनसा भूलंती आवै गगन मंडल मठ माँड़ै रे ॥

कौण अस्थानिक तोरा सासू नैं ससुरा कौण अस्थानक तोरा वासा ।

कौण अस्थानक तू नै जोगणि भेंटी कहाँ मिल्या घर वासा ॥

नाम अस्थानका मोरा सासू नैं ससुरा ब्रह्म अस्थानका मोरा वासा ।

इला प्यंगुला जोगण भेंटी सुषमन मिल्या घर वासा ॥^{२०६}

सन्त साहित्य में जोगिन का बहुत कम उल्लेख है । किन्तु फिर भी पलटू योग पद्धति में सुरति द्वारा योगिनी सुषमना को जाग्रत करने का उल्लेख करते हैं :

भीतर औँटै तत्व को उँटै सचद की खानि

उँटै सचद की खानि रहै अन्तर लौ लागी

सुरति देइ उदगारि जोगिनी आपुइ जागी ॥

इसी को दूसरे स्थान पर पलटू जोगिनी का अलमस्त होना बताते हैं :

भूली जग की चाल सब भइ जोगिनि अलमस्त

भइ जोगिन अलमस्त खबर कुछ तन की नार्हीं

हूँ गइ दसा अरूढ़ जान तजि भइ विज्ञानी

धरती नभ जरि गई जरा है पवन औ पानी

पलटू दिनकर उदय भा रजनी हूँ गइ अस्त

भूली जग की चाल सब भइ जोगिनि अलमस्त ।^{२०७}

कहीं कहीं इन जोगिनियों की संख्या ८४ बताई गई है :

चारि मुक्ति जोइनि चौरासी तेहि मिलि हेत बढ़ावै ।^{२०८}

मोरा में इस जोगिनी का उल्लेख आता है किन्तु वहाँ योग तथा गुह्य

तन्त्र-साधना की सारी पूर्व परम्परा भुलाकर यह केवल भाव-साधना की विरहिणी का उपमान मात्र रह गया है। प्रियतम की कल्पना जहाँ वे जोगी के रूप में करती हैं वहाँ अपने को जोगिन कहती हैं :

जोगण होइ मैं वण वण हेरूँ तेरा न पाया भेस
जोगिया के कहज्यो जी आदेस

माला मुद्रा मेखलां रे, बाला खप्पर लूंगी हाथ
जोगिण होइ जग टूटूँ सूँ रे म्हारां रावलिया री साथ ॥२०९

किन्तु मीरा का यह जोगी नायक वास्तव में जोगी के भेस में कृष्ण हैं और यह जोगिनी मीरा उन्हीं की पूर्व जन्म की प्रेमिका गोपी हैं :

धूतारा जोगी एक वेरिया मुख बोल रे
रास रच्यो वंसी बट जमुना ता दिन कीनी कोल रे
पुरव जनम की मैं हूँ गोपिका अधविच पड़ गयो भोल रे ॥२१०

पूर्वी भारत के नाथ साहित्य में भी हमें मीरा के योगिनी विरह गीतों के ही समानान्तर योगिनी विलाप के कुछ गीत मिलते हैं। उनमें भी योगिनी का विलाप शुद्ध भावात्मक स्तर पर है, तान्त्रिक अनुष्ठानों और योगसाधनाओं का आभास भी उनमें शेष नहीं रहा है। इतना ही नहीं कहीं कहीं तो मीरा के गीतों और बंगाली 'जोगिनी विलाप' गीतों में बिल्कुल समानांतर शब्दावली मिलती है :

मीरा—पिय बिन सूनो छै जी म्हारो देश
ऐसा है कोइ पिव को मिलावै तन मन करूँ सब पेस
तेरे कारण बन बन डोलूँ कर जोगण की भेस ॥२११

बंगाल—ग्रह छाड़ा हय आलि भ्रमि बने बने
कत देशे भ्रमि लाभि स्वामीर अन्वेषणो ॥२१२

यही नहीं जोगी का योगेश्वर रूप धीरे धीरे वैष्णव रूप में भी इसी प्रकार परिवर्तित हो रहा है जैसा मीरा में नाथ योगी का रूप गिरधर के रूप से समन्वित हो रहा था :

आमार जोगीयार गले तुलसीर माला आछे
काने मुद्रा शिरे जटाभार

साधना-पद्धति की वज्रयानो प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

आमार जोगीयार गाये हरिनामावली आछे
काने मुद्रा शिरे जटाभार
आमार जोगीयार हाते हरिनानेर माला आछे
काने मुद्रा शिरे जटाभार
आमार जोगीयार संगे हरिदास शिष्य आछे
काने मुद्रा शिरे जटाभार
आमार जोगीयार पाये सुवर्णेर नूपुर आछे
काने मुद्रा शिरे जटाभार.....^{२१३}

इस प्रकार तन्त्र साधनाओं की योगिनी अन्त में पूर्व जन्म की गोपिका बन गई और वैष्णव-भाव साधना, भक्ति में लीन हो गई। उसका बौद्ध तान्त्रिक रूप पूर्णतया मुला दिया गया।

योगिनी के साथ ही साथ सास और ससुर भी प्रतीक रूप में नाथ और सन्तों के साहित्य में प्रयुक्त हुए हैं। सिद्धों ने भी परिशुद्धावधूती की वधू रूप में ग्रहण करने का उपदेश देकर सास और ससुर को मुलाने या सास ससुर उनको मारने का आदेश दिया है। कुक्कुरीपा की चर्या में आदि सुसुरा (श्वास) के सोने और वधू के जागने का वर्णन मिलता है 'सुसुरा निद्र गेल बहुड़ी जागअ।' जिसकी व्याख्या करते हुए मुनिदत्त इसे श्वास को चतुर्थानन्द (सहजानन्द) अवस्था में योग निद्रा में लीन कर देने का प्रतीकात्मक वर्णन बताते हैं। गुंडरीपा इसी श्वास के निरोध को सास के घर में ताला बन्द करने की प्रतीकात्मक शैली में वर्णन करते हैं :

सासु घरे घालि कोंचा ताल
चान्द मुज्ज बेणि पखा फाल।^{२१४}

काणहपा अपने कापालिक रूप में इसी सास, ननद साली आदि (श्वास तथा इन्द्रियादि) को मारने का वर्णन करते हैं।^{२१५}

नाथपन्थी बानियों में कुम्भक समाधि द्वारा मणिपुर के चक्र में स्थित प्राण और अपान वायु को सास और ससुर कहा गया है :

कौण अस्थानिक तोरा सासू नै सुसुरा, कौण अस्थान क तोरा वासा
नाम अस्थान का मोरा सासू मै सुसुरा ब्रह्म अस्थान का मोरा वासा।^{२१६}

इस पद के तिलक में प्राण और अपान के स्थान पर सास का अर्थ सुरति और ससुर का अर्थ शब्द दिया हुआ है, और यह भी असंगत नहीं प्रतीत होता । पलटू ने एक स्थान पर इसी सास और ननद को मारने का उल्लेख किया है जो काण्हपा के वर्णन की स्पष्ट प्रतिध्वनि प्रतीत होता है :

पलटू—देखा पिय का रूप फिरा अहिवात हमारा
बहुत दिनन की रांड मांग पर सेंदुर धारा
सासु ननद को मार मैं अदल दिहा चलाई
उनकै चलै न जोर पिया को मैहि सुभाई ।२१६

काण्हपा—मारिआ सासु नणद घरे शाली,
माअ मारिआ कण्ह भइल कबाली ।२१९

पलटू की बानी के सम्पादक ने टिप्पणी में सास और ननद का अर्थ यहाँ माया और वासना दिया है । उस अर्थ से कोई असंगति उत्पन्न नहीं होती किन्तु श्लेष के कारण श्वास के लिये सास का प्रतीक अधिक संगत मालूम होता है और वज्रयानी परम्परा से ही आया हुआ प्रतीत होता है । बाद में सास का प्रतीकार्थ बदल भी गया है और जहाँ सिद्धों में अवधूती या सुषुम्ना, वधू के रूप में परिकल्पित की गई है । वहाँ मीरा के एक पद में हमें सास का अर्थ सुषुम्ना मिलता है :

सासु हमारी शुशुम्ना रे, सुसुरी प्रेम संतोष रे
जेठ जुगे जुग जीव जो रे, हां रे पैलो नावलियो निरदोस ।२२०
इसी प्रकार काण्हपा के पद में प्रयुक्त शाली या साली, कबीर के एक 'सलोक' में सृष्टि-जाल के अर्थ में प्रयुक्त हुई है :

कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोइ
कै जानै आपन धनी कै दासु दीवानी होइ ।२२१

इस प्रकार नारी रूप में महामुद्रा साधना का गौण स्थान हो जाने पर भी इनकी योग साधना में "खेचरी" नामक मुद्रा को विशेष स्थान प्राप्त था । यह मुद्रा शून्य स्थान त्रिकुटी से सम्बद्ध थी और इसमें प्राणायाम खेचरी मुद्रा के साथ जिह्वा को उलट कर तालू में स्थित किया जाता था ताकि ब्रह्मरन्ध्र से भरने वाले अमृत का पान किया जा सके । इस मुद्रा का नाम खेचरी वज्रयानी सिद्धों की खेचरी सिद्धि से आया था या नहीं

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

यह सन्दिग्ध है किन्तु त्रिकुटी को शून्य मंडल या ख-स्थान मानने की कल्पना से श्रवण सम्बद्ध था ।^{२२२} यही नहीं उसके साथ तान्त्रिक अनुष्ठानों का मांस भक्षण तथा वारुणी पान का प्रतीकात्मक उल्लेख भी मिलता है; क्योंकि इसी जिह्वा को उलट कर तालू में स्थित करने को गोमांस (इंद्रिय का मांस) भक्षण कहा जाता था और चंद्र से भरने वाले अमृत को वारुणी ।^{२२३} इस मुद्रा का उल्लेख नाथ तथा सन्त दोनों परम्पराओं में मिलता है :

गोरखबानी कूची ताली सुधमन करै, उलटि जिन्या लै तालू में धरै ।^{२२४}

कबीर सुरही भच्छन करत वेद मुख, धन बरिसे तन भीजे ।

त्रिकुटी मंडल मधि मन्दिर बाजे, औघट अम्बर छोजे ।^{२२५}

कबीरपन्थ के पंच-मुद्रा ग्रन्थ में बाद में वज्रयान की चार मुद्राओं की परम्परा से सर्वथा मुक्त पाँच मुद्राओं का वर्णन मिलता है : खेचरी, चाचरी, मोचरी, अगोचरी और उन्मुनी । इनके ही समानान्तर पाँच शून्य हैं और अन्तिम मुद्रा उन्मुनी में ब्रह्म का प्रकाश और सहजानन्द की प्राप्ति होती है :

ब्रह्म प्रकाश तहाँ पूरन चन्दा, रैन दिवस नहिं सहज अनन्दा ।

इन मुद्राओं का स्थान इस प्रकार है—मुखाग्र, नासाग्र, चक्षु-अग्र, श्रवण-अग्र, तथा तिलकपाट । अगोचरी में सहजशून्य और उन्मुनी महाशून्य का ध्यान बताया गया है ।^{२२६} ज्ञात यह होता है कि शून्य, चतुर्मुद्रा, चार आनन्द तथा हठयोग की चौथी उन्मुनी अवस्था की परम्पराएँ इनमें धुलमिल गई हैं और रचयिता उनमें से सबके ठीक ठीक अर्थ भी नहीं समझता है, या कम से कम उनके उन अर्थों से तो अपरिचित है जिनमें वज्रयानी सिद्ध इन शब्दों का प्रयोग करते थे ।

उपलब्धि

वज्रयानी पद्धति में साधना की उपलब्धि के रूप में निर्वाण का महत्व बहुत घट गया था और भव तथा निर्वाण दोनों ही का निषेध कर महासुख की उपलब्धि को विशेष महत्व दिया जाने लगा था :

आइ ए अन्त ए मज्झु ए, एउ भव एउ शिन्वाए
एहु सो परम महासुख, एउ पर एउ अप्पाए ॥२२७

किन्तु नाथयोगियों की परम्परा में योग के चौथे पद या चरम अवस्था को ही निर्वाण का नाम दे दिया गया था। योगिनीकौल मार्ग के ग्रंथों में निर्वाण का कहीं उल्लेख नहीं है क्योंकि वह तन्त्रप्रधान मार्ग था और उसमें सहजानन्द या परमानन्द की उपलब्धि पर बल है, किन्तु नाथ सम्प्रदाय योग-प्रधान होने के कारण योग की चतुर्थ अवस्था या चौथे पद को सर्वोच्च अवस्था मानता था और उसके लिये वे परम पद के साथ साथ 'निर्वाण पद' शब्द भी प्रयुक्त करते थे।

वास्तव में इस अर्थ में निर्वाण का प्रयोग गीता में भी हुआ है :

योन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथा अन्तर्ज्योतिरेव यः
स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति ॥
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीण कल्मषाः
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः ॥
कामक्रोधवियुक्तानाम् यतीनां यत् चेतसाम्
अमितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विजितात्मनाम् ॥२२८

निर्वाण शब्द बौद्ध-परम्परा से ग्रहण करने पर भी उसका महत्व तथा उसकी व्याख्या में ये परवर्ती पद्धतियाँ वज्रयान की अपेक्षा ब्रह्म-निर्वाण की परम्परा के अधिक निकट प्रतीत होती हैं। नाथपन्थी बानियों में निर्वाण तत्व परम आत्मानुभव को कहते हैं जिसमें साधक समस्त भवजाल से मुक्त हो शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है :

दृष्टि आगे दृष्टि लुकाइबा, सुरति लुकाइबा कानं
नासिका अग्रे पवन लुकाइबा तत्र रहि गया पद निरवानं ॥२२९

त्रिकुटी षेत्र उलटि मेला । नृबाण तत्व लै रमौ अकेला ॥२३०
शब्दसुरति-योग की पद्धति के अनुसार निर्वाण की नाद द्वारा प्राप्ति बताई गई :

नाद ही ते आछै बाबू सब कछू निधानां
नाद ही ते पाइये परम निरवानां ॥२३१

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

एक स्थान पर आकाश (शून्यतत्व) में शिव का वास बताया गया है और उन्हीं के अन्यन्तर में निर्वाण पद की स्थिति का उल्लेख मिलता है :

आकास तत सदासिव जाण । तस्मि अभिअन्तरि पद निरवाण ।^{२३१}

केवल आत्मा रह जाती है, नाश का पूर्ण विनाश हो जाता है, आत्म-उद्योति प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे निर्वाण पद को सन्तों ने भी परम पद बताया है। आत्मा और परमात्मा जल और लवण को भाँति पूर्णतया धुल्लित करते हैं :

कबीर—नाइआ फास बंध नहि काटे अर मन मुनि न लूके

आपा पदु निरवाणु न चीन्हिआ इन विधि अभिउन चूके ।^{२३३}

बूझ बूझ पंडित पद निरवान

सांभ परे कहवां धस जान ॥

उंच नीच परवत डेलान इंट

त्रिनु गायन तहंवा उटे गीत ॥^{२३२}

दाहू—परमात्म सौं आतमा, ज्यों जल उदक समान

तन मन पानी लौण ज्यों पावै पद निरवान ।^{२३४}

इस निर्वाण पद का आचार पक्ष भी है जिसमें योगी विषय भोग ने विरक्त दुख सुख आदि द्वन्दों में सम भाव से स्थित रहता है :

प्रभ के मंति रहै निरवान, जहं नहिं पीवन नहिं किछु खानि

खाअण पिअण ते रहै निरारा ।^{२३३}

इसतुति निन्दा दोऊ त्यागै पोजै पदु निरवाना

जनु नानकु इहु बेलु कठिन-है किनहु गुरसुपि जाना ।^{२३७}

कबीर इस निर्वाण प्राप्त योगी के आचार के सामाजिक पक्ष पर भी बल देते हुए उसे कुल मर्यादा (जातिगत अहंकार आदि) से मुक्त होकर शुद्ध आत्मस्वरूप को पहचान कर विदेह होने का आदेश देते हैं :

कुल मरजादा खोयके खोजिनि पद निरवान

अकुर बीज नसाय कै, भये विदेही थान ।^{२३८}

इस प्रकार निर्वाण को भी योग की चतुर्थ अवस्था तथा उसके उपरान्त उपलब्ध होने वाले सम भाव का वाचक मान लिया गया, और ऐसे सन्त को निर्वाणी की संज्ञा दे दी गई क्योंकि वह तत्वग्राही है :

सोई सन्त सोई निर्वाणी । नीर छीर विवरन करि आनी ।^{२३९}

और शब्द या नाद द्वारा प्राप्ति होने के कारण इसे शब्द-निर्वाण कहा जाने लगा ।

‘चीन्हड पंडित शब्द-निर्वाण । निर्गुन नाहिं चिन्हहुँ ज्ञाना ।’^{२४०}

और इस शब्द-निर्वाण को इतना प्रतापी माना गया कि यमराज भी उससे भय भीत बताया गया :

‘यमराजा जेहि देखि डराना, सोई शब्द अहै निरवाना ।’^{२४१}

दूसरी ओर निर्वाण को आदिपुरुष के विशेषण के रूप में ग्रहण किया गया और निर्वाण पुरुष को सहज पुरुष से भी परे बताया गया :

सहज पुर्ष से आगे जाई । आदि पुर्ष को लोक दिखाई ।

सहज ते एक असंख प्रवाना । तहंवा आदि पुर्ष निरवाना ॥

नाद बिन्द को तहाँ न पानी । नहिं तहं सृष्टि चौरासी जानी ।

चंद सूर्य नारायण नाहीं । नहिं तहं दिवस रैन की छाहीं ॥

यंत्र मंत्र तह दरद न धोखा । नर्क स्वर्ग संशय नहिं शोका ।^{२४२}

इसके उपरान्त निर्वाण को शुद्ध हिन्दू रूप दिया जाने लगा । हिन्दू परम्परा में मुक्ति ही प्रमुख उपलब्धि मानी जाती थी और कुछ वैष्णव परम्पराओं में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य चार प्रकार की मुक्तियाँ मानी जाती थीं । निर्वाण को सामीप्य मुक्ति का मार्ग बताया गया ।^{२४३} तथा ज्ञान-स्थिति-बोध में वाम मार्ग द्वारा सालोक्य मुक्ति, निर्वाण मार्ग द्वारा सामीप्य मुक्ति, अघोर मार्ग द्वारा सारूप्य तथा यवन मार्ग द्वारा सायुज्य मुक्ति बताई गई किन्तु पाँचवीं इन सबों से श्रेष्ठ है वह है जीवनमुक्ति ।^{२४४} ज्ञात यह होता है कि कबीरपन्थ को सभी सम्प्रदायों से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिये मुक्ति-योजना का ऐसा क्रम निर्धारित किया गया । प्रणामी सम्प्रदाय में बाद में यह अक्षर ब्रह्मा का पद माना गया ‘जिनके आगे अक्षर ब्रह्मा जो कहिये यह पद है निर्बाना ।’^{२४५} और इस प्रकार इसका बौद्ध रूप पूर्णतया लुप्त हो गया ।

सिद्ध-साधना की उपलब्धि में ज्ञान की अपेक्षा सुख अथवा आनन्द अधिक प्रमुख हो गया था और महासुख के अतिरिक्त वज्रयोग की पद्धति में चार क्षण और उनमें प्राप्त होने वाले चार आनन्द प्रथमानन्द, परमानन्द अथवा नन्द, विरमानन्द तथा सहजानन्द की कल्पना को प्रमुख महत्व दिया गया । स्वतः योगिनी-कौल मार्ग में परम अनुभूति को

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियां और शब्दावली:

परम आनन्द (परमानन्द) की संज्ञा दी गई और चार आनन्दों का मिद्वान्त त्याग दिया गया, उसी को कभी कभी वे सहजानन्द भी कहते थे :

यावत् सममेकत्वं परमानन्दं न विन्दति
मूर्खाणां च यथा शाल्वं कुमारीसुरतिं यथा ॥
सहजानन्दं न विन्दति सर्वधर्मा समानृताः
अजानन्त्यमलैर्प्रस्ता महामायाऽन्धच्छाडिताः ॥२४३

सन्तों के साहित्य में परमानन्द, सहज आनन्द, सहज सुख, महानुभव आदि सभी शब्दों का व्यवहार सम्मानार्थक ढंग से हुआ है और वे योग के परम आत्मानुभव सुख के पर्याय मान लिये गये हैं :

कबीर— इध्रा देही परिमल महकन्दा, ता सुख विसरे परमानन्दा । २४०
कहु कबीर मनु भइया अनन्दा, गइया भरनु रहिया परमानन्दा । २४०
काटि सकत सिव सहजु प्रगासिओ एकै एक समानां नां
काहि कबीर गुरु भेंटि नहांसुख भ्रमत रहै मनमानां ना । २४१
कोइ है रे सन्तु सहज सुख अन्तरि जा कउ जगु तपु देइ
दलाली रे । २४०

दादू— जहं तहं साखी संग है नेरे सदा अनंद
नैन बैन हिरदै रहै, पूरण परमानन्द ॥
बादल नहिं तहं बरसत देख्या, सबद नहीं गरजन्दा
बीज नहीं तहं चमकत देख्या, दादू परमानन्दा ॥२४१

दरिया— परमारथ परमानंद पिय पर सुरति लगाइये ।
ज्यों सरदें को चन्द जग जीवन गुन ज्ञान है । २४२

गुलाल— सहज सुख दिन दिन हो भजि लेहु आनंदराय । २४३

उपरोक्त उद्धरणों पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि सहज सुख महासुख आदि बौद्ध परम्परा के शब्द न केवल गौण हो गये हैं, और परमानन्द को ही परम अनुभूति तथा परमार्थ स्वरूप मान लिया गया है, साथ ही साथ जहाँ वे प्रयुक्त भी हुए हैं, उनके पीछे मुद्रा के समागम से प्राप्त होने वाली अनुभूति वाला अर्थ सर्वथा भुला दिया गया है और 'सहज' तथा 'महा' केवल साधारण विशेषण के रूप में प्रयुक्त हैं और उसकी बौद्ध परम्परा का स्मरण मात्र दिलाते हैं । किंतु उनका तान्त्रिक अभिप्राय लुप्त हो गया है ।

रस रसायन की प्रक्रिया से पारे के विशोधन तथा मारण आदि का प्रयोग चित्त के विशोधन तथा मारण के अर्थ में किया जाने लगा था। इसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं। 'सोने भरिते करुणा नावी' स्वर्ण रस सिद्धि आदि से यह भी स्पष्ट है कि वे शून्यता ज्ञान अथवा नैरात्म्य ज्ञान को ही सोना मानते थे। नाथपन्थी बानियों में सुनार के रूप में स्वर्णविशोधन प्रक्रिया द्वारा चित्त के विशोधन की प्रक्रिया का बड़ा ही सुन्दर वर्णन है और यहाँ तक कि वहाँ श्लेष द्वारा सोना शून्य ज्ञान का ही उपमान माना गया है :

सोनां ल्यौ रस सोनां ल्यौ मेरी जाति सुनारी रे
 आपै सोना नै आपै सुनारी मूल चक्र अंगीठा
 अहरिणि नाद नै ब्यन्द हथौड़ा घटिख्युँ गगन बईठा।
 ऊधै आरण नै विधै कोइला सहज फूक दो नालियाँ।
 चन्द सूर दोउ सम करि राष्या आपै आप जु मिलिया
 अरधै सोनां उरधै सोनां मध्ये सोनम सोनां
 तीनि शून्य की जाणै ता घटि पाप न पुंना ॥
 उनमनि डांडी मन तराजू पवन किया गदियानां।
 आपै गोरधनाथ जोषण बैठा, तत्र सोना सहज समानां।^{२५४}

सन्तों ने इस स्वर्ण साधना में योग-प्रक्रिया की अपेक्षा भक्ति तथा उस के अंग, सत्सङ्ग, गुरुभक्ति आदि को प्रमुखता दी है। वे कभी सत्सङ्ग को, कभी गुरु को और कभी राम को पारस मानते थे :

कबीर—पारस के संग तांबा बिगरिअओ, सो तांबा कंचन होइ निबरिअओ
 सन्तन संगि कबीरा बिगरिअओ, सो कबीर रामै होइ निबरिअओ।^{२५५}
 अब घटि प्रगट भये राम राई, सोधि सरिर कनक की नाई
 कनक कसौटी जैसे कसि लेइ सुनारा, सोधि सरिर गयो तन सारा।
 त्रिन परचै तन कांच कथीरा, परचै कंचन भया कबीरा।^{२५६}

दादू—दादू गुरु गुरुवा मिलै ताथै सब गमि होइ
 लोहा पारस परसतां सहज समाना सोई।^{२५७}

पारे के शोधने की विधि का रूपक भी एक परवर्ती सूफी सन्त ने अपने एक दोहे में ग्रहण किया है :

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

मन पारा तन की खरी ध्यान ज्ञान रस गोय
विरह अगन सूँ फूँक दे निरनस कुन्दन होय ॥२५८

इस प्रकार धातु-विशोधन तथा स्वर्ण प्रक्रिया को अप्रस्तुत के रूप में वज्रयानी सिद्धों ने ग्रहण किया था, यद्यपि उनके साथ साथ स्वर्ण सिद्धि की कल्पनाएँ भी प्रचलित थीं और कहा जाता था कि वे स्वर्ण बना सकते हैं। पागस सिद्धि के रूप में अप्रस्तुत वाला रूप ही ग्राह्य रहा किन्तु मन्तों की विशेषता यह थी कि उन्होंने योग प्रक्रिया को गौण स्थान देकर, भक्ति तथा विरह को प्रमुख महत्व दिया और उसी से मन का स्वर्ण रूप होना सिद्धि किया।

हम पहले ही इस बात की ओर संकेत कर चुके हैं कि तान्त्रिक अनुष्ठानों में वारुणी का प्रयोग होता था और उसको एक आध्यात्मिक अर्थ भी देने का प्रयास किया जाता था। सोमवार्दा उते उमा सहित शिव
अमृत द्वारा का प्रतीक मानते थे, वज्रयानी उसे सहज रस मानते थे,
अमरत्व प्राप्ति उसके द्वारा अमरत्व की प्राप्ति बताई जाती थी।

सरहपा ने वाह्य रसायन या अमृत की अपेक्षा शून्यताज्ञान रूपी अमृत को सर्वश्रेष्ठ बताया था क्योंकि वह जन्म और मरण दोनों का निषेध कर वास्तविक रूप में साधक को अजरामर बना देता है :

जो एथु जाम मरणे विसंका, सो करइ रस रसानेर कंखा।

जे सचराचर तिअस भमन्ति, ते अजरामर किंपि न होन्ति ॥२५९

नाथपन्थी योगियों में ज्ञान के पक्ष पर इतना बल नहीं दिया गया था किन्तु उनके यहाँ यह धारणा अवश्य प्रचलित थी कि खेचरी मुद्रा द्वारा जो चन्द्र से भरने वाले अमृत का निरन्तर पान करता है वह छूटे छुमाहे कायाकल्प कर लेता है, और इस प्रकार वह अजरामर हो जाता है :

जीवता जोगी अमीरस पीवता अहनिंसि अपंडित धारं

दिष्टि मधे अदिष्टि बिचारिवा ऐसा अगम अचारं

जीवता बिछायवा मूवां नोदिवा कवहुँ न होयवा रागी

वरसवै दिन काया पलटिवा यूँ कोइ कोइ विरला जोगी ॥२६०

इसी अमीरस को वे सहजरस नाम से भी पुकारते थे किन्तु उसका तान्त्रिक अथवा नैरात्म्य-ज्ञान परक अर्थ नहीं स्वीकार करते थे :

जिहि घर चन्द सूर नहिं ऊगै तिहिं घरि होसी उजियारा
तिहां जो आसण पूरौ तो सहज का भरौ पियाला ।^{२६१}

सन्तों ने भी अमीरस या रसायन या रस शब्द का व्यवहार मूलतया नाथयोगियों की साधना में चन्द्र से भरने वाले अमृत के लिये ही किया है किन्तु धीरे-धीरे वे उसे हरि भक्ति रस के अर्थ में प्रयुक्त करने लगे हैं और फिर दूसरा अर्थ प्रमुख हो गया । योगमदति के कायाकल्प वाले रस के अर्थ में सन्त इसका प्रयोग करते हैं :

कबीर— धरणी उलटि अकासहिं प्रासै यहु पुरिषां की वाणी
वाभ पियालै अमृत सोख्या नदी नीर भरि राष्या ।
कहै कबीर ते बिरला जोगी धरणि महा रण चाष्या ।^{२६२}
नानक—पाताली रसु गगनु चढ़ाया । तातें सहजि पलटी काया ।^{२६३}

किन्तु सन्तों ने इसी अमीरस को राम रस या राम रसायन का नाम दिया है जो उनकी भक्ति भाव साधना के अधिक निकट है :—

बिना पियाले अमृत अंचवे नदिय नीर भरि राखै
कहहिं कबीर सो जुग जुग जीवै राम सुधारस चाखै ।^{२६४}

इस प्रकार उन्होंने योगमार्ग के अमृत को तो स्वीकार किया है किन्तु तान्त्रिकों की वारुणी और सोम को पूर्णतया गर्हित ठहराया है । कबीर ने स्पष्ट घोषित किया है कि शाक्तों का रस झूठा है, वह अमरत्व प्रदान नहीं कर सकता, किन्तु सन्तों का हरिभक्ति रस वास्तव में मृत्यु को जीतने वाला है :

साकत मरहिं सन्त सभ जीवहिं
राम रसायन रसना पीवहिं ॥^{२६५}

और जब से यह राम रस उन्हें मिला है तब से वे अन्य सारे योग और तन्त्र के रसों को भूल गए हैं :

राम रस पाइया रे तातैं बिसरि गये रस और ।^{२६६}
इसी को वे हरिरस और प्रेम रस भी कहते हैं :

राम रसाइण प्रेम रस पीवत अधिक रसाल
कबीर पीवण दुलभ है मांगै सीस कलाल ।
हरि रस पीया जाणिये जे कबइं न जाइ खुमार
मैमंता घूमत रहै नाहीं तन की सार ।^{२६७}

साधना-पद्धति की वज्रयानी प्रवृत्तियाँ और शब्दावली

इस रस के प्रसंग में उन्मत्तता आदि का वर्णन चर्यान्दों में ही आता है किन्तु कवीर ने खुमार आदि शब्द सूफ़ी साधनाओं से लिये हैं क्योंकि सूफ़ी भी इस रस या वारुणी को प्रेम रस के रूप में प्रयुक्त करते थे। अनीरस आदि शब्द भी उन्होंने तान्त्रिक और योग परम्परा से लिये थे :

मंभन जेहि भा पेन अनोरस परचै काल करै का नार ।^{२३८}

इसी हरि रस के दो प्रभाव साधक पर होते हैं वह कंचन हो जाता है, और अमर हो जाता है ।

सबै रसाइणि मैं किया हरि सा और न कोइ

तिल इक घट मैं संचरै तौ सब तन कंचन होइ ॥

मैमता अविगत रता अकल्प आत्मा जीति

राम अमलि नाता रहै जीवत सुकति अतीति ।^{२३९}

यहाँ पर कंचन होने के अर्थ हैं समस्त वासनाओं से मुक्त होकर शुद्ध स्वरूप में स्थित होना और अमर होने के अर्थ हैं जीवन्मुक्त होकर मृत्यु से अमर हो जाना । अन्य स्थलों पर कवीर ने अमर होने का मार्ग यह बताया है कि हरि के प्रति पूर्णतया शरणागति की भावना रखने से अमरत्व लाभ होता है क्योंकि हरि ही मिलाने वाले हैं, वे अमर हैं और उनके भक्त भी अमर हैं :

हम न मरें मरिहैं संसारा, हम कूं मिल्या जियावन हारा ।

अब न मरौं मरनैं मनमाना तेई मुए जिनि राम न जाना ।

हरि मरिहैं तो हमहूँ मरिहैं, हरिन मरें हम काहे कूं मरिहैं ॥^{२४०}

इस प्रकार वारुणी तथा सोम की रसायन रूप में जो कल्पना तान्त्रिक अनुष्ठानों से विकसित हुई थी, जिसे सरहपा ने प्रतीत्य समुत्पाद के जन्म मरण रहित नैरात्म्यज्ञान की व्याख्या ही, नाथ योगियों ने जिसे देहस्थ चन्द्र से झरित होने वाला अमृत बताया, अन्त में वही परम्परा सन्तों द्वारा भक्ति मार्ग में समाहित कर दी गई और अजरामर वही माना गया जो भक्तिपरायण है क्योंकि वह दुख सुख, जन्म मृत्यु सबों से निस्संग है, निरपेक्ष है ।

दादू—जुग काला जामण मरण जहाँ जहाँ जिव जाइ

भगति परायण लीन मन ता कौं काल न खाइ ॥^{२४१}

संत लोगों ने भक्ति के आगे अष्ट महासिद्धियों को भी कोई महत्व नहीं

दिया है। सहज सिद्धि के आगे अष्ट महासिद्धियों को तो वज्रयानी सिद्धों ने भी गौण बताया था किन्तु वे इस मार्ग में उनकी उपलब्धि को अष्ट महासिद्धि भी स्वीकार करते थे। बौद्ध अष्ट महासिद्धियों का उल्लेख योगिनीकौल मार्ग में तो अवश्य मिलता है, २७२ किन्तु गोरख के अनुयायी बौद्ध अष्ट महासिद्धियों के स्थान पर हिन्दू परम्परा की अष्ट महासिद्धियों को स्वीकार करते थे। वैसे अन्तर्धानादि कुछ बौद्ध सिद्धियों का अप्रत्यक्ष उल्लेख उनकी बानियों में मिल जाता है और सिद्ध-गुटिका अन्तर्धान तथा अमरत्व दोनों की प्रदायिका मानी जाती थी। २७३ उनकी बानियों में सिद्धियों की संख्या २४ भी बताई गई है किन्तु वहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि ये सिद्धियाँ ब्रह्मज्ञानी के मार्ग में बाधक होती हैं और जब वह इनका परित्याग कर देता है तभी उसे परमज्योति प्राप्त होती है।

‘यती चौबीस सिधि ब्रह्मा ग्यांनी कै आड़ी आवै । यती चौबीस सिधि आई होय तौ सतगुरु प्रसाद तैं त्यागै । सोइ जोगेश्वर सोई ब्रह्म ग्यांनी । बल अपार जती गोरपनाथ समभावै । यती चौबीस सिधि त्यागै । सोई परम ज्योति कूँ पावै । २७४

सन्तों ने इन सिद्धियों का रहा सहा महत्व भी समाप्त कर डाला। उन्होंने तो राम के चरणों में ही इन समस्त ऋद्धियों सिद्धियों का वास माना।

कबीर— राम चरन जाके हिरदै बसत है ता जन कौ मन क्युँ डोलै
मानौ अठ सिध्य नव निध्य ताकै, हरधि हरधि जस बोलै । २७५

दादू— हिरदै राम रहै जा जन कै ताकौँ ऊरा कौण कहै
अठ सिधि नौ निधि ताके आगे सनमुख सदा रहै । २७६

और बाद में तो भक्ति पर सन्तों की आस्था इतनी दृढ़ हुई कि वे इन भौतिक सिद्धियों को घोर उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे।

संत न चाहैं मुक्ति को नहीं पदारथ चार
नहीं पदारथ चार मुक्ति संतन की चेरी
ऋद्धि सिद्ध पर थुकैँ स्वर्ग की आस न हेरी
... ..
पलटू चाहैं हरि भगति ऐसा मता हमार
संत न चाहैं मुक्ति को, नहीं पदारथ चार । २७७

ड
भाव, शैली, भाषा
और छन्द

मध्यकालीन तान्त्रिक तथा योग साधनाओं में काव्य को एक सिद्धि रूप में स्वीकृत कर उसे धर्मसाधना में ही पूर्णतया अन्तर्भुक्त कर लिया गया था। काव्य का यह रूप बौद्ध तथा ब्राह्मण दोनों ही परम्पराओं में स्वीकृत था। इसी के साथ परा, पश्यन्ती तथा मध्यमा को भी बीजाक्षरों की गुह्यवाणी मान लिया गया था। गुह्यवाणी या सरहपा द्वारा निर्दिष्ट 'गहिण, गुहिर भास' की कल्पना सन्तों तक चली आई है पर उसमें प्रज्ञोपायात्मक तान्त्रिक अर्थ नहीं रहे। फिर भी कुछ विशेष शब्द समूहों को तान्त्रिक बीजाक्षरों के ही समान महत्व दे देने की परम्परा सन्तों में भी मिलती है। नानक की 'प्राण संगली' में 'वाह, वाह' को गुहजी वाणी (गुह्य वाणी) कहा गया है, उसी से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है और उसी को निर्वाण स्वरूप भी कहा गया है :

वाह वाह कीना निरवाणु । नानक वाह वाह हैराणु ।^१

इस गुह्यवाणी की कल्पना के साथ कुछ बौद्ध तन्त्रों के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नाथपन्थियों की वानी में भी बराबर मिलता है। नाथ पन्थियों के एक पद में वाणी के दो रूप बताये गये हैं 'सुनि अस्थूल दोइ वाणी ।'^२ स्थूल वाणी वाह्य प्रकट वाणी को कहते हैं, शून्य गुह्य वाणी है। दूसरे स्थल परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी के ही समानांतर वाणी का चतुर्विध विभाजन मिलता है :

चारि वाणी बोलिये घट भीतर ते कौण कौण
सहज संजम सुपाइ अतीथ ।^३

इन वाणियों के स्वरूप अथवा लक्षणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है किन्तु इनके नामकरण पर बौद्ध परम्परा के अवशिष्ट प्रभाव का कुछ आभास अवश्य मिलता है किन्तु यहाँ पर सहज से शिव और शक्ति के युगनद्ध की गुह्य वाणी का संकेत है, प्रज्ञा और उपाय के युगनद्ध की वाणी का नहीं ।

कबीर पंथ में गुह्य वाणी की कल्पना का और भी प्रचुर विस्तार मिलता है और ज्ञात यह होता है कि मन्त्रों तथा बीजाक्षरों को फिर स्वीकार कर लिया गया है । स्वसम्बेद-बोध में सात बीजाक्षरों तथा उनके सात अक्षरों का उल्लेख है ऊं, श्री, रं, सौं, रौं, ह्रीं, क्लीं, अ, इ, उ, ए, व, म, ह इन्हीं से सात करोड़ महामन्त्रों का उद्भव होता है जिनसे सात सिद्धियाँ मिलती हैं—जारण, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, आकर्षण, स्तम्भन, तथा मोहन । इस प्रकार गुह्यवाणी की तान्त्रिक कल्पना कबीर पंथ में पुनः प्रविष्ट हो जाती है, यद्यपि इस बार वह बौद्ध उद्गम से नहीं आई है ।^४

यहाँ पर यह विशेषतया उल्लेखनीय है कि यद्यपि नानक ने वाह वाह को तान्त्रिक मन्त्रों के ही समान महत्व प्रदान किया किन्तु सन्त तन्त्रों की पद्धति को स्वीकार नहीं करते थे । कबीर ने भी साहित्य के वाणी के, एक गुह्य अर्थ की ओर संकेत किया है किन्तु वह अर्थ तान्त्रिक नहीं है, शुद्ध ब्रह्म-विचार मात्र है । इस दृष्टि से उनका साहित्य न केवल लौकिक साहित्य है न तान्त्रिक अभिप्रायों से युक्त है, वह शुद्ध ज्ञानपरक तथा भक्तिपरक ब्रह्म विचार है :

लोग जानै इहु गीतु है, इहु तउ ब्रहम वीचार ।^५

वज्रयानी साधनापद्धति की तान्त्रिक प्रवृत्तियों का बहिष्कार कर जब गोरखनाथ के प्रभाव से शुद्ध योग मार्ग अपनाया गया उसी क्षण से इन परवर्ती योग सम्प्रदायों के साहित्य में भावपक्ष गौण हो गया । बौद्ध भावपक्ष सिद्धों ने महाराग की प्रतिष्ठा की थी और भगवती प्रज्ञा के प्रति महाराग को अपने काव्य की मुख्य भावभूमि बनाया था । नाथ परम्परा में तथा शक्ति को देहस्थ मानकर क्रम उलट दिया गया था और साधना की सक्रियता शक्ति में मान ली गई थी, शिव उसकी निष्क्रिय निष्काम

भाव, शैली, भाषा और छन्द

परिणति मात्र थे। अतः साधक का, अपने को उपायरूप परिकल्पित कर भगवतां प्रज्ञा के प्रति प्रणय निवेदन करने वाली भाव-पद्धति पूर्णतया त्याग दी गई। किन्तु दूसरी ओर नाथ परम्परा के गृहस्थ योगियों में किस प्रकार योगियों के प्रेम गीतों का विकास हुआ और मीरा के गीतों पर उनकी कैसी प्रतिध्याया मिलती है इस पर हम विचार कर चुके हैं।

सन्तों में हमें पुनः हठयोग के अतिरिक्त भावपद्धि की प्रबलता मिलती है किन्तु भावाकुलता के इस पुनस्तथान का उद्गम विन्दु बौद्ध साधना नहीं है। उन पर भक्ति का स्पष्ट प्रभाव है। इनकी भाव साधना का इष्ट न प्रज्ञा है, न शिव, वह है निरंजन अथवा राम। इस दृष्टि से सिद्धों में तथा सन्तों में प्रमुख अन्तर यह है कि वज्रयानी साधक अपने को प्रेमी नायक परिकल्पित कर नारी प्रज्ञा से प्रणय निवेदन करता था जब कि सन्त साधक अपने को नारी परिकल्पित कर राम को पति के रूप में स्वीकार करता है। किन्तु इसमें भी पातिव्रत्य पर जो आग्रह सन्तों ने किया है, वह आश्चर्यजनक रूप में सरहपा के स्वकीयत्व तथा पातिव्रत्य के उस विधान से मिलता है जिसकी ओर हम सिद्ध साहित्य के भाव पद्धि पर विचार करते समय संकेत कर चुके हैं। इसी कारण एक विशेष अन्तर यह भी आ गया है कि सिद्धों के काव्य में विरह पद्धि का या विप्रलम्भ शृङ्गार का इतना प्राचुर्य नहीं है जितना सन्तों के काव्य में है।

वास्तव में उस समय बौद्ध सम्प्रदाय जिस रूप में बचे हुए थे, उसमें उनकी भाव साधना गौण हो गई थी या वैष्णव धारा में अन्तर्भुक्त होने लगी थी, केवल सहज आदि शब्दों का प्रयोग, कुछ परिवर्तित वेश वाले बौद्ध देवता या बौद्ध अनुष्ठान ही शेष रह गए थे अतः उन्हीं का विशेष प्रभाव सन्तों पर पड़ा। उनकी भावभूमि को विशेष परिष्कार भक्ति आन्दोलन से मिला था। सूक्तियों में अवश्य हमें नारी रूप में परमतत्व और नर प्रेमी रूप में साधक का चित्रण मिलता है। किन्तु यह बौद्ध परम्परा का ही प्रभाव था ऐसा कह सकने के लिये हमारे पास कोई प्रमाण नहीं। उनकी प्रेम गायानें बहुत कुछ लोककथाओं के आधार पर लिखी गई हैं जिनमें नाथ पन्थी प्रभाव भी घुलामिल गया है।

आलम्बन के साथ-साथ उद्दीपन विभाव में प्रकृति चित्रण पर थोड़ा

विचार कर लेना आवश्यक है। सन्तों के साहित्य में उसी अन्तस्थ प्रकृति का चित्रण है यद्यपि उसके कमल, नदी, घाट, त्रिवेणी, भँवरगुफा उदीपन आदि शैव योग पद्धति से विशेषतया प्रभावित हैं और बौद्ध तान्त्रिक प्रभाव उसमें लगभग नहीं के बराबर है। यह कमल गंगा त्रिवेणी आदि उपमान जिस देहस्थ चक्र योजना तथा नाड़ी जाल के लिये व्यवहृत हुए हैं उनका सम्यक विवेचन हम कर चुके हैं। सूफ़ी कवियों ने गाथाएँ लिखीं अतः उसमें कथा के निर्वाह के लिये बाह्य प्रकृति की योग साधना के संकेतों से भी समन्वित करने का प्रयास मिलता है।

तान्त्रिक साधनाओं का परित्याग कर देने से नाथ और सन्त परम्परा के नीतिपरक साहित्य का स्वर भी सिद्ध साहित्य में पृथक् हो गया था। हमने सिद्धों के नीतिपरक साहित्य के तीन अंग माने थे—विवेचन, चेतावनी, और खंडन। विवेचन का आभास हमें मिल चुका है। जहाँ तक चेतावनी का सम्बन्ध है नाथ और सन्त दोनों परम्पराओं में निवृत्तिमूलक स्वर की प्रधानता है और जगत को माया समझकर उसके पूर्णतः परित्याग पर विशेष आग्रह है। सिद्धों के भव का भोग करते हुए भी भव से निर्लित रहने का सिद्धान्त त्याग दिया गया है क्योंकि राग से परिशमन न कर, विराग से या फिर हरिभक्ति से भवराग के निषेध का सिद्धान्त मान लिया गया है।

यह निवृत्तिमूलक दृष्टिकोण सिद्धों के ही समय से जैन दोहों में पाया जाता है। बौद्ध सिद्धों ने कहा था कि विषयों में रमते हुये भी विषयों में लित नहीं होना चाहिये किन्तु जैनों ने स्पष्ट कहा है :

खंतु पियंतु वि जीव जइ पावहि सासयमोक्खु ।

रिसद्धु भडारउ किम चवइ सयल वि इन्दिअसोक्खु ॥^६

साथ ही इस पश्चिमी परम्परा में नारी को पूर्णतया त्याज्य माना गया है और उसे साधना को सहसाधिका या महासुद्रा न मान कर सबसे बड़ी बाधा कहा गया :

कुहिएण पुरिएण य छिद्वेण य खारमुत्तगंधेण ।

संताविज्जइ लोओ जह सुणहो चम्मखंडेण ॥

देखंताह वि मूढ बढ रमियइ सुक्खु ण होइ

अम्मिए मुत्तहं छिद्दु लद्दु तो वि ण विणउइ कोवि ॥^७

ज्ञात यह होता है कि पश्चिम के सम्प्रदायों में और उनके दोहा साहित्य

भाव, शैली, भाषा और छन्द

में यह निवृत्तिमूलक दृष्टिकोण प्रधान था और नाथों तथा सन्तों के निवृत्तिमूलक चैतावनी के दोहों में बौद्ध दोहों की अपेक्षा इस परम्परा का अधिक प्रभाव मालूम होता है ।

जहाँ तक खंडन का प्रश्न है बौद्ध दोहों तथा चर्यापदों में उसके जो दो अंश थे —समकालीन अन्य सम्प्रदायों का खंडन तथा एक विशेष स्थिति के बाद बाह्य अनुष्ठानों का खंडन । पीछे हम बौद्ध सिद्धों की साम्प्रदायिक स्थिति तथा उनकी साधना पद्धति में बाह्य अनुष्ठान व उनसे मुक्ति की स्थिति, दोनों ही पर विचार कर चुके हैं । हम पीछे इस और संकेत कर चुके हैं कि नाथ पन्थ में अन्तर्भुक्त बहुत से साधक समूहों तथा सन्तों की सामाजिक स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि उच्चवर्गीय हिन्दू भी उन्हें प्रश्रय नहीं देते थे और न कट्टर मुसलमानों की संकीर्णता ही उन्हें ग्राह्य थी इस कारण उसमें से अधिकांश तथा साधक स्वतंत्र विचारक थे और वे मध्य मार्ग से हिन्दू और मुसलमान दोनों ही के मध्य के निष्पक्ष मार्ग का अर्थ लेते थे । नाथ पन्थ प्रारम्भ में अवश्य बड़ा ही संगठित सम्प्रदाय था, बहुत सी अन्य धाराएँ मिल गईं, बहुत से योगी समूह पूरे के पूरे मुसलमान बना लिये गये, बहुत से गृहस्थ होकर बस गये और उसका वह तैनिक संगठन केवल पश्चिमी प्रदेशों में ही कहीं कहीं रह गया । सन्त परम्परा साम्प्रदायिक संकीर्णताओं से पूर्णतया मुक्त हो सकी, अतः उनके खंडनात्मक साहित्य में कोई पक्षपात नहीं है ।

किन्तु साम्प्रदायिक दृष्टि से खंडन मंडन की यह परम्परा बाद में उन पन्थों में आई जो सन्तों के नाम पर स्थापित हो गये । “जैन धर्म बोध” आदि कितनी छोटी-छोटी कृतियों में साम्प्रदायिक दृष्टि से दूसरे सम्प्रदायों का खंडन कबीरपन्थ के परवर्ती साहित्य में मिलता है ।

बाह्याचार तथा बाह्य अनुष्ठानों की भी यही अवस्था रही । सन्तों ने इन तान्त्रिक अनुष्ठानों का वास्तविक रूप में विरोध किया । वे गुह्याचारों के सख्त विरोधी थे । सिद्ध तो तन्त्र-मन्त्र का निषेध केवल तभी करते थे जब महासुद्रा साधना कर लें किन्तु सन्त तन्त्र-मन्त्र के सर्वथा विरुद्ध थे और किसी रूप में भी उन्हें स्वीकृत नहीं करते थे और भक्ति को ही उन्होंने एकमात्र साधन मान लिया था :

तन्त न जानँ मन्त न जानँ, जानँ सुन्दर काया ।^८

तान्त्रिक गुह्याचारों के मद्य, मांस, मैथुन आदि के भी वे और विरोधी

थे और इसी दृष्टि से न केवल भावभूमि वरन आचारपद्धति में भी वे वैष्णव ही थे। जैसे जैन दोहों में भी श्रावक धर्म के अन्तर्गत मद्य, मांस, पशुबलि का निषेध तथा अहिंसा आदि का विधान मिलता है।^१ किन्तु शाक्तों को असाधु मानते हुए भी जब उनकी निन्दा की गई है तब वहीं वैष्णवों का उल्लेख होने से ज्ञात यह होता है कि उनकी यह परम्परा वैष्णवों से ही प्राप्त हुई है, जैनों से नहीं। किन्तु बाद में कबीरपन्थ में भी मन्त्र, यन्त्र, चक्र (चौका), पशुबलि आदि अनुष्ठानों ने प्रवेश पा लिया जो निस्सन्देह समकालीन तान्त्रिक सम्प्रदायों के प्रभाव का द्योतक है। सुमिरन-बोध में गायत्री का सुमिरन, सोने का सुमिरन, उठने का सुमिरन, यहाँ तक कि शौच करने, दातौन चीरने, टोपी लगाने और सुपाड़ी काटने तक का सुमिरन दिया गया है।^२

वाह्यानुष्ठान के अतिरिक्त जातिभेद तथा शास्त्रज्ञान के प्रति भी सन्तों की आलोचना बौद्ध सिद्धों की आलोचना से विभिन्न प्रतीत होती है। जहाँ तक जातिभेद का प्रश्न है सिद्धों की और सन्तों की परिस्थिति में एक विशेष अन्तर है। बौद्ध सिद्धों के समय में निम्न जातियों की परिस्थिति उतनी खराब नहीं थी और विशेषतया पूर्वी भारत में रूढ़िवादी ब्राह्मणों का उतना आधिपत्य नहीं था। किन्तु सन्तों के समय तक ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थिति बदल चुकी थी। ब्राह्मणों का आधिपत्य अधिक हो गया था और सामाजिक गठन को बार बार ब्राह्मणोक्त मर्यादा में कसने का अतुल्य प्रयास हो रहा था। स्वतः रामानन्द को छूतछात और जात-पाँत का विरोध करने में जितनी कठिनाई उठानी पड़ी वह इस बात का प्रमाण है कि जाति-व्यवस्था अधिक संकीर्ण हो चुकी थी। यद्यपि कहीं कहीं वैष्णव आचार्य इसका विरोध भी करते थे। सन्तों को जातिभेद-निषेध की मुख्य प्रेरणा अपनी तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति से मिली और उसको वैष्णव उदारता में प्रश्रय मिला। किन्तु उसका स्वरूप और शैली सिद्धों के समय से ही चली आने वाली जाति भेद निषेध की परम्परा से अवश्य प्रभावित है। सिद्धों और सन्तों की परिस्थिति में एक अन्तर और था। सिद्धों की अपनी बौद्ध परम्परा थी और उस समय उसका काफी प्रसार था। वे हिन्दू समाज-पद्धति का विरोध करने के उपरान्त भी बौद्ध समाज में आदर पा सकते थे। सन्तों के समय तक समस्त साहित्य संगठन पूर्णतया नष्ट हो चुके थे या छद्मरूप धारण कर चुके थे। अतः सन्तों के लिये जातिभेद की समस्या बहुत तीखी समस्या हो गई थी क्योंकि उसे अस्वीकार करने के उपरान्त उनके पास सिद्धों की भाँति कोई

भाव, शैली, भाषा और छन्द

वैदिक शरणास्थित नहीं था। कतिपय वैष्णव आचार्यों की उदारता ही उनका एक मात्र आश्रय थी। जहाँ यह भी नहीं था वहाँ केवल अद्वय आत्मविश्वास और निष्ठा ही उन्हें प्रेरणा देती थी।

इसी प्रकार शास्त्रज्ञान के निषेध के सम्बन्ध में भी परिस्थिति बदल चुकी थी। तन्त्रकाल के वैदिक तथा अन्य वेद वाह्य सम्प्रदाय शास्त्रज्ञान का विशेष अवश्य करते थे किन्तु उनकी अपनी एक साम्प्रदायिक शास्त्रीय परम्परा होती थी जिसमें उनके आचार्य पारंगत होते थे। अधिकांश वैदिक सिद्ध संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश के महायानी, वज्रयानी और शैव तन्त्रों के भी पंडित थे। बहुत से वेद वेदांगों का भी अध्ययन कर चुके थे। सन्तों के समय तक वैदिक शास्त्रीय परम्परा समाप्त हो गई थी और इन निम्न जातियों से आने वाले सन्तों को ब्राह्मणों की शास्त्रीय परम्परा की उपलब्धि असम्भव थी। इसलिये शास्त्रज्ञान के निषेध का अर्थ इन सन्तों में आकर सर्वथा बदल जाता है। इनमें बहुत-से अध्ययन की अपेक्षा भाव-साधना पर विशेष आग्रह इसलिये भी है कि जो इनके लिये निषिद्ध ठहरा दिया गया था, उसके बगैर भी साधक पूर्णता उपलब्ध कर सकता है, यह वे सिद्ध करना चाहते थे और इसके लिये हरिभक्ति या प्रेम को वे समस्त शास्त्रीय ज्ञान से ऊँचा मानते थे और उसी के दाईं अङ्गों में समस्त ज्ञान का वास मानते थे। हठयोगी सम्प्रदायों में इसी शास्त्रीय ज्ञान का निषेध इसलिये भी किया गया है कि वे साधना को पांडित्य से अधिक महत्व देते थे। सन्तों ने हठयोग साधना का महत्व स्वीकार करते हुए उसमें भक्ति या प्रेम का तत्त्व और जोड़ दिया था।

भावभूमि में नाथों तथा सन्तों का साहित्य वज्रयानी परम्परा से बहुत हट गया था किन्तु जहाँ तक शैली का प्रश्न है, यह परम्परा अविच्छिन्न रूप से रही। यहाँ तक कि वे ही रूपक, वैसे ही प्रतीक, वे ही छन्द संधा भाषा या और वही सन्ध्या-शैली सिद्धों, नाथों और सन्तों के साहित्य पूर्वी बोली में मिलती है। यहाँ तक कि शैली की द्वायार्थक प्रवृत्ति और निहित अभिप्राय के लिये सन्धि शब्द का प्रयोग भी सन्त लोग भूले नहीं थे। इस दृष्टि से कवीर की उस साखी का उल्लेख आवश्यक है जिसको लेकर विद्वानों में बहुत दिनों तक भ्रम रहा है :

बोली हमरी पूर्व की, हमें लखै नहिं कोय
हमको तो सोई लखै, धुर पूर्व का होय ।^{१२}

इस साखी में 'पूर्व' के अर्थ पर अक्सर विद्वानों में मतभेद रहा है और कई विद्वानों ने कबीर की भाषा को भोजपुरी सिद्ध करते समय इसको प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है। वास्तव में यहाँ बोली से उनका तात्पर्य शैली से है और पूर्व से उनका तात्पर्य आध्यात्मिक साधना की सांकेतिकता से है। इसीलिये उन्होंने स्पष्ट यह कहा है कि जो धुर पूर्व का है, जो इन योग साधनाओं में पारंगत है और इन रूढ़ प्रतीकों को समझ सकता है वही मेरी शैली को भी समझ सकता है।

इस पूर्व के अर्थों की ओर हम पहले संकेत कर चुके हैं। नाथों तथा संतों द्वारा स्वीकृत साधना-पद्धति में चन्द्र सूर्य के सामरस्य का मार्ग पूर्व और पश्चिम का मध्य मार्ग बताया गया है :

‘गुह्यात्पश्चिमपूर्वमार्गमुभयं रुद्रानिलम् मध्यम्’...^{१३}
और सुषुम्ना को इन्हीं की सन्धि कहा गया है। नानक ने इसी पूर्व से प्रवेश कर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ने के सुषुम्ना मार्ग को विषमी सन्धि कहा है :

आगासी सरु भरिआ नीर । तामहिं कमल बहुत बिस्थीरु
भौरा लुबधा तां की गंध । नानक लै विषमी सन्धि ॥

किह विधि चन्दु भवनि आवै इहु भानु । किह विधि मरदह मन को मान ॥
पूर्व फिरि पच्छिम को तानै । त्रिजपा जाप जपै मनु मानै ॥^{१४}

बीजक में इसी 'पूर्व' के समीप सन्धि का स्थान बताया गया है :

पूर्व दिसा हंस गति सोई । है समीप सन्धि बूझै कोई ।^{१५}

बाद के कबीरपन्थी साहित्य में तो संधि का इतना महत्व बताया गया था कि उनके बिना हंस (आत्मा) को सही मार्ग मिल ही नहीं सकता :

सन्धि छाप मोहिं देहु बताई । पुरुषनाम मोहि देहु सुभाई
बिना सन्धि जो उतरै घाटा । सो हंसानहिं पावै वाटा ।^{१६}

इस प्रकार साधना पद्धति में इडा तथा पिंगला के मध्य में जो सुषुम्ना मार्ग है उसी को सन्धि कहा गया है और कहीं पर सूर्य तथा चन्द्र का मिलन होता है। यही पूर्व दिशा की सन्धि है और इसी को प्रतीकों में अभिव्यक्त करने वाली शैली सन्धा या अभिसन्धियुक्त शैली है जिसे कबीर ने अपनी 'पूर्वी'

भाव, शैली, भाषा और छन्द

बोली कहा है। इस 'पूर्वा' विशेषण के प्रयोग में पूर्वी देश की जनता को कम-तकृत करने की भावना भी रही होगी किन्तु उनका प्रमुख अभिप्राय भौगोलिक पूर्व न होकर चन्द्र-सूर्य योग की साधना था और उनके अधिकांश प्रतीक-बहुल पद और साखियाँ इसी चन्द्र-सूर्य-योग का विवेचन करते हैं। उनके भक्ति भाव तथा खंडन आदि के पद और दोहे जटिल प्रतीकयोजना से युक्त हैं। इसमें भी इसी का आभास मिलता है कि इस अभिसन्धियुक्त प्रतीकात्मक शैली की परम्परा सन्तों को परम्परागत तान्त्रिक तथा योग पद्धतियों के भाव-साहित्य से मिली है। इस सन्धा शैली के अधिकांश प्रतीक तथा उपमान भी वे ही हैं जो सिद्धों के दोहों और पदों में व्यवहृत हैं।

साधना-पद्धति पर विचार करते समय निम्नलिखित उपमानों का उल्लेख किया जा चुका है :

अन्धा व्यक्ति (अज्ञानी गुरु या श्रद्धाहीन शिष्य), उड्डियान (देहस्थ पीठ), कामरूप (देहस्थ पीठ), गंगा (शक्ति या इडा), यमुना (पिंगला) संगम (सुषुम्णा), मेरु पर्वत (मेरुदंड), कमल (देहस्थ चक्र), बद्ध तुरंग (स्थिर मन अथवा पवन), कुंजी ताला (श्वसननिरोध), दत्त कपाट (दशमद्वार में श्वासनिरोध), चोर (वासनात्मक मन), अग्नि (चंडाग्नि अथवा ब्रह्माग्नि) दीपक (ब्रह्माग्नि का प्रकाश), चन्द्र (प्रज्ञा, शिव), सूर्य (शक्ति या उपाय), योगिनी (महासुद्रा, सुरति), सप्त (सुषुम्णा, श्वास, माया), ननद (वासना), साली (श्वासनिरोध या सृष्टि जाल)।

इसके अतिरिक्त जो प्रमुख उपमान सिद्धों के दोहों तथा चर्यापदों और परवर्ती सन्तों अथवा नाथों के साहित्य में समान रूप से व्यवहृत किये गये हैं, वे निम्नांकित हैं :

१. तरुवर

चर्यापदों में तरुवर कई उपमेयों का उपमान है काया, चित्त, सृष्टि वित्तार, सहज तत्व।

काया 'काया तरुवर पंचवि डाल (चर्यापद १)

'तरुवर एक अनन्त डार साखा पुहुप पत्र रत्त भरीआ ॥'

(सन्त कथीर पृ० १८१)

चित्त 'अद्वय चित्त तरुवरह गउ तिहुवणै वित्तार'

(दोहाकोष पृ० ३८)

‘भौमि विनां अरू बीज बिन तरवर एक भाई
अनन्त फल प्रकासिया गुरु दिया बताई ।’

(कबीर-ग्रंथावली पृ० १३६)

सृष्टि-विस्तार ‘नाना तरुवर मोउलिल रे गअरणत लागेलि डाली ।’

(चर्यापद २८)

‘अछै पुरुष इक पेड़ है निरंजन वाकी डार
तिरदेवा साखा भये पात भया संसार ।’

(संतबानी संग्रह पृ० २३)

सहज या परम तत्व ‘सहज महातरु फरिए तेलोए ।’

(चर्यापद ४३)

‘सहज सुनि इकु बिरवा उपजा धरती जलहरु सोखिआ’

(संत कबीर पृ० १८१)

२. पत्ते या पल्लव (प्रकृति)

‘आशा बहल पात फल बाहा ।’ (चर्यापद ४५)

गत फल फूल तत्त तर पालव अंकुर बीज नसाना ।

(कबीर ग्रंथावली पृ० ६०)

३. करभ (मन)

‘एमइ करहा पेखु सहि विहरिअ मंडु पड़िहाइ ।’

(दोहाकोष पृ० २४)

‘न्यूंति जिमाऊं अपनों करहा छार मुनिस की डारी रे ।’

(क० ग्रं० पृ० ११२)

४. गाय (इन्द्रियाँ)

‘गविआ बांभे’ ।

(चर्यापद ३३)

‘काल्ह जुतेरी बंसरिया छीनी कहा चरावै गाइ ।’

(क० ग्रं० पृ० १४७)

‘एक गाइ नौ बछड़ा पंच दुहेवा जाइ ॥’

(गोरखबानी पृ० ११३)

५. बैल (मन, बोधिचित्त)

‘बलद बिआअल’.....। (चर्यापद ३३)

‘फील रबाबी बलद पखावज कउआ ताल बजावै’

(संत कबीर पृ० ६६)

‘मन बछौ ।’

(गोरखबानी पृ० २५४)

भाव, शैली, भाषा और छन्द

६. गज

गज का प्रयोग चर्यापदों में दो रूप में हुआ है— कमलवन में प्रवेश करने वाला प्रवृत्त मन तथा माया-शबलित उन्मत्त मन ।

साधना-प्रवृत्त मन :

जिम जिम करिणा करिणारे रिसअ, तिम तिम तथता मअगल
वरिसअ । (चर्यापद ६)

गुरु प्रसाद खड़े के नाकें हस्ती आवैं जाहीं

(क० ग्रं० पृ० ६१)

दसवैं दरवाजै कुची सार, मैमन्त हस्ती शिवा घर
(गोरखदानी पृ० १७५)

मायाग्रस्त मन—

‘अविद्या करिकुं दम अकिलेसैं ।’ (चर्यापद ६)

‘हरि है खांडु रेतु मंह बिखरी हाथी चुनी न जाइ’

(संत कवीर पृ० २८२)

७. मूषक (मन)

‘निसि अन्धारी मूसा आचारा । (चर्यापद २१)

‘मूसा पैठा बाँबि मैं लारैं सांरणि धाई ।’

(कवीर ग्रं० पृ० १४१)

८. मोंडक (मन)

‘वैंगस साप वटिल जाअ ।’ (चर्यापद ३३)

‘मोंडक सोवैं साँप पहरइया (क० ग्रं० पृ० ११३)

९. सांप (संसार)

(उपयुक्त उदाहरणों के अनुसार)

१०. शृगाल (मन)

‘निति निति सिआला सिहे सम जुभअ ।’ (चर्यापद ३३)

‘नित उठि स्याल स्वंध सूं भूँसै’ (क० ग्रं० पृ० ११३)

११. सिंह (वालनायुक्त मन)

(उपयुक्त उदाहरणों के अनुसार)

१२. भुजंग (साधक; कुंडलिनी रूपी नागिन का स्वामी)
 'शत्रु रो भुजंग नैरामणि दारी पेम्ह राति पोहाइली' (चर्यापद २८)
 'ऐसा भुवंगम जोगी करे ।
 धरती सोधै अम्बर भरै ।' (गोरखवानी पृ० १७४)
 'साहर सोखि भुजंग बलइओ' (सन्त कबीर पृ० १०५)
 'भुजंग सोइ जाके मनि उंजियारा ।' (प्राण संगली पृ० ५०)
१३. हंस (चित्त, पवन या प्राण)
 २४ वें चर्यापद (मूल अप्राप्य) के तिब्बती रूपांतर में निर्मल मन के लिये प्रयुक्त ।
 'सोहम बाई हंसा रूपी प्यंड बहै ।' (गोरखवानी पृ० ६६)
 'कहै कबीर स्वामी सुख सागर हंसहि हंस मिलावैगे ।' (क० ग्रं० पृ० १३७)
१४. भवरा (कमल चक्रों का प्रेमी मन या पवन)
 'महुअर रूपे सुरअ वीर जिघइ मअरन्दए ।' (दोहाकोष पृ० ४१)
 'भवरु एक पुहुप रसुबीधा बाहर ले उर धारिआ ।' (संत कबीर पृ० १८१)
१५. मृग (पंचेन्द्रियों के विषयों में आसक्त मन)
 'अपणा मांसे हरिणा वैरी ।' (चर्यापद ६)
 'सन्तनि एक अहेरा लाधा, मिर्गनि खेत सबनि का खाधा ।'
 (क० ग्रं० पृ० २०६)
 'ह्यौ ह्यौ मृगलौ बेधियौ बाण ।' (गो० बा० पृ० ११६)
१६. हरिणी (माया)
 चर्यापदों में हरिणी प्रज्ञा तथा माया दोनों का वाचक है । (चर्यापद ६ तथा २३) ।
 सन्तों ने इसे माया या मनसा के अर्थ में प्रयुक्त किया है—
 'माया जाल पसारि रे बाधेलि मात्रा हरिणी ।' (चर्यापद २३)
 'बन की हिरनी कूवै बियानी ससा फिरै आकासा ।' (क० ग्रं० पृ० १४७)
१७. अहेरी, पारधी (साधक)
 'जाइ तुम्हें भुसुकु अहेरी जाइवें मारिहणि पंचजणा' (चर्यापद २३)
 'गौब्यन्दै तुम्हरौ बन कन्दलि मेरो मन अहेरा खेलै ।' (क० ग्रं० पृ० १५६)
 'आइसो भील पारधी हाथि हाथ न पाई ।' (गो० बा० पृ० ११६)

भाव, शैली, भाषा और छन्द

१८. हरिण-मांस (ज्ञान)

‘हण विणु मांस भुत्तुकु नलिनिवन पइसहिलि ।’ (चर्यापद ३३)

‘सावज न होय भाई सावज न होय, बाकी मांसु भखै सब कोय ।’

(बीजक पृ० २५३)

१९. वाण, शर (गुरुवचन, शब्द, ज्ञान)

‘गुरु वाक पुंछिया विन्ध निअनण वाणै

एके शरसन्धाने विंधह धिंधह परननिअरै ॥’ (चर्यापद २८)

‘गुरु के वाणि वजर कल छेदो प्रगटिया पुत्र परमात्ता’

(सन्त कवीर पृ० २५३)

२०. जलधि (भव)

‘तरिस्ता भवजलधि जित करिनाथ तुइया ।’ (चर्यापद १३)

‘विपम भयानक भौजला तुम दिन भारी होइ ।’ (दावूदयाल की

बानी २, पृ० ७)

२१. नौका

नौका के दो उपमेय हैं काया तथा ईश्वर :—

काया

‘काया गावड़ि खान्ति मन केडुआल’ (चर्यापद ३८)

‘अजहु तु नाउ समुंद्र महि किआ जानउ किया होइ’

(सन्त कवीर पृ० २५४)

ईश्वर

‘तिशरण नावी किअ अठक मारी ।’ (महामुख-कायारूपी नौका,

चर्यापद १३)

‘नौवे नाम निरंजन नौका कनहरि गुनहिं चलावै ।’

(गुलाल की बानी पृ० १२८)

२२. नौका के छिद्र या सन्धि

‘गअण दुखोलें सिंचउ पाखी न पइसइ सन्धि ।’ (चर्यापद १४)

‘कवीर वेड़ा जरजरा फूटे छैकि हजार ।’ (सन्त कवीर पृ० २५३)

२३. नगरी (काया)

‘देह नअरी विहरइ एकाकारै ।’ (चर्यापद ११)

‘कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो ।’ (सन्त-बानी-संग्रह पृ० ४)

‘काया हमारे सहर बोलिये मन बोलिय हुजदारं ।’ (सो० बा० पृ० १२०)

२४ मेघ (करुणा, गुण)

‘करुणा मेह निरन्तर फरिआ १’ (चर्यापद ३०)

‘कबीर गुण की बादली तीतरबानी छांह १’ (क० ग्रं० पृ० ३४)

‘उतर देस में मेह धड़क्या दक्षिण आचल छाया १’

(गो० बा० पृ० १२५)

२५. चौपड़ (ज्ञानक्रीड़ा)

‘करुणा पिहाड़ि खेलहुँ नअवल १’ (चर्यापद १२)

‘चौपड़ि माहीं चौहटै अरध उरध बजार १’ (क० ग्रं० पृ० ४)

२६. कपास (चित्त)

‘तुला धुनि आंशु रे आंशु १’ (चर्यापद २६)

‘धुन धुन धुन डालूँ अब मन को १’ (सन्त-काव्य पृ० ५४६)

२७. सोना (शून्य ज्ञान)

‘सोने भरिती करुणा नावी’ (चर्यापद ८)

‘अरधै सोना उरधै सोना मध्ये सोनम सोना १’ (गोरखवानी पृ० ६२)

२८. रूपा (रूपादि पंचस्कन्ध, सांसारिक ज्ञान)

‘रूपा टोइ नाहिक ठावी १’ (चर्यापद ८)

‘सोने रूपै सीमै काज, तो राजा कत छोड़ै राज’ (गो० बा० पृ० १७७)

२९. कर्पूरयुक्त ताम्बूल

‘हिअ तांबोला महासुह कापुर खाइ १’ (चर्यापद २८)

‘काम क्रोध बाली चूना कीधा कन्द्रप कीया कपूरं १’

(गोरखवानी पृ० १०६)

३०. वीणा

‘सुज्ज लाउ ससि लागेलि तांती’

(चर्यापद १७)

‘ज्ञान गुरू दोउ तूबा अम्हारे मनसा चेतनि डांडी १’

(गो० बा० पृ० १०६)

‘तत करि तांति धर्म करि डांडि सत की सारि लगाइ ।

जोगिया तन कौ जन्त्र बजाइ १’ (क० ग्रं० पृ० १५६)

चन्द सूर दोउ तूबा करिहुँ चित चेतनि की डांडी

सुधमन तन्ती बाजण लागी इह विधि त्रिषणां खांडी ॥

(क० ग्रं० पृ० १५४)

भाव, शैली, भाषा और छन्द

३१. काग (अज्ञानी चित्त)

‘दिवसइ बहुड़ी काअ डरे भाअ ।’ (चर्यापद २)

‘कागिल गर फाँदिया बटेरै वाज जीता ।’ (क० ग्रं० पृ० १४१)

३२. आंगन (उष्णीष कमल, अन्तःकरण)

‘आंगण घरपण सुन भो विश्राती ।’ (चर्यापद २)

‘मांग न खाइ न भूखा लोवै घर अंगना फिरि आवै ।’

(क० ग्रं० पृ० १५८)

३३. जुलाहा (जीव)

तन्त्रीया २५वें चर्यापद में साधक के लिये जुलाहे (तन्त्री) का प्रतीक प्रयुक्त करते हैं । इस पद का मूल अप्राप्य है, तिब्बती रूपान्तर डा० वागची ने दिया है । (चर्यापद पृ० ५४)

‘माथौ चले जुनावन माहा, जग जीतें जाइ जुलाहा ।’

(क० ग्रं० पृ० १५३)

३४. कलाली या शौंडिकी

‘एक से शूंडुनि दुइ धरे सान्धअ ।’ (चर्यापद ३)

‘काइआ कलालनि लाहनि मेलउ गुर का सद्द गुडु कोन रे ।’

(संत कबीर पृ० १७६)

‘गुडु करि धिआन गिआन करि महुआ मउ भाठी मन धारा

मुखमन नारी सहज समानी पीवै पीवनहारा ।’ (संत कबीर पृ० १७७)

इस प्रकार हम देखते हैं कि पचास से भी अधिक (पिछले २० — ३४) उपमान ऐसे हैं जिनको सिद्धों ने विशेष प्रतीकात्मक अर्थों में प्रयुक्त किया है और उनके वे प्रतीकार्थ परवर्ती परम्परा में भी ज्यों के त्यों अथवा थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में स्वीकृत कर लिये गये हैं । इन प्रमुख उपमानों के अतिरिक्त भी बहुत से उपमान इन प्रमुख उपमानों के साथ रूपक को पूरा करने के लिये गौण रूप में सिद्धों तथा उनकी परवर्ती परम्परा में समान रूप से प्रयुक्त होते रहे हैं—जैसे मादल, रात्रि, निद्रा, वर, वधू, मंडप, पुरोहित, पयंक, निद्रा, हाँड़ी (काया), करवा, घट, भट्टी, मद्यपात्र, तूर्य, शंख, पतवार, सूत, ताना-बाना, चादर आदि । बहुत से उपमान ऐसे हैं जो सिद्धों ने भी प्रयुक्त किये हैं और नाथों तथा

सन्तों ने भी किन्तु वे मध्यकालीन भारतीय दार्शनिक चिन्तन की सम्मिलित सम्पत्ति थे जैसे बंध्यासुत, रज्जु सर्प, आकाश कुसुम, शशशृङ्ग आदि ।

सिद्धों के इन उपमानों तथा प्रतीकों के सम्बन्ध में परवर्ती परम्परा में पाँच प्रमुख संशोधन या परिवर्तन हुए हैं :

१. ऐसे बहुत से प्रतीक या उपमान लुप्त हो गये जो बौद्ध चिन्तना या साधना-पद्धति के उन तत्वों से सम्बन्धित थे जो बाद में नाथ या सन्त-परम्परा में स्वीकृत नहीं किए गये ।
२. बहुत से प्रतीक या उपमान परवर्ती साहित्यिक परम्परा में स्वीकृत किये गये किन्तु उनके बौद्ध उपमेयों के स्थान पर हिन्दू हठयोग के समानान्तर उपमेय रख दिये गये जैसे गंगा यमुना, ललना रसना के स्थान पर इडा पिंगला के प्रतीक हो गये ।
३. वैष्णव तथा सूफी साधनाओं से प्रभावित होने के कारण ये उपमान कभी कभी उन नये उपमेयों से भी सम्बद्ध हो गये जो वैष्णव या सूफी परम्परा से लिये गये थे जैसे अग्नि चंडाग्नि के साथ साथ विरह का भी प्रतीक हो गई, वर साधक के साथ साथ राजा राम का भी प्रतीक हो गया ।
४. कुछ ऐसे प्रतीक हैं जो सिद्धों में भी प्रयुक्त हैं और सन्तों में भी, किन्तु प्रासंगिक अर्थों के कारण वे बौद्ध के बजाय हिन्दू परम्परा से आगत प्रतीक होते हैं । उदाहरणार्थ दूसरे चर्यापद में 'कच्छप' प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुआ है । उसके लिये दुलि शब्द का प्रयोग हुआ है, मुनिदत्त ने अपनी टीका में 'द्वयम् लीनं गतं यस्य' अर्थात् महासुख कमल बताया है किन्तु सन्तों ने उसे अन्तर्मुखी वृत्तियों वाले साधक के अर्थ में प्रयुक्त किया है जो हिन्दू परम्परा के अधिक निकट है ।
५. कभी कभी भाषा के विकास के साथ कुछ शब्दों की शक्ति का भी विकास हुआ है और सन्तों ने श्लेष के आधार पर उन शब्दों को नये प्रतीकात्मक अर्थ दे दिये हैं । उदाहरण के लिये 'विनानी' शब्द विज्ञानी का अपभ्रंश रूप है और तथता-विज्ञानी के अर्थ में सिद्धों ने प्रयोग किया है । 'तथता' का अंश निकाल कर केवल तत्वज्ञानी के अर्थ में उसका प्रयोग बराबर होता रहा यहाँ तक कि सूर ने भी इस शब्द का इसी रूप में प्रयोग किया है : 'कबहुक भेस दिखाइ विनानी ।' किन्तु कबीर ने इससे बुनने वाले का

भाव, शैली, भाषा और छन्द

अर्थ लेकर जुलाहे का पर्याय बना दिया है 'करगहि एक विनानी, ता भीतर पंच परानी' (कवीर ग्रं० १८६)।

हम पहले ही संकेत कर आये है कि सन्धा शैली में अपस्तुतों तथा प्रतीकों की द्विविध योजना प्रचलित थी, और अपस्तुतक तथा रूपक-योजना विरोधमूलक। यही सन्तों के साहित्य में रूपक तथा उलट-वांसी के नाम से प्रख्यात हुई। अपने रूपकों में सन्तों ने इन्हीं उपमानों को नियोजित कर तत्व का उपदेश दिया। उनके बहुत से रूपक ऐसे हैं जो सिद्ध परम्परा से चलते चले आ रहे हैं जैसे कलाली का रूपक, जुलाहे का रूपक, विवाह का रूपक आदि। किन्तु उपमानों को पूर्वागत योजना स्वीकार करते हुए भी सन्तों तक आते आते उनका उपमेय पक्ष बौद्ध के स्थान पर हिन्दू रूप धारण कर चुका है। दो तीन रूपकों की तुलना कर लेने से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

वीणापा ने वीणा के रूपक में (चर्यापद १७) जो उपमान रक्खे हैं कवीर ^{१७} ने जन्त्री के रूपक में लगभग उन्हीं उपमानों का प्रयोग करते हुए भी कुछ परिवर्तन कर दिया है :

वीणापा		कवीर	
तूँवा	सूर्य	तूँवा	सूर्य, चन्द्र
दंडिका	अवधूती	दंडिका	चैना
तार	चन्द्र	तन्त्री	सुपुम्णा
सारिका	आली काली		
ध्वनि	करुणा (उपाय)		

अन्य कई स्थानों पर कवीर ने इसी रूपक को और ढंग से भी प्रस्तुत किया है। एक स्थान पर वे धर्म को दंडिका, तत्व को तन्त्री और सत्य को सारिका बताते हैं। ^{१८} दूसरे स्थान पर वे इसी रूपक को रत्नाव के रूपक में बदल देते हैं। गोरखवानी में इसी रूपक में ज्ञान और गुरु तूँवा, मनसा दंडी और उन्मनी अवस्था तन्त्री बताई गई है। ^{१९}

शुंडुनी के रूपक में भी बहुत से नये तत्व और नई व्याख्याएँ जुड़ गई हैं। विरुपा की उपमान-योजना इस प्रकार थी :

कलाली (शूडिनी)	परिशुद्धावधूतिका
दो घर (घट)	ललना रसना
वल्कल चूर्ण	सभृत्ति चित्त
दशम द्वार	वैरोचन द्वार
ग्राहक	गन्धर्व सत्व (बोधिचित्त)
नली	शुक्र नाड़ी

कबीर में कई स्थानों पर यह रूपक मिलता है ।^{२०} जिनमें उपमेय पद में कुछ परिवर्तन हो गया है :

पहला रूपक	दूसरा रूपक	तीसरा रूपक
कलाली- सहज शक्ति	आत्मा	काया
भट्ठी ब्रह्मरन्ध्र	ब्रह्मरन्ध्र	चौदह भुवन
दसवाँ द्वार ...	शून्य रन्ध्र	
ग्राहक- सन्त	सन्त	

इसके अतिरिक्त कबीर ने अपने कलाली के रूपकों में गुडरूपी ज्ञान, महुआरूपी ध्यान, अग्निरूपी ब्रह्माग्नि, कलालरूपी जप तप, पालारूपी पवन, ईंधनरूपी काम क्रोध आदि की कल्पना कर इस रूपक को बहुत विस्तार प्रदान कर दिया है । कालान्तर में अन्य सन्तों ने भी इस रूपक को कई ढङ्ग से विकसित किया है ।

इसी प्रकार का दूसरा रूपक विवाह का रूपक है । काएहपा ने (चर्यापद १६) में बारात का रूपक बांधते हुए निम्नांकित उपमान प्रयुक्त किये हैं :

भव-पटह, निर्वाण-मादल, मनपवन—धक्का-ध्वनि करनेवाले बाराती,
डोम्बी-वधू, अनुत्तर-दहेज ।

कबीर में एक स्थान पर यह रूपक इस प्रकार मिलता है :^{२१}

बाराती-पाँच तत्व, वर-राम, वधू-आत्मा, गायिकाएँ-इन्द्रियाँ, पुरोहित-चक्रस्थ ब्रह्म ।

दूसरे स्थान पर यही रूपक और भी विस्तृत हो गया है और उसमें उपमान इस प्रकार हैं :^{२२}

रत्नाब्र आदि बजाने वाले-हाथी, बैल, कौवा, गधा, भैंसा, सिंह, मूषकी;
कच्छप, शशक आदि-कर्मेन्द्रियाँ तथा ज्ञानेन्द्रियाँ; कुलीन वर—जीवात्मा, मंडप-

भाव, शैली, भाषा और छन्द

शरीर, वधू-माया, गायिकाएँ-शब्द, होम की अग्नि—ब्रह्माग्नि, पुरोहित-कच्छप रूपी स्थितप्रज्ञ गुरु ।

विवाह के बाद की विदा का रूपक इस प्रकार है :^{२३}

वधू-आत्मा, पीहर—संसार, समुराल-ब्रह्मलोक, डोली-शरीर, पाहुन-गुरु, विदा—मृत्यु ।

जुलाहे का रूपक कबीर का अत्यन्त प्रिय रूपक है । सिद्धों में तन्त्रिया ने (चर्यापद २५) करघे के ही रूपक से प्रज्ञोपाय-साधना का वर्णन किया है उनके रूपक में उपमान इस प्रकार हैं :

जुलाहा—साधक, सूत्र—मनोवृत्तियाँ, चादर—तन, करघे का शब्द—अनाहतनाद ।

कबीर ने न केवल इस रूपक को अत्यधिक विस्तार दिया है^{२४} वरन् एक स्थान पर ईश्वर को कोरी मान कर सृष्टि को उसी का ताना बाना माना है ।^{२५}

इस प्रकार कबीर ने इन रूपकों को पूर्वागत परम्परा से ग्रहण करते हुए भी इनमें बहुत से संशोधन कर दिये थे । स्वतः कबीर तक आते आते इन रूपकों की योजना बहुत परिवर्तित हो चुकी होगी । बाद के सन्तों ने अधिकतर इन्हीं रूपकों को अपनाया है और इनमें बहुत विकास होता गया है । बहुत से स्थलों पर तो केवल अनुकरण मात्र है और पुनरावृत्ति है । किन्तु कहीं कहीं सिद्धों के पदों से मिलकुल मिलते जुलते हुए पद मिल जाते हैं जिनकी न केवल उपमान योजना लगभग एक सी है वरन् पूरा पद एक सा प्रतीत होता है । उदाहरण के लिये शान्तिपा और सन्त शिवदयाल साहब के पद तुलनीय हैं जिनमें कपास धुनने के रूपक से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का वर्णन है :

शान्तिपा : तुला धुणि धुणि आंसु रे आंसु
आंसु धुणि धुणि निखर सेसु ॥
तउसे हेरुअ ण पाविअइ
तुला धुणि धुणि सुणे अहारिउ ॥
पुण लइआ अपणा चदारिउ ॥... चर्यापद २६

शिवदयाल : धुन धुन धुन डालूँ अब मन को
 मैं धुनिया सतगुरु चरनन को
 मन कपास सुरत कर रूई
 काम बिनौले डाले खोई ॥
 टुई साफ धुनकी सुधि पाई
 नाम धुना ले गगन चढ़ाई ॥ सन्तकाव्य पृ० ५४६

इस प्रकार के कुछ रूपकों में किन कारणों से संशोधन और विस्तार हुआ और कभी कभी कैसे उनके कारण कुछ अन्य सहायक उपमान भी स्वीकृत कर लिये गये हैं इस पर विचार कर लेना आवश्यक है। उदाहरण के लिये हम तीन रूपक लेंगे : क-सुमेरु पर्वत का रूपक। ख-घोड़े तथा सवार का रूपक। ग-ताला कुंजी तथा चोर का रूपक।

बौद्ध योग परम्परा में मेरुपर्वत को मेरुदंड का उपमान मान कर उस के शिखर पर प्रज्ञा नारी या नैरात्म्य बालिका वास माना गया था। उसी के शिखर पर शबरपा ने शबरी का वास माना था। मेरुपर्वत सुमेरु का रूपक का यह रूपक सन्त-परम्परा तक बराबर चला आया। नानक ने तथा अन्य सन्तों ने इसी मेरु शिखर पर सहज तथा शून्य की स्थिति बताई थी :

नानक—चढ़ि सुमेरु बैसे अस्थानु, निभरु भरे धुनि सहजि ध्यान ॥^{२६}

दरिया—दरिया चढ़िया गगन की, मेरु उलंघा डंड

सुख उपजा साईं मिल्या मेटा ब्रह्म अखंड ।

दरिया मेरु उलंघ करि पहुँचा त्रिकुटी संघ ।

दुख भाजा सुख ऊपजा, मिटा मर्म का धुन्ध ॥^{२७}

इसी के सर्वोच्च शिखर अर्थात् त्रिकुटी को शून्य शिखर कहा जाता था और वही शून्यकमल तथा सहज अभीरस का वर्णन माना जाता है :

गुलाल—सुन्न सिखर सरोज फूलो बंकनाल हि जाव

कह गुलाल अतीत पूरन, आपु में घर पाव ॥^{२८}

सुन्न सिखर चढ़ि जाइव हो बाजत अनहद तार ।

उमंगि उमंगि सखि गावहि हो, मानिक देव लिलार ॥^{२९}

भाव, शैली, भाषा और छन्द

सुमेरु के शिखर का 'शून्य' नाम बौद्ध परम्परा के अवशिष्ट प्रभाव का द्योतक है, किन्तु इसका एक दूसरा नाम कैलाश भी है जो शैव परम्परा का परिचायक है। हम पहले ही देख चुके हैं कि 'उरध' में शिव का वास बताया गया है। इसी शिव के वास के कारण मेरु शिखर अथवा त्रिकुटी को कैलाश भी कहते थे। जायसी ने भी इसी शैव परम्परा का उल्लेख पद्मावत में किया है :

अहुठ हाठ तन जैस सुमेरु, पहुँचि न जाइ परा तसकेरु।

तिन्ह पावा उत्तिम कविलासु, जहाँ न मीचु सदा सुख वासु।

कंचन मेरु देखावसि जहाँ, महादेव कर मंडप तहाँ ॥^{३०}

किन्तु यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है। बौद्ध परम्परा में मेरु शिखर को सर्वोच्च महानुख-चक्र अर्थात् कपाल में स्थित माना गया था। हिन्दू परम्परा में मेरु का शिखर केवल ललाट (आज्ञा चक्र) तक है और वहीं शून्य समाधि सम्पन्न होती है। ललाट का यह महत्व शैव योग-परम्परा के कारण है, बौद्ध परम्परा के कारण नहीं। बौद्धों में ललाट का महत्व केवल सेकोद्देश टीका में मिलता है, अन्यत्र नहीं।

मेरु शिखर के साथ सन्तों ने कुछ वैष्णव भावनाएं भी जोड़ी। दादू ने मेरु पर्वत पर राम भक्ति के जल की वर्षा का वर्णन किया है :

मेरु शिखर चढ़ि बोलि मन मोरा

राम जल बरिसै सबद सुनि तोरा ॥^{३१}

कबीर ने तो अन्त में राम को ही मेरु पर्वत बताया है जिनकी शरण उन्होंने ग्रहण की है और इस प्रकार भक्ति के सामने योग को गौण मान लिया है :

तू मेरो मेरु परबतु सुआमी ओट गही मैं तेरी

ना तुम डोलहु ना हम गिरते रखि लीनी हरि मेरी ॥^{३२}

यहाँ पर मेरु पर्वत का उपमान अचलत्व के साधर्म्य के कारण ग्रहण किया गया है, योग पद्धति के मेरु दंड के नाम साम्य के कारण नहीं।

पार्वती कबीरपन्थी साहित्य में सुमेरु के पाँच शिखर बताये गये हैं और उनमें भी मध्य आसन विष्णु को दिया गया है। ईशान कोण में ध्रुव, वायु कोण में कुबेर, नैऋत्य कोण में यम, अग्नि कोण में इन्द्र और मध्य में विष्णु। उसके आगे शून्य की डोरी, निर्वाण के पथ और अन्त में शक्ति रूपी नारी का मिलन बताया है जो सच्चा वाममार्ग है और अघोर साधना है।

घोड़ा तथा सवार का रूपक

पवन-निरोध के लिये पवन को घोड़ा मानकर उसे वशीभूत करने का रूपक सिद्धों ने बांधा है जो नाथपन्थियों की बानी में भी मिलता है :

सरहपा एहु मण मेल्लह पवण तुरंग सुवंचल
सहज सहावे णे वसइ होइ णिच्चल ।^{३४}

गोरखबानी सहज पलांग पवन कर घोड़ा, लै लगाम चित चक्का
चेतनि असवार ग्यांन गुरू करि और तजो सब दक्का ।^{३५}

सन्तों ने भी पवन निरोध के लिये यही रूपक अपनाया है । कब्रों भी सहज के पांवड़े से युक्त मनरूपी अश्व पर सवारी करते हैं ।

देह मुझार लगामु पहिरावउ, सगलत जीन गगन दउरावउ ।
अपनै बीचारि असवारी कीजै, सहज कै पांवड़ै पगु धरि लीजै ।
चलि रे बैकुंठ तुभहि लै तारउ । हित हित प्रेम कै चाबुक मारउ ।
कहत कबीर भले असवारा, वेद कतेव तै रहै निरारा ॥^{३६}

पलट्टू के एक रेखते में इस पवन के घोड़े पर सुरति को सवार बताया गया है और जीन लगाम आदि की कल्पना से पूरा रूपक बांधा है :

सत्त को जीन, संतोष लगाम है, गुरुज्ञान को पाखर जाय डारा
बिस्वास रकाव में जुगति की एड़ दै, पांच पच्चीस मवास मारा
पवन का घोड़ा सुरति असवार है, प्रेम की ढाल है मर्म माला
विवेक देवान इन्साफ पर बैठि के मुक्ति को कैद जंजीर डाला ।^{३७}

इस प्रकार सन्तों में पवन निरोध का घोड़े की सवारी वाला रूपक केवल प्राणायाम साधना का ही बोधक नहीं रह गया, उसमें सत्य, सन्तोष, विश्वास, विवेक आदि सद्गुणों का भी समन्वय हो गया है, यहाँ तक कि दरिया साहब तो उसे पवन का उपमान न मान कर केवल ज्ञान का उपमान मानने लगते हैं :

ज्ञान का घोड़ला सुन्न में दौड़िया, सुन्न में सुरति है शब्द सारा ।^{३८}

ताला-कुंजी तथा चोर का रूपक

इस प्रकार पवनबन्ध का एक दूसरा रूपक सिद्धों ने ताला कुंजी के उपमानों से भी प्रस्तुत किया है और धीरे-धीरे सन्तों की परम्परा में उसका भी पवन-निरोध वाला अर्थ नष्ट हो गया है, केवल प्रयोग की परम्परा चलती रही ।

प्राणायाम द्वारा पवन के बन्ध को वज्रयानी सिद्ध अध और उर्ध्व मार्ग में ताला लगाने के रूपक से व्यक्त करते थे :

भाव, शैली, भाषा और छन्द

कायहपा पवण गमण दुआरे दिड ताला वि दिज्जइ
जइ तसु धोरांधारे मण दिवहो किज्जइ ।^{२०}
गुंडरीपा सासु धरे घालि कौंचा ताल
चांद सुज वेणै पखा फाल ॥^{२१}

नाथयन्थी वानियों में भी इस ताला कुंजी के रूपक द्वारा वन्यवन का वर्णन मिलता है, यद्यपि उसमें दो संशोधन हो गये हैं। एक तो शब्द या नाद-योगपद्धति की प्रधानता के कारण नाद जाग्रत करने, या नाद को अन्तर्मुखी करने के लिये भी ताज्ञा लगाने का रूपक प्रयुक्त होने लगा। दूसरे ताला लगाने के साथ साथ, दसवें द्वार या ब्रह्मरन्ध्र का ताला खोलने की कल्पना भी ग्रहण की गई। अन्त में, शब्द को ताला और चरमावस्था निःशब्द को कुंजी मान लिया गया (इस निःशब्दावस्था पर वज्र-जप के अन्तर्गत प्रकाश डाला गया है)

कुम्भक के प्रसंग में—

अरधै उरधै लाइलै कूंची थिर होवै मन तहाँ थाकीले पवणां ।
दसवां द्वार चीन्हिलै, छूटै आवागवनां ।^{२२}

खेचरी मुद्रा के प्रसंग में—

कूंची ताली सुधमन करै । उलटि जिम्बा ले तालू धरे ।^{२३}
शब्दयोग के प्रसंग में—

सवदहिं ताला, सवदहिं कूंची सवदहिं सवद जगाया ।
सवदहिं सवद सूं परचा हुआ, सवदहिं सवद सनाया ॥^{२४}
अवधू निहसवद कूंची, सवद ताला ॥^{२५}

सन्त साहित्य में भी प्राण-पवन के बन्धन के अर्थ में ताला कुंजी का प्रयोग मिलता है। अधिकतर इसका, प्रयोग त्रिकुटी में ध्यान को कुम्भक द्वारा केन्द्रित करने के प्रसंग में मिलता है :

कबीर खट नेम करि कोठड़ी बाँधी वसतु अचूपु बीचु पाई
कुंजी कुलफु प्रान करि राखे करते वार न लाई ॥
अव मनु जागत रहु रे भाई ।
गाफलु होइ कै जनम गवाहओ चोरु सुसै घर जाई ।^{२६}

दरिया हीरा एक त्रिकुटी मँह होई । हीरा ध्यान धरहु नर लोई ॥
हीरा मध्य फेड़ बिस्तारा । जोगी ज्ञान को करै विचारा ॥

ताला कुंजी गहि लागि केवारा । चोर न मुसै ज्ञान रखवारा ॥
ताके कहिये ज्ञान गंभीरा । त्रिकुटी मध्य जो परखै हीरा ॥^{४६}

भीखा जड़ि ताला वज्र कपाट को तहं बैठे आतमराम ।

देखें सुने की गम नहीं नहिं आंख कान को काम ॥^{४७}

इसी ताला कुंजी के रूपक का प्रयोग अन्य अर्थों में भी हुआ । दादू ने गुरु के शब्दों को कुंजी माना और उससे ज्ञान के कपाट खुलकर तत्व की प्राप्ति वर्णन किया :

दादू देव दयाल को गुरु दिखाई बाट

ताली कुंजी लाइ के खोले सबै कपाट ॥^{४८}

बाद में इसके कई निरर्थक प्रयोग भी मिलते हैं जहाँ ये दोनों उपमान ग्रहण किये गये हैं किन्तु उनका ठीक ठीक अर्थ नहीं बैठता :

बिना कुंजी का खुले नहीं ताला ।

काहे के कुंजी, काहे का ताला, काहे के लगे हैं किवारा ।

तन की कुंजी सुरति का ताला, प्रेम के लगे हैं किवारा ।

छत्रसाल भजो नाम धनी के चरन चित्त लागा ॥^{४९}

उपरोक्त पद में केवल परम्परा निर्वाह के लिये कुंजी और ताला के उपमान ग्रहण किये गये किन्तु उनका पवन-बन्ध-परक अर्थ लुप्त हो चुका है । ताला कुंजी के साथ साथ उपमान रूप में चोर भी चर्यापदों में आता है । यह 'चोर चंचल चित्त या क्लेश-वासनादि से अभिभूतमन के लिये प्रयुक्त होता है और हठयोग साधना में पवन-बन्ध या श्वास-निरोध से स्थिर मन जब तत्व को ग्रहण करने लगता है तभी इस बात की आशा का होती है कि वासनाविकल प्रवृत्तियाँ कहीं चोर बन कर उस तत्वरूपी धन को चुरा न ले जायँ । इसी कारण देण्ड-णपा ने अपनी उलटवांसी में साधु को ही चोर कहा है 'जो सो चोर सोइ साधी ॥'^{५०} इसी परम्परा का निर्वाह करते हुए कबीर ने भी कहा है :

चोर एक मूसै संसारा, बिरला जन कोइ बूझनिहारा ॥^{५१}

यह वासना-विकल मन (या माया-शबलित अन्तःकरण) साधना-पथ में सबसे बड़ा अवरोध है और साधक के अनजाने ही कभी कभी यह उसका तत्वरूपी धन गंवा देता है । इसीलिये साधना पथ में इस चोर से सावधान रहने की बात नाथ तथा सन्त साहित्य में बराबर कही गई है :

गोरखबानी — काया हमारैँ सहर बोलिये मन बोलिये हुजदारं

चेतनि पहरैँ कोटवाल बोलिये, तौ चोर न भूँकैँ द्वारं ॥^{५२}

भाव, शैली, भाषा और छन्द

कबीर अब मन जागत रहू रे भाई ।

गाफ़लु होइ कै जननु गवाइयो चोरु सुमै धन जाई
पंच पहरुआ दर महि रहते तिन्ह का नहीं पनीआरा
चेति मुचेत चित होइ रहु नउ तौ परगासु उजाग
नउ घर देखि जु कामिनी भूली वसतु अनूप न पाई
कहतु कबीर नवौ घर मूसे दसवें ततु समाई ॥^{५३}

दादू इत घर चोर न मूसै कोई । अन्तारि है जे जानै सोई ।

जागहु रे जन तत्त न जाइ । जागत है सो रह्या समाइ ॥^{५४}

दरिया ताला कुंजी गहि लाग केवारा । चोर न मुसै ज्ञान रखवारा ।^{५५}

किन्तु इसी चोर के रूपक के प्रसंग में सन्तों ने एक ऐसे धन का वर्णन किया है जिसे चोर भी नहीं चुरा ले जा सकते वह है—रामभक्ति रूपी धन । योग और तन्त्र से भी अधिक महत्व वैष्णव भक्ति को देते थे जो सिद्धों और नाथों की पद्धति में नहीं स्वीकृत हुई थी । सन्तों ने उसे स्वीकार कर उसे योगपद्धति से भी अधिक श्रेष्ठता प्रदान की क्योंकि योगपद्धति में पवन निरोध से ताला कुंजी में रक्खे जाने वाले तत्त्वरूपी धन को चोर चुरा सकता है किन्तु भक्ति ऐसा धन है जो कि मन में आकर फिर जा ही नहीं सकता । कबीर इस हरिनाम रूपी धन को न गाँठ में बाँधने की जरूरत समझते हैं न इसे बेचने का साहम कर सकते हैं :

इहु धनु मेरो हरि के नाउ । गाँठि न बाधउ बेचि न खाउ ।

नाउ मेरे खेती नाउ मेरे बारी । भगति करउ जनु सरने तुम्हारी ।

नाउ मेरे माइआ नाउ मेरे पूँजी । तुम्हहिं छोड़ि जानिउ नहीं दूजी ।

नाउ मेरे बन्धिय नाउ मेरे भाई । नाउ मेरे संगि अति होइ सखाइ ॥^{५६}

दादू भी इस धन को अद्वितीय बताते हैं :

राम धन खात न खट्टै रे ।

अपरम्पार पार नहिं आवै आथि न दूटै रे

तस्करि लेइ न पावक जालै, प्रेम न छूटै रे

चहु दिस पसर्यो बिन रखवारे चोर न लूटै रे

हरि हीरा है राम रसाइण, सखण न सुकै रे

दादू और आथि बहुतेरी, तुस न कूटै रे ॥^{५७}

इन्हीं उपमानों की विरोधात्मक योजना पर आधारित उलटबांसियों की चमत्कारपूर्ण शैली सिद्धों के काव्य में भी व्यवहृत होती थी। परवर्ती सम्प्रदायों में से बहुतों ने अपने को उलटा पथ माना है और अपनी उलटबांसी साधनापद्धति के विवरण में उन्होंने पाताल की गंगा को आकाश में चढ़ाने, चन्द्र द्वारा राहु का ग्रास कराने आदि की विरोधमूलक उलटबांसियों में योग-प्रक्रियाओं का संकेतात्मक उल्लेख किया है। इन उलटबांसियों में केवल परस्पर विरोधी धर्म वाले उपमानों की योजना की जाती थी। सन्त सुन्दरदास ने इन उलटबांसियों को विपर्यय की संज्ञा दी है, जो वास्तव में अत्यन्त सार्थक है।^{५८} इन उलटबांसियों में या तो पारस्परिक विरोधी धर्म वाले उपमानों का एकत्रीकरण होता था या उपमानों में उनके स्वाभाविक धर्म के स्थान पर विरोधी धर्म का आरोप कर दिया जाता था। सिद्धों की उपलब्ध काव्य-सामग्री में केवल एक ही उलटबांसी मिली है, (देखें देहणपा, चर्यापद ३३)। कबीर के बीजक में वही उलटबांसी थोड़े से संशोधित रूप में मिलती है :

देहणपा टालत मोर घर नाहिं पड़िवेशी
हाड़ीत भात नाहिं निति आवेशी
वेंगस साँप बढिल जाअ
दुहिल दूधु कि बेन्टे समाअ
वलद बिआअल गविआ बांभे
पिटा दुहिअउ ते तिनि सांभे
जो सो बुधी सो धनि बुधी
जो सो चोर सोइ साधी
निति निति सिआल सिहे सम जुभअ
देहण पाएर गीत विरले बुभअ ॥

कबीर कैसे नगर करौं कुटवारी। चंचल पुरिष विचचन नारी
बैल बियाइ गाय भई बाँभ। बछरा दूहै तीन्यूं सांभ
मकड़ी घरि माधी छछिहारी। मास पसारि चील्ह रखवारी
मूसा खेवट नाव बिलइया। मीडक सोवै साँप पहरइया
नित उठैस्याल स्वंध सूं भूभै। कहै कबीर कोइ

बिरला बूभै।^{५९}

।व, शैली, भाषा और छन्द

कवीर के संग्रह में यह पद निस्सन्देह बौद्ध परम्परा से आया है। इसका साण न केवल दोनों का अद्भुत साम्य है, वरन् यह भी है कि कवीर के पद कुछ अंश ऐसे हैं जो बौद्ध परम्परा में तो सार्थक थे किन्तु कवीर उनका अर्थ भवतः भूल चुके हैं। उदाहरण के लिये इस पद में तीन सांभ का उल्लेख। वज्रयानी साधना पद्धति में चार क्षणों को चार सन्ध्याएँ भी कहा जाता था। चतुर्थी सन्ध्या अर्द्धरात्रि या प्रज्ञाज्ञानाभिपेक की सन्ध्या मानी जाती थी; उसके पहले तीन सन्ध्याएँ भवमुद्रा, कर्ममुद्रा तथा ज्ञानमुद्रा की सन्ध्याएँ होती हैं। टेंडरणपा का संकेत उन्हीं तीन सन्ध्याओं की ओर है। कवीर के पद में यह बल तीन प्रहरों का सूचक है, उसका बौद्ध तान्त्रिक अर्थ भुलाया जा चुका है।

कवीर तथा उनके बाद के सन्तों में इस उलटबांसी पद्धति का बहुत चलन रहा है यद्यपि उनके अर्थनिर्णय में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि स्वतः सन्तों तक आते आते इन प्रतीकों के सांकेतिक अर्थों में काफी परिवर्तन हो चुका है। और बहुत से वेपट्टे लिखे सन्त तो केवल श्रोताओं को चौंकाने के लिये ही उलटबांसियाँ कहते थे जिनके अर्थ के विषय में सम्भवतः वे ही सन्दिग्ध होते। सन्तों में सबसे सुसंस्कृत कवि सुन्दरदास ने सम्भवतः ऐसे ही सन्त कवियों को सम्बोधित करते हुए कहा था :

बोलिये तो तत्र जय बोलिवे की सुधि होय

नतर मौन गहि चुप होइ रहिये।

भाषा की दृष्टि से सिद्धों के परवर्ती प्रभाव का मूल्यांकन कर सकना व तक सम्भव नहीं है जब तक नाथों की बानियों और कवीर के साहित्य की भाषा का मूल रूप का निर्णय नहीं हो जाता। नाथों की भाषा बानियों की भाषा अपने उपलब्ध रूप में १७ वीं शती की भाषा है और कवीर के पाठ के विषय में भी अभी बहुत वाद है। किन्तु फिर भी डा० वर्मा द्वारा ग्रन्थसाहित्य के आधार पर प्रस्तुत सन्त कवीर के पाठ को हम कवीर की भाषा के मूल रूप के बहुत निकट मान सकते हैं।

कवीर तक आते आते पूर्वी हिन्दी का स्वरूप निश्चित हो गया था। अतः सन्त साहित्य की परम्परा केवल पूर्वी हिन्दी तक ही सीमित नहीं रही।

पंजाब से लेकर मगध तक सन्त हिन्दी में रचना कर रहे थे। कुछ तो पारस्परिक सम्पर्क के कारण और कुछ विभिन्न प्रान्तों में प्रचलित होने के कारण उनकी बानियों में भाषा-शैलियों का समिश्रण होना एक साधारण सी बात थी। वज्र-यानी सिद्धों का अनुसरण करते हुए पूर्वी प्रदेशों के कवि भी अवधी या पश्चिमी बोलियों को अपनी काव्य-भाषा के रूप में स्वीकार करते थे या नहीं और यदि करते थे तो पदों और दोहों में दो विभिन्न भाषा शैलियाँ रहती थीं या एक, इस दृष्टि से भोजपुरी प्रदेश के सन्तों की बानियों पर विचार कर लेना आवश्यक है।

भोजपुरी प्रदेश के सबसे पहिले कवि कबीर ही थे। उन्होंने अपनी बोली को 'पूर्वी' कहा है जिसके योगपरक अर्थ पर हम पीछे विचार कर चुके हैं। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाय तो पूर्वी से यहाँ अवधी और भोजपुरी दोनों ही बोलियों का संकेत ग्रहण किया जा सकता है। डा० रामकुमार वर्मा ने 'सन्त कबीर' की भूमिका में कबीर की भाषा का मूल ढाँचा अवधी ही माना है। किंतु भोजपुरी प्रदेश के निवासी होते हुए भी उन्होंने अवधी को काव्य-भाषा के रूप में क्यों स्वीकार किया इसका कोई कारण नहीं बताया जा सकता। केवल यही कहा जा सकता है कि उनके पहले से ही भोजपुर से भी अधिक पूर्वी प्रदेशों के सिद्ध और नाथ कवि अपने दोहों के लिये पूर्वी प्रभाव-मिश्रित पश्चिमी अपभ्रंश का प्रयोग कर रहे थे जिसको अधिकतम निकटता अवधी से मानी जा सकती है। अतः कबीर ने भोजपुरी प्रदेश में रहते हुए भी अवधी में रचना कर एक पूर्वागत परम्परा का निर्वाह ही किया है।

इस सम्बन्ध में डा० उदयनारायण तिवारी का मत यह है कि कबीर की भाषा की अवधी रूपरेखा के नीचे भोजपुरी का ढाँचा ढँदा जा सकता है। उन्होंने सम्भवतः अपने पद भोजपुरी में ही लिखे थे किन्तु पश्चिमी लिपिकारों ने अपने प्रान्त में उनका प्रचार करने के लिये उनका खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी आदि में रूपान्तर करने का प्रयास किया है और इसी कारण उसका भोजपुरी रूप लुप्त हो गया है।^{६०} इसके समर्थन में उन्होंने कबीर ग्रन्थावली में से कुछ संज्ञा-रूप तथा क्रिया-रूपों पर भोजपुरी प्रभाव दिखाकर राग गौड़ी के २० वें पद का भोजपुरी रूपान्तर प्रस्तुत किया है और उनका अनुमान है कि यही कबीर के पदों की वास्तविक भाषा शैली रही होगी। किन्तु डा० वर्मा ने बड़े सबल प्रमाणाँ से यह सिद्ध किया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहीत पदों

व, शैली, भाषा और छन्द

भाषा की शुद्धता रखने का प्रयास किया गया है और सुदूर राजाघ में भी विप्लव किये गये उन पदों में भी अवधी बोली ही की प्रधानता मिलती है। स दृष्टि से यही कहना उचित जान-पड़ता है कि कड़ीर भोजपुरी प्रदेश के भाषा होते हुए भी अवधी में रचना करते थे किन्तु उनकी अवधी में भी भोजपुरी रूपों का मिश्रण हो जाना उतना ही स्वभाविक था जितना दोहाकोशों में पश्चिमी अन्तर्भाग में पूर्वी रूपों का मिश्रण हो जाना।

स्वतः डा० तिवारी के अध्ययन में ही हमें और भी प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि अवधी एक प्रकार से समस्त मागधी प्रदेश की काव्यभाषा बन चुकी थी और इस दृष्टि से सिद्धों के दोहों की भाषा का उत्तराधिकार उसी ने ग्रहण किया था। इतना ही नहीं बरन भोजपुरी प्रदेश के सन्तों की रचनाओं पर सिद्धों की उस परम्परा का भी प्रभाव पड़ा है जिसके प्रन्तर्गत वे पदों की रचना करते समय अपनी स्थानीय बोली और दोहों की रचना करते समय पश्चिमी अन्तर्भाग का प्रयोग करते थे। डा० तिवारी ने शिवनारायण और धरणीदास की रचनाओं का अध्ययन कर यह नत निर्धारित किया है कि इन के पदों और गीतों की भाषा भोजपुरी है और दोहों की भाषा अवधी। यह परम्परा १८ वीं शती तक चली आई है।

सन्त शिवनारायण गाजीपुर जिले के चन्द्रवार गाँव में पैदा हुए थे और उनकी कई कृतियाँ (अनुदित) प्राप्य हैं। इन रचनाओं में उन्होंने दोहा चौपाई की शैली स्वीकार की है और उनकी भाषा कोसली (अवधी) है। किन्तु उन्होंने जैतसारी और घाँटो भी लिखे हैं। जैतसारी जाँते पर गाये जाने वाले लोकगीत होते हैं और घाँटों चैत में गाये जाते हैं। इन दोनों प्रकार की रचनाओं की भाषा लोकप्रचलित भोजपुरी ही है, अवधी नहीं।

इसी प्रकार की द्विविधि शैली का प्रयोग सारन जिले के माँझी गाँव के सन्त धरणीदास (१६५६ ई०) की कृतियों में भी मिलता है। उनकी दो कृतियाँ 'सद्व-प्रकाश' और 'प्रेम-प्रकाश' उपलब्ध हैं जिनमें विवेचनात्मक अंश दोहा-चौपाई में है और उनकी भाषा कोसली (अवधी) है, किन्तु जहाँ उन्होंने पद लिखे हैं वहाँ उनकी भाषा भोजपुरी है :

शुमिरु शुमिरु मन सिरजनहार
जिन्ह कैला नुर नर सरग पताल ॥

पंजाब से लेकर मगध तक सन्त हिन्दी में रचना कर रहे थे। कुछ तो पारस्परिक सम्पर्क के कारण और कुछ विभिन्न प्रान्तों में प्रचलित होने के कारण उनकी बानियों में भाषा-शैलियों का सगमिश्रण होना एक साधारण सी बात थी। वज्र-यानी सिद्धों का अनुसरण करते हुए पूर्वी प्रदेशों के कवि भी अवधी या पश्चिमी बोलियों को अपनी काव्य-भाषा के रूप में स्वीकार करते थे या नहीं और यदि करते थे तो पदों और दोहों में दो विभिन्न भाषा शैलियाँ रहती थीं या एक, इस दृष्टि से भोजपुरी प्रदेश के सन्तों की बानियों पर विचार कर लेना आवश्यक है।

भोजपुरी प्रदेश के सबसे पहिले कवि कबीर ही थे। उन्होंने अपनी बोली को 'पूर्वी' कहा है जिसके योगपरक अर्थ पर हम पीछे विचार कर चुके हैं। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाय तो पूर्वी से यहाँ अवधी और भोजपुरी दोनों ही बोलियों का संकेत ग्रहण किया जा सकता है। डा० रामकुमार वर्मा ने 'सन्त कबीर' की भूमिका में कबीर की भाषा का मूल ढाँचा अवधी ही माना है। किंतु भोजपुरी प्रदेश के निवासी होते हुए भी उन्होंने अवधी को काव्य-भाषा के रूप में क्यों स्वीकार किया इसका कोई कारण नहीं बताया जा सकता। केवल यही कहा जा सकता है कि उनके पहले से ही भोजपुर से भी अधिक पूर्वी प्रदेशों के सिद्ध और नाथ कवि अपने दोहों के लिये पूर्वी प्रभाव-मिश्रित पश्चिमी अपभ्रंश का प्रयोग कर रहे थे जिसको अधिकतम निकटता अवधी से मानी जा सकती है। अतः कबीर ने भोजपुरी प्रदेश में रहते हुए भी अवधी में रचना कर एक पूर्वागत परम्परा का निर्वाह ही किया है।

इस सम्बन्ध में डा० उदयनारायण तिवारी का मत यह है कि कबीर की भाषा की अवधी रूपरेखा के नीचे भोजपुरी का ढाँचा ढूँढा जा सकता है। उन्होंने सम्भवतः अपने पद भोजपुरी में ही लिखे थे किन्तु पश्चिमी लिपिकारों ने अपने प्रान्त में उनका प्रचार करने के लिये उनका खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी आदि में रूपान्तर करने का प्रयास किया है और इसी कारण उसका भोजपुरी रूप लुप्त हो गया है।^{६०} इसके समर्थन में उन्होंने कबीर ग्रन्थावली में से कुछ संज्ञा-रूप तथा क्रिया-रूपों पर भोजपुरी प्रभाव दिखाकर राग गौड़ी के २० वें पद का भोजपुरी रूपान्तर प्रस्तुत किया है और उनका अनुमान है कि यही कबीर के पदों की वास्तविक भाषा शैली रही होगी। किन्तु डा० वर्मा ने बड़े सबल प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहीत पदों

भावा, शैली, भाषा और छन्द

में भाषा की शुद्धता रखने का प्रयास किया गया है और सुदूर पंजाब में भी लिपिवद्ध किये गये उन पदों में भी अवधी बोली ही की प्रधानता मिलती है। इस दृष्टि से यही कहना उचित जान-पड़ता है कि कद्यौर भोजपुरी प्रदेश के निवासी होते हुए भी अवधी में रचना करते थे किन्तु उनकी अवधी में भी भोजपुरी रूपों का मिश्रण हो जाना उतना ही स्वभाविक था जितना दोहाकोशों की पश्चिमी अर्धभ्रंश में पूर्वी रूपों का मिश्रण हो जाना।

स्वतः डा० तिवारी के अध्ययन में ही हमें और भी प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि अवधी एक प्रकार से समस्त मगधी प्रदेश की काव्यभाषा बन चुकी थी और इस दृष्टि से सिद्धों के दोहों की भाषा का उत्तराधिकार उसी ने ग्रहण किया था। इतना ही नहीं वरन् भोजपुरी प्रदेश के सन्तों की रचनाओं पर सिद्धों की उस परम्परा का भी प्रभाव पड़ा है जिसके अन्तर्गत वे पदों की रचना करते समय अपनी स्थानीय बोली और दोहों की रचना करते समय पश्चिमी अर्धभ्रंश का प्रयोग करते थे। डा० तिवारी ने शिवनारायण और धरणीदास की रचनाओं का अध्ययन कर यह मत निर्धारित किया है कि इन के पदों और गीतों की भाषा भोजपुरी है और दोहों की भाषा अवधी। यह परम्परा १८ वीं शती तक चली आई है।

सन्त शिवनारायण गाज़ीपुर ज़िले के चन्द्रवार गाँव में पैदा हुए थे और उनकी कई कृतियाँ (अशुद्धित) प्राप्य हैं। इन रचनाओं में उन्होंने दोहा चौपाई की शैली स्वीकार की है और उनकी भाषा कोसली (अवधी) है। किन्तु उन्होंने जैतसारी और घाँटो भी लिखे हैं। जैतसारी जाँते पर गाये जाने वाले लोकगीत होते हैं और घाँटों चैत में गाये जाते हैं। इन दोनों प्रकार की रचनाओं की भाषा लोकप्रचलित भोजपुरी ही है, अवधी नहीं।

इसी प्रकार की द्विविधि शैली का प्रयोग सारन जिले के माँझी गाँव के सन्त धरणीदास (१६५६ ई०) की कृतियों में भी मिलता है। उनकी दो कृतियाँ 'सद्-प्रकास' और 'प्रेम-प्रगास' उपलब्ध हैं जिनमें विवेचनात्मक अंश दोहा-चौपाई में है और उनकी भाषा कोसली (अवधी) है, किन्तु जहाँ उन्होंने पद लिखे हैं वहाँ उनकी भाषा भोजपुरी है :

शुमिरु शुमिरु मन सिरजनहार
जिन्ह कैला सुर नर सरग पताल ॥

रवि ससि अग्निनि पवन कैला पानी
जिआ जन्तु षानि पानि आनि आनि बानी ॥

इन भोजपुरी वाले अंशों में भी अवधी का थोड़ा बहुत प्रभाव है क्योंकि अवधी काव्यभाषा के रूप में बहुत मंज चुकी थी अतः भोजपुरी में लिखते समय भी उसका सहारा लेना अनिवार्य हो जाता होगा।^{६१}

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्धों द्वारा पदों में स्थानीय बोली तथा दोहों में पूर्वी प्रभाव-मिश्रित पश्चिमी बोली प्रयुक्त करने की परम्परा १८वीं शती के सन्तों तक चली आई है। डा० वर्मा द्वारा प्रस्तुत 'संत कबीर' के पाठ में अपभ्रंश की उकार वाली प्रवृत्ति अवश्य मिलती है किन्तु अन्य दृष्टियों से भाषा सम्बन्धी परिस्थिति बहुत बदल गई है। सबसे प्रमुख परिवर्तन हुआ है शब्द-समूह में। अपभ्रंश से कितने ही तद्भव शब्दों की थाती हिन्दी को मिली थी जिनका प्रयोग सन्त और सूफ़ी कवि करते थे किन्तु वैष्णव प्रभाव बढ़ने के साथ साथ संस्कृत का प्रभाव बढ़ा और भक्तिमार्ग-सम्बन्धी कितने ही तत्सम शब्द हिन्दी के धार्मिक काव्य में प्रचलित हो गये जिन्होंने भाषा का रूप ही बदल दिया। जायसी और कबीर आदि में तद्भव शब्दों का प्रचुर प्रयोग है जब कि सुन्दरदास जैसे संस्कृत के ज्ञाता सन्त की रचना में तत्सम की भरमार है। 'बिनानी' आदि कुछ बौद्ध अपभ्रंश साहित्य से प्राप्त तद्भव शब्दों के अर्थ का विकार सन्तों ने किस प्रकार किया है इसका उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं।

छंद

सन्तों और नाथों की साखियों और पदों के छन्द अधिकतर उन्हीं छन्दों के विकसित रूप हैं जो सिद्धों ने प्रयुक्त किये हैं। किन्तु उनका प्रचुर विस्तार हुआ है और आगे चल कर उन पर सिद्धों के अतिरिक्त भी साखी कितने ही अन्य प्रभाव पड़े हैं। उदाहरण के लिये लगभग सभी सन्तों और नाथों की वाणी का महत्वपूर्ण अंश दोहों में है किन्तु सिद्धों के दोहाकोषों में समचतुष्पदियों के साथ दोहे मिलते हैं। केवल मात्र दोहों की मुक्तक परम्परा थी। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। वज्रगीतियों में भी कई दोहों की एक गीति है। सन्दर्भ से सर्वथा पृथक मुक्तक दोहे अधिक

आच, शैली, भाषा और छन्द

नहीं मिलते। केवल सुभाषित संग्रह में वेंडेल ने कुछ ऐसे दोहे संग्रहीत किये हैं। किन्तु जैनों की पश्चिमी परम्परा में पाहुड़ और सावयधम्म दोहें चतुष्पदियों के कड़वकों के बिना मुक्तक रूप में उपलब्ध होते हैं। सन्तों की 'साखियाँ' और 'सलोकु' सिद्धों की अपेक्षा पश्चिमी मुक्तक शैली के अधिक निकट हैं। जहाँ कहीं वे दोहे चौपाइयों के साथ हैं वहाँ उस काव्यरूप को रमैनी कहा गया है।

यह रमैनी भी अवध प्रदेश में प्रचलित अपभ्रंश की राम-काव्य परम्परा का प्रभाव सूचित करती है, बौद्ध प्रभाव नहीं। चौपाइयों के साथ दोहों के एक कड़वक को पद कहा गया है और उस दृष्टि, से पिदी, सतपदी और बारहपदी रमैनियाँ मिलती हैं। दोहों के मध्य में चौपाइयों की संख्या का कोई निश्चित नियम नहीं मिलता। साखियों को जिस प्रकार वर्गीकृत किया गया है वह रीति शाक्त-तन्त्रों के विषय विभाजन से बहुत मिलती है। आचार्य क्षितिमोहन सेन इन अंगों में साखियों के वर्गीकरण पर बौद्ध परम्परा का प्रभाव मानने के पक्ष में हैं।^{१२}

सोरठा आदि के भी उदाहरण सन्तों के काव्य में बहुत मिलते हैं, दोहों में कभी कभी मात्राओं की अनियमितताएँ भी मिलती हैं। इस दृष्टि से गोरखबानी की साखियाँ अत्यन्त अनियमित हैं। सन्तों तथा नाथों की बानियों में कहीं कहीं केवल चार ही चतुष्पदियाँ ही मुक्तक छन्द के रूप में प्रयुक्त हुई हैं जैसे—

दादू घटि घटि दादू कहि समुभावै
जैसा करै सो तैसा पावै
को काहू की सीरी नाहीं
साहिब देखै सो घट माहीं ॥^{१३}

या

गोरख (सबदी) हँसिबा खेलिबा रहिबा रंग
काम क्रोध न करिबा संग ॥
हँसिबा खेलिबा गाइबा गीत
दिट्ट करि राधि आपना चीत ॥^{१४}

दोहा चौपाइयों का एक अन्य काव्यरूप भी नाथपन्थी बानियों तथा कबीरपन्थी ग्रंथों में मिलता है वह है प्रश्नोत्तरी। गुरु और शिष्य में अथवा दो समान प्रतिष्ठा के आचार्यों में तत्व-दर्शन, साधना-पद्धति आदि के गहन तत्वों पर जो वार्ता होती है उसे प्रश्नोत्तरी के रूप में दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया जाता है। 'मछीन्द्र-गोरख-बोध' तथा 'गोरख-दत्त-गुष्टि' (गोरखबानी में संग्रहीत)

इसी प्रकार की कृतियाँ हैं। सन्तों के अभी तक उपलब्ध साहित्य में यह प्रश्नोत्तरी शैली नहीं मिली है किन्तु पश्चिमी तथा पूर्वी लौकिक अपभ्रंश साहित्य में यह शैली बहुत प्रचलित थी। प्रहेलिकाएँ भी सम्भवतः इसी का एक रूप प्रतीत होती हैं। धर्मदास की पूर्वी अपभ्रंश की कुछ प्रहेलिकाएँ 'विदग्धमुख मंडन' से डा० सुकुमार सेन ने अपने संग्रह में उद्धृत की हैं।^{६५}

पूर्वी सन्तों और नाथों के पदों की परम्परा पूर्वी भारत की परम्परा मालूम पद होती है। उनमें भी पादाकुलक से विकसित चौपाई तथा पयार छन्दों का बाहुल्य है।

चौपाई (अन्त में दो दीर्घ)

कबीर करवतु भला न करवट तेरी
लागु गले सुनु धिनती मेरी
हउ वारी सुखु फेरि पियारे
करवट दे मोकउ काहेकउ मारे ॥^{६६}

दादू जीवत मारे सुए जिलाये
बोलत गंगे गूंग बुलाये ॥ टेक ॥
जागत निधि भरि रोई सुलाये
सोवत रैनी सोइ जगाये ॥
सूभत नैनहुँ लोभ न लीये
अन्ध बिचारे ता सुख दीये ॥^{६७}

पादाकुलक से ही पयार छन्द विकसित हुआ जिसमें अन्त में एक दीर्घ पयार और एक लघु के साथ १५ मात्राएँ होती हैं। यह छन्द समस्त मागधी क्षेत्र में बहुत प्रचलित हुआ। सन्तों तथा नाथों के पदों में यह छन्द प्रचुरता से व्यवहृत हुआ है।

कबीर—माधव जल कि पियास न जाइ
जल महि अगिनि उठी अधिकाइ ॥
तू जलनिधि हउ जल का मीनु
जल महिँ रहउ जलहिँ बिनु खीनु ॥
तू पिंजरु हउ सूअटा तोर
जमु मंजारु कहा करै मोर ॥^{६८}

भाव, शैली, भाषा और छन्द

दादू हलका भारी कह्यो न जाइ
मोल माप नहिं रखा समाइ ॥
कीमति लेखा नहिं परिमाण
सब पचि हारे साधु मुजाण ॥^{२२}

गोरखपंथी बानी भरै न पारा वाजै नाद
ससिहर सूर न वाद विवाद
पवन गोटिका रहणि अकास
महियल अन्तर गगन कविलास ॥^{२०}

चले बटावा थाकी वाट
सोवै डुकरिया ढौरै खाट ॥
ढुकिले कूकुर भुंकिले चोर
काढै धरणी पुकारै ढोर ॥^{२१}

२२ मात्राओं के छन्द की परम्परा तो मिटों से जयदेव के नदों में होती
हुई सन्तों तक अविच्छिन्न रूप से मिलती है।

भुसुकुपा भुसुकु मणइ कत राउतु भणइ कत सअला सहज सहावा ॥

जयदेव धीर समीरे यमुना तीरे बसति बने बनमाली ॥

कबीर इकतु पतरि भरि उरकुट कुरकुट इकतु पतरि भरि पानी
आसि पासि पंच जोगीआ त्रैठे त्रीचि नकटदे रानी ॥^{२२}

दादू काले धौल बरन पलटिया तन मन का बल भागा
जोवन गया लुरा चलि आई तव पछितावन लागा ॥^{२३}

गोरखपंथी बानी : उतर देस में मेह धड़क्या दक्षिण आंचल छाया
पूरब देस थी पाणिग विद्धूटी पछिम खेत्र में पाया।^{२४}

कबीर तक आते-आते संगीत की देशी शैली शास्त्रीय पद्धति में पूर्णतया
स्वीकृत कर ली गई थी। किन्तु इन रागों के गायन की शास्त्रीय पद्धति जिसका
उल्लेख 'संगीत-रत्नाकर' आदि में मिलता है, वही पद्धति
राग कबीर आदि की परम्परा में मान्य थी अथवा कोई अन्य
पद्धति, इसके विषय में कुछ अनुमान भी कर सकना कठिन है।

किन्तु चर्यापदों में प्रात और नारद तथा शार्ङ्गदेव आदि आचार्यों द्वारा स्वीकृत कई राग, कबीर आदि के पदों में भी मिलते हैं जिनमें से गूजरी, राउड़ा, घनासिरी, मल्हार तथा भैरव प्रमुख हैं। दादू में भी गौड़ी तथा भैरो राग के पद मिलते हैं। गोरखवानी के अधिकांश पद राग रामग्री तथा आसावरी में हैं। इस सम्बन्ध में एक विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सन्तों तथा नाथों के संग्रहों में साखियों का वर्गीकरण तो विषय के अनुरूप होता था किन्तु पदों का वर्गीकरण रागों के आधार पर होता था। 'चर्याचर्य विनिश्चय' में पदों का वर्गीकरण रागों के आधार पर नहीं है। रागों के आधार पर पदों के वर्गीकरण की कोई पुरानी परम्परा सिद्धों में थी या नहीं, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता।

उपसंहार

बौद्ध-सिद्धों के साहित्य और उनकी धर्मसाधना के इस विस्तृत अध्ययन पर कार्य प्रारम्भ करते समय ही लेखक इस बात के लिये सचेष्ट था कि इस परम्परा ने सन्तों के साहित्य को जिस प्रकार से जितनी दिशाओं में प्रभावित किया है कम से कम उसका संकेत हो सके। किन्तु समीक्षा की जो एकांगी शैली केवल उन पारिभाषिक शब्दों या काव्य-शिल्प के उपकरणों को आधार बनाती है, जो सिद्धों नाथयोगियों और सन्तों में समान रूप से पाये जाते हैं, वह इस प्रभाव परम्परा का समुचित आकलन नहीं कर सकती। इस बात का भी अध्ययन होना चाहिये कि ८वीं शताब्दी से लेकर १७वीं शताब्दी तक भारतीय-समाज-पद्धति में कौन से व्यापक परिवर्तन आते रहे हैं और उनके कारण जनता की धर्म-चेतना किन उपधाराओं में विभाजित होकर किन दिशाओं में प्रवाहित होती रही है, वे उपधाराएँ किस प्रकार कभी-कभी एक दूसरे के समानान्तर चलती रही हैं, कभी-कभी एक दूसरे में अन्तर्भुक्त हो गई हैं, कभी-कभी कुछ दूर समानान्तर बहने के बाद दूसरी उपधारा का अतिक्रमण कर किसी सर्वथा दूसरी धारा में जा मिली है—और उनकी यह जटिल गतिविधि किस सामान्य भावभूमि या व्यापक धरातल पर घटित हुई है।

उपसंहार

प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रमुख लक्ष्य बौद्ध सिद्ध-साहित्य का अध्ययन रहा है अतः परवर्ती प्रभाव परम्परा को इसमें दूसरे दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है किन्तु स्थान-स्थान पर यह संकेत अवश्य कर दिया गया है कि इस समस्त विकास का आरम्भ-बिन्दु तान्त्रिक धर्मान्दोलन है और वैष्णव भक्ति आन्दोलन इसकी परिणति रेखा है। सन्तों का अधिकांश साहित्य उस संक्रान्ति-काल का साहित्य है जब तन्त्र और योग की पद्धतियाँ गौण होती जा रही हैं और भक्ति को प्रमुखता मिलती जा रही है। किन्तु फिर भी सन्तों में परम्परागत प्रभाव के कारण एक विशिष्ट काव्य-शैली, तथा पारिभाषिक शब्दावली रूढ़ हो गई है और वे उसी के द्वारा इस नई चेतना को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। अतः उनकी भाषा-शैली में अर्थों के कई स्तर वर्तमान हैं जिनमें से कुछ से स्वतः वे सन्त भी अपरिचित प्रतीत होते हैं। कहीं कहीं वे शब्द या वे प्रतीक प्राचीन बौद्ध-तान्त्रिक या शैव योगी साधनाओं के अर्थों को ध्वनित करते हैं, कहीं-कहीं सन्त उन अर्थों के केवल एक अंश को स्मरण रख पाये हैं, और कहीं-कहीं वे भक्ति आन्दोलन के प्रभाव में उन शब्दों को नई व्याख्या देने के प्रयास में संलग्न प्रतीत होते हैं। फिर भी वे अपने आराध्य के निर्गुण रूप, अपनी साधना के रहस्यात्मक गुह्य रूप, और अपनी काव्य-शैली के परम्परागत रूप को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि भाव-साधना में वैष्णवों के निकट होते हुए भी सन्तों का निर्गुण-काव्य भक्तों के सगुण-काव्य से विल्कुल पृथक् स्वभाव का प्रतीत होता है। भक्तों का काव्य सगुण अवतारों की जिन भावमयी लीलाओं पर आधारित था, उन्हें सन्त पूर्णतया अस्वीकार करते थे।

बौद्ध सिद्धों और सन्तों की सामाजिक स्थिति में भी एक बहुत बड़ा अन्तर आ चुका था। दसवीं शताब्दी में तान्त्रिक आन्दोलनों के अध्ययन से प्रतीत होता था कि सारे देश में संकीर्ण जाति-व्यवस्था और शुद्धतावादी आधार-पद्धति के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह जाग उठा था और निम्न वर्ग की जातियाँ उस समय सशक्त और जागरूक थीं। किन्तु जैसे अधिकांश विद्रोह और क्रान्तियाँ अमर्यादित होकर उच्छ्वलता और पतनोन्मुखता की ओर अग्रसर होने लगती हैं, वही परिणति इस विद्रोह की भी हुई जो तान्त्रिक वेश में उभरा था। उसके बाद का काल ऐसा रहा जिसमें इस उच्छ्वलता की प्रतिक्रिया में, तथा यवन-आक्रमणों से सचेत

होकर भारतीय धर्माचार्यों ने धर्म-साधना को आचार और वर्ण-व्यवस्था की दृष्टि से पूर्णतया कस देने का प्रयास किया। इस प्रयास की अतिरेकता में बहुत कुछ अन्याय उन निम्न वर्ग को जातियों के प्रति भी हो गया जिनमें ये अधिकांश सन्त सम्प्रदाय परिपोषित हुए। अतः एक ओर ये सन्त एक पराजित और सामाजिक अन्याय से पीड़ित वर्ग के प्रतीक थे, दूसरी ओर ये तान्त्रिक-विद्रोह के खोखलेपन से भी परिचित थे और तीसरी ओर यवनों को मजहबी कट्टरता का भी स्वागत नहीं कर पाते थे और चौथी ओर वैष्णव भाव-साधना के प्रति आकर्षित होते हुए भी उनके अवतारवाद को ये तर्क-सम्मत नहीं मानते थे। इन चतुर्विध परिस्थितियों की सम्यक पृष्ठ भूमि में इनके समस्त साहित्य का नये सिरे से मूल्यांकन होना चाहिये। इस प्रकार सिद्ध-साहित्य का यह अध्ययन एक ओर उन कई जटिलताओं का समाधान करता है जो अभी तक सन्तों और नाथ योगियों के अध्ययन में बाधक सिद्ध होती रही हैं, दूसरी ओर वह आदिकाल और मध्यकाल के सर्वथा नये मूल्यांकन के लिये एक भूमिका भी प्रस्तुत करता है।

टिप्पणियाँ



संकेताक्षर

इं० पूं०	इंडियन एंटीक्वेरी
ओ० डे० बं० लै०	ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज
चर्यापद	जनल आफ डिपार्टमेंट आफ लेटर्स, खंड ३० में प्रकाशित डा० प्रबोधचन्द्र बागची का पद-संग्रह
ना० प्र० प०	नागरी प्रचारिणी पत्रिका
ज० डि० ले०	जनल आफ डिपार्टमेंट आफ लेटर्स, कलकत्ता
ज० ए० सो० बं०	जनल आफ एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल
ज० बि० ओ० सो०	जनल आफ बिहार एंड ओरिसा रिसर्च सोसायटी
इ० हि० क्वा	इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली
बौद्ध गान०	बौद्ध गान ओ' दोहा—हर प्रसाद शास्त्री
सिस्टम्स, सोगेन	सिस्टम्स आफ बुधिस्ट फिलासफी, यामाकिमि सोगेन
दोहाकोष	दोहाकोष, बागची,
मिस्टिक टेल्स०	मिस्टिक टेल्स आफ लामा तारानाथ
श्रेडर	इन्ट्रोडक्शन टु पांचरात्र संहिता
भण्डारकर	शैविज्म, वैष्णविज्म एण्ड माइनर कल्ट्स

अध्याय १

क

१. हिस्ट्री आफ बंगाल (खंड १) पृ० ३३६। २. दोहाकोप पृ० १३।
 ३. सुभाषित संग्रह (१६०५) पृ० ३२, ३६, ३६, ७५, ७७, ८१, ८५। ४. दोहाकोप
 पृ० ४८, ४६, ५०। ५. बौद्ध गान० पृ० ६२। ६. वही पृ० ३५ तथा ६८।
 ७. वही पृ० ४३, ४८, ५०, ५५, ७१, ७२, ७४, ७५। ८. दोहाकोप पृ० ५२,
 ५३। ९. वही पृ० ५७। १०. बौद्ध गान० पृ० १५। ११. वही पृ० ३१।
 १२. सेकोदेश टीका पृ० ४८१, २, ३। १३. ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स पृ० ३३-
 ३६। १४. ई० हि० क्वा०, खंड ६, पृ० ३६४ तथा दोहाकोप पृ० ५३ तथा ५५।
 १५. ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स पृ० ४०। १६. चर्यागीतिकोप वृत्ति नामा (तिच्चती)
 नार्थिंग संस्करण, खंड ४७। १७. बा० स्टडीज़ इन तंत्रज्ञान, पृ० ७५। १८. पुरातत्व-
 निबंधावली पृ० १८४।

ख

१. गुप्त, जायसी ग्रंथावली पृ० २६८। २. वही पृ० ३३४। ३. टुची,
 स्फुट टिप्पणियाँ, ज० ए० सो० वं०, खंड ४, १६३०, पृ० १३३ तथा आगे।
 ४. मोहनसिंह, गोरखनाथ० प्राक्कथन पृ० १, १५ तथा १६। ५. कल्चरल
 हेरिटेज आफ इण्डिया, खण्ड २, पृ० ३१३, तथा आगे। ६. मोहनसिंह, गोरखनाथ०
 प्राक्कथन, पृ० १५ तथा १६। ७. वही पृ० १५ तथा १६। ८. बौद्ध गान० पदकर्तार
 परिचय, पृ० ३५। ९. पुरातत्व-निबन्धावली, पृ० १४८ तथा आगे। १०. मिस्टिक
 टेलस० परिशिष्ट १, पृ० ८४। ११. नाथ-सम्प्रदाय, पृ० ३३, ३७। १२. वही, पृ०
 २७। १३. बा०, कौलज्ञान निर्याय, भूमिका, पृ० १०। १४. मिस्टिक, टेलस०,
 पृ० २६। १५. वही, पृ० ३२। १६. कौलज्ञान निर्याय, भूमिका, पृ० ६। १७.
 मिस्टिक टेलस०, पृ० १४। १८. वही, पृ० २६। १९. ज० ए० सो० वं० १६३०, पृ०
 १३८। २०. बा०, कौलज्ञान निर्याय, भूमिका, पृ० १४। २१. शाहिदुल्ला,
 मीननाथ ओ कानुपा, शनिवारेर चिठि, वर्ष १६, संख्या १२, पृ० ३५६। २२.
 भट्टाचार्य-साधनमाला, भूमिका, पृ० ११। २३. भट्टाचार्य द्वारा सम्पादित, तत्त्वसंग्रह,
 भूमिका, पृ० १५ तथा आगे। २४. साधनमाला, खण्ड २, भूमिका, पृ० ११ तथा
 आगे। २५. टुची, ज० ए० सो० वं० १६३०, पृ० १३८। २६. वही, पृ० १३६। २७.
 वही, पृ० १४३। २८. वही, पृ० १३४। २९. वही, पृ० १४१। ३०. न्यू० इ० ए०,
 खण्ड १, सं० १, १६३८। ३१. मजुमदार, हिस्ट्री आफ बंगाल, पृ० ३३३, टिप्पणियाँ

२।३२. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १४६, टिप्पणी संख्या १। ३३. वही, पृ० १५५। ३४. वही, पृ० १५६। ३५. मिस्टिक टेलस०, पृ० १२। ३६. हिन्दी काव्य-धारा में संगृहीत सिद्धों के पदों और दोहों के साथ उन्होंने जो तिथियाँ दी हैं उनका कोई भी आधार नहीं बतलाया गया है। ३७. हिस्ट्री आफ बंगाल में सुनीति बाबू का लेख, पृ० ३८६। ३८. ज० ए० सो० ब० सं० १७, पृ० ८। ३९. ओ० डे० ब० लै०, पृ० १२२। ४०. द्विवेदी, मध्यकालीन भारतीय धर्मसाधना, पृ० ७३, ७४। ४१. हिस्ट्री आफ बंगाल, पृ० १४२। ४२. कौलज्ञान निर्णय, भूमिका, पृ० ५। ४३. वही, पृ० २६। ४४. टुच्चा, ज० ए० सो० ब०, खण्ड ४, पृ० १३७। ४५. वही, पृ० १३७। ४६. मिस्टिक टेलस०, पृ० ८, ९, १०। ४७. कौलज्ञान-निर्णय, भूमिका, पृ० २८। ४८. ज० ए० सो० ब०, खण्ड ४, पृ० १३४। ४९. मिस्टिक टेलस०, पृ० १२। ५०. हिस्ट्री आफ बंगाल, पृ० ३४१। ५१. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १४७। ५२. कौलज्ञान निर्णय, भूमिका, पृ० २८। ५३. मिस्टिक टेलस०, पृ० ७६। ५४. दोहाकोष, टीका भाग, पृ० ७२। ५५. वही, पृ० ३४ दोहा ८४। ५६. वही, पृ० ३४ दोहा ८५। ५७. वही, पृ० ३४। ५८. साधनमाला, भाग १, पृ० ८०, पृ० ८३। ५९. मिस्टिक टेलस०, पृ० ११। ६०. साधनमाला, खण्ड २, पृ० ४५६। ६१. वही, पृ० ४५५। ६२. मिस्टिक टेलस०, पृ० १६। ६३. वही, पृ० ११। ६४. हिस्ट्री आफ बंगाल, पृ० ३४२, टिप्पणी ६। ६५. वही, पृ० ३४३ टिप्पणी २। ६६. मिस्टिक टेलस० पृ० ५७। ६७. कौलज्ञान निर्णय भूमिका, पृ० २२, २३। ६८. मिस्टिक टेलस०, पृ० १२। ६९. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १४६, टिप्पणी १, तथा पृ० १४८। ७०. मिस्टिक टेलस०, पृ० ८०। ७१. बौद्ध गान०, मुखबन्ध, पृ० २१, ३५। ७२. साधनमाला, द्वितीय खण्ड, भूमिका, पृ० ६०, १२२। ७३. इरिडियन एरिडक्वेरी, न्यू सीरीज, खण्ड १, संख्या १। ७४. पुरा-तत्व निबन्धावली, पृ० १४७, २०४। ७५. वीरगा, सितम्बर १९४०। ७६. कौल-ज्ञान निर्णय, भूमिका। ७७. नाथ-सम्प्रदाय, अध्याय २, ३, ४, ६ तथा १२। ७८. पदकर्तार परिचय, बौ० गा० दो०, पृ० २६। ७९. मिस्टिक टेलस०, पृ० ६। ८०. साधनमाला, खण्ड २ भूमिका, पृ० ११७। ८१. वही, पृ० ४४। ८२. मिस्टिक टेलस०, पृ० ८। ८३. वही। ८४. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १६८, १६९। ८५. साधन-माला, प्रथम खण्ड। ८६. वही, द्वितीय खण्ड, पृ० ४६। ८७. मिस्टिक टेलस०, पृ० ११। ८८. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १७१। ८९. वही, पृ० १७१। ९०. साधन-माला, खण्ड २, पृ० ३८७ तथा ४५६। ९१. बौद्ध गान०, पृ० २१। ९२. ज० वि० ओ० रि० सो०, १९२८, पृ० ३४१ तथा आगे। ९३. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १७४ ९४. मिस्टिक टेलस०, पृ० ११। ९५. दे, न्यू इरिडियन एरिडक्वेरी, खण्ड १, संख्या १। ९६. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १४८। ९७. मिस्टिक टेलस०, पृ० ११, १२। ९८. साधनमाला, खण्ड २, भूमिका, पृ० ४३। ९९. बौद्ध गान०, पदकर्ता देर

टिप्पणियाँ : अध्याय १

परिचय, पृ० ३० । १००. मिस्टिक टेलस०, पृ० ११, १२ । १०१. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १७६, १८० । १०२. बौद्ध गान०, प्रथम संस्करण, परिशिष्ट । १०३. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १८० । १०४. मिस्टिक टेलस०, पृ० १६ । १०५. वही, पृ० २१ । १०६. वही, पृ० ३५ । १०७. साधनमाला, खण्ड २, भूमिका, पृ० ६०, ६१ । १०८. वही, पृ० ६१ । १०९. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १८१ । ११०. मिस्टिक टेलस०, पृ० २२, २३ । १११. बौद्ध गान०, प्रथम संस्करण, परिशिष्ट । ११२. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १८५ । ११३. मिस्टिक टेलस० पृ० ५३ (इस अनुवाद में भूल से कुक्कुरी की जगह कुक्कुटी छपा है) । ११४. मिस्टिक टेलस०, पृ० ४७ । ११५. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १८५ । ११६. ज० ए० सो० वं०, खण्ड ४ । ११७. मिस्टिक टेलस०, पृ० ५६ । ११८. बौद्ध गान०, पृ० ३७, ३८ । ११९. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १८३ । १२०. मिस्टिक टेलस०, पृ० २४ । १२१. नाथ-सम्प्रदाय, पृ० ७७, ७८, ७९ । १२२. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १८४ । १२३. मिस्टिक टेलस०, पृ० ३१ । १२४. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १८७ । १२५. वही, पृ० १८७ । १२६. मिस्टिक टेलस०, पृ० ३२ । १२७. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १८८ । १२८. चर्यापद, ३६ । १२९. तुलनीय, नाथ-सम्प्रदाय, पृ० ८०, टिप्पणी १ । १३०. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १८७ टिप्पणी १, तथा नाथ-सम्प्रदाय, पृ० ८१ । १३१. योगिसम्प्रदायाविष्कृतिः, अध्याय १४ । १३२. मिस्टिक टेलस०, पृ० ५८, ५९ । १३३. मिस्टिक टेलस०, पृ० ३३ । १३४. गङ्गा पुरातत्वांक, पृ० २४३, टिप्पणी । १३५. चर्यापद, पृ० ५४ । १३६. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १९१ । १३७. बौद्ध गान०, परिशिष्ट । १३८. मिस्टिक टेलस०, पृ० २८ । १३९. वही, पृ० ३२ । १४०. वही, पृ० ३३ । १४१. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १९२ । १४२. बौद्ध गान०, पदकर्तादिर परिचय पृ० २६ । १४३. ओल्ड बङ्गाली टेक्स्ट्स, पृ० ५२ । १४४. बौद्ध गान० पदकर्तादिर परिचय, पृ० २५ । १४५. चर्यापद, पृ० १०१ । १४६. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १५१ । १४७. ओल्ड बङ्गाली टेक्स्ट्स, पृ० ३६ । १४८. बौद्ध गान०, प्रथम संस्करण । १४९. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १८६ । १५०. मिस्टिक टेलस० पृ०, ४०, ४६ । १५१. बौद्ध गान० पदकर्तादिर परिचय, पृ० २६ । १५२. चर्यापद, पृ० ७३ । १५३. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १९५ । १५४. चर्यापद पृ० ८१ । १५५. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १५२ । १५६. साधनमाला, खण्ड २, पृ० १०० । १५७. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १९३ । १५८. साधनमाला, खण्ड २, भूमिका, पृ० १००, टिप्पणी । १५९. बौद्ध गान०, पदकर्तादिर परिचय, पृ० ३० । १६०. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १४९ । १६१. मिस्टिक टेलस०, पृ० ४६ । १६२. मिस्टिक टेलस०, पृ० ५८, ५९, १६३. योगिसम्प्रदायाविष्कृतिः अध्याय ३३, तथा टिप्पणी, पृ० २४७ । १६४. चित्त विशुद्धि प्रकरण, भूमिका । १६५. मिस्टिक टेलस०, पृ० २१ । १६६. बौद्ध गान० पदकर्तादिर परिचय, पृ० ३१ । १६७. पुरातत्व निबन्धा-

वली, पृ० १७७। १६८. मिस्टिक टेलस० पृ० १४, १७। १६६. साधनमाला, खण्ड २, पृ० ६०१। १७०. पुरातत्व-निबन्धावली, पृ० १७८। १७१. बौद्ध गान०, प्रथम संस्करण, परिशिष्ट। १७२. नाथ-सम्प्रदाय, पृ० २६। १७३. बौद्ध गान०, मुखबन्ध, ६, १०, ११। १७४. चतुर्वेदी, सिद्ध भुसुकुपा, हिन्दुस्तानी। १७५. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १७६। १७६. शिक्षा-समुच्चय, प्राक्कथन। १७७. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १७७। १७८. मिस्टिक टेलस०, पृ० ६२। १७९. वही, पृ० ७७। १८०. बौद्ध गान० दो०, मुखबन्ध, पृ० १२। १८१. चर्यापद, पृ० १०५। १८२. चर्यापद ४१ तथा ४३। १८३. मिस्टिक टेलस०, पृ० ६४। १८४. न्यू इंग्लैण्ड एण्टीक्वेरी भाग १, सं० १। १८५. मिस्टिक टेलस०, पृ० १२, ४७, ४८। १८६. वही पृ० ४७। १८७. चतुर्वेदी, सिद्ध तेलोपा, हिन्दुस्तानी। १८८. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १६४। १८९. मिस्टिक टेलस०, पृ० ३३, ३४। १९०. सर चार्ल्स ईलियट, हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्म, खण्ड ३, पृ० ३८७।

ग

१. कौलज्ञान निर्णय, भूमिका, पृ० ५७। २. साधनमाला, पृ० ४५३। ३. चर्यापद, २, आठवीं पंक्ति, तथा चर्यापद ४, छठवीं पंक्ति, । ४. टीका भाग, बौद्ध गान०, पृ० ६ तथा पृ० १०। ५. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ४३। ६. मिस्टिक टेलस०, पृ० ८। ७. नाथ-सम्प्रदाय, पृ० १३। ८. मिस्टिक टेलस०, पृ० २४। ९. नाथ-सम्प्रदाय, पृ० ११। १०. वरुआ, अर्ली हिस्ट्री आफ कामरूप, द्रष्टव्य, 'कल्चरल रिव्यू'। ११. लिग्विस्टिक सर्वे आफ इंग्लैण्ड, खण्ड १, भाग १, पृ० १२५, १२६ तथा काकती, आसासीज, इट्स फार्मेशन एण्ड डेवलपमेन्ट, पृ० ३-११। १२. मिस्टिक टेलस०, पृ० ३६, ३७। १३. वरुआ, अर्ली हिस्ट्री आफ कामरूप, 'कल्चरल रिव्यू'। १४. साधनमाला, खण्ड १, पृ० ८०। १५. मिस्टिक टेलस०, पृ० ११। १६. साधनमाला, खण्ड २, भूमिका। १७. मिस्टिक टेलस०, पृ० ११। १८. मिस्टिक टेलस०, पृ० १६। १९. मिस्टिक टेलस०, पृ० २२, २३, २४, ४०, ४३, ४६, ६३। २०. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ४६। २१. मिस्टिक टेलस०, पृ० १८, अनुवादक की टिप्पणी, तथा परशुराम चतुर्वेदी, 'चौरासी सिद्ध कौन थे', पृ० १२। २२. मिस्टिक टेलस०, पृ० २१, २२, ५३। २३. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ४४, ४५, ४६। २४. स्टडीज इन तन्त्राज, पृ० ३८-४०। २५. वैडेल, लामाइज्म, पृ० ३८२। २६. 'निअडि बोहि मा जाहु रे लङ्क' . . चर्यापद ३३। २७. वैडेल, लामाइज्म, पृ० ३८० 'स्टडीज इन तन्त्र'। २८. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ४५। २९. सेकोहेंश टीका, पृ० १। ३०. मिस्टिक टेलस०, पृ० १०२। ३१. देखिये आगे, पृ० १५०-१५२। ३२. मिस्टिक टेलस०, पृ० ८, ९, ११, १४। ३३. मेम्वायर्स आफ आर्क्यालाजिकल सर्वे आफ इंग्लैण्ड, संख्या ६६। ३४. देखो आगे, पृ० १५५। ३५. मिस्टिक टेलस०, पृ० ४१।

टिप्पणियाँ : अध्याय १

३६. वही, पृ० ४०, ४१। ३७. डैनियल राइट, हिस्ट्री आफ़ नैनाल, प्रथम अध्याय।
 ३८. मजुमदार, हिस्ट्री आफ़ बङ्गाल, खण्ड एक, पृ० ४१७। ३९. वही, पृ० ४१७।
 ४०. किमूरा, रिफ़िंटींग आफ़ सेन्टर्ल् आफ़ बुद्धिज़्म इन इंग्लैंड, ज० डि० ले०,
 खंड १। ४१. मजुमदार, हिस्ट्री आफ़ बङ्गाल, खण्ड १, पृ० ५६। ४२. वही, पृ०
 ६०, ६१। ४३. चटर्जी, हर्षवर्द्धन, पृ० ८०-८३। ४४. मजुमदार, हिस्ट्री आफ़ बङ्गाल,
 (खण्ड १) पृ० ६१। ४५. वाटर्स, जिल्द दो, पृ० ११५। ४६. वही, पृ० ४३, ६२,
 ११५, ११६। ४७. चटर्जी, हर्षवर्द्धन, पृ० १६०, १६१। ४८. वाटर्स, जिल्द, १, पृ०
 १८६। ४९. वागची, इंग्लैंड एण्ड चाइना, पृ० १६६, २०१। ५०. यशोवर्मन के
 आक्रमण की तिथि ७२५-७३५ ई० के लगभग जानी गई। ललितादिव्य के गौड़
 विजय के उल्लेख अप्रत्यक्ष ही हैं। ललितादिव्य ने यशोवर्मन को ७३६ ई० के लगभग
 पराजित किया था। मजुमदार, हिस्ट्री आफ़ बङ्गाल, खण्ड १, पृ० ८२, ८३। ५१.
 तारानाथ के जर्मन रूपान्तर का अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लैंडियन एण्टिक्वेरी, खण्ड ४,
 पृ० ३६५, ३६६। ५२. मजुमदार, हिस्ट्री आफ़ बंगाल, खण्ड १, पृ० ६७। ५३.
 वही, पृ० ६८। ५४. घोष, इ० हि० क्वा० खण्ड ६, पृ० ४८४, ४८५।
 ५५. संजुश्रीमूलकल्प—जायसवाल संस्करण, श्लोक ८८३। ५६. मजुमदार,
 हिस्ट्री आफ़ बंगाल, खण्ड १, पृ० १०४। ५७. मिस्टिक टेलन्ट, पृ० ४०,
 ४१। ५८. मजुमदार, हिस्ट्री आफ़ बंगाल, खण्ड १, पृ० ११५। ५९.
 आल्टेकर, राष्ट्रकूट एण्ड देयर टाइम्स, पृ०। ६०. त्रिपाठी, हिस्ट्री आफ़ कन्नौज,
 अध्याय १०, तथा ११। ६१. मजुमदार, हिस्ट्री आफ़ बंगाल, खण्ड १, पृ० १०७।
 ६२. मजुमदार, गुर्जर प्रतिहार, ज० डि० ले०, खण्ड १०, पृ० ४०, ४४। ६३.
 डा० त्रिपाठी धर्मपाल की नागभट्ट द्वारा पराजय को गोविन्द के आक्रमण के बाद
 मानते हैं। हिस्ट्री आफ़ कन्नौज, पृ० २३२, २३३। ६४. आल्टेकर, राष्ट्रकूट एण्ड
 देयर टाइम्स, पृ० ६६। ६५. मजुमदार, हिस्ट्री आफ़ बंगाल, खण्ड १, पृ० ११३।
 ६६. वही, पृ० ११६। ६७. पाल वंशावली, पाल राजाओं के अभिषेक की तिथियाँ
 (१ गोपाल प्रथम, ७५० ई०, २. धर्मपाल, ७७० ई०, ३. देवपाल, ८१० ई०,
 ४. विग्रहपाल प्रथम या शूरपाल, ८५० ई०, ५. नारायण पाल, ८५४ ई०, ६.
 राज्यपाल, ९०८ ई०, ७. गोपाल द्वितीय, ९४० ई०, ८. विग्रहपाल द्वितीय, ९६० ई०,
 ९. महीपाल प्रथम, ९८८ ई०, १०. नयपाल, १०३८ ई०, ११. विग्रहपाल द्वितीय,
 १०५५ ई०, १२. महीपाल द्वितीय, १०७० ई०, १३. शूरपाल द्वितीय, १०७५ ई०,
 १४. रामपाल, १०७७ ई०, १५. कुमारपाल, ११२० ई०, १६. गोपाल तृतीय,
 ११२५ ई०, १७. मदनपाल, ११४० ई०, १८. गोविन्द पाल, ११५५ ई०)। ६८.
 मजुमदार, गुर्जर प्रतिहार, ज० डि० ले०, खण्ड १०, पृ० ५० तथा आगे।
 ६९. रे-डाइनेस्टिक हिस्ट्री आफ़ नार्दर्न इंग्लैंड, पृ० ६७४ तथा आगे। ७०. मजुम-
 दार, हिस्ट्री आफ़ बंगाल, खण्ड १, पृ० १६२। ७१. वही, पृ० १६३। ७२. वही,

पृ० १६५। ७३. सेकोद्देश टीका, पृ० १। ७४. मिस्टिक टेल्स०, पृ० २६। ७५. वही, पृ० २५। ७६. इरिडियन एरिडक्वेरी, खण्ड ४, पृ० ३६५ तथा आगे। ७७. नील-करण शास्त्री, द चोल्स, पृ० २४७। ७८. एपिग्राफिका इरिडका, खण्ड २४, पृ० १०५। ७९. मिस्टिक टेल्स०, पृ० ७६। ८०. मजुमदार, हिस्ट्री आफ बंगाल, पृ० ३३६। ८१. शरत्चन्द्र दास, इरिडियन पेरिडत्स इन लैण्ड आफ स्नो, पृ० ५१। ८२. फ्रैन्क, एरिडक्विटोज आफ टिबेट, पृ० १६६ तथा आगे। ८३. मजुमदार, हिस्ट्री आफ बंगाल, पृ० २०३। ८४. वही, पृ० २०५ के आगे। ८५. वही, अध्याय सात, परिशिष्ट ३। ८६. फ्रेडूनबेग-चाचनामा (अनूदित अंग्रे०) पृ० ७२, ८६, १०५। ८७. मिस्टिक टेल्स०, पृ० १५। ८८. वही, पृ० ६६, ७०। ८९. हले कालिंजर घण्टिअइ दुदुरु वज्जिअइ। दोहाकोष, पृ० ५५। ९०. बौद्ध गान० पृ० ६।

घ

१. संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर आफ नेपाल, पृ० २६१। २. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, भूमिका, पृ० १, पृ० ३१, पृ० ३३। ३. अरविन्द, 'तन्त्र और वेदान्त', कल्याण, शक्ति अंक, पृ० ३१। ४. शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ६। ५. वही, पृ० ७। ६. फ्रैं० एंजेल्स, लुडविग फ्यूएरबाख, पृ० ६७। ७. वही, पृ० ४०। ८. हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० ८। ९. माडर्न क्वार्टर्ली, खण्ड १, संख्या २, पृ० ७५, ७६। १०. मार्क्स, कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो, पृ० ४०, ४१। ११. प्लेखनाव, मैटीरियलिस्ट कन्सेशन आफ हिस्ट्री, पृ० ३६। १२. हिन्दी काव्यधारा, भूमिका, पृ० १३। १३. वही, पृ० १४। १४. वही, पृ० १४, १५, १६। १५. वही, पृ० १७। १६. वही, पृ० १७, १८, १६। १७. वही, पृ० २१, २२, २३। १८. वही, पृ० ३५। १९. वही, पृ० ४८। २०. वही, पृ० २१। २१. वही, पृ० ४७। २२. प्लेखनाव, रोल आफ इरिडविजुअल इन हिस्ट्री, पृ० ४५। २३. मार्क्स एण्ड एंजेल्स आन इरिडिया, पृ० ७५, ७६। २४. क्वेरचन्स आफ हिस्ट्री से मा० क्वा०, खण्ड ५, संख्या ३ में उद्धृत। २५. द्रष्टव्य मा० क्वा० ५।३ तथा इरिडिया टुडे १।३ में डॉगे के ग्रन्थ की समीक्षाएं। २६. मा० क्वा०, खण्ड १, संख्या २। २७. हिस्ट्री आफ बंगाल, पृ० ७४३। २८. सरकार, पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स एण्ड थिअरीज आफ हिन्दूज, पृ० १०३, ४। २९. ओम्हा, मध्य-कालीन भारतीय संस्कृति, पृ० १३०। ३०. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, ओम्हा, पृ० १०७। ३१. हिस्ट्री आफ बंगाल, पृ० ६०७। ३२. सरकार, पोलिटिकल थिअरीज एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स आफ हिन्दूज, पृ० ५३, ५६। ३३. इं० हिं० क्वा०, खण्ड ६, पृ० ५६, ६०। ३४. फिक-सोशल आर्गानिजेशन इन ना० ई० इंडिया, पृ० ११८। ३५. हर्षवर्द्धन, चटर्जी, २७३, २७४। ३६. हिस्ट्री आफ बंगाल, पृ० ६४७। ३७. आक्यार्यालजिक्ल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक विवरण, १६०४-५,

टिप्पणियाँ : अध्याय १

पृ० १४२ तथा आगे। ३७. चटर्जी, हर्षवर्द्धन, पृ० २८७। ३८. हर्षचरित, पृ० २४६। ३९. वही, पृ० २८७। ४०. मञ्जुनिकाय, मथुरामुत्त। ४१. द्वाय-निकाय, ३-४। ४२. क्षितिमोहन सेन, जातिभेद, पृ० ४१। ४३. सेन, संस्कृति संगम, पृ० ४१। ४४. वही, पृ० ४३। ४५. मनुस्मृति ३, १५१। ४६. वही, अध्याय ३, श्लोक १५२ तथा आगे तथा चारुक्य-नीति, एकादश अध्याय, पृ० ४४, श्लोक १३, १४। ४७. वागची, कास्ट्स आफ इंडियन मिनिस्ट्रस, विद्यवभारती क्वार्टरली, अगस्त, अक्टूबर १९४५, पृ० १४३। ४८. सेन, जातिभेद, पृ० ११३। ४९. बरुआ, अर्ली हिस्ट्री आफ कामरूप, पृ०। ५०. हिस्ट्री आफ बंगाल, खंड १, पृ० ५२७ तथा आगे। ५१. बसु, पोस्ट चैतन्य सहजीय कल्ट, पृ० २३३, २३४। ५२. मा० क्वा० खंड १, संख्या २, पृ० ७७। ५३. वही, पृ० ८४। ५४. वही, पृ० ८७। ५५. दत्त, भारतीय समाज पद्धति, पृ० १५० तथा आगे। ५६. द्रष्टव्य, बङ्गवाल्, हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० ६२ तथा पृ० ६२४, और चतुर्वेदी, उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृ० २८२ तथा २८३। ५७. क्षितिमोहन सेन, जातिभेद, पृ० २०१।

अध्याय २

क

१. साधनमाला, प्रथम खंड, पृ० ४। २. वही, पृ० २२५। ३. वही, खंड २, भूमिका, पृ० २३। ४. दू वज्रयानी टेक्स्ट्स, भूमिका। ५. वा०, साइनो इंडियन स्टडीज़, पृ० ३६। ६. वेबेल लामाइज़म, भूमिका, पृ० २५। ७. कीथ, ओरिजिन आफ महायान बुद्धिस्ट फिलासफी। ८. अद्वयवज्र-संग्रह, भूमिका, पृ० १६। ९. बुद्धिस्ट एसोडेरिज़म, पृ० १६ पर उद्धृत। १०. चित्तविशुद्धि प्रकरण, पृ० ३। ११. बुद्धिस्ट एसोडेरिज़म, पृ० २६। १२. बौद्धिचर्यावतार पंजिका, तृतीय परिच्छेद ४, १८ तथा बंगला-अनुवाद, पृ० २२, २३। १३. शिक्षा समुच्चय, वेबेल संस्करण, पृ० १६०, १६१। १४. दासगुप्त, तान्त्रिक बुद्धिज़म, पृ० १०। १५. तत्व रत्नावली, अद्वय वज्र संग्रह, पृ० १४। १६. ज० डि० ले०, खंड १, किमूरा का लेख। १७. से० बु० ई०, खंड १७, पृ० ३४७ तथा आगे। १८. ज० डि० ले०, खंड १, किमूरा का लेख। १९. परशुराम चतुर्वेदी, महायान सम्प्रदाय का क्रमिक विकास, हिन्दुस्तानी, पृ० ६६। २०. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १२१। २१. वही, पृ० १२८, १२६। २२. वही, पृ० १२८, १२६। २३. कीथ, 'स्कूल्स आफ हीनयान', बुद्धिस्ट फिलासफी। २४. पुरातत्व निबन्धावली, पृ० १३०। २५. किमूरा, ओरिजिन आफ महायान बुद्धिज़म, ज० डि० ले० १६२४ पृ०। २६. चतुर्वेदी, महायान का क्रमिक विकास, हिन्दुस्तानी, पृ० ७६। २७. सूत्रों का रचनाकाल—१०० ई० से ४०० ई०। दासगुप्त, हिस्ट्री आफ इंडियन फिलासफी, भाग १, पृ० १२५। २८. अष्ट साहसिका प्रज्ञापारमिता, पृ० २३५, २३६। २९. ईलियट, हिन्दुइज़म एण्ड बुद्धिज़म, खंड २, पृ० ७। ३०. वरुआ, प्रोलोग्मेना टु ए हिस्ट्री आफ बुद्धिस्ट फिलासफी, प्रथम अध्याय। ३१. चटर्जी, हर्षवर्द्धन, पृ० ३५० तथा आगे। ३२. वही। ३३. शास्त्री, लिटररी हिस्ट्री आफ पाल पीरियड, ज० व० ओ० रि० सो०, खंड ५, अंक २। ३४. सोगेन, सिस्टम्स०, पृ० १८६। ३५. माध्यमिक वृत्ति, १३, ८। ३६. सोगेन, सिस्टम्स०, पृ० १६८। ३७. अनिरोधम् अनुत्यादम् अनुच्छेदम् अशाश्वतम् अनेकार्थम् अनानार्थम् अनागमम् अनिर्गमम्। माध्यमिक वृत्ति, १, १। ३८. वही— २४, १४। ३९. देवराज, भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास, पृ० १६४। ४०. सुजुकी, आउट लाइन्स आफ महायान बुद्धिज़म, पृ० १७३। ४१. अप्रतीत्य समुत्पन्नो धर्मः कश्चिन्न विद्यते। यस्मात्तस्मादशून्योहिधर्मः कश्चिन्न विद्यते... माध्यमिका वृत्ति २४, १६। ४२. या प्रतीत्य समुत्पादा शून्यताम् ताम् प्रचक्षते... वही २४, १८। ४३. वही, चौथा प्रकरण। ४४. वही, वाईसवाँ प्रकरण। ४५. वही, पृ० १२। ४६. माध्यमिका वृत्ति, पृ० २५, १६। ४७. रत्नावली, माध्यमिका वृत्ति में उद्धृत पृ० ५२४। ४८.

टिप्पणियाँ : अध्याय १

शास्त्री, लिटरेरी हिस्ट्री आफ पाल पीरिअड, ज० वॉ० ओ० रि० सो० सं० ५, अंक २, पृ० १७१ तथा आगे। ४६. किमूरा का लेख, सिफ्टिंग आफ सेन्टर्स आफ बुद्धिज्ञान, अयोध्या काल। ५०. यहाँ पर यह संकेत कर देना आवश्यक है कि विद्वान्बोधियों ने शून्य को अभाव के रूप में ग्रहण किया है। यह अर्थ उभयुक्त नहीं है किन्तु उनके तर्कों के स्पष्टीकरण के लिये इस समय हम भी शून्य का वही अर्थ लेंगे। ५१. आलयविज्ञान क्रमवद्ध चेतना का शृङ्खला है। यह मदा प्रवाहित और विकसित होती रहती है। सोगेन, सिस्टम्स, पृ० २१०। ५२. लंकावतार सूत्र, जिह्वा २ : ५३ सोगेन सिस्टम्स, २३०। ५४. चटर्जी, हर्षवर्द्धन, पृ० ३५१। ५५. महायान महासंस्कार, अंतिम अध्याय। ५६. किमूरा, ओरिजिनल एण्ड डेवेलपड थियोरिज आफ बुद्धिज्ञान, पृ० ४६ तथा पृ० ६२। ५७. सुजुकी, आउट लाइन्स आफ महायान बुद्धिज्ञान, पृ० २२३, २२४। ५८. दासगुप्त, तान्त्रिक बुद्धिज्ञान, पृ० १३, १४। ५९. चाँतिदेवें वोधिचर्यावतार, पृ० १४। ६०. साध्यमिकों ने दस पारमिताएँ मानी हैं, दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय, कौशल, प्रसिध्दान, बल, और ज्ञान तथा इनके साथ चार अप्रसाराणों की साधना भी अनिवार्य मानी है। जैत्रो, कर्मणा, मुदिता, तथा उपेक्षा। किन्तु योगाचार सम्प्रदाय में उपरोक्त ६ पारमिताएँ स्वीकार की गई हैं और उनके अतिरिक्त तीन शिक्षाएँ भी साधना की श्रृंग हैं, शील, ध्यान, प्रज्ञा। (अष्ट साहस्रिका, पृ० ३०३) वोधिचर्यावतार में केवल शान्ति, वीर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा का ही विवृणुत वर्णन छठे, सातवें आठवें तथा नवें परिच्छेद में है जिससे ज्ञात होता है कि कालान्तर में ४ पारमिताएँ प्रमुख हुईं। अन्त में प्रज्ञा में सभी अन्तर्भूक्त हो गईं। उसी को साधने से सब सध जाती थी। (अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापरिमिता, तीसरा परिवर्त) ६१. वास्तव में महायान एक विशाल जलयान के समान है। ये छः पारमिताएँ उसके यान की पतवारें हैं। ६२. सुजुकी, आउट लाइन्स आफ महायान, पृ० ३११। ६३. नागार्जुन, महायान विशाक, ११, १२। ६४. अष्ट साहस्रिका, प्रथम परिवर्त, पृ० ४५८। ६५. वही, प्रथम परिवर्त, पृ० ४६२। ६६. वही, भूमिका, पृ० १८। ६७. भद्राचार्य, बुद्धिष्ट एसोटेरिज्म, पृ० ३१। ६८. बाद में भी बहुत से ऐसे महायानी बौद्ध साधक थे जो आन्य थे किन्तु वे तान्त्रिक साधनाओं में निष्णात नहीं थे। किन्तु ऐसे लोगों को वह श्रेष्ठता प्राप्त नहीं थी जो वज्रयानी सिद्धों को थी। ऐसे परिउत्तों का केन्द्र नालन्दा था। ६९. श्री राहुल सांकृत्यायन ने मन्त्रयान का समय ४००-५०० ई० तथा वज्रयान का समय ७००-१२०० ई० माना है जो उचित ही प्रतीत होता है।

ख

१. डा० वेनीप्रसाद, हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता। २. वही, तान्त्रिक काल। ३. ना० प्र० प० वर्ष ५० अंक १, २, २००२, पृ० ६६। ४. सेन, स्कूल एण्ड सेकट्स इन जैन लिटरेचर, पृ० ४०। ५. द्विवेदी, ना० प्र० प०, वर्ष ५०, १, पृ०

६४।६. वही, पृ० ६४। ७. सर जे० बुडरफ, शक्ति और शाक्त, पृ० १८। ८. दास गुप्त फिलासिफिकल एसेज। ९. भट्टाचार्य, थियरी एन्ड प्रैक्टिस आफ तन्त्राज, पृ० २। १०. बोस, “मार्डन बुद्धिज्म एन्ड इट्स फालोअर्स इन उडीसा”, भूमिका। ११. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ५४। १२. वही, पृ० ५४। १३. साधनमाला, भाग २, भूमिका, पृ० ३६। १४. बागची, स्टडीज इन तन्त्र, पृ० ४५। १५. बागची, इंडिया एन्ड चाइना, पृ० १६६, २०२। १६. कालान्तर में आगम की नई व्याख्या खोज ली गई—द्रष्टव्य महापरिनिर्वाण तन्त्र, भूमिका तथा ना० प्र० पत्रिका, ५०, १, पृ० ७२। १७. कूर्म पुराण, भूमिका, पृ० १७। १८. वही, पृ० १८१, १८५। १९. उपाध्याय, शंकराचार्य, पृ० २८६। २०. हरप्रसाद शास्त्री, प्रोसीडिंग्स आफ रा० ए० सो० ब० खन्ड १८, १९२१,। २१. सेन, संस्कृति संगम, पृष्ठ १६। २२. भन्डारकर, द्रष्टव्य ‘शैविज्म’। २३. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ५४। २४. रुद्र यामल तन्त्र में यह कथा मिलती है कि वशिष्ठ बहुत दिनों तक जप तप और संयम करते रहे किन्तु उन्हें सिद्धि नहीं मिली तो उन्होंने क्रुद्ध होकर भगवती को शाप दे दिया। उसक अनन्तर देवी ने प्रकट होकर कहा कि तुम्हें सिद्धि मिलेगी किन्तु तुम अथर्ववेद की मूलभूमि महाचीन को जाओ। महाचीन में उन्हें बुद्ध दीख पड़े जो नग्न, मद्यपी, रक्तपायी स्त्रियों से घिरे थे। उनके रहस्य को जान कर वशिष्ठ को सिद्धि मिली। इससे यह स्पष्ट होता है कि तान्त्रिक साधनाओं का अथर्ववेद से घनिष्ठ सम्बन्ध था और इसे बौद्ध तान्त्रिक भी स्वीकार करते थे। इसी प्रकार वैष्णव तन्त्रों में भी नारद ने जब अहिर्बुध्न्य से संहिता के १६ वें अध्याय में वर्णित विधानों का उद्गम तथा अध्यक्ष देवता का नाम पूछा तो अहिर्बुध्न्य ने उत्तर दिया कि ये साधनाएँ अथर्ववेद से ली गई हैं और इनके देवता स्क्यम् भगवान विष्णु हैं जो सुदर्शन चक्रधारी हैं तथा समस्त प्राणियों के रक्षक हैं। २५. चटर्जी, हर्षवर्द्धन, पृष्ठ ३०३। २६. बागची, स्टडीज इन तन्त्र, पृष्ठ १०२। २७. वही पृष्ठ ११२। २८. वही, पृ० ४५। २९. सेन, संस्कृति संगम, पृ० ३२। ३०. इसका प्रमाण इसमें भी मिलता है कि शापनिर्दग्ध और ब्रह्मकर्म विवर्जित ब्राह्मणों को इस धर्म में आमन्त्रित किया गया है और उन्हें भोग और मुक्ति दोनों की आशा दिलाई गई है।

ये विप्राः शापनिर्दग्धाः ब्रह्म कर्म विवर्जिताः

तेषाम् तु कौल धर्मोऽयम् मुक्ति मुक्त्योस्तु साधनम्

ये विप्राःपापसंजाताः शाप निर्दग्ध विप्लुतः

तेषाम् कुलाऽधिकारोऽयम् मार्गस्यास्य प्रजायते।

पुरश्चर्यार्णव, पृ० २४।

३१. कृते श्रुत्युक्त आचारस्त्रेतायाम् स्मृति सम्भवः

दापरे तु पुराणोक्तम् कलौ आगम केवलम्।

कुत्तार्याव,

टिप्पणियाँ : अध्याय १

३२. "वैदिकी तान्त्रिकीश्चैव द्विविधाः श्रुति कीर्तितः" कुल्लुक भट्ट, बुडरक, शक्ति एन्ड शाक्त, पृ० १६। ३३. ना० प्र० प०, प०, १, पृ० ७०। ३४. फर्कुहर, पृष्ठ १२१। ३५. ज० रा० ए० सो० १६११, पृ० ६५१, ६५३। ३६. श्रेडर, पृष्ठ २२। ३७. उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ० ४६०। ३८. अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन, पृ० ३३। ३९. श्रेडर, पृ० १२०। ४०. श्रेडर, अहि बुध्न्य संहिता, परिच्छेद १७। ४१. वहा, पृ० १२७। यन्त्र पूर्वाक्षि तथा मन्त्र अपरांग कहलाते थे। ४२. वहा, पृ० १३१। ४३. वही, पृ० १२६। ४४. वही, पृ० ११३। ४५. वहा, पृ० ४३। ४६. वहा, पृ० ११२। ४७. किसी समय शिव के चार मुखों की भी कल्पना थी। महाभारत अनुशासन पर्व, १४१, श्लोक ५, ८ तथा आदि पर्व २१६, श्लोक २२, २८। ४८. आगम के पाँच मुख, सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष व ईशान थे। ४९. देवराज, दर्शन शास्त्र का इतिहास, पृ० ४८३, ४८६। तथा उपाध्याय, भारतीय दर्शन, पृ० ५४५ आगे। ५०. श्रेडर, पृ० ११२। ५१. सर्वदर्शन-संग्रह, नकुलीश पाण्डित मत। ५२. विश्वभारती, जुलाई १९४२, पृ० २४५ आगे। ५३. पशु, पाश और पति या शिव, शक्ति और अशु के कारण इसे त्रिक दर्शन कहते हैं। ५४. भन्डारकर, पृ० १८३। ५५. डा० काशीनाथ मिश्र, शक्ति-विशिष्टाद्वैतवाद की भूमिका, पृ० ४, ५। ५६. सी० नान्दीमठ, हैन्डबुक आफ वीरशैविज्म, प्रथम परिच्छेद। ५७. सिद्धान्त शिखामणि २०, ३१। ५८. वहा, १०, ६६। ५९. अनुभव सूत्र। ६०. वही। ६१. भन्डारकर, पृ० १८१। ६२. नान्दीमठ, हैन्डबुक आफ वीर शैविज्म का प्रथम परिच्छेद। ६३. आदि नाथ, अनादि, काल, अतिकालक, कराल, विकराल, महाकाल, कालभैरव नाथ, वटुक, भूतनाथ, वीरनाथ, श्रीकण्ठ, नागार्जुन, जडभरत, हरिश्चन्द्र, सत्यनाथ, मीननाथ, गोरक्ष, चर्पट, अद्रथ, वैराध्य, कन्थाधारिन, जालन्धर, मलयार्जुन। इनमें से १२ आदिगुरु शिव हैं तथा १२ उनके शिष्य हैं। ६४. द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय, पृ० २७३। ६५. टुची, आन मैत्रेय, ज० ए० सो० बं०, १९३०, पृ० १२५ तथा आगे। ६६. द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय, पृ० ७। ६७. भन्डारकर, पृ० १८२। ६८. चटर्जी, हर्षवर्द्धन, पृ० ३३५, ३३६। ६९. ज० ए० सो० बं० १९३०, पृ० १२५ तथा आगे। ७०. भन्डारकर, पृ० ८२। ७१. टुची, ज० ए० सो० बं० १९३०, पृ० १२५ तथा आगे। ७२. प्रबोध चन्द्रोदय, अंक ३। ७३. भा० न्याय दर्शन पृ० ३०। ७४. सर्वदर्शन संग्रह, (कावेल गफ्त संस्करण,) नवाँ परिच्छेद, पृ० १३७। ७५. वही, पृ० १३८। ७६. वही, पृ० १३६। ७७. वही, पृ० १४२। ७८. फर्कुहर द्रष्टव्य सहायक-पुस्तक-सूची। ७९. देवताओं की शक्ति की कल्पना वैदिक काल में भा थी किन्तु इस रूप में नहीं। उस समय शक्ति के स्थान पर उन्हें शची कहा जाता था। ऋग्वेद में लगभग ११ बार शक्ति का प्रयोग है और हर बार वह इन्द्र से सम्बद्ध है। पहले शची केवल इन्द्र की शक्ति थी, बाद में उसको नारी रूप में माना गया और उसे पत्नी पद इन्द्राणी दिया गया। ऋग्वेद ३, ६०, २ में शची को ही प्रजा भी कहा गया है। यह "ज्ञा" देवियों का वाचक है और वाद में यह वाक् का पर्याय हो गया। कहा गया

कि इसी "ज्ञा" से समस्त मन्त्र बने और उनके छन्द प्रकट हुए। वहीं कहीं यह सृजनात्मक शक्ति के रूप में भी आई है पर यह स्वीकार करना होगा कि वैदिक शक्तियों में वह मानुरूप, देवीत्व नहीं विकसित हुआ था और लोक परम्परा तथा लोकधर्म ने बाद में इन शक्तियों को जगज्जननी रूप दे दिया है। एस० के० दास, शक्ति आर डिवाइन पावर, अध्याय १, विशेषतः पृ० ४। ८०. बुडरफ, शक्ति एन्ड शाक्त, पृ० ३०। ८१. वही, पृ० १७०। ८२. वही पृ० ४१। ८३. पुरश्चर्यार्णव, पृ० २१। ८४. वही, पृ० २४। ८५. वही, पृ० ३७। ८६. कुलार्णवतन्त्र, पृ० १२०। ८७. वही, पृ० ३७। ८८. वही, पृ० ७५, ७६, ७७। ८९. ९०. पुरश्चर्यार्णव. पृ० २७। ९१. सातवींशती के लगभग पूर्वी देशों में इस निर्गन्ध सम्प्रदाय का विशेष प्रभाव था। मजुमदार, हिस्ट्री आफ बंगाल, प्रथम खण्ड, पृ० ४११। ९२. दुधी, शक्तिग्रन्थ, कल्याण, पृ० ५४५। ९३. दासगुप्त. आत्मस्थोर रिक्लीजस कल्ट्स पृ० २०। ९४. विष्णुपुराण, १, ६, १६। ९५. थ्रेडर, पृ० ११३। ९६. कौलावली निर्याय, पृ० १४०।

९७. यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो
 बौद्धः बुद्ध इव प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकाः
 अहंनित्यथ जैन शासन रतः कर्मेति मीमांसकम्
 सोऽयम् वो विद्धानु वाञ्छित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरि...

९८. आर० एल० मैत्र, संस्कृत बुध्दिष्ट लिटरेचर आफ नेपाल, पृ० ६५। ९९. द्रष्टव्य, यही ग्रन्थ, पृ० ३१६, ३२०।

ग

१. चित्त विशुद्धि प्रकरण, पृ० ६, श्लोक १२२। २. वही, भूमिका, पृ० १६। ३. वही, पृ० ३, श्लोक ३३। ४. डाकार्णव, पृ० १, छन्द १। ५. तन्त्रस्य देशना पुंसां पुण्यज्ञान प्रयोजनम्, सेकोद्देशटीका, पृ० ४। ६. अद्वयवज्र-संग्रह, पृ० २१। ७. 'संस्कृत भाषया पारमितानयम्, मन्त्रयानम् तन्त्र तन्त्रान्तरम् संस्कृत भाषया प्राकृतभाषया अमभ्रंशभाषया असंस्कृत शबरादि स्लेच्छभाषया' लघुक लचक-तन्त्र-राज टीका रा० ए० सो० वं० में संग्रहीत पाण्डुलिपि। दासगुप्त, 'तान्त्रिक बुद्धिज्म' में उद्धृत, पृ० ६१। ८. सेकोद्देश टीका, पृ० ४८। ९. फ्लैग, योग आर ट्रान्सफार्मेशन, पृ० १७। १०. डा० मथुरालाल शर्मा, मैजिकल बिलीफ्स इन बुद्धिज्म, ज० वं० ओ० रि० सो०, खराड १७, मान १। ११. महावग्ग, विनयपिटक (से० बु० ई०)। १२. ब्रह्मजाल सुत्त, पाली टेक्स्ट सोसायटी, पृ० ६ तथा आगे। १३. सर चार्ल्स इलियट, हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्म, खराड १, पृ० ३१७। १४. चतुल्लवग्ग, (से० बु० ई, खराड २०) पृ० ७८ तथा आगे। १५. सर चार्ल्स इलियट, हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्म, एण्ड १, पृ० ३१७। १६. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० १८। १७. सर चार्ल्स इलियट, हिन्दुइज्म एण्ड

टिप्पणियाँ : अध्याय १

बुद्धिज्म, खराड १, पृ० ३१६। १८. चुल्लवग्ग, (से० वु० ई०, खराड २०) पृ० ३६। १६. राइस डेविड्स, पाली-इंगलिश डिक्शनरी, पृ० १२१। २०. सर चार्ल्स इलियट, हिन्दुइज्म एराड बुद्धिज्म, खराड १, पृ० ३१६। २१. दृष्टव्य, यहाँ ग्रन्थ, पृ० १०२। २२. शान्तिभिक्षु, बौद्ध धर्म में तान्त्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश, विश्वभारती, जनवरी मार्च १६४५। २३. सेकोद्देश टीका, पृ० २, ३। २४. दासगुप्त, आन्तक्योर रेलीजस कल्ट्स, पृ० १७। २५. वैडेल, लामाइज्म, पृ० १२८। २६. दुर्चा, आन मैत्रेय, ज० ए० सो० बं०, खराड २६ में उद्धृत। २७. दुर्ची, वही। २८. साधनमाला, खराड १, पृष्ठ २१०। खराड २, पृ० ४८१। तथा चित्तविशुद्धि प्रकरण श्लोक ५। २९. अनिसमया-लंकारालोक में मैत्रेय को अनागत बुद्ध कहा गया है। दुर्ची संस्करण, पृ० २२५, २७६। ३०. महायान सूत्रालंकार, लेवां संस्करण, पृ० ४१। ३१. वही, पृ० ४१। ३२. विराटरनीत्त, गुह्य समाज तन्त्र एराड एज आफ तन्त्र, ई० हि० क्वा०, खराड १६, अंक १। ३३. बागची, स्टडीज इन तन्त्राज्ञ, पृष्ठ ८७। ३४. दासगुप्त, आन्तक्योर रेलीजस कल्ट्स, पृष्ठ १७। ३५. अद्वयवज्र-संग्रह, तत्व-प्रकाश, पृ० ४६। अप्रतिष्ठान प्रकाश, पृ० ४८। ३६. द्रष्टव्य, यही ग्रन्थ, पृ० ३१८। ३७. साधनमाला, पृ० ३३४। ३८. नैरीमान, लिटरेरी हिस्ट्री आफ संस्कृत बुद्धिज्म, पृष्ठ ११२ तथा मित्र, संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर आफ नेपाल, पृष्ठ ८०। ३९. भट्टाचार्य, बुद्धिस्ट आइकानोग्राफी, सर्वे आफ बुद्धिज्म। ४०. पुरातत्व निबन्धावली, "वज्रयान का प्रारम्भ और विकास"। ४१. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृष्ठ ५५६। ४२. दासगुप्त, तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृष्ठ ३४। ४३. एस० एन० दासगुप्त, इन्ट्रोडक्शन टु तन्त्र फिलोसफी। फिलोसफिकल एसेज में संग्रहीत। ४४. द्विवेदी, अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन, पृ० ६२, ६३। ४५. डाकासद, भूमिका, पृ० १५। ४६. वाडेल, लामाइज्म, पृष्ठ १४७। ४७. दासगुप्त, तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृष्ठ ७०। ४८. अद्वयवज्र संग्रह, पृ० ५१। ४९. अद्वयवज्र संग्रह, पृ० ५०। ५०. विश्वभारती, जन०, मार्च, १६४५, पृ० २०। ५१. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृष्ठ १११। ५२०। ५२. सुखावती-ग्रन्थ (मैक्समूलर और नान्जियो द्वारा सम्पादित)। ५३. भट्टा-चार्य, इरिडियन बुद्धिस्ट आइकानोग्राफी, पृष्ठ १६६। ५४. वही, अध्याय १। ५५. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृष्ठ ५२, ५३। ५६. द० यही ग्रन्थ, पृ० १११। ५७. अद्वयवज्र संग्रह, पृ० ५४ तथा दोहाकोष, पृ० १५५। ५८. अष्ट साहसिका, पृ० ४६०। ५९. बोधिचर्यावतार पंजिका, प्रज्ञाकरमति, अध्याय २, श्लोक ५३ की टीका। ६०. साधन-माला, पृ० १८, १९। ६१. अद्वयवज्र संग्रह, पृ० २३। ६२. साधनमाला, प्रथम खराड, पृ० २२५। ६३. अथर्ववेद का स्वाध्याय, सातवलेकर, पृ० ४७। ६४. सुधान्दकुमार दास, शक्ति या डिवाइन पावर, अध्याय १। ६५. अथर्ववेद: ४, २०। ६६. अथर्ववेद का स्वाध्याय, पृ० १५३। ६७. वही, पृ० २२। ६८. बोधिचर्यावतार अध्याय २, श्लोक ५३। ६९. वाडेल, लामाइज्म, पृष्ठ २७। ७०. सेकोद्देश टीका, भूमिका, पृ० ६। ७१. वही, पृ० १३ तथा साधनमाला, पृ० २२७। ७२. अष्ट-साहसिका, प्रथम परिवर्त, नृत्य।

परिवर्त । ७३. इन्द्र कामावचर रूप में उपस्थित होते हैं और ब्रह्मादिक रूपावचर रूप में । ७४. साधनमाला, पृ० २२५ । ७५. वही, पृ० ३६८, ३६९ । ७६. परस्व हरणम् कुर्यात् परदारा नितेवनम्, वक्तव्यम् च मृषा वाक्यम् सर्व बुद्धान् च पीतयेत । गम्या-गम्य विकल्पन्तु भक्ष्याभक्ष्यन्तथैव च, पेयापेयम् तथा मन्त्री कुर्यान्नैव समाहितः... अद्वयसिद्धि, लक्ष्मीकरा । ७७. स्तूप बनाने के समय भूमि चुनते समय जिन ४० देवी देवताओं की पूजा का विधान है वे सब महायानी पारमिताओं के बिम्ब तथा विवृत्ति रूप हैं । पश्चिमाभिमुख होकर पूर्व में दशभूमियों प्रमुदिता आदि की उपासना करनी चाहिये । दक्षिण में दश पारमिताओं के प्रतीक दश देवता; पश्चिम में 'पूर्वाभिमुख होकर आपः, चित्त, परिष्कार, कर्म, उपपत्ति, सिद्धि, अभिमुक्ति, प्रणिधान, ज्ञान और धर्म वंशिता की उपासना करनी चाहिये । उत्तर में वसुमती, रत्नस्था, उष्णीष विजया मारिची, पराशिवरी, अनेकमुखी, जांगुली चण्डा, प्रज्ञावद्दिनी, सर्वबुद्ध क्रोशाती इन धरणी देवियों की पूजा करनी चाहिये । क्रिया-संग्रह नाम पंजिका, तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृ० ४२ । ७८. सरहा के दोहाकोष की टीका का नाम 'सहजाम्नाय पंजिका' है । ७९. साधनमाला में चित्त विशुद्धि को ही प्रमुख मान कर 'अनुत्तर सम्यक सम्बोधि मार्ग' वज्रयान की यह परिभाषा मिलती है । पृ० २२५ किन्तु श्री गुह्य समाज तन्त्र में बुद्ध के पाँच कुलों की वज्र रति और उस तक पहुँचने के मार्ग का नाम वज्रयान बताया गया है । पृ० १५४ । ८०. ज्ञानसिद्धि, पृ० ६८ । ८१. अद्वयवज्र संग्रह, पृ० २६ । ८२. न कष्टकल्पनाम् कुर्यान्नोपवासेन चक्रियाम्, स्नानम् शौचम् न चैवात्र ग्रामधर्मम् विवर्जयेत्...५८...चित्त विशुद्धि प्रकरण । ८३. अद्वयवज्र संग्रह, पृ० २४ । ८४. प्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि पृ० १ । ८५. सेकोद्देश टीका, भूमिका, पृ० ६ । ८६. चित्त विशुद्धि प्रकरण, श्लोक ६७, ७० । ८७. वही, भूमिका, पृ० १९ । ८८. नैरात्म्य परिपृच्छ, पृ० २० । ८९. चित्तविशुद्धि प्रकरण, श्लोक, ६३, ६७, तथा प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पृ० ५ । ९०. चित्तविशुद्धि प्रकरण, श्लोक ११७ । ९१. बुद्धिज्म एसोटे-रिज्म, पृष्ठ १०१, १०२ । ९२. साधनमाला, पृ० २२६; पृ० २३८, पृ० ३५९ । ९३. या भगवती प्रज्ञापारमिता साऽहम्, साधनमाला, पृ० ३१८ । ९४. इन आवेशों में से क्रोधावेश का रोचक वर्णन सेकोद्देशटीका में मिलता है । पहले साधक 'ओं अ र र र र ल ल ल ल वज्रावेश्य हूं' इस मन्त्र के जाप से क्रोधावेश में होता है । फिर आवेश में आने पर प्रहार, हनन, आक्रमण कुछ भी कर सकता है । वज्रनृत्य करता है, मनुष्यों के लिये अगम्य ध्वनियाँ करता है, गीत गाता है, निर्लज्ज और निर्विशंक व्यवहार करता है । आचार्य उसके शिर पर मन्त्राभिषिक्त पुष्प रखता जाता है और लोचन आदि सौम्य देवताओं का आह्वान करता है और मुद्रा द्वारा उसका क्रोध उपशमित होता है । सेकोद्देश, पृ० १४, १५ । ९५. साधनमाला, पृ० ४४९ । ९६. कुहट्टि निर्घा-तम्, अद्वयवज्र संग्रह । ९७. कहा जाता है कि डोम्बीपा ने हेरुक की साधना का प्रच-लन किया था । नागार्जुन ने भोट देश की एकजटा का प्रचलन किया था । ९८. देखिये

टिप्पणियाँ : अध्याय १

यही ग्रन्थ, पृ० १५४। ६६. भारत में यही विभाजन प्रचलित है, तिब्बत में और प्रशाखाएँ हैं। १००. जे० आर० ए० एस०, १६०१, पृष्ठ ६००। १०१. कुदृष्टिनिर्घातम्, अद्वयवज्र संग्रह। १०२. ज्ञानसिद्धि, पृ० ३२। १०३. कुदृष्टिनिर्घातम् अद्वयवज्र संग्रह। १०४. चक्रसम्भार तन्त्र, भूमिका, पृ० ३२। १०५. शक्ति अंक, कल्याण, पृ० ५४५। १०६. वाडेल, लामाइज़्म, पृष्ठ १५२। १०७. दासगुप्त, इन्द्रोडकशान ढु तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृष्ठ ७१। १०८. कुदृष्टि निर्घातम्, पृ० २, अद्वयवज्र संग्रह। १०९. कुदृष्टि निर्घातम्, पृ० ३, (अद्वयवज्र संग्रह)। ११०. वही, पृ० ५। १११. वही, पृ० २। ११२. वही, पृ० २। ११३. चित्त विशुद्धि प्रकरण, श्लोक ६। ११४. इ ग्य दो, (सहजयान) नन् ग्य दो, (कठिनयान,) किमूरा, ओरिजिन आफ महायान बुद्धिज्म, ज० डि० ले० १६२४। ११५. सहजे शिञ्चल जेरा किञ्च समरसे शिञ्चमरा राह, सिद्धो सो पुण तक्खरो राञ्च जरामरणह भाञ्च, दोहाकोष, पृ० ४३। ११६. बौद्ध गान, १४वीं चर्चा की टीका। ११७. गाड्लस, रेलीजंस आफ ऐशेंट चाइना। ११८. सर चार्ल्स ईलियट, हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्म, खण्ड ३, पृ० २४६। ११९. बागची, इरिडया एण्ड चाइना, पृष्ठ १६६। १२०. फलैग योग आर ट्रान्स्फार्मेशन, पृष्ठ १३४, २०७, २१४, २१५, ३३५। १२१. इलियट, हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्म, खण्ड ३, पृष्ठ २४५। १२२. विष्णुकान्ता, विन्ध्य से चटगाँव तक, अश्वकान्ता, विन्ध्य से महाचीन तक और रथकान्ता, विन्ध्य से कम्बोज तथा जावा द्वीप तक। एवलन, प्रिन्सीपिल्स आफ तन्त्राज्ञ, भूमिका। बागची, स्टडीज़ इन तन्त्र, भाग १, पृ० ४८। १२४. एकजटा साधनम्, साधनमाला, भाग २। १२५. 'आन फारेन एलीमेंट्स इन तन्त्राज्ञ'...बागची-स्टडीज़ इन तन्त्राज्ञ। १२६. बागची, इरिडया एण्ड चाइना, पृष्ठ १६६, २०१। १२७. साधनमाला भूमिका, पृष्ठ ४३। १२८. फरक़ुहर, पृष्ठ १४३। १२९. विष्णुपुराण, १, ६, १६। १३०. वही, २, १, २५। १३१. डाकिट्रनल कलचर एण्ड ट्रैडिशन आफ सिद्धाज्ञ, वी० वी० आर० शास्त्री, कलचरल हेरिटेज आफ इरिडया, खण्ड २, पृ० ३१३, ३१७। १३२. एफिआफ्रिका इरिडका, खण्ड ५, पृ० १८६। १३३. वाडेल-लामाइज़्म, पृ० १५१, १२१। १३४. बसु, 'मार्डन बुद्धिज्म एण्ड इट्स फालोअर्स इन उड़ीसा', की भूमिका, पृष्ठ ८। १३५. सर चार्ल्स इलियट, हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धिज्म, खण्ड ३, पृष्ठ ३८५, ३८७। १३६. कोरोस, टिबेटियन-टिट्विट्स कलकत्ता १९१२। या ज० ए० सो० ब०, खण्ड २, पृ० ५७। १३७. पितो का उल्लेख कालचक्र तन्त्र के प्रथम प्रवर्तक के रूप में तारानाथ ने भी किया है। साधनमाला, खण्ड २, भूमिका, पृ० ४३। १३८. इन्द्रोडकशान ढु तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृष्ठ ७६। १३९. सेकोदेश टीका, पृ० १। १४०. सेकोदेश टीका—पृ० ३। १४१. सेकोदेश टीका, पृ० ८। १४२. दासगुप्त तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृष्ठ ७८।

अध्याय २

क

१. 'अद्वयार्थो हि परमार्थः', लेखां संस्करण, पृ० २२। २. उच्छिन्नतापा मम् सर्वधर्मान्तेनास्त्रि बुद्धो जगतानुबोधात्... रुद्धर्म पुंढरीक सूत्र, पृ० ४७। ३. एहुसे अप्पा एहु जगु जो परिभावइ, सिम्मल चित्त सहाव सोकि बुज्झइ, वागची दोहाकोष, पृ० ५। पर अप्पाण म भान्त करु सअल निरन्तर बुद्ध। वा० दोहाकोष, पृ० ५। ४. जिम बाहिर तिम अम्भन्तरु, चउदह भुवरो ठिअउ निरन्तरु। वही, पृ० ३५। सोहिअ चित्त गिरालम् दिगणा, वही पृ० ३४। ५. डाकार्णव, चौधरी, पृ० १४१। ६. दश्यम् न विद्यते चित्तम् चित्तम् दश्यात् प्रमुच्यते... लंकावतार सूत्र, जिल्द २। ७. चाटिल्लपाद. पद ५, वा० दोहाकोष, पृ० १११। ८. वा० दोहाकोष. पृ० ३। ९. वा० दोहाकोष, पृ० ११। १०. वा० दोहाकोष, पृ० १२। ११. वा० दोहाकोष, पृ० १३। १२. वा० दोहाकोष, पृ० १८। १३. वा० दोहाकोष, पृ० १३। १४. वा० दोहाकोष, टीका भाग, पृ० ६१। १५. वा० दोहाकोष, पृ० २१। १६. वा० दोहाकोष, पृ० ३६। १७. वा० दोहाकोष, पृ० ३६, दोहा ६२। १८. वा० दोहाकोष, पृ० ४१, दोहा ७, ८। १९. वा० दोहाकोष, पृ० ५२, दोहा १५। २०. पद १, वा० चर्यापद, पृ० १०७। २१. बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ४, १६। २२. वा० दोहाकोष. पृ० ३६। दो० ६३, ६ पृ० ३१ दो० ७१। २३. वा० दोहाकोष, टीका भाग. पृ० १५२, १५३। २४. वा० दोहाकोष, पृ० ११। २५. अभिधर्म कोष, राहुल संस्करण, प्रथम अध्याय। २६. भैन्धुएल आफ ए मिस्टिक, पृ० ६। २७. सअल आअरहि गअरा सम्पुगणा, वा० दोहाकोष, पृ० ११। २८. वा० दोहाकोष, पृ० ५२ दोहा १५। २९. वा० दोहाकोष, पृ० ४१। ३०. सोगेन, सिस्टम्स०, पृ० १२५। ३१. संकोद्देश टीका, पृ० ७। ३२. बौद्धगान ओ दोहा, पृ० ४। ३३. अभिधर्म कोष, (राहुल), प्रथम अध्याय। ३४. सोगेन सिस्टम्स, पृ० २३१, २३२। ३५. संकोद्देश टीका, पृ० ७। ३६. टीका भाग, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २५। ३७. सोगेन, सिस्टम्स०, पृ० २३१। ३८. वही. पृ० १११, ११२। ३९. टीका भाग, वा० दोहाकोष पृ० ६२, ५८, संकोद्देश टीका पृ० ७। ४०. सोगेन, सिस्टम्स० पृ० २१६, २३०। ४१. वा० दोहाकोष पृ० ६२, ४२. लंकावतार सूत्र, जिल्द २। ४३. चर्यापद १। ४४. वा० दोहाकोष पृ० २४। ४५. वही पृ० १०२। ४६. वही पृ० ३४। ४७. वही० पृ० ४। ४८. वही० पृ० २४। ४९. वही० पृ० २८। ५०. वही पृ० १६। ५१. वही पृ० ३१। ५२. वही पृ० ४३। ५३. वही पृ० २६। ५४. वही पृ० २६। ५५. वही पृ० २२। ५६. वही पृ० १०। ५७. वही पृ० २१। ५८. वही पृ० १४३। ५९. महायान सूत्रालंकार ११, १६। ६०. वा० दोहाकोष पृ० ८। ६१. वही पृ० ३। ६२. वही पृ० ५। ६३. वही पृ० ११। ६४. वा० चर्यापद पृ० ५३। ६५. वा० दोहाकोष पृ० ३७। ६६. वही पृ० १४४। ६७. पद ७ की टीका, बौद्ध गान ओ दोहा पृ० १५। ६८. वा० दोहाकोष पृ० १४५। ६९. बौद्ध

टिप्पणियाँ : अध्याय ३

गान ओ दोहा पृ० २४। ७०. प्रज्ञोपाय-विनिश्चय-सिद्धि, पृ० १८ श्लोक २३। ७१. बौ० दो० पृ० १२। ७२. वही, पृ० २२। ७३. महायानविशक, श्लोक १० तथा १२। ७४. चित्तविशुद्धि प्रकरण श्लोक १८। ७५. चित्तविशुद्धि प्रकरण, पृ० ३, श्लोक २७। ७६. नैरात्म्य परिपृच्छ पृ० १५, श्लोक १६ तथा २०। ७७. महायान सूत्रालंकार ६. १५। ७४. ज्ञानसिद्धि पृ० ४६। ७६. साधनमाला, प्रथम खंड पृ० २६, २७१। ८०. साधनमाला, प्रथम खंड, पृ० १३३। ८१. वा० चर्यापद पृ० १४७। ८२. वा० दोहाकोष पृ० १०१। ८३. वा० दोहाकोष पृ० १२। ८४. मारह चित्त शिष्याओं हारिणा। तथा टीका वा० दोहाकोष पृ० ६२। ८५. वा० दोहाकोष पृ० १०४। ८६. पद ४५, तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा पृ० ६६। ८७. वा० चर्यापद पृ० १३८। ८८. वा० दोहाकोष पृ० ६५। ८६. वा० दोहाकोष टीका पृ० ६५। ६१. माध्यमक वृत्ति-१५-१६। ६१. सोगेन, सिस्टम्स० पृ० २०१। ६२. माध्यमक वृत्ति पृ० ५२१। ६३. दे० पीछे, शून्यवाद। ६४. लंकावतार सूत्र अध्याय ३। ६५. महायान श्रद्धोत्पाद सूत्र (अनू०) पृ० ६७। ६६. सोगेन, सिस्टम्स० पृ० ६७। ६७. महायान श्रद्धोत्पाद सूत्र (अ०) पृ० ५८। ६८. महायान सूत्रालंकार पृ० ६५। ६९. अद्वयार्थों हि परमार्थः, महायान सूत्रालंकार ६। १। १००. वा० दोहाकोष पृ० ४३। १०१. वा० दोहाकोष पृ० १५६। १०२. प्राप्ति, जीवितेन्द्रिय, निकास समाग, पृथग्जाति, असंज्ञा समाप्ति, निरोध समाप्ति, असंज्ञिकम्, व्यंजनकाय, नामकाय, पदकाय, जाति जरा, स्थिति, अनित्यता, प्रवृत्ति एवम्मागाय, प्रत्युग्रन्ध, जावन्यम्, अनुक्रम, देश, काल, संख्या, सामग्री, भेद। सोगेन, सिस्टम्स० पृ० २२६। १०३. दोहाकोष पृ० १२४। १०४. अश्वघोष द्वारा वर्णित स्मृतियों को डा० दासगुप्त ने वासना के अर्थ में ग्रहण किया है: दासगुप्त, तांत्रिक बुद्धिज्ञ पृ० २४। १०५. टीका, दोहाकोष पृ० १२४। १०६. जयनन्दीया, वा० चर्यापद पृ० १५२। १०७. बौद्ध गान ओ दोहा पृ० ६१। १०८. ६ वीं चर्या। १०९. चर्यां वागची पृ० १५०। ११०. बौद्ध गान ओ दोहा पृ० ६८। १११. वा० चर्यापद पृ० ११६, १२। ११२. बौ० गान ओ दोहा पृ० २३। ११३. वा० दोहाकोष पृ० १५६। ११४. वही पृ० ३। ११५. वही पृ० ३। ११६. वही पृ० ६८। ११७. वही पृ० ३२। ११८. अश्वघोष का कथन है कि तथता न तो भाव है न अभाव, न भावाभाव है, न भावाभाव का निषेध, न एक है, न अनेक है, न एक अनेक का अभाव। एक शब्द में सर्व सत्व इसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते अतः इसे शून्यता की संज्ञा दी गई है। महायान श्रद्धोत्पाद सूत्र : सुजुकी का अनुवाद : पृ० ५६, ६०। ११६- आर्य सत्यद्वयावतार सूत्र, मध्यान्त विभाग पृ० ३७४। १२०. वा० दोहाकोष पृ० १२१। १२१. वही पृ० ४। १२२. गुणदोष रहिअ एहु परमत्थ। २६। दोहा त्रैय पृ० ७ वा०। १२३. पत्था एहु सो एहु परमत्थवि। ३। वा० दोहाकोष पृ० ६। १२४. एवमनेन सुनिर्मगवान परमार्थं रूपकम सरोरुहवज्रादेनात्मन्... सिद्धम् परमाथम् अम् सर्वेषु तदाश्रिता चेत्ति। १२५. विज्ञानवादी तीन प्रकार के ज्ञान जानते थे—रिकल्पित, परतंत्र, परिनिष्पन्न, ।

इनमें से प्रथम दो सम्प्रति सत्य या माया के प्रभास स्वरूप थे और प्राज्ञ-ग्राहक भाव से युक्त थे। परिनिष्पन्न ज्ञान दोनों से मुक्त था। महायानसूत्रालंकार, पृ० २२। १२६. महायानसूत्रालंकार पृ० ६५। १२७. वही १३। १। ११२८. “सर्वधर्मानुत्पाद समतया परमार्थतः” मध्यान्त-विभाग पृ० ३७४। १२६. सर्व भावाः स्वभावेन प्रतिविम्ब समामताः, शुद्धाः शान्तस्वभावाश्च अद्वयस्तथता समाः। महायानविंशक ॥ तथा-अनादिनिधनम् शांतम् भावाभाव विवर्जितम्, निर्विकल्पम् निरालम्बनदस्थितमद्वयम् ॥ १ ॥ चित्तविशुद्धि प्रकरणा। १३०. महायानसूत्रालंकार पृ० ६४। १३१. चर्यापद पृ० १५०। १३२. चर्यापद पृ० १४१। १३३. आइ रहिय एह अन्तरहिय, वरगुरुभाअ अद्वयअ कहिय। बा० दोहाकोष पृ० ७ तथा टीका पृ० ७०। १३५. हउ सुरण, जग सुरण, तिहुअण सुरण। पृष्ठ ८, दो० बा०। १३५. सअज्ञाआरहि गअण सम्पुरणा। १६। पृ० ११ बा० दो०। १३६. अरण तरंग कि अरण जल भव नम खसम सअण। बा० दोहाकोष पृ० ३१। १३७. बा० दोहाकोष पृ० ३१। १३८. पृ० ४० बा० दो० तथा तिलोपा, बा० दोहाकोष पृ० ५। १३६. बा० दोहाकोष पृ० ४१। १४०. वही पृ० ४। १४१. वही पृ० ६। १४२. वही पृ० ४१। १४३. चर्यापद १ तथा १०। १४४. दे० वज्रज्ञान। १४५. दे० पीछे “शून्यवाद”। १४६. भावग्राहम् परित्यज्य नाभावम् कल्पयेद् बुधः, वरम् हि भावसंकल्यो तस्वभाव प्रकल्पना। निर्वाणि ज्वलितो दीपो निवृत्तः का गतिम् ब्रजेत्। ६। प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि पृ० ४। १४७. ६ वां चर्यापद काण्हापा; २६वां चर्यापद छईपा; ३० वां चर्यापद भुसकुपा पृ० १३६; सरहपा, बा० दो पृ० ६४, सरहपा. बा० दो० पृ० ११६। १४८ तिलोपा, बा० दो० पृ० ६। १४६. देखिये पीछे लोकधर्म। १५०. देखिये आगे महासुख। १५१. बा० दोहाकोष पृ० १४५। १५२. देखिये पीछे “माध्यमिक सम्प्रदाय और तन्त्र”। १५३. “चित्ता ज्ञान ज्ञेयादि, अचित्तो निःस्वभावादि। बा० दोहाकोष टीका पृ० ११८। १५४. वही, पृ० ३६। १५५. वही, पृ० ४, ७। १५६. सोगेन सिस्टम्स० पृ० २५७। १५७. वही पृ० ४१। १५८. बा० चर्यापद, पृ० १०७। १५६. आयतनेन्द्रियादि गगनम् प्राप्ताणि। खसम वीजम् यत् खसमम् याति। बा० चर्यापद, पृ० ५३। उपरोक्त चर्या मूल ताडपत्र लिपि में नहीं प्राप्त है। बागची ने तिब्बती अनुवाद की छाया दी है। १६०. चर्यापद, पृ० १३१। १६१. सुनापान्तर उह न दीसइ भान्ति न वाससि जान्ते। १६वीं चर्या, चर्यापद पृ० १२२। १६२. बा० दोहाकोष, पृ० ७। पृ० ५६। बा० चर्यापद, पृ० १४१। १६३. बा० दो० पृ० ३२। १६४. बा० चर्यापद, पृ० १४६। १६५. सर्वे भावा स्वभावेन प्रतिविम्ब समामताः। शुद्धाः शान्तस्वभावाश्च अद्वयस्तथता समाः। महायान विंशक। १६६. बा० दोहाकोष, पृ० ४२। १६७. वही, पृ० ४६। १६८. वही, पृ० ४७ तथा पृ० १३। १६६. वही, पृ० १०४। १७०. वही, पृ० ४३। १७१. वही, पृ० ६१। १७२. वही, पृ० ८६। १७३. वही, पृ० ६३। १७४. वही. पृ० ३। १७५. वही, पृ० ६६। १७६. वही, पृ० २५। १७७. वही, पृ० ८। १७८. वही, पृ० १२२। १७६. वही, पृ० १३१।

टिप्पणियाँ : अध्याय ३

१००. वही, पृ० १७। १०१. जहि मरा पवण रा संचरइ रदि तमि राह नरेम। तहि वढ़ चित्त विसाम कर सरहें कहिअ उएस। तथा इनकी टीका पृ० ६६ वा० दोहा०। १०२. शित्तरंग सम सहजरुअ सञ्जल कलुस विरहिए। प्राद पुगारा रहिए कुच्छ साहि कारह फुड कहिए ॥१०॥ तथा टीका, वा० दो०, पृ० ११४। १०३. वा० चर्यापद, पृ० १४६। १०४. देखिये पीछे 'सहज'। १०५. वा० दोहाकोष पृ० ४८। १०६. वही, पृ० १२७। १०७. टीका वा० दोहाकोष पृ० १२६। १०८. तिलोवा, पृ० ३, वा० दो०। १०९. वा० दो० पृ० ४८। ११०. वही, पृ० २६। १११. वही, पृ० ३६, छन्द १०८, १०९, ११०। ११२. इस पंचकम प्रणाली का उल्लेख प्रथम चर्या की टीका में कई बार मिलता है। देखिये बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २। साथ ही डोर्म्बिया इस पंचकम को ही भवसागर से पार उतारने वाले केडुआल मानते हैं। देखिये १४वें चर्यापद की टीका। बौद्ध गान ओ दोहा पृ० २६। ११३. शून्य रचति शून्यंच नहा-शून्यस् तृतीयकम्। चतुर्थम् सर्वशून्यंच फल हेतु प्रभेदतः ॥ दासगुप्त द्वारा उद्धृत। ११४. दासगुप्त, आब्स्क्रयोर रेलिजस कल्टस, पृ० ५३। ११५. पत्तो चउठउ चउ मूणाल ठिअ महासुह वासे ॥५॥ पृ० ४० दोहाकोष, वागची। ११६. शून्यातिशून्य महाशून्य सर्वशून्यमिलत चतुःशून्यस्वरूपेण पत्रचतुष्टयम् चतुरादिस्वरूपेण चतुर्मु-णाल संस्थिता। टीका वा० दोहाकोष पृ० १५१। ११७. ५०वाँ चर्यापद तथा टीका, बौद्धान ओ दोहा पृ० ६५। ११८. दोहा ६ तथा टीका पृ० १५१ वा० दोहा-कोष। ११९. महाप्रज्ञा महोपाय महाकृपाधिमोक्षतः, महायानसमुद्दिष्टन् महासत्त्वन्-गेचरम् ॥८॥ चित्तविशुद्धिप्रकरण पृ० ६। २००. सातबलेकर, अथर्ववेद का न्वाध्याय पृ० २०। २०१. वा० चर्यापद पृ० १३६। २०२. सुजुकी—आउटलाइन्स आफ महा-यान बुद्धिज्म, पृ० २६८। २०३. एस० बी० दासगुप्त, इंट्रोडक्शन टु तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृ० ११०, १११। २०४. दीवान नर्मदाशंकर मेहता, कल्याण, (शक्ति अक) पृ० ५४४ तथा आगे। २०५. वागची, चर्यापद पृ० ११०। २०६. वही, पृ० १२७। २०७. बौद्धान ओ दोहा पृ० ५६। २०८. सुजुकी, आउटलाइन्स आफ महायान बुद्धिज्म, पृ० ६३। २०९. देखिये पीछे पृ०। २१०. वीर्य पारमिता सहगतो बज्रोपमो दृढात्वाद मेघत्रया। महायानसुत्रलंकार पृ० १६। २११. बोधित्तम् सांघ्रतस्फन्दरु-पम् शुक्रम् रजोभूषितम् तन चित्तवज्रेण शिलशृम् ॥ टीका पृ० १५० वा० दोहा०। २१२. एवम् वंजम् गृहीत्वा कुसुमितम् अरविन्दम् कमलान् सधुकररूपेण चित्तवज्र, प्रज्ञोपाय योगात्.....टीका पृ० १५१, वा० दोहाकोष। २१३. करुणाशून्यता मूर्तिः कालः सम्वृत्ति रूपिणी, पृ० ८ सेकोदेश टीका। २१४. स एव काल चन्द्रो भगवान प्रज्ञोपायात्मको ज्ञानज्ञेय सम्बन्धेत्सो यथाक्षर सुम्वज्ञानम् सर्वजवरण क्षय हेतुभूतम् काल इत्युक्तम्। उपायः करुणात्मक...। सेकोदेश टीका। २१५. दोहाकोष टीका पृ० १५१, १५२। २१६. वा० दोहाकोष पृ० ५। २१७. वा० दोहाकोष टीका पृ० ६७। २१८. वा० दोहाकोष पृ० ११६। २१९. सर्वे ते शुद्ध भावाहि। यत्मात् बुद्धमयम्

जगदिति । टीका पृ० ७०, बा० दोहाकोष । २२०. १३वीं चर्या तथा टीका बौद्धगान
ओ दोहा, पृ० २५ । २२१. बा० दोहाकोष, पृ० ११ । २२२. देखिये 'देवशृङ्खला' ।
२२३. सर्वे ते वैरोचनादयस्तयागत रूपादि पंच स्कन्ध रूपेण जगदाकारस्तेषाम्...
वज्रधर—शरीरमित्यर्थ । बा० दोहाकोष पृ० १६२ । २२४. संकीर्ण दोहासंग्रह पृ०
५६, बा० दोहाकोष । २२५. बौद्ध गान ओ दोहा, ४६वीं चर्या की टीका पृ० ७० ।
२२६. ए० गेटी, गाड्स आफ नार्दन बुद्धिज्म, पृ० ११ । २२७. दोहाकोष, बा० पृ०
१६२ । २२८. महायान श्रद्धोत्पाद सूत्र । सुजुकी । पृ० ५५, ५६ । २२९. बा० दोहा-
कोष, पृ० ७० । २३०. बा० दोहाकोष पृ० १४६ । २३१. वही पृ० ४० । २३२. ज्ञान
सिद्धि, पृ० ४३ । २३३. बा० दोहाकोष पृ० ६५ । २३४. वही पृ० ६७ । २३५. वही
पृ० ६५ । २३६. डाकार्णव, पृ० ५४ । २३७. ज्ञानसिद्धि पृ० ३८ । २३८. महायान-
सूत्रालंकार ११।१८ । २३९. रिम्मल सहजे पाप ण पुण्ण, तिलोपा बा० दोहाकोष
पृ० ८ । २४०. ज्ञानसिद्धि पृ० ३८, श्लोक ६६, ७१ ।

ख

१. बा० चर्यापद, पृ० १०७ । २. बा० दोहाकोष, पृ० ६१ । ३. भुसुकुपा,
पद २१, बा० चर्यापद, पृ० १२८ । ४. महीधरपा, पद १६, बा० चर्यापद. पृ० १२३ ।
५. बा० दोहाकोष, पृ० १५० । ६. देखिये पीछे, सम्भृत सत्य । ७. देखिये पीछे,
त्रिक्रवाद । ८. दास, शक्ति आर डिवाइन पावर, पृ० ११८ । ९. 'विमल सलिल
सोख जाइ जइ कालामि पइदुइ,' कारहपा, बा० दोहाकोष, पृ० १५६ । १०. 'बोहि
रअभूसिअ अक्खोहेहिं सिट्ठओ...कारहपा, वही, पृ० १५० । ११. 'महोत्साहा महारम्भा
महार्थाथ महोदया'...महायान सूत्रालङ्कार, पृ० १४ । १२. महायान सूत्रालङ्कार,
श्लोक १५, २०, पृ० ७६ । १३. दे० आगे, अध्याय ४ । १४. वौ० गा० ओ० दो०,
पृ० ४२ । १५. वागची दोहाकोष, पृ० ११ । १६. बा० दोहाकोष, पृ० ७, ६२,
१५८, १६० । १७. बा० चर्यापद, पृ० १०७ । १८. बा० दोहाकोष, पृ० ३७ । १९.
वही, पृ० ६३ । २०. दे० पीछे, रसेश्वर सम्प्रदाय, २१. चित्तविशुद्धि प्रकरण, पृ०
४ । २२. बा० दोहाकोष, पृ० १०१ । २३. बा० दोहाकोष, टीका भाग, पृ० ६८,
पृ० १०० । २४. सरहपा, दोहा ५१, बा० दोहाकोष, पृ० २६ । २५. सरहपा, दोहा
६६, बा० दोहाकोष, पृ० ३१ । २६. कारहपा, दोहा १६ तथा टीका, बा० दोहाकोष,
पृ० १५८ । २७. सरहपा, पद २२, तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ३६ । २८.
बा० दोहाकोष, पृ० २६ । २९. बा० चर्यापद, पृ० १२८ । ३०. पद १२, स्वा० चर्या-
पद, पृ० ११६ । ३१. बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २३ । ३२. बा० दोहाकोष, पृ० ३ ।
३३. वही, पृ० ४ । ३४. वही, पृ० ७ । ३५. सर्व दर्शन संग्रह, कावेल तथा गफ
पृ० १३८ । ३६. बा० दोहाकोष, पृ० ५ । ३७. अमनस्कार वाहुत्यम् कौशीयम् योग
विभ्रनः...१०, ४...महायान सूत्रालंकार । ३८. अभिनमयालंकारालोकः टुची-संस्क-

टिप्पणियाँ : अध्याय ३

ररा पृ० ११५। ३६. सोगेन, सिल्टम्स आफ बुद्धिस्ट थाट, पृ० १४२। ४०. सोगेन सिल्टम्स आफ बुद्धिस्ट थाट, पृ० २१६। ४१. वा० दोहाकोष, टीका भाग. पृ० ६२। ४२. 'सोवि मरु ताहि अमरु करिज्जइ' तथा टीका' वा० दोहाकोष, पृ० १३१। अद्वयवज्र ने 'अमनसिकार' शब्द की व्याख्या करते हुए 'अ' को तान्त्रिक बीजाक्षर बताया है। वह नैरात्म्य-स्वरूप, वरुणों में अग्रणी, महार्थयुक्त, परमाक्षर, महाप्राण और स्वर होने के नाते अनुत्पादक है। अद्वय-वज्र-संग्रह, पृ० ६२। ४३. विसअरमन्त रा विसअं विलिप्पइ, ऊअर हरइ रा पाणी छिप्पइ। तथा टीका, वा० दोहाकोष, पृ० १२३। ४४. वा० दोहाकोष, पृ० ३४। ४५. वा० चर्यापद, पृ० ११८। ४६. कारहवा वा० दोहाकोष, पृ० १६३। ४७. प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पृ० ५, श्लोक १५, ४५। ४८. वा० दोहाकोष, टीकाभाग, पृ० १६२। ४९. वा० दोहाकोष, टीका भाग, पृ० १६३। ५०. महारागानुरागेण महाराग स्वभावतः, महाराग समाधिस्थो महामुद्रा प्रसाध्येत्। सुभाषित संग्रह, वेणुबेल। ५१. दे० आगे, "उपलब्धि"—मूल्यांकन। ५२. वा० दोहाकोष, पृ० ४। ५३. वही, पृ० ७। ५४. वही, पृ० ६। ५५. वही, पृ० १८। ५६. वा० दोहाकोष, पृ० १८ दोहा १८। ५७. वा० दोहाकोष, पृ० २१, दोहा ११। ५८. वा० दोहाकोष, पृ० २२। ५९. वही, पृ० ३०। ६०. वही, पृ० ३१। ६१. वही, पृ० ३६। ६२. वा० चर्यापद, पृ० १४४। ६३. वा० चर्यापद, पृ० १३३। ६४. वा० चर्यापद, पृ० १०७। ६५. वा० चर्यापद, पृ० १५१। ६६. वा० दोहाकोष, पृ० ३। ६७. वही, पृ० २६। ६८. वही, पृ० १३। ६९. वही पृ०, ६। ७०. वही, पृ० २७। ७१. विश्वभारती मार्च १९४५, पृ० १६, २०। ७२. दे० पीछे, तन्त्र, पृ० ७३. कुछ आगमों में सथ्यदेश, कुरुक्षेत्र, कोंकण आदि में प्रथम श्रेणी, गौड़, शाल्व, मगध, केरल, कोशल आदि में द्वितीय तथा कर्णाटक, कच्छ, कलिन्द और कम्बोज में तृतीय श्रेणी के गुरु बताये गये हैं। वागची, स्टडीज इन तन्त्राज, पृ० १८। ७४. साम्नाया सन्ति ये केचिद् प्रज्ञोपायार्थदेशकाः...प्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि पृ० ६। ७५. वज्राचार्याराधन निर्देश, प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पृ० १०। ७६. गुह्य समाज तन्त्र, पृ० १३७, १३८। ७७. 'गुरुर्वृद्धो भवेद्धर्मः संघश्चापि स एव हि' ज्ञानसिद्धि। ७८. गुरो राज्ञाञ्च मुद्राञ्च छाया-मपि न लंघयेत्, चित्त विशुद्धि प्रकरण, पृ० ६। ७९. चित्त विशुद्धि प्रकरण, पृ० ६, श्लोक १३१। ८०. वा० दोहाकोष, पृ० १०। ८१. दे० पीछे, 'वज्रयान', ८२. द्विवेदी, कबीर, पृ० २५। ८३. राहुल, हिन्दी काव्यधारा, भूमिका, पृ० ४७, ४८। ८४. दे० आगे, साम्प्रदायिक स्थिति। ८५. दे० आगे, साम्प्रदायिक स्थिति। ८६. वा० दोहाकोष, पृ० ६६, ६७, ६१, ११४, १२१, १६२। इन आलोचनाओं पर आगे 'साम्प्रदायिक स्थिति' के अन्तर्गत विचार किया गया है। ८७. देखिये पीछे, अध्याय २, ख, टिप्पणी संख्या ६०। ८८. अद्वय वज्र संग्रह, पृ० ३। ८९. राहुल जी का भी ऐसा अनुमान है। हिन्दी काव्यधारा, भूमिका, पृ० ४८। ९०. साधनमाला, खंड

१. पृ० ८० । ११. वाचनमाता, खंड २, पृ० २३ । १२. वाचनमाता, खंड २, पृ० ३८ तथा आगे । १३. 'कुमुद' नाम का रत्न, अर्थात् वाचनमाता, खंड २, पृ० ३८ । १४. पौडप भुज महाकाव्य भाग २, वा० चर्यापद, पृ० १५७ । १५. वाचनमाता नयनोपविक, साधनमाता, खंड २, पृ० ४२३ । १६. प्रज्ञातीक्ष्णविक्रम, वाचनमाता, खंड २, पृ० ४२३ । १७. 'इ० पी०', अर्थात् चर्यापद, पृ० १५७ । १८. वा० दोहाकोष, पृ० ६६ । १९. वही, पृ० ३७ । २०. वही, पृ० १५ । २१. वही, पृ० १५६ । २२. एकाराकृत यद्विव्यस मध्ये वंकार भा० पतन, अर्थात्: सर्वोपमानाम् बुद्ध रत्नकरराडकम् .. हेवज से उद्धृत, वा० दोहाकोष, पृ० १५६ । २३. वा० दोहाकोष, पृ० १५६ । २४. अथर्व वेद कर्म मूल माला कहारो टीका, वा० दोहाकोष, पृ० १५७ । २५. मैन्युएल आफ ए सिस्टिक, पृ० १ । २६. मैन्युएल आफ ए सिस्टिक, पृ० १८ । २७. मैन्युएल आफ ए सिस्टिक, पृ० २४ । २८. अनुयेदी, तिलोया हिन्दुस्तानी । २९. पद २६, वा० चर्यापद, पृ० १३१ । ३०. 'श्री कारमा डा० वागची को यह भ्रम है कि सभा मित्रों और सन्तों की जातया चर्या की परिचायक हैं, १९२. दे० पी०, साप्ताहिक सिध्दित । १९३. मैन्युएल आफ ए सिस्टिक, पृ० ४, ५ । १९४. साधनमाता, खंड २, पृ० ४५८, ४६३ । १९५. वा० दोहाकोष, पृ० ५६ । १९६. संकोदेश टीका, पृ० ४८१ । १९७. वा० दोहाकोष, पृ० ३७ । १९८. वही, पृ० २२ । १९९. अथर्व वेद संग्रह में संकलित । २००. 'धर अचछद् वाहिरे पुच्छद्' तथा टीका, वा० दोहाकोष, पृ० १२१ । २०१. वा० दोहाकोष, पृ० ३० । २०२. देह नशरी विहरद् एकाकारं, पद ११, वा० चर्यापद, पृ० ११८ । २०३. वाह्य काय कारिहल मात्राजाल, पद १३, वा० चर्यापद, पृ० १२० । २०४. काश्चा नावडि खांट मन केडुआल, पद २८, वा० चर्यापद, पृ० १४४ । २०५. सरहपा, दोहा ४७, ४८, वा० दोहाकोष, पृ० २५ । २०६. टीकाभाग वा० दोहाकोष, पृ० १३३ । २०७. पुरश्चर्या- र्याव भाग २, पृ० ४६० । २०८. दासगुप्त, आक्सफोर रैलिजस कल्ट्स, पृ० १०४ । २०९. ज्ञानसिद्धि, पृ० ४४ श्लोक ३८ । २१०. ज्ञानसिद्धि, श्लोक ३७, पृ० ४४ । २११. कारहपा, १६वां दोहा; वा० दोहाकोष, पृ० ४३ ।

ग

१. वा० दोहाकोष, पृ० १५२, १५३ । २. कारहपा दोहा, ३, ४ तथा टीका, वा० दोहाकोष, पृ० १५० । ३. 'एवंकार वीअ लइअ कुमुमिअ अरविन्दए' तथा टीका, वा० दोहाकोष, पृ० १५१ । ४. दासगुप्त, इन्ट्रोडक्शन टु तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृ० १२४ । ५. एकारस्तु भवेत् साता वकारस्तु पिता स्मृतः... एकारस्तु भवेत् प्रजा वकारः सुरताधिपः... बैरबेल, सुभाषित-संग्रह, पृ० ७३ । ६. टीकाभाग, वा० दोहाकोष, पृ०

टिप्पणियाँ : अध्याय ३

१५२। ७. इरिडयन हिस्टारिकल क्वार्टरली. खण्ड ६, पृ० ३६१, तथा वा० दोहाकोष, पृ० ६६। ८. बोल कक्कोल योगेन स्वर्णात् काठिन्य धर्मणः...पृथ्वी तत्र जायते, वा० दोहाकोष, पृ० १५२। ९. ज्ञानसिद्धि, पृ० ४२। १०. टीकाभाग, वा० दोहाकोष, पृ० १५२ तथा १५३। ११. मैन्युएल आफ ए मिस्टिक, पृ० १ तथा भूमिका, पृ० १३। १२. दे० पीछे, अध्याय ३ ख, टिप्पणी संख्या १०३। १३. मैन्युएल आफ ए मिस्टिक, पृ० ८। १४. वही, पृ० २२। १५. दुःख दिवाअर अत्थगउ उवह तरावइ मुक्क। सरहना, वा० दोहाकोष, पृ० ३७ तथा उइअ रे...गअण अंजो अद्भूआ.....उइअ उरे सुनुकु तारा। सेकोदेश टीका में उद्धृत, पृ० ४८१। १६. अद्वय वज्र संग्रह, पृ० ३३। १७. मैन्युएल आफ ए मिस्टिक, पृ० ८। १८. वा० दोहाकोष, पृ० ६६। १९. नहारजनू सक्पूरम् रक्तचंदन योजितम्। प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पृ० १३। २०. इरिडयन हिस्टारिकल क्वार्टरली, खण्ड ६, पृ० ३६४। २१. वा० दोहाकोष, पृ० ६८। २२. अद्वय वज्र संग्रह, पृ० ३३। २३. मैन्युएल आफ ए मिस्टिक, पृ० १८। २४. दे० आगे, मुद्रा मैथुन (इसी अध्याय में) २५. सेकोदेश टीका, पृ० ३६। २६. गुह्य समाज तन्त्र, पृ० १६२। २७. वही, पृ० १६२। २८. वही, पृ० १६३। २९. सेकोदेश टीका, भूमिका, पृ० २०। ३०. मैन्युएल आफ ए मिस्टिक, पृ० १८, २२। ३१. गुह्य समाज तन्त्र में भी पाँच ज्ञानमय श्वास प्रक्रियाओं के साथ पंचामहाभूतों को नासाग्र पर स्थिर कर ध्यान करने का विधान है। पृ० १६३। ३२. वा० दोहाकोष, पृ० १५६, १५७। ३३. वही, पृ० १६१। ३४. ऊँचा ऊँचा पावत तहि वसइ सवरी वाली तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ४४। ३५. सेकोदेश टीका, पृ० २८। यहाँ संभोग चक्र की स्थिति करण के बजाय ललाट में मानी गई है। हेवज्रतंत्र की कुछ अमुद्रित प्रतियों में निर्माण चक्र की स्थिति नाभि के बजाय उपस्थेन्द्रिय के पास मूल स्थान में मानी गई है। इन्द्रो० तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृ० १६३। इस प्रकार इस विषय में कुछ मतभेद मिलता है। ३६. दासगुप्त, इन्द्रोडकशन दू तान्त्रिक, बुद्धिज्म, पृ० १६३। ३७. दासगुप्त, इन्द्रोडकशन दू तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृ० १६७। ३८. सेकोदेश टीका, पृ० २७। ३९. इन्द्रोडकशन दू तान्त्रिक बुद्धिज्म, पृ० १६३। ४०. मैन्युएल आफ ए मिस्टिक, पृ० ६६। ४१. दे० टिप्पणी, ३५। ४२. षटचक्र निरूपण, पृ० ७, ८, श्लोक ४ तथा ५। ४३. वही पृ० १६, श्लोक १४। ४४. षटचक्र निरूपण, पृ० २२, २३, (टीका) ४५. षटचक्र निरूपण, पृ० २५, श्लोक २२। ४६. षटचक्र निरूपण, पृ० ३०, श्लोक २८। ४७. षटचक्र निरूपण, ३५, (टीका)। ४८. षटचक्र निरूपण, पृ० ४६, श्लोक ४०। ४९. हेवज्र तन्त्र मात्र इसका अपवाद है। ५०. मैन्युएल आफ ए मिस्टिक, पृ० १८, २२। ५१. दे० पीछे, चतुर्विध शून्य, अध्याय ३ क। ५२. वा० दोहाकोष, पृ० १५१। ५३. पद २३, वा० चर्यापद, पृ० १३०। ५४. बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० १६६। ५५. पद

२७. वा० चर्यापद, पृ० १३२। ५६. टीका भाग, वा० दोहाकोष, पृ० ७१। ५७. वा० चर्यापद, पृ० ११६। ५८. बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २०। ५९. 'द्वात्रिंश नाडिकाः,' टीका भाग, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २१। ६०. दासगुप्त, एन इन्द्रोडक्शन टु तान्त्रिक बुद्धिज्ञ, पृ० १६७। ६१. कारहपा, दोहा ४, ५, तथा टीका, वा० दोहाकोष, पृ० १५०, १५१। ६२. एक से झुगिडनि दुइ धरे सान्धअ, पद ३, तथा टीका, बौ० गा० दो०, पृ० ७। ६३. तिअहुा चापि जोइनि दे अंकवाली, पद ४, तथा टीका, बौ० गा० दो० पृ० ६। ६४. वामनासापुटे प्रज्ञाचंद्र स्वभावेन ललना स्थिता, टीका, वा० दोहाकोष, पृ० १५१। ६५. दक्षिण नासापुटे उपाय सूर्य स्वभावेन रसना-स्थिता, टीका, वा० दोहाकोष, पृ० १५१। ६६. क्लेशानि पापानि धुनोतीत्यवधूती, वा० दोहाकोष पृ० १५०। इसके अतिरिक्त रजकी रूप में भी अवधूती की एक व्याख्या मिलती है, अनादि भाव विकल्पान् च धृत्वा प्रकृति परिशुद्धावधूतीरूपेण (पद २ की टीका) अर्थात् जो भाव विकल्पों का प्रक्षालन कर नैरात्म्य स्वभाव की प्राप्ति कराए। ६७. पद १४ की टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २६। ६८. 'दशमि दुआरे तें', पद ३ की टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ८। ६९. दासगुप्त, इन्द्रोडक्शन टु तान्त्रिक बुद्धिज्ञ, पृ० १७१। ७०. दासगुप्त, इन्द्रोडक्शन टु तान्त्रिक बुद्धिज्ञ, पृ० १७३। ७१. वागची, स्टडीज़ इन तन्त्र, पृ० ६५। ७२. पद १५ की टीका, बौद्धगान ओ दोहा, पृ० २१, २२। ७३. पद १८ की टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ३२, ३३। ७४. वा० दोहाकोष, पृ० १५६। ७५. वा० चर्यापद, पृ० १०७। ७६. वा० दोहाकोष. पृ० ३०। ७७. चित्त का विरोधन, दे० पीछे, अध्याय ३, ख। ७८. वा० दोहा कोष, पृ० ६३। ७९. पद २, तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ६। ८०. वा० दोहाकोष, पृ० ६४। ८१. अथो न गच्छति... ऊध्व न गच्छति... टीका, वा० दोहाकोष। ८२. वा० दोहाकोष. पृ० ४२। ८३. पद २ तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा। ८४. मैन्युएल आफ ए सिस्टिक, पृ० १, २। ८५. ६० दोहाकोष, पृ० ४३। ८६. कारहपा के दोहा, २१ तथा २२ की टीका, वा० दोहाकोष, पृ० १६०। ८७. मणिकूले बाहिआ ओडिआणे समाअ, गुरडुरीपा, पद ४, वा० चर्यापद, पृ० ११०। ८८. अध उधाडिय आलोअणे उभाणो होइ रे थिति... तिलोपा... तथा टीका, वा० दोहाकोष, पृ० ७१। ८९. वा० चर्यापद, पृ० १५३। ९०. बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ६२। ९१. सेकोदेश टीका में पाँच नाडियाँ तथा उनके अधिष्ठाता पाँच तथागत बताये गये हैं, पृ० ५१। ९२. बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० १०। ९३. सरह, दोहाकोष पृ० १३५। ९४. द्रष्टव्य, बौद्ध गान ओ दोहा, टीकाभाग, पृ० २४। ९५. टीकाभाग, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० १०। ९६. दासगुप्त, इन्द्रोडक्शन टु तान्त्रिक बुद्धिज्ञ, पृ० १८४। ९७. सेकोदेश टीका, पृ० ५, ६। ९८. वा० दोहाकोष, पृ० ६८। ९९. वही पृ० ६६। १००. वही, पृ० ३६। १०१. वही, पृ० ६८। १०२. वही, पृ० ६८ पर उद्धृत। १०३. चतुर्मुद्रा, अद्रयवज्र-संग्रह, पृ० ३२।

टिप्पणियाँ : अध्याय ३

१०४. बा० दोहाकोष, पृ० १४१। १०५. वही, पृ० ६८। १०६. विचित्रम् विविधम् ख्यातम् आलिंगन चुम्बनादिकम्...आदि, बा० दोहाकोष, पृ० ६८ पर उद्धृत। १०७. बा० दोहाकोष, पृ० ७०। १०८. चतुसुद्रा, अद्वय वज्र संग्रह, पृ० ३२। १०९. श्री सम्पुट में लोचना, मामकी, पाण्डरा तथा तारा को क्रमशः कर्म, ज्ञान, महा तथा समय मुद्रा माना गया है। दासगुप्त, इन्द्रोडवशन, द्रु तान्त्रिक बुद्धिज्ञ, पृ० १६५। ११०. “भव मुद्दे सञ्जल हि जग वाहिउ”...तथा टीका, पृ० ६६। १११. मुद्रयते लक्षणोनेति मुद्रणम् तेन भण्यते। ११२. दे० पीछे, तन्त्र, मुद्रा।... ११३. बा० दोहाकोष. पृ० ६८। ११४. वही, पृ० ६८। ११५. टीका भाग, बा० दोहाकोष, पृ० ६८। ११६. कर्मया कायवाक्चित्त चिन्ता तु प्रधाना मुद्रा कल्पना-स्वरूपा तस्याम् कर्ममुद्रायाम् आनन्दाम् जायते। चतुसुद्रा, अद्वय वज्र संग्रह, पृ० ३२। ११७. बाद में तो बौद्ध तन्त्रों में अगणित नाम मिलते हैं। इन्द्रा, वज्रा, यमा, गौरी, वारुणी, वारियोगिनी, कौबैरा, वज्रडाकिनी, नैरात्मयोगिनी, ऐशाना, बुक्कमा, पावका, राक्षसा, आशया, वायव्या, चौरिका, वैताली, भूवरी, खेचरी, आदि साधन-माला, खण्ड २, पृ० ३४४, ३४५। ११८. देखिये, अध्याय ४ ख। ११९. प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पृ० २२। १२०. वही, पृ० २३। १२१. चित्त विशुद्धि प्रकरण, पृ० ८। १२२. गम्यागम्य विकल्पम् तु भक्ष्याभक्ष्यम् तथैव च, पेयापेयम् तथा नन्त्रां कुर्यान्नैव समाहितः। सर्ववर्णा समुद्भूता जुगुप्सा नैव योषितः, सैव भगवतो प्रज्ञा सम्पत्त्यारूपमाश्रिता। लक्ष्मीकरा. अद्वय-सिद्धि, अमुद्रित, किन्तु बुद्धिज्ञ, एनेटेरिज्ञ मे अंशतः उद्धृत, पृ० ७७। १२३. प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पृ० ११। १२४. अथ सर्वालंकार युक्ताम्...द्वादशाब्दाम् सुकन्याम् विंशति वर्ष पर्यन्तान्... आदि, सेकोद्देश टीका, पृ० २४। १२५. प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पृ० २४। १२६. वही. पृ० २४। १२७. ज्ञानसिद्धि, पृ० ७८। १२८. हठयोग प्रदीपिका, नृतायो-पदेशः, श्लोक ६०, १०५, पृ० ११६ तथा आगे। १२९. मिस्टिक टेल्स आफ लामा तारानाथ, पृ० ८। १३०. वही पृ० ११। १३१. वही, पृ० १२। १३२. अद्वे शृंगहरति पवनः किस्विदित्यु न्मुखीमिर्दष्टोत्साह चकित चकितम् मुग्ध सिद्धांगनाभिः। मेघदूत, कालिदास ग्रन्थावली, पृ० ३४५। १३३. साधनामाला, पृ० ४६०। १३४. बा० चर्यापद, पृ० १२४। १३५. अद्वयवज्र संग्रह, पृ० १३। १३६. “अर्द्धरात्रौ प्रज्ञाज्ञानाभिषेकम्”, टीका चर्यापद १। ‘अर्द्ध’ रात्रौ चतुर्थी सन्ध्यायाम्’. टीका चर्यापद २। १३७. हंउ कापालिकः। चर्यावरश्च...टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २०। १३८. सेकोद्देश टीका, पृ० २७ तथा भूमिका पृ० २०। १३९. टीका भाग, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० १४३। १४०. दे० आगे, सिद्धों की सम्प्रदायिक स्थिति। १४१. सेकोद्देश टीका, पृ० १७। १४२. तेन गन्धादिकम् मण्डल बाह्ये न रजो-भूम्याम्। रजो मण्डल भगवतः कायोज्ञेयः...सेकोद्देश टीका, पृ० १७। १४३. ठिअ शिभाणे जिम्मिअउ तेण वि मण्डल चक्क, तथा टीका बा० दोहाकोष,

पृ० १४३। १४४. द्रष्टव्य, गुह्य समाज तन्त्र में आकाश धातु के मण्डलों का उल्लेख, पृ० २५। १४५. टीका भाग, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २०। १४६. गुह्य समाज तन्त्र, पृ० ३३। १४७. एककु एा किज्जइ तन्त न मन्त, निअ धरिणी लइ केलि करन्त, ऐसो जप होमे मण्डल कम्मे, अणुदिण अच्छसि काहिउ धम्मे...वागची दोहाकोष, पृ० १६२, १६३। तथा—न मन्त्र जापो न तापो न होसो न जाणुल्लेयनः न षंडलसम् स मन्त्र जापः स तपः स होमः तन्माण्डलेयम् तन्मण्डलस्य च। अद्रयवज्रसंग्रह, पृ० ३५। ऐसे सिद्ध को चर्याधारी कहते थे चाहे वह चर्या करे या न करे—अद्रयवज्रसंग्रह, पृ० ४६। किन्तु यह बौद्धों की ही विशेषता नहीं थी, यह स्थिति तो सभी तान्त्रिक पद्धतियों में खान्य थी। १४८. मैन्धुएल आफ ए मिस्टिक, भूमिका। २४६. अष्ट साहसिका में वज्रोत्स तथा गगनोत्स समाधियों का कई वार उल्लेख है। १५०. पम्पोपात्र ससाहि लगभङ्ग, वा० दोहाकोष, पृ० ६७। १५१. दे० पीछे, टिप्पणी, १२२।

घ

१. देखिये 'तन्त्र' (पीछे)। २. साधनमाला, खण्ड २, भूमिका, पृ० ८१। ३. जन्मोषधि मन्त्रतपः समाधिजा सिद्धयः, कैवल्यपाद योग रहस्य पृ० १०५। ४. योग रहस्य ७४, कैवल्यपाद। ५. गुह्य समाज तन्त्र, पृ० १६२। ६. वही पृ० १५३। ७. सेकोदेश टीका, पृ० २७। अध्याय ७८, श्लोक २०-२६। ८. ब्रह्मवैवर्त पुराण, कृष्णजन्म-खण्ड। ९. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ८३। १०. पातंजल योगसूत्र, ३।४५ तथा टीका। ११. साधनमाला पृ० ३५०। १२. वा० चर्यापद, १५, पृ० १२२। १३. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ८६। १४. गुह्य समाज तन्त्र, पृ० १८। १५. वही पृ० ५२। १६. वही, पृ० १५। १७. वही, पृ० ५३। १८. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ८६। १९. गुह्य समाज तन्त्र, पृ० ५७, ११७। २०. वही, पृ० ५५। २१. दे० पीछे, रसायन, २२. बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ८६। २३. गुह्य समाज तन्त्र, पृ० ६३। २४. दे० जीवनवृत्त। २५. मिस्टिक टेलस आफ लामा तारानाथ, पृ० ६। २६. वही पृ० १४। २७. वही पृ० १५। २८. वही पृ० १५। २९. वही, पृ० २१। ३०. वा० दोहाकोष, पृ० ६। ३१. वही, पृ० ६७। ३२. जौतुकं किअ अणुतु धाम...वा० चर्यापद, १६, पृ० १२६। ३३. अतएव जोतकेना क्लेशेनानुत्तरधर्म साक्षात्कृतम्...टी० बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २४। ३५. चर्यापद, वसु, पृ० १००—१०३ टिप्पणियाँ। ३६. सर्वाकारज्ञ-ताम् चैव लभ्यतेऽनुत्तरम् पदम्...१४—४६...महायान सूत्रालंकार। ३७. 'अनुत्तरम् सहजम्' टी० वा० दोहाकोष, पृ० १२२। ३८. वा० दोहाकोष, पृ० ४३। ३९. वा० दोहाकोष, पृ० ४६। ४०. सुण्ण करुण तहि समरस इच्छह...२...तिलोपा, वा० दोहाकोष, पृ० ३। समरसं भावाभाव रहिअ...११...ति०, दोहाकोष, पृ० ४। ४१. तव्वे समरस

टिप्पणियाँ : अध्याय ३

सहजै वज्जइ णउ सुह ण वद्वण—४६...सरहपा...वा० दोहाकोष, पृ० २५ ।
४२. जत्त वि पइसइ जलहि जल तत्रइ समरस होइ...७४...सरहपा...वा० दोहाकोष,
पृ० ३१ । ४३. तिम मन रअणा समरस गअणा समाअ...४३ वां पद । वा० चर्यापद,
पृ० १४६ । ४४. चित्त खसम जहि समसुह पइटुइ...तिलोपा, वा० दोहाकोष, पृ० ३ ।
४५ वा० दोहाकोष, पृ० १२. १६ । ४६. चर्यापद, संख्या, १, ८, १३, १८, २१, २८,
३४, ४६, ५० । ४७. वा० दोहाकोष, पृ० १३ । ४८. वही पृ० २७ । ४९. टीका, वा०
दोहाकोष, पृ० ६७ । ५०. चित्त विशुद्धि प्रकरण, पृ० ३, ४ । ५१. खाअन्त पिदन्ते,
सुहहिं रमन्ते । अइस धम्म सिज्झइ परलोअह । सरहपा, वा० दोहाकोष, पृ० २०
सुख से रमण के अर्थ यह नहीं थे कि खाओ पिओ और सुख से रमण करो । यह तो
पशुता है । इस अज्ञानपरक भोग के ही कारण पुद्गल को पशु कहागया है । सरहपा,
वा० दोहाकोष, पृ० १६ । ५२. धम्माधम सो सोहिअ खाइ...सरहपा, वा०, दोहा-
कोष, पृ० २३ ।

अध्याय ४

क

१. सुनीतिकुमार चटर्जी, 'राइज़ आफ वर्नाक्युलर लिटरेचर', हिस्ट्री आफ बंगाल, प्रथम खण्ड, पृ० ३८७। २. कपिलदेव द्विवेदी, अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन, पृ० २६१ तथा पृ० ३८१। ३. द्रष्टव्य, मीमांसकों के शब्द सम्बन्धी सिद्धान्त। पीछे 'वज्रयान'। कपिलदेव द्विवेदी, अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन, पृ० ३८ तथा आगे। ५. द्रष्टव्य, पीछे, तन्त्र, पांचरात्र, पृ० ६. कपिलदेव द्विवेदी, अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन, पृ० ६४। ७. कपिलदेव द्विवेदी, अर्थ विज्ञान और व्याकरण दर्शन, पृ० ६४। ८. इह स्थाने चित्तम् निरवधि विनिधाय्यात्म सम्पूर्णा योगः, कविर्वाग्मी ज्ञानी स भवति नितरां साधकः शान्तचेताः। टीका : स जीवी जना नितरामतिशय कविर्भवति षट्चक्र निरुपणम्, पृ० ३४। ९. पुरश्चर्यार्णव, पृ० ५७३, ५७४। १०. सदर्भ पुराणरीक कर्न नैन्जियो संस्करण पृ० ५०। ११. साधन-माला, प्रथम खण्ड, पृ० २१४, २३६। १२. आर्य जांगुली साधनम्, साधनमाला, प्रथम खण्ड, पृ० २५३। १३. बा०, दोहाकोष, पृ० २०। १४. अक्खरवादा सत्रले जगु राहि निरक्खर कोइ, सरहपा, बा०, दोहाकोष, पृ० ३५। १५. बा०, दोहा-कोष, पृ० ३५। १६. द्रष्टव्य, पीछे, बोल कक्कोल साधना 'एवं' १७. द्रष्टव्य, पीछे, वज्रयान, देवभृङ्गला का विकास। १८. गुह्यसमाज तन्त्र, पृ० १६३। १९. वर गुरु वज्रणो पडिज्जहु सच्चे, सरह भणइ मइ कहिअउ वांचे...बा०, दोहाकोष, पृ० २२। अद्रयवज्र ने अपनी टीका में इस पर कोई व्याख्या नहीं दी है, किन्तु वागची ने दूसरी अर्द्धाली का संस्कृत रूपान्तर इस प्रकार किया है, 'सरहो भणति भया कथितो वाचा। २०. द्रष्टव्य, पीछे, तन्त्र, पांचरात्र मन्त्र २१. कपिलदेव द्विवेदी, अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन, पृ० ४६, ५५, ४२, ४३। २२. एत० के० दास, शक्ति ऐंड डिवाइन पावर, प्रथम अध्याय विशेषतया पृ० ४१ तथा आगे। २३. कपिलदेव द्विवेदी, अर्थ विज्ञान और व्याकरण दर्शन, पृ० ५६, ५७। २४. द्रष्टव्य, पीछे, साधना पद्धति, काय वाक् चित्त वज्र ...२५. बा०, दोहाकोष, पृ० १२६। २६. द्रष्टव्य, पीछे, साधनापद्धति, बोधिचित्त राग और महाराग, ...२७. मर्यान्द्रनाथ वसु, पोस्ट चैतन्य सहजिया क्लट, पृ० १३५। २८. वागची, डेवलेपमेराट आफ रेलिजस आइडियाज, हिस्ट्री आफ बंगाल, पृ० ४२१, तथा स्टडीज इन तन्त्र, पाद टिप्पणी, १, पृ० ३१। २९. देखिये, आगे शैलीपक्ष-चण्डाली, बंगाली बधू डोम्बी ३०. देखिये पीछे, वज्रयान। ...तथा २८ वीं टिप्पणी। ३१. सुकुमार सेन, ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स, पृ० ३८ तथा आगे। ३१. डा० सुकुमार सेन तान्त्रिक ग्रन्थों में प्राप्त सिद्धों की स्फुट दो पंक्तियों या चार चरणों की रचनाओं को पद कहते हैं और चर्यापदों को

टिप्पणियाँ : अध्याय ४

चर्यागीत कहते हैं। इम पर हम बाद में विस्तृत विवेचन करेंगे। देखिये आगे, छन्द योजना, काव्य रूप। प्रस्तुत प्रबन्ध में चर्यागीति को चर्यापद ही कहा गया है और पदों को मुक्तक। ३२. देखिये पीछे, साधना पद्धति, बाह्य अनुष्ठान, चर्यागीत, चर्यापद, आदि ३३. साधनमाला, खण्ड २, पृ० ५०१। ३४. मिस्टिक टेल्स आफ लामा तारानाथ, पृ० ६। ३५. सद्धर्म पुराढरीक-कर्न नैन्जियो संस्करण पृ० ३६ तथा पृ० ५०। ३६. देखिये पीछे, तत्व चिन्तन, प्रज्ञोपाय, ३७. वागची, दोहाकोष, पृ० ३१। ३८. सरहपा, बा०, दोहाकोष, पृ० ४७। ३९. विशिष्ट संयोगाक्षर मुखानुभवः कस्मिन्नपि कथावेद्यो न भवतीति। तथाच सरहपादाः को पतिञ्जइ कासु कहमि अज्ज कडाइअ आउः पियदंसपो हले न टलेसि संसार फुड जाउ—बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ३५। दोहे का पाठ वागची के अनुसार. दोहाकोष, पृ० ४७। ४०. वागची, दोहाकोष, पृ० ११६। ४१. तिल्लोपा, वागची, दोहाकोष, पृ० ५। ४२. प्रेम पंचक, अद्रयवज्र संग्रह, पृ० ५८। ४३. चर्यापद, २, ३, ४, ५, १०, ११, १४, १७, १८, १९, २०, २८, ४७, ५०। इनमें से च० २ तथा च० १४ में शुरुिडनी तथा मातंगी रूप में नायिका की चर्या का रूपकात्मक वर्णन मात्र है, प्रत्यक्ष प्रणय निवेदन नहीं है। च० ५ में हरिण तथा हरिणी का रूपक है। चर्या ११ में वीर कापालिक के रूप में साधक का चित्रण है और उसके द्वारा की गई कुछ हत्याओं का संकेत मात्र है। च० ४७ में केवल डोम्बी के घर में चरंडाग्नि द्वारा लगी हुई आग का वर्णन है। इसके अतिरिक्त कारहपा के दोहों में भी गृहणी के प्रति प्रेम निर्देश है जिस पर आगे हम विचार करेंगे। ४४. दे० आगे, गृहिणी वधू ४५. द्र० चर्यापद, १६ तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा। ४६. वागची दोहाकोष, पृ० ४६। ४७. चर्यापद २८ तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा। ४८. चर्यापद ३, तथा टीका. बौद्ध गान ओ दोहा। ४९. चर्यापद १४ तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा। ५०. चर्यापद २८ तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा। ५१. चर्यापद २ तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा। ५२. चर्यापद १४ तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा। ५४. कोष्ठक की संख्याएं बौद्धगान ओ दोहा तथा वागची के 'चर्यापद' में दी गई संख्याएं हैं। ५५. देखिये पीछे, तत्व चिन्तन, प्रज्ञोपाय, ५६. इस चर्या के अर्थ के विषय में कुछ मतभेद है। मुनिदत्त की टीका में थोड़ा विरोधाभास है और उस पर आधारित बसु महोदय के 'चर्यापद' के मर्मार्थ में भी वही दोष आ गया है। इस दृष्टि से डा० सुकुमार सेन द्वारा प्रस्तुत अर्थ ओल्ड वंगाली टेकट्स पृ० ३ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। वास्तव में मुख्य कठिनार्थ 'विगोआ' शब्द को लेकर है। इसका अर्थ 'विज्ञान' है किन्तु उसका तात्पर्य मुनिदत्त के अनुसार योगाक्षर सुख के रूप में लें तो दो विरोधी भावों की स्थिति एक ही पद में मिलती है। इस दृष्टि से डा० सुकुमार सेन का 'व्यग्रता' अर्थ अधिक उपयुक्त बैठता है। अगली एक पंक्ति में पिता की मृत्यु का जो संकेत है वह इस पद को शृंगार के स्थान पर करुण के निकट ले आता है, किन्तु दर्शन पक्ष की विवेचना करते हुए हम देख चुके

हैं कि चित्त के भरण के अर्थ केवल विशेषण हैं, अनस्तित्व नहीं अन्यथा महासुख संगम की सम्भावना नहीं रह जाती इसीलिये मैंने इसे विप्रलम्भ श्रृंखला में रक्खा है। ५७. बुद्ध कपाल साधना, साधनमाला, द्वितीय खण्ड, पृ० ५०१ तथा सम्पादक द्वारा संस्कृत-छाया, उसी पृष्ठ की टिप्पणी संख्या १। ५८. वागची, दोहाकोष, पृ० ५३, ५४ तथा इस चर्यांगीति की अंग्रेजी में छाया ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स, पृ० ३४, ३५। ५९. चौधरी, डाकाराव. ६०. मुद्रालिंगन संयोगाद् वज्राविश प्रवर्तनात्.. प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि, पृ० २४। ६१. २८ वां पद, बौद्ध गान ओ दोहा। ६२. डोम नारियों (डोमिनियों) के साथ नृत्य गान की परम्परा अवश्य रही है। लोकोक्ति है, मुंह लगाई डोमिनी, गावे ताल बेताल। ६३. चर्यापद १० तथा ११, बौद्ध गान ओ दोहा। ६४. बौद्ध गान ओ दोहा, टीका भाग, पृ० ४२। ६५. वा० दोहाकोष, टीकाभाग, पृ० १४२। ६६. देखिये आगे, प्रतीक योजना, 'वीर' ६७. भूषण ग्रन्थावली, फुटकर भाग, छन्द संख्या ६२, पृ० ११२। ६८. सेकोदेश टीका, पृ० १४, १५, ६९. सुकुमार सेन, ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स, पृ० २४, २५। ७०. भागीरथ मिश्र, हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास, पृ० २२। ७१. यह संख्याएं डा० सुकुमार सेन द्वारा सम्पादित ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स की हैं जिनमें उन्होंने प्रत्येक सिद्ध के समस्त पदों को एक साथ संगृहीत कर दिया है जो चर्याचर्य विनिश्चय में बिखरे हुए मिलते हैं। ७२. साधन-माला, दूसरा खण्ड, पृ० ३२२। ७३. ५० वें चर्यापद की अन्तिम पंक्तियों की व्याख्या मुनिदत्त ने नहीं दी है। २० वें चर्यापद में उन्होंने विगोत्रा का अर्थ योगाक्षर सुखानुभव दिया है जो उस चर्या के शोक प्रधान वातावरण में उपयुक्त नहीं बैठता। द्रष्टव्य, सुकुमार सेन, ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स, पृ० ४०। ७४. हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवीर, पृ० १५५। ७५. एन एन्थालाजी आफ क्रिटिकल स्टेटमेन्ट्स, पृ० २४३, २४४। ७६. वागची दोहाकोष, पृ० ४, दोहा सं० ८, पृ० ११ सं० १६, पृ० २० सं० २३, पृ० २०, सं० २५, पृ० २४, सं० ४४। ७७. अम्भिन्तर चित्त वि मइलियई वाहिरि काइ तवेण, चित्ति गिरंजणु कोव धरि मुच्चहि जेम मलेण। पाहुड दोहा, ६१, पृ० १६। तुलनीय, कोडिअ मज्झ एककु जइ होइ गिरंजणु लीण, कारहपा, वा० दोहाकोष, पृ० ४०। ७८. जेण निरजणि मणु धरिउ विसयकसायहिं जन्तु, मोक्खह कारण एत्तउ अवरइं तन्तु रा मन्तु...पाहुड दोहा, ६२, पृ० २०। तथा : एककु रा किज्जइ तन्त रा मन्त, निअ धरिणी लइ केलि करन्त। कारहपा, वागची दोहाकोष, पृ० ४५। ७९. बहु सत्थत्थ मसत्थलिहिं तिसिए मरिअउ तेहि...वा० दोहाकोष, पृ० २७।

ख

१. सरहे गहिया गुहिर भास कहिअ, वागची, दोहाकोष. पृ० १६। २. विनय-तोत्र भद्राचार्य, बुद्धिस्ट एसोटेरिज्म, पृ० ३५ तथा ७०। ३. इ० हि० क्वा, १९२८ खण्ड ४, अंक २, पृ० २६३ तथा आगे। ४. वागची, स्टडीज़ इन तन्त्राज़, पृ० २७ तथा

टिप्पणियाँ : अध्याय ४

आगे । ५. वागची, स्टडीज़ इन तन्त्राज्ञ, पृ० ७५ । ६. डा० दासगुप्त, आक्सफोर्ड रेलिजस कल्चर्स, पृ० ४७८ । ७. हरप्रसाद शार्ली, डेस्कप्टिव कैटेलाग आफ संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन द गवर्नमेण्ट कलेक्शन. कालचक्र तन्त्र की विमलप्रभा टीका का उद्धरण, पृ० ७८ । ८. बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ८ । ९. वागची, स्टडीज़ इन तन्त्राज्ञ, पृ० ७५ । १०. अथर्ववेद संहिता, ७-१, ११-८-१० तथा ऋग्वेद संहिता, १-१५२, १०-५५ आदि । ११. देखिये पीछे, तन्त्र, पंच मकार, १२. सद्धर्म पुराडरीक, मूल ३-३६, ३७ । १३. सद्धर्म पुराडरीक, अनुवाद से० बु० ई०, खण्ड २१, पृ० ७० । १४. सद्धर्म पुराडरीक, अनुवाद से० बु० ई०, खण्ड २१, टिप्पणी पृ० ५६ । १५. वज्रच्छेदिका, टिप्पणी पृ० २३ । १६. सद्धर्म पुराडरीक मूल, पृ० ५६ । १७. वही पृ० ७१ । १८. वागची, स्टडीज़ इन तन्त्राज्ञ, पृ० २८, २६, ३० । १९. चिन्तवज्र प्रज्ञोपाय योगात् सुरतमवच्छिन्न महााराग रूपेण विरागदमनाद्वीरः । टीका, वागची, दोहा-कोष, पृ० १५१ । २०. कारहपा, वागची, दोहाकोष, पृ० १५१ । २१. भगवद् गुरुद्वारी अम्हें कुन्दुरु वीरा, तथा टीका । बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० १० २२. आजि भूसु वंगाली भइली, गिात्र धरिणी चरडाली लेली । ४६ वां पद, वागची चर्यापद, पृ० १५४ । २३. ६ठां चर्यापद तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० १२, १३, १४ । २४. सरहपा, दोहा ७१, वागची दोहाकोष, पृ० ३१ । २५. दे० पीछे, हठयोग, चरडाली, २६. चर्या २८, पृ० १३३ । २७. चर्या १६ वीं, पृ० १२६, पटह मादल आदि के प्रतीकार्यों के लिये देखिये, पीछे, उपलब्धि अनुत्तर, २८. कारहपा, दोहाकोष पृ० १६२ । २६. दोहाकोष, पृ० १६३ । ३०. वही, पृ० १६४ । ३१. वही, पृ० १६४ । ३२. 'निज गृहणी तव-महामुद्रा रूपम्...टीका दोहा० पृ० १६३; तथा 'येन कृतम् प्रचरडाली चालयितुम् अशक्यत्वात्'...पृ० १६४, दोहाकोष । ३३. चर्यापद, पृ० १२० । ३४. अर्थात् विकाज हो जाय, काल का क्षय हो जाय, दे० टीका बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ६ । ३५. तुलनीय, 'जिघए मअरन्दए' कारहपा. पृ० १५१, दोहाकोष । ३६. ५०वीं चर्या, चौथी चर्या, चर्यापद; पृ० १५५ तथा पृ० ११० । ३७. डाकार्णव, भूमिका, पृ० ७ । ३८. 'वायुर्दोम्बी प्रकीर्तिता', साधनमाला, पृ० ४४६ । ३९. चर्यापद १४, पृ० १४ । ४०. चर्यापद १६, पृ० १६ । ४१. चर्यापद पृ० ११६ । ४२. उपर्युक्त पद की टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २० । ४३. चर्यापद, पृ० १०८ । तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ६, ७ । ४४. सेकोद्देश टीका 'बाल प्रौढ वृद्ध प्रजापति संज्ञकानि...प्रथम सेक प्राप्तत्वायोगी पयोधराभिधिकृतो बाल इति उच्यते । पृ० २८ । ४६. देखिये पीछे, 'विज्ञानवाद' तथा 'तथता' । ४६. प्रज्ञाज्ञानाभिषेक का समय चौथे अभिषेक का समय बताता गया है । तब योगी पूर्ण सिद्धत्व को प्राप्त करता है । देखिये चर्या १४ की टीका । ४७. या निशा सर्वभूतानाम् तस्याजागर्ति संयमी, यह गीता का प्रख्यात सिद्धांत है । ४८. यथाचित्रकारो रूपम् यक्षस्यातिभयंकरम्; समालिख्य स्वयम् भीतः संसारप्य बुधस्तथा... १०...महायान विशाक । ४९. कामरूप दूसरा पीठ है । इसीलिये देह को पीठ

उपपीठादि का आलय माना गया है। दे० पीछे, 'देह का महत्व'। ५०. इस चर्या के रचयिता के विषय में सन्देह है। हरप्रसाद शास्त्री ने इसे कुक्कुरीपा कृत माना है, या डा० सुकुमार सेन इसे उनके किसी शिष्य की रची हुई मानते हैं। दे० ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स, पृ० ३६। ५१. चर्यापद. पृ० १२१। ५२. तत्र स्थित्वा सहजयान प्रमत्तांगी डोम्बी नैरात्मा संसारार्णवे योगीन्द्रः पारम् करोतीति। टीका बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २६। ५३. चर्यापद, पृ० १३२। ५४. देखिये काग्रहपा, दोहाकोष तथा टीका, पृ० १५० 'अवधूह किञ्च मूलणाल हंकारो'। ५५. देखिये पीछे, निर्वाण. संसार माया, पृ० तथा टिप्पणी संख्या १०२। ५६. चित्त विशुद्धि प्रकरण, पृ० २, तथा साधनमाला, पृ० १३३। ५७. वेदान्त सूत्र, शंकर भाष्य, २, २. २८। ५८. दे० पीछे, साधनापद्धति, बोल कक्कोल साधना, पृ० ५६. शुक्र, सरहपा. "उवइ तरावइ सुक्क", बा० दोहा कोष, पृ० ३७। नवचन्द्र-आर्यदेवपा, चान्दरे चान्द कान्ति जिम पडिमासत्र, ३१ वाँ चर्यापद। मेघ, भुसुकुया, करुणा मेह निरन्तर फरिआ, ३० वाँ चर्यापद। मोरपंख, मोरंगी पिच्छ परहिएण शवरी, २८ वाँ चर्यापद। ६०. महायान सूत्रालंकार, संस्करण, पृ० १६. श्लोक १५, २०। ६१. यान : देखिये इसी अध्याय की टिप्पणी, १३१. तथा कम्बलाम्बरपा, सोने भरिती करुणानावी, ८वाँ चर्यापद। राजा, आर्यदेवपा, नीआ राअ सहावे भूअल, ३१ वाँ चर्यापद। गन्धर्वों का मधुर घोष, वीणापा, वाजइ आलो सहि हेरुअ वीणा सुन तान्तो धुन विलसइ रुणा। १७ वाँ चर्यापद। ६२. दे पीछे, बोल कक्कोल साधना, ६३. दे० पीछे, बोल कक्कोल साधना, ६४. बा० स्टडीज इन तन्त्राज, पृ० ३०। ६५. कामरूप, कुक्कुरीपा, राति भइले कामरु जाअ, दूसरा चर्यापद, टीका में कामरूप महासुखचक्र का प्रतीक बताया गया है, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ६. ६६. उडडीयान, गुरडरीपा. मणिकूले वहिआ ओडिआणे समाअ, चौथा चर्यापद। टीका के अनुसार यह भी महासुख चक्र का प्रतीक है। बौद्ध गौन ओ दोहा, पृ० ६, १०। ६७. बंगाल. भुसुकुया, अहअ बंगाले क्लेशे लुण्ड। ४६ वाँ चर्यापद। टीका में बंगाल "अश्रर सुखाद्वय" अर्थात् युगनद्वय का प्रतीक बताया गया है, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ६३. ६८. देखिये, यही अध्याय, टिप्पणी संख्या ४३। ६९. चर्यापद ३३ तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ५१. ५२। ७०. चर्यापद तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ३६, ३७, ३८। ७१. महान्धरपा, १६ वाँ चर्यापद तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ५६, ३० ७२. ६ ठाँ चर्यापद, पृ० १२। ७३. देखिये पीछे, साधनापद्धति १ बाह्य अनुष्ठान, पृ० ७४. देखिये पीछे, तत्व चिन्तन, टिप्पणी, १८३। यह रुई धुनने की प्रतीकात्मक प्रक्रिया भाँ सिद्धों की चर्या से ही सम्बन्धित थी इसका एक प्रमाण और मिलता है। चर्यापदों में २५वें चर्या पद का अग्रभंश रूप अप्राप्य है किन्तु उसका ति.वर्ती रूपान्तर मिलता है। उसमें रचयिता का नाम तन्त्रीपा है और वे रुई धुनने के ही रूपक से अपनी अध्यात्म-चर्या का वर्णन करते हुए कहते हैं "मैं कालपंचक रूपी तन्त्र पर निर्मात बन्न बुन रहा हूँ। मैं तन्त्री हूँ, जुलाहा हूँ, मेरा निज

टिप्पणियाँ : अध्याय ४

स्वभाव ही सूत्र है। मैं उसका रूप नहीं जानता। साढ़े तीन हाथ का ताना चाना तान और फैला है। इस ताने बाने से सारा गगन 'शून्य' ढँक गया है। जब मुझे वयन-रस की प्राप्ति हुई तो मैं मोह मल से मुक्त हो गया। ७५. १७ वां चर्यापद तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ३०, ३१। ७६. १२ वां चर्यापद, प्रतीकार्यों के लिये, देखिये पीछे, साधना पद्धति १ चित्त का हनन। ७७. चर्यापद संख्या ३, तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ७, ८। ७८. देखिये पीछे, उपलब्धि, सिद्धियों का उपयोग। ७९. मिस्टिक टेलस आफ लामा तारानाथ, पृ० १४। ८०. चौधरी, डाकार्खव, पृ० ४१, ५६, ६४। ८१. बा० दोहाकोष, पृ० १५० दोहा ३, तथा टीका ८२ वा० चर्यापद, २३ वां पद पृ० ५१ यह पद चर्याचर्य विनिश्चय में खंडित मिला है। तित्त्वती खान्तर पूरा मिलता है। ८३, २८ वां चर्यापद तथा टीका, बौद्ध ज्ञान ओ दोहा, पृ०, ४३, ४४, ४५। ८४. देखिये पीछे, 'उपलब्धि' टिप्पणी संख्या, ३३, ३४, ३५। ८५. देखिये पीछे, यही अध्याय, टिप्पणी संख्या, ६६। ८६. पौहार, संस्कृत साहित्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० १३६ तथा आगे। इसके पूर्व अग्निपुराण में अलंकारों का शब्द, अर्थ और उभय में विभाजन मिलता है किन्तु उसमें शब्द और अर्थ का विशेषध्यान रक्खा गया है, अप्रस्तुत योजना की मूल प्रकृति का नहीं। ८७. बा० दोहाकोष, पृ० २४। ८८. वही, पृ० २७ ५८, पृ० ३१ ७३. पृ० ३१। ७८. पृ० ३६ ६१। ८९. बौद्ध गान ओ दोहा, टीका, पृ० २। ९०. हर्ष चरित, १. ७। ९१. चर्यापद ३३। ९२. साँप और मेढक का प्रतीकार्य डा० वागची द्वारा प्रकाशित तित्त्वती रूमांतर के आधार पर निर्धारित किया गया है। चर्यापद पृ० ११ तथा टीका के अतिरिक्त डा० सुकुमार सेन की टिप्पणियों का भी उपयोग किया गया है। ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स, पृ० २६।

ग

१. बौद्ध गान ओ दोहा-भूमिका। २. महंती, उत्कल साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पृ० ३। ३. ककाती, आसामी, इट्स फार्मेशन एन्ड डेवलपमेंट पृ० ६। ४. राहुल, पुरातत्व निबन्धावली पृ० १६७। ५. हिन्दी-काव्य-धारा पृ० ११। ६. चटर्जी-ओरिजिन एन्ड डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज, खंड १ पृ० ११२। ७. चौधरी, डाकार्खव पृ० १६। ८. ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स पृ० ४४। ९. तोसर, प्राकृत और अमभ्रंश साहित्य का इतिहास और उसका हिन्दी पर प्रभाव पृ० ५६-५६। १०. तोसर, प्राकृत और अमभ्रंश साहित्य का इतिहास और उसका हिन्दी पर प्रभाव, पृ० ६२ तथा ७२। ११. चटर्जी, ओरिजिन एन्ड डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज, पृ० ११३, ११४। १२. पुरातत्व-निबन्धावली, पृ० १८४। १३. तोसर, प्राकृत और अमभ्रंश साहित्य का इतिहास और उसका हिन्दी पर प्रभाव, पृ० ६३। १४. ककाती, आसामी, इट्स फार्मेशन एंड डेवलपमेंट, पृ० ५, ६, ११। १५. ककाती, आसामी, इट्स फार्मेशन एंड डेवलपमेंट, पृ० ६।

उपपीठादि का आलय माना गया है। दे० पीछे, 'देह का महत्व'। ५०. इस चर्या के रचयिता के विषय में सन्देह है। हरप्रसाद शास्त्री ने इसे कुक्कुरीपा कृत माना है, या डा० सुकुमार सेन इसे उनके किसी शिष्य की रची हुई मानते हैं। दे० ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स, पृ० ३६। ५१. चर्यापद. पृ० १२१। ५२. तत्र स्थित्वा सहजयान प्रमत्तंगी डोम्बी नैरात्मा संसारार्णवे योगीन्द्रः पारम्. करोतीति। टीका बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २६। ५३. चर्यापद, पृ० १३२। ५४. देखिये कागहपा, दोहाकोष तथा टीका, पृ० १५० 'अवधूह किञ्च मूलणाल हंकारो'। ५५. देखिये पीछे, निर्वाण. संसार माया, पृ० तथा टिप्पणी संख्या १०२। ५६. चिन्त विशुद्धि प्रकरण, पृ० २, तथा साधनमाला, पृ० १३३। ५७. वेदान्त सूत्र, शंकर भाष्य, २, २. २८। ५८. दे० पीछे, साधनापद्धति, बोल कक्कोल साधना, पृ० ५६. शुक्र, सरहपा. "उवद तरावइ सुक्क", वा० दोहा कोष, पृ० ३७। नवचन्द्र-आर्यदेवपा, चान्दरे चान्द कान्ति जिम पडिमासत्र, ३१ वाँ चर्यापद। मेव, भुसुकुया, करुणा मेइ निरन्तर फरिआ, ३० वाँ चर्यापद। मोरपंख, मोरंगी पिच्छ परहिण शवरी, २८ वाँ चर्यापद। ६०. महायान सूत्रालंकार, संस्करण, पृ० १६. श्लोक १५, २०। ६१. यान : देखिये इसी अध्याय की टिप्पणी, १३१. तथा कम्बलाम्बरपा, सोने भरिती करुणानावी, ८वाँ चर्यापद। राजा, आर्यदेवपा, चीआ राअ सहावे भूअल, ३१ वाँ चर्यापद। गन्धवों का मधुर घोष, वीणापा, वाजइ आलो सहि हेरुअ वीणा सुन तान्ती धुन विलसइ रुणा। १७ वाँ चर्यापद। ६२. दे० पीछे, बोल कक्कोल साधना, ६३. दे० पीछे, बोल कक्कोल साधना, ६४. वा० स्टडीज़ इन तन्त्राज्ञ, पृ० ३०। ६५. कामरूप, कुक्कुरीपा, राति भइले कामरु आअ, दूसरा चर्यापद, टीका में कामरूप महासुखचक्र का प्रतीक बताया गया है, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ६. ६६. उडडीयान, गुराडरीपा. मणिकूले वहिआ ओडिआणे समाअ, चौथा चर्यापद। टीका के अनुसार यह भी महासुख चक्र का प्रतीक है। बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ६, १०। ६७. बंगाल. भुसुकुया, अहअ बंगाले क्लेश लुण्णउ। ४६ वाँ चर्यापद। टीका में बंगाल "अक्षर सुखादय" अर्थात् युगनन्द अद्वय का प्रतीक बताया गया है, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ६३. ६८. देखिये, यही अध्याय, टिप्पणी संख्या ४३। ६९. चर्यापद ३३ तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ५१. ५२। ७०. चर्यापद तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ३६, ३७, ३८। ७१. महाधरपा, १६ वाँ चर्यापद तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० २६, ३० ७२. ६ टाँ चर्यापद, पृ० १२। ७३. देखिये पीछे, साधनापद्धति १ बाह्य अनुष्ठान, पृ० ७४. देखिये पीछे, तत्त्व चिन्तन, टिप्पणी, १८३। यह रुई धुनने की प्रतीकात्मक प्रक्रिया भां सिद्धों की चर्या से ही सम्बन्धित थी इसका एक प्रमाण और मिलता है। चर्यापदों में २५वें चर्यापद का अमत्रंश रूप अप्राप्य है किन्तु उसका ति.वर्ती रूपान्तर मिलता है। उसमें रचयिता का नाम तन्त्रीपा है और वे रुई धुनने के ही रूपक से अपनी अध्यात्म-चर्या का वर्णन करते हुए कहते हैं 'मैं कालपंचक रूमी तन्त्र पर निर्भर वल्ल बुन रहा हूँ। मैं तन्त्री हूँ, जुलाहा हूँ, मेरा निज

टिप्पणियाँ : अध्याय ४

स्वभाव ही सूत्र है। मैं उसका रूप नहीं जानता। साढ़े तीन हाथ का ताना बाना ताने ओर फैला है। इस ताने बाने से सारा गगन 'शून्य' ढंक गया है। जब मुझे बयन-रस की प्राप्ति हुई तो मैं मोह भल से मुक्त हो गया। ७५. १७ वां चर्यापद तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ३०, ३१। ७६. १२ वां चर्यापद, प्रतीकार्थों के लिये, देखिये पीछे, साधना पद्धति १ चित्त का हनन। ७७. चर्यापद संख्या ३, तथा टीका, बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ७, ८। ७८. देखिये पीछे, उपलब्धि, सिद्धियों का उपयोग। ७९. मिस्टिक टेल्स आफ लामा तारानाथ, पृ० १४। ८०. चौधरी, डाकाराव, पृ० ४१, ५६, ६४। ८१. बा० दोहाकोष, पृ० १५० दोहा ३, तथा टीका ८२. बा० चर्यापद, २३ वां पद पृ० ५१ यह पद चर्याचर्य विनिश्चय में खंडित मिला है। तिव्वती खण्डान्तर पूरा मिलता है। ८३, २८ वां चर्यापद तथा टीका, बौद्ध ज्ञान ओ दोहा, पृ०, ४२, ४४, ४५। ८४. देखिये पीछे, 'उपलब्धि' टिप्पणी संख्या, ३३, ३४, ३५, १ ८५. देखिये पीछे, यही अध्याय, टिप्पणी संख्या, ६६। ८६. पोद्दार, संस्कृत साहित्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० १३६ तथा आगे। इसके पूर्व अग्निपुराण में अलंकारों का शब्द, अर्थ और उभय में विभाजन मिलता है किन्तु उसमें शब्द और अर्थ का विशेषध्यान रक्खा गया है, अप्रस्तुत योजना की मूल प्रकृति का नहीं। ८७. बा० दोहाकोष, पृ० २४। ८८. वही, पृ० २७ ५८, पृ० ३१ ७३. पृ० ३१। ७८. पृ० ३६ ६१। ८९. बौद्ध गान ओ दोहा, टीका, पृ० २। ९०. हर्ष चरित, १. ७। ६६. चर्यापद ३३। ६२. साँप और मेढक का प्रतीकार्थ डा० वागची द्वारा प्रकाशित तिव्वती-रूमांतर के आधार पर निर्धारित किया गया है। चर्यापद पृ० ११ तथा टीका के अतिरिक्त डा० सुकुमार सेन की टिप्पणियों का भी उपयोग किया गया है। ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स, पृ० २६।

ग

१. बौद्ध गान ओ दोहा-भूमिका। २. सहंती, उत्कल साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पृ० ३। ३. ककाती, आसामी, इट्स फार्मेशन एन्ड डेवलपमेंट पृ० ६। ४. राहुल, पुरातत्व निबन्धावली पृ० १६७। ५. हिन्दी-काव्य-धारा पृ० ११। ६. चटर्जी-ओरिजिन एन्ड डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज, खंड १ पृ० ११२। ७. चौधरी, डाकाराव पृ० १६। ८. ओल्ड बंगाली टेक्स्ट्स पृ० ४४। ९. तोमर, प्राकृत और अमभ्रंश साहित्य का इतिहास और उसका हिन्दी पर प्रभाव पृ० ५६-५६। १०. तोमर, प्राकृत और अमभ्रंश साहित्य का इतिहास और उसका हिन्दी पर प्रभाव, पृ० ६२ तथा ७२। ११. चटर्जी, ओरिजिन एन्ड डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज, पृ० ११३, ११४। १२. पुरातत्व-निबन्धावली, पृ० १८८। १३. तोमर, प्राकृत और अमभ्रंश साहित्य का इतिहास और उसका हिन्दी पर प्रभाव, पृ० ६३। १४. ककाती, आसामी, इट्स फार्मेशन एन्ड डेवलपमेंट, पृ० ५, ६, ११। १५. ककाती, आसामी, इट्स फार्मेशन एन्ड डेवलपमेंट, पृ० ६।

६. तारानाथ, मिस्टिक टेलस, पृ० ८। ७. तारानाथ, मिस्टिक टेलस, पृ० ६, १०. शंकर का उल्लेख अनैतिहासिक है। ८. देखिये पीछे, यही अध्याय, सिद्धियों का उपयोग। ९. वागची, दोहाकोष, पृ० ७२ तथा आगे। १०. अत्र तावत् षडदर्शनानि उच्यन्ते। ब्रह्म, ईश्वर, अहन्त, बौद्ध, लोकायत, सांख्याश्च। टीका—वागची, दोहाकोष, पृ० ७२। ११. ब्रह्मणो हिरण जानन्त हि भेउ, एवइ पढ़िअउ एच्चउवेउ। १. वही पृ० १४। १२. वही, पृ० ७३ तथा ७४। १३. वही, पृ० १४। १४. वही, पृ० १४। १५. वही, पृ० १४। १६. वही, पृ० १५। १७. वही पृ० ७६, ८०। १८. वही, पृ० १५, १६। १९. वही टीका भाग पृ० ८६। २०. चेल्लु भिक्खु जे त्थविर उएसैं, वन्देहिअ पव्वज्जिउ वेसैं। तथा टीका. वही, पृ० ८३, ८४। २१. अरण ताहि महजाणहिं थावइ. तहि सुतन्त तक्कसत्थ होइ, राउ परमत्थ एक ते साहिउ। वही, पृ० १६, १७। २२. वही, पृ० १६, १७, २०। २३.वही, पृ० १८। २४. देखिये पीछे, 'गुरु का महत्व' २५. देखिये पीछे, "तन्त्र" २६. देखिये पीछे, "तन्त्र" २७. देखिये पीछे, "तन्त्र" २८. शास्त्री, बौद्ध गान ओ दोहा. टीका चर्यापद २, पृ० ६। २९. कारेली, सेकोद्देश टीका, पृ० २८। ३०. मज्झिमदार, हिस्ट्री आफ बंगाल, प्रथम खण्ड, पृ० ६७२, ६७३ तथा वैडेल, लामाइज्म, पृ० २४, २५। ३१. वासुदेव उपाध्याय. तिब्बत का प्राचीन धर्म बोनपा "शिक्षा;" जनवरी ५०, पृ० २०७। ३२. तिब्बती जनता में यह अनुश्रुति प्रचलित है कि पद्मसम्भव के पचीस शिष्य थे जिनमे अद्भुत सिद्धियाँ थीं। उनमें से १. सूर्यकिरणों पर सवारी करता था, २. चट्टानों में कीलें गाड़ देता था, ३. अश्वमुख धारण कर तीन बार हिनहिनाता था, ४. मुर्दों को जीवित कर देता था, ५. तीन डाकनियों का स्वामी थी, ६. देवों और दानवों को दासों की भाँति रखता था, ७. भूतों को बुलाता था, ८. उड़ते पक्षी को पकड़ लेता था, ९. मुर्दों को सोने में बदल देता था, आदि आदि। इनका सिद्धों की प्रज्ञोपाय भावना तथा नैरात्म्यज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं था। ये केवल असंस्कृत जातियों के अन्धविश्वास और आदिम संस्कारों से उद्भूत कल्पनाएँ थीं जिन्होंने धीरे धीरे वज्रयान में प्रवेश पा लिया। वैडेल लामाइज्म, पृ० ३०। ३३. वैडेल, लामाइज्म, पृ० ३० ३४. साधनमाला में उल्लेख मिलता है कि 'एकजटा' की पूजा सरहपा के शिष्य नागार्जुन ने भोट देश से उद्धृत की थी, साधनमाला, पृ० २६७। ३५. वागची, स्टडीज इन द तन्त्र, पृ० ५०, ५१। ३६. चौधरी, डाकार्णव, भूमिका, पृ० ६। ३७. वागची, स्टडीज इन द तन्त्र, पृ० ५१। ३८. खिति जल पवण हुतासण सुरण डाइणि देवि। वागची, दोहाकोष, पृ० ५२। ३९. वागची, स्टडीज इन तन्त्र, पृ० ५१। ४०. जयद्रथ यमल में ही इनका विस्तृत उल्लेख "लामावर्ग" में है। इस कृति का समय वागची ने ८ वीं शती माना है। ६०. स्टडीज० पृ०, ५०, ५१ उसमें इनके तिब्बती चेहरे लगा कर बहुरूप धारण करने का भी उल्लेख है। ४१. बाद में १६ वीं शती के स्वामी पूर्यान्न्द परमहंस के षट्चक्र

टिप्पणियाँ : अध्याय ५

निरूपण में हमें प्रत्येक चक्र की अधिष्ठात्री डाकिनी, शाकिनी, राकिनी, लाकिनी, हाकिनी आदि का उल्लेख मिलता है। द्र० षट्चक्रनिरूपण, कलकत्ता १९४१। इस दर-परा का अस्तित्व बौद्ध तन्त्रों में पहले ही मिलता है। इन्द्रोडकशन द्रु तांत्रिकबुद्धिज्ञ, पृ० १६३। ४२ मिस्टिक टेलस आफ लामा तारानाथ, पृ० ११, १५, २३ आदि। ४३. साधनमाला, पृ० ४१३, ४१४। ४४. प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धिः पृ० ७। ४५. डा० एस० सी० सरकार, कालिदास, एराड हिज कन्टेम्पोरेरीज इन ए टिवेटन रेफ्रेंस, गंगा-नाथ भ्मा रिसर्च जर्नल १९४४, पृ० ४०३ तथा आगे। ४६. इन सम्प्रदायों के विषय में डा० सरकार का यह मत है जिस पर वे तिब्बती प्रमाणां का आश्रय लेकर कार्य कर रहे हैं। तारानाथ ने पालवंश के पहले चन्द्रवंश का जो उल्लेख किया है उस पर हन राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत विचार कर चुके हैं। ४७. मिस्टिक टेलस आफ लामा तारानाथ, पृ० १६। ४८. मिस्टिक टेलस आफ तारानाथ, पृ० २४, २५, २६। ४९. देखिये, आगे, नाथ सम्प्रदाय। ५०. देखिये, वागची, कौलज्ञान निर्याय, भूमिका। ५१. न द्वयम् नाद्वयम् शान्तम् शिवम् सर्वत्र संस्थितम् ॥ स्वाधिष्ठान पद्म रम्यम् प्रज्ञापारमिता शिवम् ॥ अनंगवज्र, प्रज्ञोपाय विनिश्चयसिद्धिः पृ० ५। ५२. भट्टा-चार्य, साधनमाला, भूमिका पृ० ७६। ५३. सेकोदेश टीका। ५४. महाकाल साधनम्, साधनमाला, पृ० ५६७। ५५. हलाहल साधनम्, साधनमाला, पृ० ७१। ५६. कहा जाता है कि जब विष्णु ने अवतार लेकर पृथ्वी को अत्याचार से पीड़ित किया तो श्रीनाथ भगवान ने २४ कापालिकों को भेजा। इन्होंने विष्णु के २४ अवतारों का शिरच्छेदन कर गले में उनके कपाल धारण किये। इसीलिये ये कापालिक कह-लाए। द्विवेदी, “नाथ सम्प्रदाय” में उद्धृत, पृ० ७। ५७. देखिये वागची, कौलज्ञान निर्याय में संग्रहीत कौल ग्रन्थ। ५८. मिस्टिक टेलस आफ लामा तारानाथ, पृ० १५। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आचार्य क्षितिमोहन सेन ने एक ऐसे शिवपूजक सम्प्रदाय का उल्लेख किया है जो पहले लिंग पर वज्र स्थापित करता है, फिर वज्र हटा कर शिव की पूजा करता है। ज्ञात यह होता है कि यह कोई ऐसा बौद्ध सम्प्रदाय है जिसे राजभय से शैव धर्म अपनाना पड़ा है किन्तु शिव पूजा के पहले वह शिवलिंग पर वज्र की स्थापना कर देता है जैसा विरुपा ने सोमनाथ का आदर किया किन्तु पहले उन पर अवलोकितेश्वर की स्थापना कर अपने को बौद्ध घोषित कर दिया। सेन महोदय ने उस विधि का अर्थ यह लिया है कि वे वज्र को हटा कर शुद्ध शिव की पूजा करते हैं किन्तु तारानाथ का यह विवरण उस पर नया प्रकाश डालता है जो जो विचारणीय है। ५९. तीसरा पाठ, वागची, चर्यापद, पृ० १०६। ६०. बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० ७, ८। ६१. द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय, पृ० ८२। ६२. बौद्ध गान ओ दोहा, चर्यापद १०, तथा उसकी टीका पृ० १६, २०। ६३. बौद्ध गान ओ दोहा, चर्यापद ११ तथा उसकी टीका. पृ० २१, २२। ६४ मिस्टिक टेलस आफ लामा तारानाथ, पृ० ३१, ३२। ६५. राइस डैविड्स, मैन्युएल आफ ए मिस्टिक, पृ० ८० तथा आगे। ६६. राइस

डैविड्स, मैन्युएल आफ ए मिस्टिक, पृ० ८६ तथा आगे । ६७. शास्त्री, गुह्य समाज तन्त्र, पृ० ६०, १४०, १४३ । ६८. वागची, स्टडीज़ इन द तन्त्राज, पृ० २६ । ६९. साधनमाला, पृ० ४७३ । ७०. साधनमाला, पृ० ४८३ ७१. साधनमाला, पृ० ४७४ ७२. साधनमाला, पृ० ५०१ ७३. साधनमाला, पृ० ५११ ७४. साधनमाला, पृ० ५११ ७५. साधनमाला, पृ० ४७२ ७६. द्विवेदी, मध्ययुग में भारतीय धर्म साधना । नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५०, अंक १, २ । ७७. अद्भ्यवज्ञ, कुदृष्टि निर्घातम्, पृ० १, २, ३ । ७८. उन्होंने ५४ ग्रन्थों की रचना की थी । साधनमाला, खण्ड २, भूमिका पृ० ६२ । ७९. मिस्टिक टेलस आफ लामा तारानाथ, पृ० ४१, ४२ । ८०. तारानाथ, इण्डियन एंटीक्वेरी, भाग ४, पृ० ३६४, तथा आगे ।

स

१. बौद्ध गान ओ दोहा, मुखबन्ध पृ० १६ । २. मोहनसिंह-गोरखनाथ भूमिका : दलजीत सिंह । ३. बा० दोहाकोष पृ० ३१ । ४. वा० दोहाकोष पृ० ४४, ४६ । ५. योग प्रवाह पृ० २१७ । ६. डा० मोहनसिंह, गोरखनाथ पृ० ६ तथा आगे । ७. द्विवेदी नाथ सम्प्रदाय पृ० ६८ । ८. द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय पृ० ६७ । ९. कौलज्ञान निर्णय पृ० १०५ श्लोक १२६ । १०. द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय पृ० १८८ । ११. योगिसम्प्रदायाविष्कृति, पृ० ४१६ तथा आगे । १२. द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय पृ० १४७ । १३. दासगुप्त, आब्सक्योर रेलीजस कल्ट्स, पृ० २२६ । १४. डा० मोहनसिंह, गोरखनाथ पृ० ८ । १५. गोरक्ष सिद्धांत संग्रह पृ० १६ । १६. डा० सुरेन्द्रनाथ सेन, स्टडीज़ इन इंडियन हिस्ट्री : कलकत्ता पुस्तकालय १९३० : पृ० १२० । १७. प्रोसीडिंग्स आफ ए० सो० आ० वें १९०३, पृ० १०० । १८. इब्बेटसन, पंजाब कास्ट्स पृ० २३५ । १९. कास्ट्स एंड ट्राइब्स आफ साउथ इंडिया, थर्स्टन, खंड २, पृ० ४६४ । २०. कास्ट्स एंड ट्राइब्स आफ साउथ, इंडिया, थर्स्टन, खंड २, पृ० ५०० । २१. कास्ट्स एंड ट्राइब्स आफ साउथ इंडिया, थर्स्टन, खंड ७, पृ० ४३२ । २२. पंजाब कास्ट्स, इब्बेटसन, पृ० २३५ तथा द्विवेदी नाथ सम्प्रदाय पृ० १५६ । २३. द्विवेदी, नाथ सम्प्रदाय पृ० १८८ । २४. बड्धवाल, योग प्रवाह पृ० १ । २५. बड्धवाल, योग प्रवाह पृ० ८ । २६. बड्धवाल, योगप्रवाह पृ० २ । २७. कबीर अन्थावली पृ० ५४ । २८. चतुर्वेदी, सन्त काव्य पृ० ५२२ । २९. आक्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, मयूरभंज । ३०. दासगुप्त, आब्सक्योर रेलीजस कल्ट्स पृ० ३०१ । ३१. जनवाणी, अग्रस्त १९५० पृ० ७५ । ३२. दासगुप्त, आब्सक्योर रेलीजस कल्ट्स पृ० २६६ । ३३. दासगुप्त, आब्सक्योर रेलीजस कल्ट्स, टिप्पणी २, पृ० ३०० । ३४. एम० एन० बोस, माडर्न बुद्धिज़्म पृ० १६ । ३५. जनवाणी, अग्रस्त १९५० पृ० ७६ । ३६. दासगुप्त, आब्सक्योर रेलीजस कल्ट्स पृ० ३०१ । ३७. दासगुप्त, आब्सक्योर रेलीजस कल्ट्स पृ० ३२१ । ३८. दासगुप्त, आब्सक्योर रेलीजस कल्ट्स पृ० २१६ । ३९. लक्ष्मणबोध, बोधसागर ५, पृ० १४२ । ४०. लक्ष्मणबोध, संक्षेपसार, बोधसागर ५, पृ० १५४ तथा आगे । ४१. दास-

टिप्पणियाँ : अध्याय ५

गुप्त, आश्वत्थोर रेलीजस कल्ट्स, पृ० ३१६ तथा ३०५ । ४२. राय-ओरांव आफ़
छोटा नागपुर पृ० ४४४ तथा आगे । ४३. दासगुप्त, आश्वत्थोर रेलीजस कल्ट्स
अध्याय १४। ४४. द्विवेदी, कबीर पृ० ५२ तथा आगे । ४५. गोरखवानी,
भूमिका पृ० १५ ।

ग

१. विष्णु-सहस्रनाम पृ० २१३, २१४ । २. पाहुडदोहा पृ० ६४ । ३. दे० पीछे
“शून्यवाद” । ४. दे० पीछे “परमार्थ” । ५. गोरखवानी पृ० १। ६. वाक्यपदीय १, १, १,
१२०। ७. नाशोत्पाद समालीढम् ब्रह्म दण्डस्यम् च यत् । न हठयोगप्रदीपिका पृ० १७२। ६.
जायसी ग्रन्थावली पृ० ६५८। १०. पद ४४, तथा टीका बौद्धगान ओ दोहा, पृ० ६५, ६८। ११.
गोरखवानी पृ० ३२। १२. गोरखवानी पृ० ७३। १३. गोरखवानी पृ० ५८। १४. गोरखवानी
पृ० १८७। १५. गोरखवानी पृ० १८७। १६. गोरखवानी पृ० १८६। १७. गोरखवानी पृ०
१७। १८. गोरखवानी पृ० ६०। १९. गोरखवानी पृ० २०। २०. गोरखवानी पृ० ५१। २१.
गोरखवानी पृ० २८। २२. गोरखवानी पृ० २६। २३. गोरक्ष-पद्धति पृ० ८८। २४. प्राण
संगली पृ० २०२। २५. प्राण संगली पृ० १३७। २६. प्राण संगली पृ० १६६। २७. सन्त
कबीर पृ० १८१। २८. सन्त कबीर पृ० १६२। २९. पंचमुद्रा बोधसागर पृ० १८७। ३०.
भवतारण बोध, बोधसागर पृ० ५०। ३१. भवतारण बोध, बोधसागर पृ० ५१। ३२. सन्त
कबीर पृ० ६०। ३३. सन्त कबीर पृ० ४६। ३४. रैदास जी की बानी पृ० ३। ३५. दादू
दयाल की बानी भाग—१ पृ० १७०। ३६. गुलाल साहब की बानी पृ० २७। ३७. सुन्दर
विलास पृ० १६८-७०। ३८. तैत्तिरीयोपनिषद् पृ० २०८। ३९. चतुर्वेदी, संत परम्परा पृ०
३८५। ४०. जायसी ग्रन्थावली पृ० ६५३। ४१. जायसी ग्रन्थावली पृ० ६५३। ४२. जायसी
ग्रन्थावली पृ० ६५८। ४३. जायसी ग्रन्थावली पृ० ६६५। ४४. जायसी ग्रन्थावली पृ०
६६६। ४५. गोरक्ष पद्धति पृ० ८६। ४६. हठयोग प्रदीपिका पृ० १६६। ४७. हठयोग प्रदी-
पिका पृ० १६८। ४८. दरिया सागर पृ० १५। ४९. चतुर्वेदी, संत काव्य पृ० ५३८। ५०.
प्राण संगली, टिप्पणियाँ पृ० १६४। ५१. पलट्ट साहब की बानी पृ० ६। ५२. श्वासगुंजार-
अनुरागबोधक खण्ड—१०, पृ० ६। ५३. सन्त कबीर पृ० ५६। ५४. दादू दयाल की
बानी १ पृ० ५२। ५५. प्राण संगली पृ० १३०। ५६. गुलाल साहब की बानी पृ० ६०।
५७. पलट्ट साहब की बानी। १। पृ० ७७। ५८. पलट्ट साहब की बानी। २। पृ० ३३। ५९.
अनुराग सागर पृ० ७२। ६०. सन्त कबीर पृ० २२७। ६१. सन्त बानी संग्रह। १। पृ० ८।
६२. सन्त बानी संग्रह। २। पृ० १३। ६३. मीरां बृहद् पद संग्रह पृ० ३२४। ६४. मल्लू दास
जी की बानी पृ० ४। ६५. संत काव्य पृ० ३५६। ६६. मीखा साहब की बानी पृ० ४३।
६७. मीखा साहब की बानी पृ० ६४। ६८. गुलाल साहब की बानी पृ० २। ६९. गुलाल
साहब की बानी पृ० २१। ७०. गुलाल साहब की बानी पृ० ३२। ७१. गुलाल साहब की
बानी पृ० ३४। ७२. गुलाल साहब की बानी पृ० ३७। ७३. गुलाल साहब की बानी

पृ० ४१। ७४. गुलाल साहब की बानी पृ० ५०। ७५. गुलाल साहब की बानी पृ० ५६।
 ७६. संत काव्य पृ० ३२७। ७७. सन्त काव्य पृ० ४५४, ४५५। ७८. भीखा साहब की
 बानी पृ० ८५। ७९. पलटू साहब की बानी (२) पृ० ३४। ८०. गुलाल साहब की बानी
 पृ० १२५। ८१. बागची, दोहाकोष, पृ० ४०, ४१, ४२। ८२. वा० दोहाकोष पृ० ५६। ८३.
 संत बानी संग्रह पृ० १८६, २३। ८४. प्राण संगली पृ० १८३। ८५. गुलाल साहब की बानी
 पृ० ५०। ८६. निरंजन बोध, बोधसागर, (७) पृ० ४। ८७. ज्ञान बोध, बोधसागर ७
 पृ० २१। ८८. आगम निगम बोध-बोधसागर (१०) पृ० १५। ८९. आगम निगम बोध,
 बोधसागर १० पृ० १५। ९०. श्वासगुंजार, बोधसागर १० पृ० ३३। ९१. कबीर बानी,
 बोधसागर (७) पृ० १०५। ९२. भवतारण बोध, बोधसागर (७) पृ० ५५। ९३. कबीर
 बानी, बोधसागर (७) पृ० १०५। ९४. हठयोग प्रदीपिका-चतुर्थोपदेश, श्लो० ७०-८१
 तथा टीका—पृ० १७६ तथा आगे। ९५. मोहनसिंह-गोरखनाथ पृ० ७१-६ पर उद्धृता।
 ९६. चतुर्वेदी-संत काव्य पृ० ५४६। ९७. चतुर्वेदी-संत काव्य पृ० ५४६। ९८. दादू दयाल
 की बानी—भाग १—पृ० ५०-५१। ९९. दादू दयाल की बानी, भाग १—पृ० ५८। १००.
 कबीरबानी, बोधसागर (७) पृ० ५५। १०१. कबीर बानी, बोधसागर ७ पृ० १०५।
 १०२. कबीर बानी, बोधसागर ७ पृ० १०७। १०३. प्रणामी साहित्य, पृ० ५६। १०४.
 अनुरामसागर पृ० ४३। १०५. रैदासजी की बानी पृ० ४। १०६. बीजक पृ० १०३। १०७.
 वा० दोहाकोष, पृ० ३१। १०८. दरिया सागर पृ० ५७। १०९. रैदास जी की बानी पृ० ५।
 १०. गोरखबानी पृ० १६५। १११. दादू दयाल की बानी (१) पृ० १७०। ११२. दादू दयाल
 की बानी पृ० १७१। ११३. कबीर पृ० ७२। ११४. सन्त कबीर पृ० २१२। ११५. बीजक
 पृ० २६। ११६. गुलाल साहब की बानी पृ० ५१। ११७. गुलाल साहब की बानी, पृ०
 ८। ११८. गुलाल साहब की बानी पृ० ५६। ११९. गुलाल साहब की बानी पृ० ६४। १२०.
 पलटू साहब की बानी पृ० २८। १२१. निरंजन बोध, बोधसागर ७ पृ० ३। १२२. श्वास
 गुंजार, बोधसागर १० पृ० ३३। १२३. बीजक पृ० ४२५। १२४. प्राण संगली पृ० २७६।
 १२५. भीखा साहब की बानी, पृ० ८१। १२६. गोरखबानी पृ० ४७। १२७. जायसी
 ग्रन्थावली पृ० १४७। १२८. जायसी ग्रन्थावली, पृ० २५८। १२९. सूफी काव्य संग्रह पृ०
 ६६। १३०. जायसी ग्रन्थावली पृ० ५६६। १३१. जायसी ग्रन्थावली पृ० ६५४। १३२. संत
 कबीर १२०। १३३. रैदासजी की बानी पृ० १६। १३४. बङ्गवास्तु योगप्रवाह—पृ० ७३।
 १३५. कबीर पृ० ७५। १३६. वा० दोहाकोष पृ० ३२। १३७. तिलोपा. बागची दोहाकोष
 पृ० ५५। १३८. गोरक्ष पद्धति पृ० ८७। १३९. हठयोग प्रदीपिका पृ० १७२। १४०. संत
 कबीर पृ० १। १४१. बीजक पृ० २७८। १४२. बीजक पृ० २६२। १४३. संत कबीर पृ० ३५।
 १४४. पलटू साहब की बानी पृ० १६। १४५. गुलाल साहब की बानी पृ० २२। १४६.
 बीजक पृ० २८। १४७. बीजक पृ० ३६। १४८. पलटू साहब की बानी पृ० ६७। १४९. वा०
 दोहाकोष पृ० १३। १५०. ला शां भिस्तीक्स पृ० २११। १५१. सन्त कबीर पृ० ३५।
 १५२. आगम निगम बोध-सागर (१०) पृ० ४४, ४५। १५३. द्विवेदी-कबीर—पृ० ७६।

टिप्पणियाँ : अध्याय ५

१५४. पल्लव साहव की बानी पृ० ८२। १५५. बागची दोहा कोष पृ० ३५। १५६. द्रष्टव्य : अध्याय—टिप्पणी ५६ तथा ६६। १५७. सन्त कबीर पृ० २२। १५८. कौलज्ञान निर्याय पृ० २२। १५९. कौलज्ञान निर्याय पृ० ६५। १६०. कौलज्ञान निर्याय पृ० ८४, ८५। १६१. कौलज्ञान निर्याय पृ० ८६। १६२. गोरखवानी पृ० १००। १६३. वड्डध्वाल, योगप्रवाह पृ० २२७। १६४. गोरखवानी पृ० १८६। १६५. गोरखवानी पृ० १६६। १६६. गोरखवानी पृ० ११६। १६७. गोरखवानी पृ० १००। १६८. गोरखवानी पृ० १६६। १६९. गोरखवानी पृ० १०५। १७०. गोरखवानी पृ० १०४। १७१. गोरखवानी पृ० २१८। १७२. गोरखवानी पृ० २३१। १७३. गोरखवानी पृ० ७६। १७४. गोरखवानी पृ० ११। १७५. कबीर ग्रन्थावली पृ० १६। १७६. सन्तवानी संग्रह २ पृ० १७७। १७७. बोजक पृ० ११६। १७८. रैदान जी की बानी पृ० २०, २१। १७९. सन्त कबीर पृ० ५१, २०६, २४२। १८०. दादू दयाल की बानी पृ० ३, ५, २०, ३२। १८१. गोरखवानी पृ० १००। १८२. बोजक पृ० १६६। १८३. सन्त वानी संग्रह २ पृ० १२। १८४. संत वानी संग्रह २ पृ० १७७। १८५. दादू दयाल की बानी, पृ० २१, ६३। १८६. उग्र गीता, बोधसागर ८। १८७. श्रीमद्भगवत् गीता, अध्याय १३ श्लोक २७, २८। १८८. कबीर वानी, बोधसागर ७ पृ० १२०। १८९. वड्डध्वाल, हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० ११०। १९०. कबीरवानी, बोधसागर १० पृ० ३१। १९१. सुमिरन बोध, बोधसागर १० पृ० ३१। १९२. पंचमुद्रा, बोधसागर ८ पृ० २०४। १९३. ज्ञानस्थिति बोध, बोधसागर ८ पृ० १०६। १९४. ज्ञानस्थिति, बोधसागर ८ पृ० ६३। १९५. सन्त कबीर पृ० १। १९६. सन्त कबीर पृ० ११। १९७. दादू दयाल की बानी २ पृ० ८६। १९८. दादू दयाल की बानी २ पृ० ८६। १९९. दादू दयाल की बानी १ पृ० १७०। २००. प्राण संगीता पृ० १४७। २०१. गोरखवानी पृ० २, ३। २०२. गोरखवानी पृ० ३६। २०३. दादू दयाल की बानी १ पृ० १७३, १७४। २०४. संत कबीर पृ० २१। २०५. दादू दयाल की बानी २ पृ० ८६। २०६. दादू दयाल की बानी २ पृ० २०७। २०७. दादू दयाल की बानी १ पृ० ६, ६०। २०८. भीखा साहव की बानी पृ० ३६। २०९. सन्त वानी संग्रह १ पृ० २६, ३३। २१०. हठयोग प्रदीपिका, चतुर्थोपदेश, श्लोक ३, पृ० १३६। २११. गोरखवानी पृ० १३। २१२. सन्त कबीर पृ० १६। २१३. बोजक पृ० ११६। २१४. सन्त वानी संग्रह २ पृ० २०। २१५. संत वानी संग्रह २ पृ० २१७। २१६. कबीर ग्रन्थावली पृ० १८। २१७. पल्लव साहव की बानी, पृ० ३६। २१८. दादू दयाल की बानी १ पृ० १७०। २१९. कबीर ग्रन्थावली पृ० १८। २२०. दादू दयाल की बानी १ पृ० १७३। २२१. बागची, दोहाकोष पृ० २०। २२२. श्रीमद्भगवत् गीता, अध्याय १८, श्लोक ४६, ४८, ४९। २२३. श्रीमद्भगवत्गीता, अध्याय १२। २२४. नारद भक्ति सूत्र : प्रेमदर्शनः सूत्र ६५, पृ० १२२। २२५. संत वानी संग्रह २ पृ० १४, १५। २२६. कबीर ग्रन्थावली पृ० १४२। २२७. गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह पृ० ५७। २२८. गोरखवानी पृ० २४६। २२९. प्रणामो साहित्य संग्रह पृ० ६।

१. गोरखवानी पृ० ८२, २७०, ८३, २७१। २. कबीर ग्रन्थावली पृ० ३, दोहा २६।
 ३. गोरखवानी पृ० १०४, १४। ४. कबीर ग्रन्थावली पृ० १२। ५. गोरखवानी पृ० ४। ६.
 बड़धवाल, योग प्रवाह पृ० १६, १७। ७. संत कबीर पृ० ४६। ८. कबीर ग्रन्थावली पृ० २।
 ९. पलटू साहिब की बानी २ पृ० १०६। १०. बा० दोहाकोष पृ० १०। ११. कबीर
 ग्रन्थावली पृ० २। १२. दादू दयाल की बानी १ पृ० १२। १३. बौद्ध गान ओ दोहा
 पृ० ३। १४. बौद्ध गान ओ दोहा पृ० ६। १५. सिद्धान्त-संग्रह, द्वितीयोपदेश श्लोक ३, ५
 पृ० ११। १६. हठयोगप्रदीपिका, तृतीयोपदेश, श्लोक ५५, ५६। १७. हठयोग प्रदीपिका,
 तृतीयोपदेश, श्लोक ६१ तथा ७०। १८. गोरखवानी पृ० १०४। १९. गोरखवानी पृ० २१८।
 २०. गोरखवानी पृ० २४२। २१. दादू दयाल की बानी २ पृ० १५२। २२. प्राण संगली
 पृ० १६३। २३. प्राण संगली पृ० १५७। २४. पाहुड़ दोहा पृ० १६। २५. बा० दोहाकोष
 पृ० १०। २६. बा० दोहाकोष पृ० ८८। २७. कौलज्ञान निर्णय पृ० ६५। २८. गोरखवानी
 पृ० २८। २९. गोरखवानी पृ० २६। ३०. गोरखवानी पृ० ११७। ३१. सन्त कबीर पृ०
 २२७। ३२. सन्त कबीर पृ० २१। ३३. कबीर ग्रन्थावली पृ० ४। ३४. गोरखवानी पृ०
 १६६। ३५. कबीर ग्रन्थावली पृ० १६। ३६. पलटू साहिब की बानी १ पृ० १०१। ३७.
 सन्त बानी संग्रह २ पृ० १७७। ३८. जायसी ग्रन्थावली पृ० २१६। ३९. सन्त कबीर
 पृ० ७७। ४०. पद ४७, बा० चर्यापद पृ० १५३। ४१. दादू दयाल की बानी २ पृ० १५१।
 ४२. गोरखानी पृ० १००। ४३. गोर्ख-विजय पृ० १५६। ४४. गोर्ख-विजय पृ० २५२।
 ४५. जायसी ग्रन्थावली पृ० २३३। ४६. शुक्ल, जायसी ग्रन्थावली पृ० १४२। ४७.
 राष्ट्रभारती, मई १६५२, पृ० २६२, ६३। ४८. दे० पीछे अध्याय ३ ग। ४९. सेकोदेश।
 टीका पृ० २७। ५०. दे० पीछे अध्याय (३ ग)। ५१. पद ३, बा० चर्यापद, पृ० १०६
 ५२. गोरखवानी पृ० ३६। ५३. संत कबीर पृ० ५५। ५४. सन्त कबीर पृ० २०। ५५. प्राण
 संगली पृ० १५७। ५६. रैदासजी की बानी पृ० २६। ५७. जायसी ग्रन्थावली पृ० २७७।
 ५८. भीखा साहब की बानी पृ० ४२। ५९. गोरक्ष पद्धति पृ० ५१। ६०. दे० पीछे साधना
 पद्धति २। ६१. गोरखवानी पृ० २१६। ६२. गोरखवानी पृ० २१६। ६३. बा० दोहाकोष
 पृ० १५३। ६४. गोरखवानी पृ० २२४। ६५. गोरखवानी पृ० २२५। ६६. दादू दयाल की
 बानी २ पृ० १५१। ६७. प्राण संगली पृ० २०५। ६८. दोहाकोष पृ० ३०। ६९. बा० दोहा-
 कोष पृ० ४४। ७०. हठयोगप्रदीपिका पृ० २१, २३। ७१. गोरखवानी पृ० ८१। ७२. गोरख-
 वानी पृ० १७५। ७३. बा० दोहाकोष पृ० ८। ७४. गोरखवानी पृ० १७४। ७५. पद ४७
 बा० चर्यापद पृ० १५३। ७६. गोरखवानी पृ० ७४। ७७. गोरखवानी पृ० १७४। ७८.
 गोरखवानी पृ० १७७। ७९. वागची दोहाकोष पृ० ४४। ८०. गोरखवानी पृ० १७५। ८१.
 गोरखवानी पृ० २४०। ८२. कबीर ग्रन्थावली पृ० १६८। ८३. सन्त कबीर पृ० २५५। ८४.
 सन्त कबीर पृ० २६०। ८५. सन्त कबीर पृ० २७३। ८६. कबीर ग्रन्थावली पृ० १०। ८७.

टिप्पणियाँ : अध्याय ५

गोरखवानी पृ० ७। ८८. गोरखवानी पृ० १०१ १०२। ८६. वा० दोहाकोष पृ० ३५। ६०. अनुराग सागर पृ० १३। ६१. सन्त वानो संग्रह पृ० ७। ६२. दादू दयाल की बानी १ पृ० ७, ६०। ६३. सन्त कबीर पृ० २२७। ६४. दयावाई की बानी "अजपा का अंग" पृ० १०, ११। ६५. दादू दयाल की बानी १ पृ० १०६। ६६. पल्ल साहब की बानी पृ० ८१। ६७. जा० ग्र० पृ० ६७३। ६८. बोधसागर ८ पृ० २१६ २२०। ६९. कबीर ग्रन्थावली पृ० ३८। १००. दादू दयाल की बानी पृ० २१, ६३, १६। १०१. वा० दोहाकोष पृ० ३५। १०२. गोरखवानी पृ० १६१। १०३. सन्त वानो संग्रह १ पृ० ७। १०४. अनुराग सागर पृ० १३। १०५. उग्रगीता, बोधसागर ८ पृ० २६। १०६. कबीर ग्रन्थावली पृ० १४। १०७. योग प्रवाह पृ० २७। १०८. योग प्रवाह पृ० २४। १०९. वा० दोहाकोष पृ० ३६। ११०. वा० दोहाकोष पृ० ४१। १११. मोहनसिंह, गोरखनाथ पृ० २५ पर उद्धृता ११२. गोरखवानी पृ० १८७, ६ तथा १४। ११३. गोरखवानी पृ० १६६। ११४. हठयोग प्रदीपिका, तृतीयोपदेश, श्लोक, ६८, १०२। ११५. हठयोग प्रदीपिका, तृतीयोपदेश श्लो ५२। ११६. गोरखवानी पृ० २००। ११७. गोरखवानी पृ० १६६, २०१। ११८. कबीर ग्रन्थावली पृ० १८, १४। ११९. कबीर ग्रन्थावली पृ० १०२। १२०. कबीर ग्रन्थावली पृ० १०३। १२१. बोधसागर ७ पृ० १०२। १२२. सीरा बृहद पद संग्रह पृ० ३२४। १२३. सन्त कबीर पृ० ३८। १२४. पल्ल साहब की बानी १ पृ० १०१। १२५. पल्ल साहब की बानी १ पृ० १०१। १२६. पल्ल साहब की बानी पृ० ४१ कुंडली ६१। १२७. गुलाल साहब की बानी पृ० ३७। १२८. प्राणामी साहित्य पृ० २२। १२९. बोधसागर ६ पृ० १३०। १३०. बोधसागर १० पृ० १३। १३१. बोधसागर ८ पृ० ६१। १३२. बोधसागर ७ पृ० ११३। १३३. बोधसागर ७ पृ० ११६। १३४. बोधसागर ७ पृ० १२४, १२५। १३५. गोरखवानी पृ० २०, ३२, ४०। १३६. संत कबीर पृ० २०। १३७. कबीर ग्रन्थावली पृ० १४१। १३८. रैदास की बानी पृ० २६। १३९. प्राण संगली पृ० १४०। १४०. पल्ल साहब की बानी १। पृ० ६८। १४१. दासगुप्त, आक्सक्योर रेलीजस कल्ट्स पृ० १८५. १४२. हठयोग प्रदीपिका, तृतीयोपदेश, श्लो ७४ तथा व्याख्या। १४३. कबीर ग्रन्थावली पृ० ६४। १४४. पल्ल साहब की बानी २ पृ० ६७, ६८। १४५. पद १४, वा० चर्यापद पृ० १२१। १४६. दादू दयाल की बानी १ पृ० ६०। १४७. कबीर ग्रन्थावली पृ० २१८। १४८. पल्ल साहब की बानी २। पृ० ६६। १४९. वा० चर्यापद पृ० ११०, ११८, १२४, १३८। १५०. कबीर ग्रन्थावली पृ० १५४। १५१. गोरखवानी पृ० ११०। १५२. गोरखवानी पृ० १२६। १५३. दादू दयाल की बानी २ पृ० ८६। १५४. गोरखवानी पृ० १००। १५५. गोरखवानी पृ० ३३। १५६. गोरखवानी पृ० १६२। १५७. गोरखवानी पृ० २०६। १५८. गोरखवानी पृ० १८। १५९. गोरखवानी पृ० ६६। १६०. गोरखवानी पृ० ६२। १६१. गोरखवानी पृ० ११६। १६२. कबीर ग्रन्थावली पृ० १८३। १६३. प्राण संगली पृ० १७६ तथा २०४। १६४. जायसी ग्रन्थावली पृ० २५६। १६५. जायसी ग्रन्थावली पृ० ३१२। १६६. जायसी ग्रन्थावली पृ० ३२७। १६७. प्राण संगली पृ० १७६। १६८. श्रीमद्भगवद्गीता १५, ६। १६९. वा० दोहा-

कोष पृ० २०। १७० गोरखबानी पृ० १२६। १७१. कबीर ग्रन्थावली पृ० १८। १७२. दादू दयाल की बानी १ पृ० १७२। १७३. दादू दयाल की बानी २ पृ० ४२। १७४. गोरखबानी पृ० ६०, १६३, १८७। १७५. पद ११ बा० चर्यापद पृ० ११८। १७६ पद २८ बा० चर्यापद पृ० १३३। १७७. नाथ सम्प्रदाय पृ० ६। १७८. नाथ सम्प्रदाय पृ० ७। १७९. नाथ सम्प्रदाय पृ० ७। १८०. नाथ सम्प्रदाय पृ० ७२। १८१. कौलज्ञान निर्णय पृ० ५५ श्लोक १०-१८२. ऋग्यजुर्वेदिकाः, तृतीयोपदेशः श्लोक ८३, १०३। १८३. गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह पृ० २०। १८४. गोरखबानी पृ० ४६। १८५ गोरखबानी पृ० ३५। १८६ गोरखबानी पृ० ७७। १८७. गोरखबानी पृ० ७८। १८८. कबीर ग्रन्थावली पृ० ३६, ४०। १८९. कबीर ग्रन्थावली पृ० ३६। १९०. अनुराग सागर पृ० १४२। १९१ वङ्गचाल, निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० ४३०। १९२. बा० दोहाकोष पृ० ५२। १९३. मिस्टिक टेल ऑफ लामा, तारानाथ पृ० २२, २३। १९४. कबीर ग्रन्थावली पृ० १३८। १९५. गोरखबानी पृ० १४३। १९६. जायसी ग्रन्थावली पृ० ४२०। १९७. बा० दोहाकोष पृ० ११। १९८. पद ४, बा० चर्यापद पृ० ११०। १९९. कौलज्ञान निर्णय पृ० ६८। २०० कौलज्ञान निर्णयपृ० ८०, श्लोक १०। २०१. कौलज्ञान निर्णय पृ० ६७ श्लोक ४३। २०२ बा० चर्यापद पृ० १३२। २०३. गोरखबानी पृ० १६२। २०४. गोरखबानी पृ० २०५। २०५. जायसी ग्रन्थावली पृ० २०६। २०६. गोरखबानी पृ० १०५। २०७. पलटू साहिब की बानी १ पृ० १०० तथा ३०। २०८. संत-काव्य पृ० ५१५। २०९. मीरा बृहद पद संग्रह पृ० ५४ तथा १८१। २१०. मीरा बृहद पद संग्रह पृ० २६६। २११. मीरा बृहद पद संग्रह पृ० २६६। २१२. गोर्खा-विजय पृ० १६८ २१३. गोर्खा-विजय पृ० १६८। २१४. पद ४ बा० चर्यापद पृ० ११०। २१५. पद ११, बा० चर्यापद पृ० ११८। २१६. गोरखबानी पृ० १०५। २१७. गोरखबानी, परिशिष्ट ३, पद २४ पृ० २५५। २१८ पलटू साहब की बानी १ पृ० १०। २१९. पद ११ बा० चर्यापद पृ० ११८। २२०. मीरा बृहद पद संग्रह, पृ० १४८। २२१. संत कबीर पृ० २७४। तथा २२२. हठयोग प्रदीपिका, चतुर्थोपदेश, श्लोक ४३ तथा आगे। २२३. हठयोग प्रदीपिका, तृतीयोपदेश श्लोक ४७, ४८। २२४. गोरखबानी पृ० ४६। २२५. बीजक पृ० २४०। २२६. पंचमुद्रा, बोधसागर न. पृ० १८२ तथा आगे। २२७. बा० दोहाकोष पृ० ५४। २२८. श्री वद्भगवतगीता, अध्याय—५, श्लोक २४-२५-२६। २२९. गोरखबानी पृ० २७। २३०. गोरखबानी पृ० १८७। २३१. गोरखबानी पृ० ६६। २३२. गोरखबानी पृ० ५७। २३३. संत कबीर पृ० ६०। २३४. बीजक पृ० १८२। २३५. दादू दयाल की बानी १ पृ० ६०। २३६. नानक, प्राण संगली, पृ० १४२। २३७. संत काव्य पृ० ३४५। २३८. बीजक पृ० ५२। २३९. दरियासागर पृ० १४। २४०. दरियासागर पृ० १४। २४१. ज्ञानस्थिति बोध, बोधसागर। १। पृ० ७६। २४२. पंचमुद्रा, बोधसागर न. पृ० २०४। २४३. कबीर बानी, बोधसागर ७ पृ० १०५। २४४. ज्ञानस्थिति बोध, बोधसागर। १। पृ० १३६। २४५. प्रणामी साहित्य पृ० ५७। २४६. कौलज्ञान निर्णय पृ० १०१, ८४। २४७. संत कबीर पृ० १४। २४८. संत कबीर पृ० २२। २४९. संत कबीर पृ० ७७। २५०. संत कबीर पृ० १७६। २५१.

टिप्पणियाँ : अध्याय ५

दादू दयाल की बानी पृ० ५४। २५२. दरियासागर पृ० २७। २५३. गुलाल साहब की बानी पृ० ११। २५४. गोरखबानी पृ० ६१ ६२। २५५. संत कवीर पृ० २१०। २५६. कवीर ग्रन्थावली पृ० ६४। २५७. दादू दयाल की बानी १ पृ० ५। २५८. सूफ़ी काव्य संग्रह पृ० २१६। २५९. पद २२, बा० चर्यापद पृ० १२६। २६०. गोरखबानी पृ० ६४, ६५। २६१. गोरखबानी पृ० ६०। २६२. कवीर ग्रन्थावली पृ० १४२। २६३. प्राण संगली पृ० १३५। २६४. बीजक पृ० ११०। २६५. संत कवीर पृ० १५। २६६. कवीर ग्रन्थावली पृ० १११। २६७. कवीर ग्रन्थावली पृ० १७। २६८. सूफ़ी काव्य संग्रह पृ० १२६। २६९. कवीर ग्रन्थावली पृ० १७। २७०. कवीर ग्रन्थावली पृ० १०२। २७१. दादू दयाल की बानी १ पृ० २२५। २७२. कौलज्ञान निर्याय पृ० ११ श्लोक ३, ४। २७३. गोरखबानी पृ० १८। २७४. गोरखबानी पृ० २४६, ६। २७५. कवीर ग्रन्थावली पृ० २१२। २७६. दादू दयाल की बानी १ पृ० २६। २७७. सन्त काव्य पृ० ५२६।

ड

१. प्राण संगली पृ० १५६, १६१। २. गोरखबानी पृ० १०१। ३. गोरखबानी पृ० २०५। ४. स्वसम्बेद बोध, बोधसागर ६ पृ० १३८३, १३८४। ५. संत कवीर पृ० ५८। ६. पाहुड़ दोहा, ६३, पृ० २०। ७. पाहुड़ दोहा पृ० ५८। ८. कवीर ग्रन्थावली पृ० १२७। ९. सावयवस्म दोहा संख्या २२, २६, ३३, ४१, ४२, ४३, ४६, ५०, ५१। १०. मुनिरन बोधः छोटाः, बोधसागर १० पृ० २ तथा आगे। ११. पुरुषोत्तम, साहित्य का अध्ययन, पृ० ६४ तथा आगे। १२. बीजक पृ० ३६८। १३. सिद्ध सिद्धान्त संग्रह, सप्तमोऽध्याय, पृ० ३६। १४. प्राणसंगली पृ० १३३। १५. बीजक पृ० ८। १६. अनुराग सागर पृ० ६६। १७. कवीर ग्रन्थावली पृ० १५४। १८. कवीर ग्रन्थावली पृ० १५६। १९. गोरखबानी पृ० १०६। २०. दे० सन्त कवीर, परिशिष्ट पृ० १७२। २१. सन्त कवीर पृ० ११४। २२. सन्त कवीर पृ० ६६। २३. सन्त कवीर पृ० ५३। २४. का० अ० पृ० १५३। २५. संत कवीर पृ० १२६। २६. नानक, प्राण संगली पृ० २७६। २७. सन्त बानी संग्रह १ पृ० १३०। २८. गुलाल साहब की बानी पृ० २१। २९. गुलाल साहब की बानी पृ० ४१। ३०. जायसी ग्रन्थावली पृ० २०२, २१६, २३०। ३१. दादू दयाल की बानी २ पृ० १३६। ३२. संत कवीर पृ० १०८। ३३. कवीर बानी, बोधसागर। ७। पृ० १०५। ३४. बा० दोहाकोष पृ० २५। ३५. गोरखबानी पृ० १०३। ३६. सन्त कवीर पृ० ३३। ३७. पलटू साहिब की बानी २ : १३। ३८. दरिया साहेब की बानी पृ० ११। ३९. बा० दोहाकोष पृ० ४४। ४०. पद ४, बा० चर्यापद पृ० ११०। ४१. गोरखबानी पृ० ११७। ४२. गोरखबानी पृ० ४६। ४३. गोरखबानी पृ० ८। ४४. गोरखबानी पृ० १६६। ४५. सन्त कवीर पृ० ७६। ४६. दरियासागर पृ० १५। ४७. भीखा साहब की बानी पृ० ८१। ४८. दादू दयाल की बानी १ पृ० १। ४९. प्राण संगली साहित्य पृ० २२। ५०. पद ३३, बा० चर्यापद पृ० १३६। ५१. बीजक पृ० ७१। ५२. गोरखबानी पृ० १२०। ५३. संत कवीर पृ० ७६। ५४. दादू दयाल की बानी २ पृ० १६। ५५.

12. Early history of Kamarup. Rai K L. Barua. Shillong. 1933.
13. Gods of Northern Buddhism. A. Getty. Oxford 1914.
14. Gorakhnath and Mediaeval Mysticism. Dr. Mohan Singh. Lahore 1937.
15. Handbook of Vir Shaivism. S. C. Nandimath. Dharwar 1941.
16. History of Bengal Pt. I. Edited by Dr. R. C. Majumdar. Dacca 1943.
17. Hinduism and Buddhism. Sir C. Eliot. London 1921.
18. History of Nepal. (Tr. from Parbatiya) Ed. Daniels wright. Cambridge 1877.
19. History of Kanauj R. S. Tripathi. Banara 1937.
20. Historical Grammer of Apabhramsha. Dr. G. V. Tagare. Poona 1948.
21. India and China. Dr. P. C. Bagachi. Calcutta 1944.
22. Introduction to Panchratra and Ahirbudhnya Samhita. Dr. F. Otto Schrader. Madras 1916.
23. Indian Pundits in land of Snow. S. C. Das. Calcutta 1893.
24. Ludwig Feurbach. F. Engels. Moscow 1946.
25. Buddhism of Tibet or Lamaism. L. A. Waddell. London 1895.
26. Lotus of Sacred law. Sacred books of East Series Vol. 21.
27. Linguistic Survey of India-Grearsen Vol. I. pt. 1.
28. Les chants mistiques de Kanha et de Saraha. M. Shahidullah Paris 1928.

सहायक ग्रन्थ सूची

29. Manifesto of Communist party. C. Marx. Moscow 1948.
30. Marx and Engels on India. Allahabad (Date not given.)
31. Mystic tales of Lama Taranath, Ed. and tr. by Dr. B. N. Dutta. Calcutta 1944.
32. Mahapari-Nirvana Tantra. (Eng. prose translation by M. M. Dutta) Calcutta 1900.
33. Manual of Buddhism. H. Kern, Strassburg. 1896.
34. Manual of mystic or Yogavachar's manual. Tr. by F. Wood Wards Ed. by Rhys Davids, London 1916.
35. Modern Buddhism and its followers in Orissa. N. N. Bose. Calcutta 1911.
36. Outlines of Indian philosophy. M. Hiriyanna. London 1932
37. Oraon of Chota-Nagpur S. C. Roy Ranchi 1915.
38. Obscure Religious cults. Dr. S. B. Dasgupta 1946.
39. Original and developed forms of Indian Buddhism. R. Kimura. Calcutta 1920
40. Outlines of Mahayana Buddhism. D. T. Suzuki. London 1907.
41. Origin and Development of Bengali Language. Pt. I. Dr. S. K. Chatterji. Calcutta 1926.
42. Origin and Development of Bhojpuri. Dr. U. N. Tiwari. (Unpublished Thesis).
43. Punjab Castes. D. Ibbetson. Lahore 1916.
44. Post Chaitanya Sahajiya Cult. M. M. Bose. Calcutta. 1930.

45. Pali English Dictionary.
Rhys Davids. P. T. S. London. 1925.
46. Philosophical Essays. S. N. Dasgupta. Calcutta. 1941.
47. Prologmena to a history of Buddhist Philosophy.
B. M. Barua. Calcutta. 1918.
48. Role of individual in History.
G. Plekhnov. Moscow, 1946.
49. Rashtrakuts and their times. A. S. Altekar. Poona.
1934.
50. Sacred Books of the East Series Vol. 17.
51. Sacred Books of the East Series. Vol. 20.
52. Suzuki, London 1907. Sanskrit Buddhist Literature
of Nepal. R. L. Mitra. Calcutta 1882.
53. Sarva Darshan Sangraha. (Tr. Cowell & Gough)
London 1914.
54. Shakti and Shakta. J. Woodroffe, Calcutta 1918.
55. Sakti or Divine power. S. K. Das Calcutta 1934.
56. Shakti Vishishtad-waita or Philosophy of Vi
Shaivism. Kashinath Shastri, Mysore 1938.
57. Schools and Sects in Jain Literature.
A. Sen. Vishwabharti 1931.
58. Social Organization in N. E. India during times
of Budha. A. Ficke. Calcutta. 1920.
59. Studies in Indian History. Dr. S. N. Sen. Calcutta.
1930.
60. Systems of Budhistic thoughts. Yamakimi Sogen.
Calcutta. 1912.
61. Theory and practice of Tantras.
Guru Prasanna Bhattacharya. Calcutta (Dates not
given).

सहायक ग्रन्थ सूची

62. Tibetan Tit-bits. Calcutta. 1912.
63. On Ywanchang's travels in India.
T. Walters. London 1905.
64. Vaishnavism Shaivism and minor religious cults.
R. G. Bhandarkar Poona. 1925.
65. Yoga or Transformation. W. I. Flagg. London.
(Date not given).
66. Vedanta Sutras (S. B.E. 35 & 38).

JOURNALS, MEMOIRS, CATALOGUES ETC.

1. Archeological Survey report. Mayurbhanj.
2. Archeological Survey of India. Annual report
1904.
3. Bharat Kaumudi Pt. II. Allahabad, 1947.
4. Cultural heritage of India Vol II.
5. Descriptive catalogue of Sansk. Mss. in Govt. Collec-
tion A. S. B. H. P. Shastri.
6. Epigraphica Indica Vol. 5.
7. Epigraphica Indica Vol. 24.
8. Journal of the Dept. of letters of Calcutta. Vol. 1.
9. Journal of the Dept. of letters of Calcutta. Vol. 10.
10. Journal of the Dept. of letters of Calcutta. Vol. 30.
11. Journal of the Dept. of letters of Calcutta. Vol. 1924.
12. Journal of the Asiatic society of Bengal Pt. 11.
13. Journal of the Asiatic Society of Bengal 1930.
14. Journal of the Asiatic Society of Bengal (new
Series No. 17).
15. Journal of the Royal Asiatic Society 1911.
16. India to-day (Alld.) Vol. 1 no. 2.

17. Indian Historical Quarterly Vol. 6.
18. Indian Historical Quarterly Vol. 9, No. 1.
19. Indian Historical Quarterly Vol. 4 No. 2.
20. Indian Antiquary Vol. 4.
21. Ganganath Jha Research Inst. Journal 1944.
22. Modern Quarterly Vol. 1 No. 2.
23. Modern Quarterly Vol. 5, No. 3.
24. Modern Review 1930.
25. Memoirs—Archeological Survey of India No. 66.
26. Proceedings of Royal Asiatic Society of Bengal Vol. 18 1921.
27. Proceedings of Royal Asiatic Society of Bengal 1903.
28. Sino-Indian Studies. Vol. 1, Part 1.
29. Vishwabharati Quarterly Aug. Oct. 1945.
30. Journal of the Behar and Orissa research society Vol. 5, No. 2.
31. Journal of the Behar and Orissa Research Vol. 1 No. 1.
32. Journal of the Behar and Orissa Research Society 1928.
33. New Indian Antiquary Vol. 1 No. 1.

संस्कृत



१. अद्वय-वज्र-संग्रह, सं० म० हरप्रसाद शास्त्राय, बड़ौदा १९२७ ।
२. अभिसमयालंकारालोक, सं० दुर्गा, बड़ौदा १९३२ ।

सहायक ग्रन्थ सूची

३. अष्टहस्तिका प्रज्ञापारमिता सं० राजेन्द्र लाल मित्र, कलकत्ता १८८७ ।
४. अभिधर्म कोष, सं० राहुल सांकृत्यायन, बनारस सं० १९८८ ।
५. आनन्द-लहरी सं० आर्थर एवलन, मद्रास १९४८ ।
६. कुलार्णव, जीवानन्द, कलकत्ता १८९७ ।
७. कूर्मपूराण, सं० नीलमणि मुखोपाध्याय कलकत्ता १८९० ।
८. कौलावली निर्णय, सं० आर्थर एवलन, कलकत्ता सं० १९८५ ।
९. कौल ज्ञान निर्णय, सं० डा० प्रबोधचन्द्र बागची, कलकत्ता, सं० १९३४ ।
१०. गुह्य समाज तन्त्र, सं० हरप्रसाद शास्त्री, बड़ौदा १९३१ ।
११. गोरक्ष पद्धति, बम्बई सं० १९७४ ।
१२. गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, सं० गोपीनाथ कविराज, बनारस, १९२५ ।
१३. चाणक्य नीति दर्पण, भार्गव पुस्तकालय, काशी ।
१४. चित्त विशुद्धि प्रकरण, आर्यदेव सं० पी० वी० पटेल, विश्वभारती १९४९ ।
१५. चक्रसम्भार तन्त्र, काजी दावा सम्बुप (तान्त्रिक टेक्ट्स सीरीज) ।
१६. तत्व संग्रह, शान्तिरक्षित, सं० डा० विनयतोष भट्टाचार्य, बड़ौदा गायक-
वाङ्ग बड़ौदा सीरीज ।
१७. तैत्तिरीयोपनिषद्, गोरखपुर सं० १९९५ ।
१८. न्याय दर्शन, सं० गङ्गानाथ झा, बनारस (चौखम्भा सीरीज) ।
१९. नारद भक्ति सूत्र, गोरखपुर सं० २००१ ।
२०. नैरात्म्य परिपृच्छ, विश्वभारती १९३० ।
२१. पुरश्चर्यार्णव भाग १, २, ३, सं० महाराज प्रताप सिंह, बनारस १९०१ ।
२२. प्रज्ञापारमिता 'सूत्र', सं० खुन्नीलाल शास्त्री बरेली सं० १९६० ।
२३. प्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि, सं० डा० विनयतोष भट्टाचार्य, दू वज्रयान वर्क्स
में संकलित, बड़ौदा १९२६ ।
२४. बोधिचर्यावतार पञ्जिका, प्रज्ञाकरमतिः पूसि द्वारा सम्पादितः घेंट १९०२ ।
२५. मनुस्मृति, सं० तुलसीराम स्वामी, मेरठ सं० १९५६ ।
२६. महायानविंशक, सं० विधुशेखर भट्टाचार्य, विश्वभारती १९३१ ।
२७. महायान सूत्रालङ्कार, सं० सिल्वियाँ लेवी, पेरिस १९०७ ।
२८. महाभारत (अनुशासन पर्व) बम्बई १८७७ ।
२९. माध्यमिक वृत्ति, सं० पूसि तथा नैजियो, सेंट पीटर्सबर्ग (१९०३ से
१९१३ तक सात भागों में प्रकाशित) ।

३०. योग-रहस्य, नारायण स्वामी, देहली १९४५ ।
 ३१. लङ्कावतार सूत्र सं०, सिल्वियाँ लेयी पेरिस (तिथि अनुपलब्ध)
 ३२. वज्रच्छेदिक, सं० मैक्समूलर आक्सफर्ड १८८१ ।
 ३३. विष्णुपुराण संपादक—टी० आर० व्यामाचार्य-बंबई १९१५ ।
 ३४. विष्णुसहस्रनाम, गोरखपुर, सं० २००१ ।
 ३५. ब्रह्म-षट्-चक्र-निरूपण, कलकत्ता १९४१ ।
 ३६. सद्धर्म पुंडरीक-सूत्र, सं० कर्न तथा नैजियो, सेंट पीटर्सबर्ग १९०८ ।
 ३७. सिद्धांत संग्रह, सं० गोपीनाथ कविराज, बनारस १९२५ ।
 ३८. सुखावती व्यूह, सं० मैक्समूलर तथा नैजियो, आक्सफर्ड १८८३ ।
 ३९. स्वरमेल कलानिधि, रामात्य, सं० एम० एस० आर० अय्यर, अन्नमलय
 विश्वविद्यालय, १९३२ ।
 ४०. संगीत मकरन्द, नारद, सं० एम० आर० तैलङ्ग बड़ौदा १९२० ।
 ४१. सङ्गीत रत्नाकर, शांगदेव, सं० एम० आर० तैलङ्ग, पूना १९२८ ।
 ४२. साधनमाला (खंड १) सं० डा० विनयतोष भट्टाचार्य, बड़ौदा १९२५ ।
 ४३. साधनमाला (खंड २) सं० डा० विनयतोष भट्टाचार्य, बड़ौदा १९२८ ।
 ४४. सेकोद्देशटीका, नडपाद, सं० डा० मेरियो कारेली, बड़ौदा १९४१ ।
 ४५. शिक्षा समुच्चय, सं० सी० वैंडेल, सेंट पीटर्सबर्ग (१८९७-१९०२) ।
 ४६. श्रीमद्भगवद्गीता, गोरखपुर, सं० २००८ ।
 ४७. हठयोगप्रदीपिका, बम्बई सं० १९४९ ।
 ४८. हर्ष-चरित संपादक-डा० ए० आर० फ्यूहरर, बंबई १९०६ ।
 ४९. ज्ञानसिद्धि, इन्द्रभूति, सं० डा० विनयतोष भट्टाचार्य (वज्रयान वर्क्स में
 संकलित), बड़ौदा १९२९ ।

हिन्दी

तथा पाली और अपभ्रंश

१. अथर्ववेद का स्वाध्याय, श्रीपाद दामोदर सानवलेकर, सतारा १९२७ ।
 २. अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन, डा० कापलदेव द्विवेदी, इलाहाबाद
 १९५१ ।

सहायक ग्रन्थ सूची

३. अनुराग-सागर, युगलदास, बम्बई सं० १९८२ ।
४. उत्कल साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आर्त वल्लभ महन्ती, पटना १९५१ ।
५. उत्तर भारत की सन्त परम्परा, परशुराम चतुर्वेदी, इलाहाबाद सं० २००८ ।
६. कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बम्बई १९४२ ।
७. कबीर ग्रन्थावली, सं० श्यामसुन्दर दास, बनारस, २००८ ।
८. कबीर साहित्य का अध्ययन, पुरुषोत्तम एम० ए०, बनारस सं० २००८ ।
९. गोरखबानी, सं० डा० पीताम्बर दत्त बड़श्वाल, इलाहाबाद, सं० २००३ ।
१०. गुलाल साहब की बानी, इलाहाबाद १९१० ।
११. चौरासी सिद्ध कौन थे, परशुराम चतुर्वेदी : ओरियंटल कॉन्फ्रेंस लखनऊ, १९५१ में पठित निबन्ध की मुद्रित प्रति ।
१२. जायसी ग्रन्थावली, रामचन्द्र शुक्ल, बनारस सं० २००८ ।
१३. जायसी ग्रन्थावली, डा० माताप्रसाद गुप्त, इलाहाबाद १९५२ ।
१४. जातक, भाग १, २, भदन्त आनन्द कौसल्यायन, इलाहाबाद ।
१५. दरिया सागर इलाहाबाद १९१९ ।
१६. दरिया साहब के चुने हुए पद और साखी, इलाहाबाद १९१३ ।
१७. दयाबाई की बानी इलाहाबाद १९५१ ।
१८. दादू दयाल की बानी (१) इलाहाबाद ।
१९. दादू दयाल की बानी (२) इलाहाबाद १९४१ ।
२०. दीघ निकाय (दो खंड), पाली टेक्ट्स सोसायटी, लन्दन १८९० १९०३ ।
२१. दोहाकोष, (अंग्रेजी टीका सहित) डा० प्रबोधचन्द्र बागची, कलकत्ता १९३५ ।
२२. दोहाकोष, (संस्कृत छाया सहित) डा० प्रबोधचन्द्र बागची, कलकत्ता १९३८ ।
२३. नाथ सम्प्रदाय, हजारीप्रसाद द्विवेदी, इलाहाबाद १९५० ।
२४. पलटू साहिब की बानी (१) इलाहाबाद १९२३ ।
२५. पलटू साहिब की बानी (२) इलाहाबाद १९२५ ।
२६. पाहुड़ दोहा, रामसिंह (सं० हीरालाल जैन) करंजा (बरा) १९३३ ।
२७. पुरातत्व निबन्धावली, राहुल सांकृत्यायन, इलाहाबाद १९२७ ।
२८. प्रणामी साहित्य संग्रह, सं० अम्बरदत्त शास्त्री, कानपुर १९२९ ।
२९. प्राण संगली (२) नानक (१) इलाहाबाद १९१३ ।

३०. प्राकृत अपभ्रंश साहित्य और हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, डा० राम-सिंह तोमर (इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा पी० एच० डी० के लिए स्वीकृत अमुद्रित प्रबन्ध) ।
३१. बीजक, सं० विचारदास शास्त्री, इलाहाबाद १९२८ ।
३२. बोधसागर (७) युगल दास, बम्बई सं० १९८१ ।
३३. बोधसागर (८) युगल दास, बम्बई सं० १९८१ ।
३४. बोधसागर (९) युगल दास, बम्बई सं० १९८३ ।
३५. बोध सागर (१०) युगल दास, बम्बई सं० १९८३ ।
३६. भारतीय दर्शन बल्देव उपाध्याय ।
३७. भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास, डा० देवराज, इलाहाबाद १९५० ।
३८. हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, डा० वेनी प्रसाद, इलाहाबाद १९३१ ।
३९. भीखा साहब की बानी इलाहाबाद १९१९ ।
४०. भूषण ग्रन्थावली, विश्वनाथ मिश्र, बनारस, सम्बत १९९८ ।
४१. मञ्जिभूम निकाय (३ खंड) पाली टेक्ट्स सोसायटी, लन्दन १८८८ ।
४२. महाभारत, संचित । कल्याण प्रेस ।
४३. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, इलाहाबाद १९५१ ।
४४. मध्यकालीन धर्म साधना, हजारीप्रसाद द्विवेदी, इलाहाबाद १९५२ ।
४५. मल्लूकदास की बानी इलाहाबाद १९४६ ।
४६. मीरा वृहद् पद संग्रह, पद्मावती 'शबनम' बनारस, सं० २००८ ।
४७. योग-प्रवाह, डा० पीताम्बर दत्त बड़थवाल, बनारस ।
४८. योगिसम्प्रदायाविवृक्ति, योगी चन्द्रनाथ, अहमदाबाद १९२४ ।
४९. योग-रहस्य, नारायण स्वामी, देहली १९५५ ।
५०. रैदास जी की बानी, इलाहाबाद १९४८ ।
५१. सावयधम्मदोहा, देवसेन, सं० हीरालाल जैन, करंजा सं० १९८९ ।
५२. सुभाषित संग्रह, सं० सी० वैडेल, ब्रसेल्स १९०५ ।
५३. सुन्दर विलास, सुन्दर दास, इलाहाबाद १९१४ ।
५४. सूफी काव्य संग्रह, सं० परशुराम चतुर्वेदी, इलाहाबाद १९५२ ।
५५. संत कबीर, सं० डा० रामकुमार वर्मा, इलाहाबाद १९४७ ।
५६. संस्कृति संगम, क्षितिमोहन सेन, इलाहाबाद १९५१ ।

सहायक ग्रन्थ सूची

५७. संत-काव्य, परशुराम चतुर्वेदी इलाहाबाद, सं० २००८ ।
५८. सन्त बानी संग्रह (१) इलाहाबाद १९१५ ।
५९. सन्त बानी संग्रह (२) इलाहाबाद १९३८ ।
६०. सहजोबाई की बानी इलाहाबाद १९४६ ।
६१. संस्कृति साहित्य का इतिहास, कन्हैयालाल पोद्दार, बम्बई १९३८ ।
६२. शंकराचार्य, बल्देव उपाध्याय इलाहाबाद १९५१ ।
६३. हर्षवर्द्धन, गौरीशंकर चटर्जी इलाहाबाद १९५१ ।
६४. हिन्दी साहित्य की भूमिका, हजारीप्रसाद द्विवेदी, बम्बई १९४४ ।
६५. हिन्दी काव्यधारा, राहुल सांकृत्यायन, इलाहाबाद १९४५ ।
६६. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डा० रामकुमार वर्मा, इलाहाबाद ।
६७. हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास, डा० भागीरथ मिश्र, लखनऊ सं० २००५ ।
६८. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, डा० पी० बड़थवाल (परशुराम चतुर्वेदी द्वारा अनूदित) लखनऊ, सं० २००७ ।

बंगला



१. गोर्ख-विजय, सं० पंचानन मंडल, विश्वभारती बं० सं० १३५६ ।
२. चर्यापद सं० मणीन्द्रमोहन बसु, कलकत्ता ।
३. जातिभेद, क्षितिमोहन सेन, विश्वभारती बं० सं० १३५३ ।
४. भारतीय समाज पद्धति, डा० बी० एन० दत्त, कलकत्ता, बं० सं० १३५६ ।
५. शान्तिदेवेर बोधिचर्यावतार, विश्वभारती बं० सं० १३५४ ।
६. हाजार बछरेर पुरान बंगला भाषार बौद्ध गान औ दोहा, सं० हर प्रसाद शास्त्री, प्रथम संस्करण, कलकत्ता बं० सं० १३२३ ।
७. हाजार बछरेर पुरान बंगला भाषार बौद्ध गान औ दोहा, सं० हरप्रसाद शास्त्री, द्वितीय संस्करण बं० सं० १३५८ ।

हिन्दी पत्रिकाएँ

१. गंगा, पुरातत्वांक ।
२. जनवाणी, (काशी) अगस्त १९५०
३. नागरी प्रचारिणी पत्रिका (काशी) वर्ष ५० अंक १ ।
४. नागरी प्रचारिणी पत्रिका (काशी) वर्ष ५० अंक २ ।
५. राष्ट्रभारती (वार्धा) मई १९५२
६. विश्वभारती (शान्तिनिकेतन) मार्च १९४५ ।
७. विश्वभारती (शान्तिनिकेतन) जुलाई १९४२ ।
८. वीणा (इन्दौर) सितम्बर १९४० ।
९. शक्ति अंक (कल्याण, गोरखपुर) १९३४ ।
१०. शनिवाररे चीठी (बंगला कलकत्ता) वर्ष १६, संख्या १२ ।
११. शिक्षा (इलाहाबाद) जनवरी १९५० ।
१२. हिन्दुस्तानी (इलाहाबाद) जनवरी १९३६ ।
१३. हिन्दुस्तानी (इलाहाबाद) जुलाई १९४० ।
१४. हिन्दुस्तानी (इलाहाबाद) अक्टूबर १९४० ।
१५. हिन्दी अनुशीलन (इलाहाबाद) वर्ष २, अंक ४ ।

नामानुक्रमणिका

प्रंगुलिमाल १३६
 ग्रन्थुतानंददास ३२६
 अजातशत्रु १०२
 अजितकेशकंबली १३६
 अनंतदास ३२६
 अबुलफ़ज़ल ६६
 अभयंकर ७२
 अभिनव गुप्त १२३, २३८
 अलवरुनी ४२
 अवंतिवर्मन ८७
 अशोक १०३, १०४
 अश्वघोष १०६, १६१
 असंग १०६, १३७
 अहमद ३६६
 आर्यदेव १०७, १३४
 इंद्रभूति ६५
 इत्सिंग १५३
 इर्विन, जान ८५, ८६
 ईलियट, सर चार्ल्स १३६
 उई, प्रो० १३०
 उत्तल १२३
 उदयभद्र २१
 ५३३

एंजिल्स ७६, ७७
 ककाती, वाणीकांत २८६, २६०
 कनिष्क १०५
 कबीर ३७, २०२, ३२६—८, ३३१—
 ३, ३३५, ३३८, ३४१, ३४३,
 ३४६—७, ३५५, ३५८, ३६०,
 ३६२—७, ३७२, ३७४—५,
 ३७६—८२, ३८४—८, ३६३—
 ४, ३६८, ४०३, ४०५—८,
 ४१२—३, ४१५, ४१६—६०,
 ४२४—५, ४३१, ४३३, ४३५—
 ६, ४३८—४०, ४४२, ४४७—
 ८, ४५६—६, ४६१—३, ४६५—
 ८, ४७२—३

कर्ण ७२
 कर्न १३७
 कल्लट १२३
 कल्हण ८०
 कल्लिनाथ २६८
 काज़ी दावासमट्टप १४७
 कारेली, डॉ मेरियो २३
 कार्दियर ४८, ४६

कालिदास २२२, २६३	चक्रायुध ७०
कावागुची, एकह २०	चटर्जी, डॉ० सुनीति कुमार ४१:
काश्यप, महास्थविर १०२	२३७, २८६—६, २६१—२,
कित्संग १३०	२६७
कीथ ६६	चतुर्वेदी, परशुराम ४८, ५६, ६४
कुमारगुप्त ६६	चोल, राजेंद्र ७१-२
कुमारजीव १५२	चौधरी, डॉ० नगेंद्र नारायण २८७
केशवदास ३७२, ३७५, ३६४	च्वांगत्से १५१
क्रमदीश्वर २८६	छत्रसाल ४१२
खिलजी, बख्तियार ६५, ७३, ७४	जगन्नाथदास ३२६
गंगो ३०७, ३०८	जयदेव २६७, ३३१, ४७३
गुप्त, डॉ० शशिमूषणदास १५५	जर्लेन्द्र ६५
गुलाल ३४३, ३४७, ३४६, ३५८,	जाटवर्भन ७२
४१२, ४३५, ४६०	जायसवाल, डॉ० काशी प्रसाद २८६
गरीबदास ३४८	जायसी ३३६, ३३८, ३४४, ३६०,
गोपाल ६८, ७१	३६४, ३६८, ४१६, ४२५, ४२७,
गोपीचंद ७१	४६१
गोविंदचंद्र ७१	जूल ब्लाज़ २६१
गोविंद (तृतीय) ७०	ज्योतिपीश्वर, कविशेखराचार्य ३०
ग्रहवर्भन ६७	डुची, प्रो० २३, ३६, ४०, ४२, ४४,
प्रियर्सन २६२	१३७,
ग्रुएनवालड ४८	तगारे डॉ० २६२, २६६
घंटाकर्ण १२४	ताजिक सुल्तान २२६
चंडीदास २६७	तिस्स भोग्गलि १०३
चंदनपाल ४६	तुगलक, फ़ीरोजशाह ३२५, ३२६

नामानुक्रमणिका

तुलसी साहब ३४३	३१८, ३२३, ३२४, ३२६, ३२८,
त्रैलोक्यचंद्र ७१	३३२-३५७, ३५९, ३६६, ४२१
दंडी २८८	धंग ७१
दत्त, बी० एन० ४८	धरनीदास ४६६
दयाबाई ४०६	धर्मकीर्ति १४३
दरिया ४३५, ४६०, ४६२-३, ४६५	धर्मदास ३६५, ४७२,
दादू ३२६, ३४३, ३४६, ३५३-४,	धर्मपाल ६५-६, ६८-७०, ७२, ८३
३५७, ३७४-५, ३७७-८०, ३८२,	धुक्कण १२४
३८७-८, ४००, ४०६, ४०७,	ध्रुव ७०
४१५, ४१७, ४२०, ४३३,	नयपाल ७२
४३५-६, ४३९-४०, ४६१, ४६४	नागभट्ट ७०
५, ४७१-४	नागभट्ट ७०
दासकाचार्य १२४	नागार्जुन ३०, ३१, ३३, ३७-९,
दासगुप्त, डॉ० २०, २६९, ३२९-	४२-३, ४७, ५०, १०६-९,
३०, ३३२-३	१३८, १६८, १७०, १८१, २२९
दिउली ९६	३०४, ३१०, ३२२, ३३७
दिवाकरचंद्र २२	३६९
दीपशंकर, श्रीज्ञान २२, ६६, ७२,	नानक ३७, ३३४, ३४७, ३५०,
दे, एस० के० २२, ४८, ५९	३६०, ३७८, ३९०, ४००, ४१४,
देवगुप्त ६७	४१९, ४३८, ४४१-२, ४४८,
देवदत्त १३७	
देवपाल ६५, ७०	नातपुस्त, निगंथ १३६
देव हरिसिंह ३०	पथमगुप्त २१
द्विवेदी, डॉ० हजारी प्रसाद ३२-३,	पद्मकारपो १५५
४८, ५५, ७७-८, २६२, ३१३,	पद्मसंभव ३०८

पलट्टदास ३२८, ३४७, ३५८,	बुद्ध ३६५, ४०६
३८१, ३९३, ४१२, ४१४, ४१४,	बुद्धगुप्त ६६
४२६-७, ४३०, ४६२	बुद्धघोष १०३-४
पांडुक काञ्चायन १३६	बैटेल २२, ५९,
पिंडोल भारद्वाज १३६	व्यूनाँफ २७०
पि तो १५५	ब्रह्मपाल ६३
पुष्परथ १०४	भंडारकर, डॉ० रामगोपाल १२२,
पुण्यमित्र १०४	१२४
पूणा कास्सप १३६	भगदत्त ६३
पूणाचंद्र ७१	भट्टाचार्य, डॉ० विनयतोष २३-४,
प्रभाकरवर्द्धन ६७	३७-४१, ४८, ५१, ६४, ११६,
प्लेखनाव ८३	१३६१३६, २६८, २८६
फकुहर १५३	भर्तृहरि ७१, २३८
बड्थवाल ३२३, ३२७, ३३४, ३०९,	भामह २८८
बनर्जी, राखालदास २४, ४१	भास्करवर्मन ६७-८, १५२
बरुआ, डॉ० ३२५	भीखा ३६०, ३८०, ३९८, ४६४
बलराम दास ३२६	भोज ७०
बागची, डॉ० प्रबोधचंद्र २०-५,	मक्खलि गोसाल १३६
४२, ४८, ५४-६, ६१, ६४, ६२,	मल्लूकदास ३४७, ३६६
१३८, १५०, १५२, १६७,	मस्व ५७
२४२, २६६, २७१, ३०८, ३२४,	महंती, राय बहादुर आर्तवल्लभ २८६,
४२५ ।	महादेव २६१ १०४
बालानाथ ३६२	महीपाल ६६, ७१
बिंबसार १०२	महेंद्रपाल ७०
बिजुल १२४, ६६-१०२, १३५-७, २२०,	मान्य देवी ७०

नामानुक्रमणिका

मिलिंद १०४	लक्ष्मणसेन ७३
मीरा ३४७, ४२८, ४३०	लक्ष्मोकरा ६५
मुनिदत्त २३, ३६४, ४२१	ललित चंद्र ६८, ७१
मैत्रेय १०६, १०६	लाश्रोत्से १५०, १५२
मोग्गलायन १३५-६	लालितादित्य ६८
यश, स्थविर १०२	लेवी, सिलवाँ २०, ६४, १३८
यशोवंतदास ३२६	वज्रवर्मन ७२
यशोवर्मेन ६८, ७०-१, ७४	वज्राचार्य २८
युवान च्वांग ६२	वप्पट, गोपाल ६६
रमार्ई पंडित ३३०	वर्मा, डॉ० रामकुमार ३३४, ४६७-८,
राघवानं ३२७	४७०
राजशेखर २८८	वल्लभदेव १५४
राज्यवर्द्धन ६७	वसु, डॉ० २४२, ३२६, ३३०
राज्यश्री ६७	वसुगुप्त १२३
रामपाल ७१-३, ३११	वसुबंध १०६, १६२
रामवर्मा २१	वसु, मणीन्द्र मोहन २५
रामानंद ३२७, ४४६	वाण ६०
रामानुज १२०, १२४	विंटरनीत्स १७३, १३८
राय, नीहाररंजन ६३	विजयसेन ७३
राय, शरच्चंद्र ३३२	विद्यापति ६७
राहुल सांकृत्यायन ३०, ४०-१, ४८,	विमलचंद्र ७१
५१, ५३-६, ६४, ७८-८५, १३६,	विरजानंद ७४
२८६, २८६, २६२-३	विश्वकर्म १२४
रेणुकाचार्य १२४	बृहद्रथ १०४
रैदास ३४३, ३५५, ३६२, ३६८, ४१४	वेलंकर, डॉ २६७-८
२४३	

वैडेल ६४, ६६, १३७, १५४	सरकार, डॉ ३१०
शंकराचार्य ३३६	सारिपुत्त १३५
शक्रादित्य ६६	सालिगराम ३५३
शर्मा, हेमचंद्र २१	सिंह, डॉ० मोहन ३२७
शर्मा, हेमराज २०, १२६	सिंह, राजा दलजीत ३२७
शशांक ६६-८	सुन्दरदास ३४३-४, ४६६-७
शांतिगुप्त ७३	सुचंद्र १५५
शाङ्गदेव ४७४	सुभद्र १०२
शास्त्री महामहोपाध्याय डॉ० हर प्रसाद	सुलेकिन, डी० ए० ८५
१६, २१, २३-६, ३३, ४७-६,	सुवर्ण चंद्र ७१
५१, ५५-६, ६४, ११६, १५४,	सेन, क्षिति मोहन ६१, ४७१
२८६, ३२२, ३३०,	सेन, डॉ० सुकुमार २३-५, ५६, २
शास्त्री, विधुशेखर २५, २६८	२८७, २६४, २६७, ४७२
शाहिदुल्ला, डॉ २०, २१, ३७, ४३,	सोमानंद १२३
२६१, २६३, २६५-६, ३६५	स्थिरमति २१
शिवदयाल ३५३ ४५६-६०	हंसवेग ६८
शिवनारायण ४६६	हरिदास ३४८
शुक्ल, पं० रामचन्द्र ७५	हर्ष ६६-८, ११०
श्रीचंद्र ७१	हुविष्क १२२
श्रीगुप्त १५३	हेमचंद्र २६३, २६६
श्रेडर, डॉ० १२०	होनेसांग ६४, ६७, ६०, १
संजय वेलाडि पुत्त १३६	११०, १५२
सक्सेना, डॉ० बाबूराम २६२	

